



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29—अक्तूबर 5, 2007 (आश्विन 7, 1929)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29—OCTOBER 5, 2007 (ASVINA 7, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 02/2008-सी.डी.एस.-I

(आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 29.10.2007)

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I) 2008

एस.एस.सी. (महिला गैर-तकनीकी) कोर्स सहित

(आयोग की वेबसाइट-<http://www.upsc.gov.in>)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2007

सं. 8/3/2007-प I (ख)--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित
कोर्सों में प्रवेश हेतु 17 फरवरी, 2008 को एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा
आयोजित की जाएगी :

कोर्स का नाम तथा रिक्तियों की संभावित संख्या

(1) भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून, जनवरी, 2009 में प्रारंभ होने
वाला 126वां कोर्स [एनसीसी 'सी' (सेना स्कंध) प्रमाणपत्र प्राप्त उम्मीदवारों
के लिए आरक्षित 32 रिक्तियां सम्मिलित हैं] 250

(2) नौ सेना अकादमी, गोवा जनवरी, 2009 में प्रारंभ होने वाला
कोर्स कार्यपालक (सामान्य सेवा) [एनसीसी 'सी' प्रमाण-
पत्र धारकों (नौ सेना स्कंध) के लिए 10 आरक्षित रिक्तियां
शामिल हैं] 40

(3) वायु सेना अकादमी हैदराबाद जनवरी, 2009 में प्रारंभ होने वाले
उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स अर्थात् नं. 185वां एफ (पी) कोर्स 32

(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई, 89वां एस.एस.सी. कोर्स
(पुरुषों के लिए) अप्रैल, 2009 में आरम्भ 175

(5) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई, तीसरा एस.एस.सी.
(महिला, गैर-तकनीकी) कोर्स अप्रैल, 2009 में आरम्भ 15

टिप्पणी : उपरोक्त रिक्तियां अनुमानित हैं तथा सेना मुख्यालय द्वारा किसी
भी समय बदली जा सकती हैं।

ध्यान दें : (I) (क) उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह
आवेदन प्रपत्र के कालम 22 में यह स्पष्ट उल्लेख करे कि वह सेवाओं
के अपने वरीयता क्रम में किस-किस पर विचार किये जाने का इच्छुक

है। उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि वह नीचे पैरा (ख) एवं (ग) में बताई गई शर्तों के अनुसार जितनी वरीयताओं के इच्छुक हों उन सभी का उल्लेख करें, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।

चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल ओ.टी.ए. के लिए पात्र हैं, उन्हें केवल ओ.टी.ए. को ही अपनी प्रथम वरीयता देनी चाहिए।

(ख) (i) यदि कोई पुरुष उम्मीदवार केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना) के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को ही अपने विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए। तथापि, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम के साथ-साथ भारतीय सैनिक अकादमी, नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी के लिए स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम के प्रतियोगी पुरुष उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपने अंतिम विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार द्वारा उच्च वरीयता दिए जाने पर भी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अंतिम विकल्प माना जाएगा।

(ख) (ii) चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल ओ.टी.ए. में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) के लिये ही पात्र हैं, उन्हें ओ.टी.ए. के लिए ही अपनी वरीयता देना चाहिए।

(ग) वे उम्मीदवार जो भारतीय वायु सेना अकादमी में प्रवेश चाहते हैं वायु सेना अकादमी (ए.एफ.ए.) को अपनी प्रथम प्राथमिकता के रूप में जरूर निर्दिष्ट करें क्योंकि उनका सैन्यल मैडिकल एस्टैबलिशमेंट/इंस्टीट्यूट ऑफ एडिशनल मैडिसिन्स पर किसी एक ए.एफ.एस.बी. तथा ए.एफ. चिकित्सा में पायलट (विद्यमान चालक) एण्टीट्यूट बैटरी टेस्ट किया जाना है। ए.एफ.ए. के विकल्प को द्वितीय या तृतीय प्राथमिकता के रूप में निर्दिष्ट करने को अमान्य माना जाएगा।

(घ) उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ध्यान दें : (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त उन्हें केवल उन कोर्सों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्होंने अपनी वरीयता लिखी होगी और अन्य किसी कोर्स (कोर्सों) के लिए नहीं।

(ङ) किसी भी उम्मीदवार का अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं को बढ़ाने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार दी गई वरीयता में परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार किया जाएगा जब सेना मुख्यालय द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गई हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गई हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया हो तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें : (II) भारतीय सैनिक अकादमी/नौ सेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्सों के बचे हुए उम्मीदवार अर्थात् इस परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर स्थाई कमीशन प्रदान करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिनकी सिफारिश की गई है लेकिन जिन्हें किन्हीं कारणों से इन कोर्सों में शामिल नहीं किया जा सका है यदि वे

बाद में अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने के लिए विचार योग्य हो सकते हैं चाहे उन्होंने अपने आवेदन प्रपत्रों में इस कोर्स के लिए अपनी वरीयता नहीं बताई है:

(i) यदि अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए प्रतियोगी सभी उम्मीदवारों को लेने के बाद भी कमी है, और

(ii) जो उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन हेतु वरीयता व्यक्त न करने पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं उन्हें वरीयता सूची के क्रम में उस अंतिम उम्मीदवार के बाद रखा जाएगा जिसने इस कोर्स के लिए अपना विकल्प दिया हुआ था क्योंकि ये उम्मीदवार उस कोर्स में प्रवेश पा जाएंगे जिसके लिए वे व्यक्त वरीयता के अनुसार हकदार नहीं हैं।

(iii) जिन उम्मीदवारों ने वायु सेना को प्रथम तथा एकमात्र विकल्प के रूप में चुना है। यदि वे पायलट एण्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में असफल हो जाते हैं तो उन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी) प्रदान करने के लिए बचे हुए उम्मीदवारों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। यदि ये उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी) के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो ऐसे उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए भी अपना विकल्प देना चाहिए।

टिप्पणी-I : एन.सी.सी. [सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध (वरिष्ठ प्रभाग)/नौ सेना स्कंध] के 'सी' प्रमाणपत्र प्राप्त उम्मीदवार अल्पकालिक सेवा कमीशन कोर्सों की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। चूंकि उनके लिए इस कोर्स में कोई आरक्षण नहीं है अतः इस कोर्स में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाणपत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/नौ सेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किन्तु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें एन.सी.सी. 'सी' प्रमाणपत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/नौ सेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय भर्ती, सीडीएसई एण्ट्री, एस.एस.सी. पुरुष उम्मीदवार और एस.एस.सी. महिला एण्ट्री, महिला उम्मीदवारों के लिए वेस्ट ब्लाक-III, आर. के. पुरम नई दिल्ली-110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में नौसेना मुख्यालय, आर एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3 (ए)/वायु सेना मुख्यालय, 'जे' ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 को 15 नवम्बर, 2008 तक पहुंच जाएं।

आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में जो सेवा की हो वह सीनियर डिवीजन सेना स्कंध

में 2 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और सीनियर डिवीजन वायु सेना/नौ सेना स्कंध में 3 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और आयोग के कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को उसे राष्ट्रीय कैंडेट कोर से मुक्त हुए भारतीय सैनिक अकादमी/नौ सेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्स के लिए 24 मास से अधिक न हुए हों।

टिप्पणी-II : भारतीय सैनिक अकादमी कोर्स/वायु सेना अकादमी कोर्स/नौ सेना अकादमी कोर्स में एनसीसी (सेना स्कंध/सीनियर डिवीजन वायु सेना स्कंध/नौ सेना स्कंध) के 'सी' प्रमाणपत्र धारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त इन उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यताप्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्सों में प्रवेश दिया जाएगा।

(क) परीक्षा की योजना स्तर और पाठ्यविवरण, (ख) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा निर्देश तथा (ग) भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमशः परिशिष्ट-I, II और III में विस्तार से समझाये गये हैं।

2. परीक्षा केन्द्र : परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी:--

अगरतला, अहमदाबाद, ऐजल, इलाहाबाद, बंगलौर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, इटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, सम्बलपुर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीख में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपने विवेक से अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा, किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा। किन्तु 28 नवम्बर, 2007 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट : उम्मीदवार को अपने आवेदन-प्रपत्र में परीक्षा के लिए पसंद के केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। एक ही उम्मीदवार

द्वारा अलग-अलग, केन्द्र देते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पूरे भरे हुए आवेदन प्रपत्र भेजे तो भी आयोग अपने विवेक से केवल एक ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रवेश-प्रमाण पत्र में आयोग द्वारा दर्शाए गये केन्द्र/प्रश्न पत्र के अलावा किसी अन्य केन्द्र/प्रश्न पत्र में परीक्षा में बैठता है, तो ऐसे उम्मीदवार की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता

उम्मीदवार या तो :--

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा, या
3. भूटान की प्रजा, या
4. तिब्बती शरणार्थी, जो स्थायी रूप से भारत में रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले आ गया हो, या
5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, जैरे, इथोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो। लेकिन नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्त पर अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले दे दिया जाए।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग तथा वैवाहिक स्थिति :

(1) भारतीय सैनिक अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 02 जनवरी, 1985 से पहले तथा पहली जनवरी, 1990 के बाद का न हो।

(2) नौ सेना अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी, 1987 [एनसीसी 'सी' (नौ सेना स्कंध) प्रमाण पत्र धारियों के लिए 2 जनवरी, 1985] से पहले का तथा पहली जनवरी, 1990 के बाद का न हो।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी, 1986 से पहले का तथा पहली जनवरी, 1990 के बाद का न हो।

(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (पुरुषों के लिए एस.एस. सी. कोर्स) : केवल ऐसे पुरुष उम्मीदवार (विवाहित या अविवाहित) ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी, 1984 से पहले का तथा पहली जनवरी, 1990 के बाद का न हुआ हो।

(5) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (महिलाओं के लिए एस.एस.सी. गैर-तकनीकी कोर्स) :

अविवाहित महिलायें, संतान विहीन विधवाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, तथा संतान विहीन तलाकशुदा महिलायें जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो (तलाक के कागजात होने पर), पात्र हैं। इनका जन्म 2 जनवरी, 1984 से पहले का तथा पहली जनवरी, 1990 के बाद का न हो।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या हायर सैकेंडरी या समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो। ये प्रमाणपत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं। कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिये होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाणपत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन या बाद की किसी अन्य परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के कॉलम 8 में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि उनके मैट्रिक तथा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से

कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(1) भारतीय सैनिक अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

(2) नौसेना अकादमी के लिए : बीएससी डिग्री (भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी के स्नातक।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी के स्नातक।

थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयता वाले स्नातकों को ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अंतिम प्रमाण पत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे।

जो उम्मीदवार डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं तथा अभी अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उनको डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय/भर्ती। सीडीएसई ऐन्ट्री, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवार के मामले में नौसेना मुख्यालय, 'डीएमपीआर' आर एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3 (ए) वायु सेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाएं। जिसके न पहुंचने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(1) भा. से. अकादमी, नौ सेना तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए 15 नवम्बर, 2008 तक या उससे पहले।

(2) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में प्रवेश के लिए 01 फरवरी, 2009 तक या उससे पहले।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यताप्राप्त हो वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं में से किसी से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर आयोग के विचार में, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार जिन्होंने डिग्री परीक्षा अभी उत्तीर्ण करनी है तभी पात्र हो सकते हैं जब वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हों। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें डिग्री उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है और बुनियादी अर्हक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम की घोषणा में विलम्ब या अन्य किसी कारण से इस

तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-2 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमिशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

टिप्पणी-3 : उड़ान सीखने में असफलता के कारण वायु सेना के जिन उम्मीदवारों को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किया जा रहा हो उन्हें भारतीय वायु सेना की नौ परिवहन/प्रशासन/सैन्य तंत्र शाखा में शामिल किया जाएगा। लेकिन यह रिक्तियों की उपलब्धता तथा उल्लिखित गुणात्मक जरूरतों के अधीन होगा (स्नातक 60% अंकों सहित)।

(घ) शारीरिक मानक

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2008 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को परिशिष्ट-V में दिए गए शारीरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. शुल्क:

परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को आयोग को 100/- रु. (केवल एक सौ रुपये) के शुल्क का भुगतान केवल एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट से करना होगा। केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (डाक टिकट नहीं) डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें। जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर किंतु दिए गए स्थान के अंदर, अपने आप आ जाए। रद्द करने वाली मोहर की छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि तारीख तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश में स्थित प्रतिनिधि के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो इस अनुरोध के साथ जमा करना होगा ताकि वह "051-लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और आवेदन प्रपत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिए।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्व शुल्क का भुगतान करना होगा।

"केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट" के स्थान पर किसी भी हालत में डाक टिकट स्वीकार नहीं की जाएगी।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि बैंक ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर, मनीआर्डर, रेखांकित चेक, चलमुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-2 : जिन आवेदन-पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-3 : किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

5. आवेदन कैसे करें:

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए सामान्यतः एक आवेदन प्रपत्र तैयार किया है जिसे कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा जांचा जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन प्रपत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल है, नोटिस के परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध देश भर के निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से 20 रु. (केवल बीस रुपये) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से ही खरीदने चाहिए, किसी अन्य एजेंसी से नहीं। यह प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उम्मीदवार केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अप्राधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र को भरते समय, कृपया नोटिस के परिशिष्ट-II में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें। उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय) और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए। आवेदक को आवेदन-प्रपत्र के साथ पावती कार्ड पर रु. 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। विधिवत् भरा हुआ आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड तथा एस.एस.बी. साक्षात्कार पत्र प्राप्त करने के लिए एक बिना टिकट लगे एवं अपना पता लिखे हुए लिफाफे को तब सूचना विवरणिका के साथ दिए विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए। लिफाफा 'सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110 069' को भेजने से पहले आपको उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात् 'सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I) 2008' भी लिखना चाहिए।

(ख) सभी उम्मीदवारों को (सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत उम्मीदवारों के अलावा) अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो। जो व्यक्ति लोक उद्यमों में सेवारत हैं, उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवारत हैं उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र अपने कमांडिंग अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वे अप्रेज

पत्र के साथ आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख करते हुए, आयोग को अग्रेषित करेंगे। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है/उनका आवेदन प्रपत्र रद्द किया जा सकता है।

टिप्पणी : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे या गलत भरे हुए हों, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणी और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग ने जिस परीक्षा में उन्हें प्रवेश दिया है उसके प्रत्येक स्तर, अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पूर्व या बाद में किसी समय सत्यापन करने पर सह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के शीघ्र बाद जिसकी मई, 2008 माह में घोषित किए जाने की संभावना है, सेना मुख्यालय/नौ सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो, को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को उनकी सत्यापित प्रतियों सहित तैयार रखें:

(1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष।

(2) डिग्री/अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के पात्र हैं।

प्रथमतः सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सेवा चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ मैट्रिक/हायर सेकेन्ड्री स्कूल प्रमाण पत्र सहित डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है उन्हें कालेज/संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना चाहिए कि उम्मीदवार डिग्री को अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुका/रहा है। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट नहीं दी जाती है तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाण पत्रों में से कोई मूल प्रमाण पत्र साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें उनके खर्च पर उनके घर वापिस भेज दिया जाएगा।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्मांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है:

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या
- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- (xi) परीक्षा के दौरान कोई मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
- (xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :

- (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा
- (ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये :
 - (1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,
 - (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और
 - (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

- (1) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और
- (2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वे आवेदन प्रपत्र, नियमावली, पाठ्यक्रम आदि के लिए संघ लोक सेवा आयोग को न लिखें।

परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध प्रधान डाकघरों/डाकघरों से खरीदे गये आवेदन प्रपत्र का ऊपर समझाए तरीके के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि :

- (i) पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110069 को 29 अक्टूबर, 2007 तक अथवा इससे पहले पहुंच जाना चाहिए।
- (ii) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों से केवल डाक द्वारा (डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा) प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्रों के मामलों में अंतिम तारीख 5 नवम्बर, 2007 है। उपर्युक्त क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय-सीमा का लाभ केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामले में ही दिया जाएगा। वैयक्तिक रूप से अथवा कूरियर सेवा से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामलों में आवेदकों के निवास स्थान पर ध्यान दिए बिना, अतिरिक्त समय सीमा का लाभ नहीं मिलेगा।

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कालम 13(II) में अपने आवासीय पते में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां वे रह रहे हैं, के क्षेत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-I : उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से यह नोट कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन प्रपत्र के प्राप्त न होने अथवा प्राप्ति में किसी भी कारण से देर होने के लिए आयोग किसी भी हालत में उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अंतिम समय के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र को आयोग किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा तथा देरी से प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तारीख को या उससे पहले आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं।

टिप्पणी-II : उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से भी जमा कर सकते हैं। आयोग के कार्यालय में कार्यरत किसी पदाधिकारी को दिए गए आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी-III : कूरियर सेवा अथवा कूरियर जैसी अन्य सेवा के माध्यम से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों को आयोग के काउन्टर पर "दस्ती रूप से" जमा किए गए आवेदन पत्रों के रूप में माना जाएगा।

7. आवेदन प्रपत्रों की पावती :

उम्मीदवार से आवेदन प्रपत्र प्राप्त होते ही उसके द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ जमा कराए गए पावती कार्ड पर उसका आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के प्रमाण के तौर पर मुहर लगाकर आयोग के कार्यालय द्वारा उसे भेज दिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को 30 दिन के भीतर पावती कार्ड नहीं प्राप्त होता है तो उसे आवेदन प्रपत्र सं. (8 अंकों में), परीक्षा का नाम तथा वर्ष दर्शाते हुए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए। आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रपत्र जमा कराने वाले उम्मीदवारों को काउन्टर पर ही पावती कार्ड दे दिया जाएगा। केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन प्रपत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अन्यथा उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किए जाने के बारे में शीघ्रतः सूचित कर दिया जाएगा।

8. आयोग/सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

- (i) इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन प्रपत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को अनुक्रमांक केन्द्र तथा प्रवेश दिए गए पाठ्यक्रमों को दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा। प्रवेश प्रमाण पत्र पर उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुलिपि भेज दी जायेगी। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी लेकर प्रेषित किये जायेंगे। अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण है।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाण पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरन्त इसकी जानकारी दें।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश, आवेदन प्रपत्र पर उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्णतः अन्तिम होगा। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

(ii) यदि उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं, तो वह परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उन प्रवेश प्रमाण पत्रों में से एक ही प्रवेश पत्र का उपयोग करेगा तथा अन्य प्रवेश पत्र को आयोग कार्यालय को लौटा देगा।

(iii) यदि कोई उम्मीदवार किसी अन्य दूसरे उम्मीदवार का प्रवेश प्रमाण पत्र गलत कार्यवाई के कारण पाता है, उस प्रवेश प्रमाण पत्र को तत्काल आयोग को अनुरोध के साथ सही प्रवेश प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु लौटाना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि अन्य दूसरे उम्मीदवार के संबंध में निर्गत किए गए प्रवेश प्रमाण पत्र पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

(iv) उम्मीदवार को आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(v) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vi) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उनके बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण : आयोग/सेना मुख्यालय से पत्र-व्यवहार करते समय निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए :—

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय)
3. अनुक्रमांक नम्बर (यदि प्राप्त हुआ हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पूरा पता, टेलीफोन नंबर सहित, यदि कोई हो, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

विशेष ध्यान दें : (1) जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्यवाई न हो।

(2) यदि किसी परीक्षा समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी।

(3) सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही तत्काल अपना नया पता, बिना टिकट लगे लिफाफे पर लिखकर, भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपनी पहली वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच रिक्रूटिंग सी. डी. एस. ई. एन्ट्री, सेक्शन पुरुष उम्मीदवारों के लिए और एस. एस.सी. महिला एन्ट्री सेक्शन, महिला उम्मीदवार के लिए, वेस्ट ब्लॉक 3, विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को और नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को नौ सेना मुख्यालय, आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को पी.ओ.-3(ए) वायु सेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 के पते पर सूचित कर देना चाहिए, जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए अनुशंसित हैं तथा जिनकी प्रथम वरीयता भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी है उनको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय, ए.जी.ब्रांच, रिक्रूटिंग (सी. डी. एस. ई. एन्ट्री) वेस्ट ब्लॉक 3, भूतल विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 और वायु सेना प्रथम वरीयता उम्मीदवारों के लिए पी. ओ. 3 (ए) वायु सेना मुख्यालय, "जे" ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 तथा नौ सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को नौ सेना मुख्यालय/आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर लिखने चाहिये।

उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करनी है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबंधित अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय/नौ सेना मुख्यालय होगा। ऐसे अनुरोध उस चयन केन्द्र/सेवा चयन बोर्ड, जहां से साक्षात्कार प्रस्ताव प्राप्त होता है, को भेजे जाने चाहिए।

विशेष ध्यान दें : यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय सैनिक अकादमी हेतु अगस्त, 2008 के चौथे हफ्ते तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु अक्टूबर, 2008 के चौथे हफ्ते तक सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे सेना मुख्यालय/भर्ती सी.डी.एस.ई. एन्ट्री, (एसएससी, महिला एन्ट्री, एसएससी गैर-तकनीकी) वेस्ट ब्लॉक 3, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को साक्षात्कार पत्र न मिलने के बारे में लिखना चाहिए अथवा दूरभाष सं. 26173215 पर एसएससी गैर-तकनीकी पुरुष के लिए और दूरभाष संख्या 26175473 पर महिला एन्ट्री के लिए संपर्क करना चाहिए। नौसेना/वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न के मामले में उन्हें नौ सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष

ध्यान-III में उल्लिखित है। (अगस्त, 2008 के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)।

(vii) मूल प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण : सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कारों में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के बाद शैक्षिक योग्यता के समर्थन में अपने मूल प्रमाण पत्र (प्रत्येक की दो सत्यापित प्रतियाँ सहित) सेवा चयन बोर्ड/केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे। उन उम्मीदवारों को जो डिग्री परीक्षा में बैठ रहे हैं, अपने प्रमाण पत्र 15 नवम्बर, 2008 (केवल एस.एस.सी. के मामले में 1 फरवरी, 2009) तक प्रस्तुत करने होंगे। तत्संबंधी अनुदेश सेवा चयन बोर्ड/केन्द्र पर दिए जाएंगे। मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन के बाद लौटा दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ अथवा फोटो प्रतियाँ किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणाम की घोषणा और अन्तिम रूप से योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता के आधार पर सेवा चयन बोर्ड में बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाता है। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए उचित रूप से रहेंगे (अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी) [(डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून नौसेना अकादमी गोवा पाठ्यक्रम, वायु सेना अकादमी (उड़ान-पूर्व) पाठ्यक्रम हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, मद्रास पर एसएससी (एनटी) पाठ्यक्रम] जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो।

सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही पहले स्तर का परीक्षण दिया जायेगा। केवल वे उम्मीदवार जो पहले स्तर का परीक्षण पास कर लेते हैं, उन्हें द्वितीय स्तर/शेष परीक्षणों में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला स्तर पास करने में असफल रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को निम्नलिखित की एक-एक फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी :--

(I) जन्म तिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्ष।

(II) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षों/सैमिस्टों के अंक पत्रकों सहित बैचलर डिग्री/अनन्तिम डिग्री।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहाँ के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुँचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षति पूर्ति या सहायता पाने के वे हकदार नहीं होंगे, वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में

8-25642/07

अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा से.च. बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जायेगा। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में किस प्रकार सूचित किये जायें इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। परीक्षा में सफल होने मात्र से ही भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अन्तिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा।

टिप्पणी : वायु सेना/नौसेना विमानन के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट संबंधी अभिरुचि का परीक्षण केवल एक बार किया जाता है। अतः पहले परीक्षण में उसने जो ग्रेड प्राप्त किया है, उसकी वायु सेना चयन बोर्ड के लिए जाने वाले बाद के प्रत्येक साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। वे उम्मीदवार जो भारतीय नौ सेना चयन बोर्ड/पायलट एटीच्यूड बैट्री टेस्ट में पहले अनुत्तीर्ण रहे हैं तथा वे जो प्रायः चश्मा पहनते हैं वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं।

उन उम्मीदवारों का वायु सेना चयन बोर्डों में परीक्षण/साक्षात्कार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं : एफ (पी) कोर्स में प्रवेश के लिए तीन तरीके हैं अर्थात् सी.डी.एस.ई./एन.सी.सी./एयरमैन। वे उम्मीदवार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं, उनका वायु सेना चयन बोर्डों में वायु सेना के लिए केवल एक बार परीक्षण/साक्षात्कार होगा। कामन उम्मीदवार जो एनसीसी या एयरमैन के रूप में आईएनएस-बी/पीएबी परीक्षण में असफल हो जाते हैं और यदि यह पता चलता है कि उसने, सी.डी.एस. परीक्षा के माध्यम से आवेदन किया है तो उन्हें केवल थल सेना/नौ सेना/अधिकारी प्रशिक्षण सेवा के लिए ओ. एल.क्यू. परीक्षण के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार आई.एम. ए. (डी.ई.) कोर्स और/या नौ सेना (एसई) कोर्स और/या वायु सेना अकादमी कोर्स की लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे वे एसएससी कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं या नहीं उनको अगस्त से अक्टूबर, 2008 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और जो उम्मीदवार केवल एस. एस.सी. कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं उनको नवम्बर, 2008 से जनवरी, 2009 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा।

10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी, वायु सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी, गोवा और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई (मद्रास) में पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक आधार पर वहाँ से निकाल दिये गये हैं, उनको भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या थल सेना अकादमी से अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सैनिक अकादमी से वापस किया गया हो उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्ट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रतिष्ठानों से वापस किया हो वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एन.सी.सी. तथा स्नातक कोर्स से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण एन.सी.सी. तथा स्नातक कोर्स से पहले वापस किया गया हो उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. भारतीय सैनिक अकादमी या नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी और नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी के कोर्स के उम्मीदवारों को या महिला उम्मीदवारों को जो अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती होती है इस बात का परिवचन देना है कि जब तक उसका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेते हैं उनको प्रशिक्षण के लिये चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हों, जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में ही शादी कर लेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया वह सब उससे वसूल किया जायेगा। अल्पकालिक सेवा कमीशन के पाठ्यक्रम का कोई पुरुष उम्मीदवार :

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो या शादी के लिये अनुबंध कर लिया हो जिसकी पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है या थी।

(ख) जिसने पहले से जीवित पति/पत्नी होते हुए भी किसी व्यक्ति से शादी की हो या शादी के लिये अनुबंध कर लिया हो।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश/अल्पकालीन सेवा कमीशन की प्राप्ति का पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्तियों के लिए और शादी की दूसरी तरफ के व्यक्तियों के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार अनुमोदनीय है और ऐसा करने के अन्य ठोस कारण हैं तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन में छूट दे सकती है।

12. भारतीय सैनिक अकादमी या नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिये विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैनिक अकादमी या नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबंधित उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

रामेश्वर दयाल

उप सचिव

संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा,

(ख) उन उम्मीदवारों का बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिये दिया जाने वाला समय और प्रत्येक विषय के लिए नियत अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे।

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिये :

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए :

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किये गये हैं, वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए नियत अधिकतम अंक क्रमशः 300, 300, 300 और 200 होंगे।

3. सभी विषयों के प्रश्न-पत्र केवल वस्तुपरक प्रकार के होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में, द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे।

4. प्रश्न-पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर है।

7. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण-पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिये कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न-पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, अन्य विषयों में प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी (कोड सं. 01)

प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 02)

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन-प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामले के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी, जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं. 03)

अंकगणित

संख्या पद्धतियां : घनपूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं—जोड़, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमलव भिन्न।

एकिक विधि : समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।

प्रारंभिक संख्या सिद्धांत : विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण अपवर्त्य और गुणन खंड/गुणन खंडन प्रमेय/महत्तम समापवर्तक तथा लघुतम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि।

आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गणकीय, सारणियों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं : साधारण गुणन खंड, शेष फल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम समापवर्तक और लघुतम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघ्न समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए)। दो अज्ञात राशियों में युगपद रेखिक समीकरण, विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रेखिक असिमिकाएं और उनके हल, प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रेखिक समीकरण या असिमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण

तथा उनके हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या x , कोटिज्या x , स्पर्श रेखा x जब $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ ज्या x , कोटिज्या x , स्पर्श रेखा x का मान जबकि $x=0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ और 90° सरल त्रिकोणमितीय तत्समक त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग, ऊंचाईयों और दूरियों के सरल कोण।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति : निम्नलिखित पर प्रमेय : (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुण धर्म, (2) समांतर रेखाएं, (3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज, (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर चतुर्भुजों, आयत और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुण धर्म, (8) वृत्त और उनके गुण धर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब भी शामिल हैं, (9) स्थानिल संयक।

विस्तार कलन

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल, उन आकृतियों के क्षेत्रफल जो इन आकृतियों में विभाजित की जा सकती हैं। (क्षेत्र वही) घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व-पृष्ठ तथा आयतन/गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बाराता, बहुभुज आयत, चित्र शलाका चार्ट, पाई चार्ट आदि केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप रेखाओं के बीच कोण।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जायेगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किये जायेंगे। जैसे ग्रुप परिचर्या, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जायेगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधा शक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर यह परीक्षण वास्तव में न केवल उनके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए हैं अपितु इससे उनकी सामाजिक विशेषताओं तथा समसामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट-II

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश :

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थता संबंधी मानक और तत्संबंधी दिशानिर्देश नीचे दिये गये हैं। बहुत से अर्हता प्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम अवस्था पर निराशा

से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

1. सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेना के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। महिला उम्मीदवारों का पुरुष/महिला चिकित्सकों/विशेषज्ञों/स्त्री रोग विशेषज्ञों से गठित एक चिकित्सक बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। एक महिला चिकित्सक बोर्ड की सदस्यता होगी। अकादमी या प्रशिक्षणालय में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं। तथापि, जो उम्मीदवार अनुपयुक्त/अयोग्य घोषित किए जाएंगे उन्हें मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा और अपील मेडिकल बोर्ड को अनुरोध किए जाने की प्रक्रिया भी उम्मीदवार को सूचित की जाएगी।

अनुपयुक्त/अयोग्य उम्मीदवार अपील मेडिकल बोर्ड (ए एम बी) को आवेदन कर सकते हैं जिसे सेवा मेडिकल बोर्ड (एस एम बी) के 42 दिनों के भीतर ही पूरा किया जाना है तथा वे अपील मेडिकल बोर्ड के एक दिन पूरा होने के भीतर ही रिब्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

ए. एम.बी. द्वारा अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को ए. एम. बी. की जांच परिणाम को चुनौती देने की प्रक्रिया के संबंध में ए. एम. बी. अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाएगा कि पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड (आर. एम. बी.) का आयोजन, मामले के गुणावगुण के आधार पर डी. जी. ए. एफ. एम. एस. के विवेक से स्वीकृत किया जाएगा तथा पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड का आयोजन अधिकार का विषय नहीं है। डाक प्राधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए उस अस्पताल में चिकित्सा दस्तावेज देने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस को चुने गए अस्पताल में स्वतः रिपोर्ट करेंगे। चुने गए अस्पताल द्वारा न तो उन्हें बुलाया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार स्वस्थ होना आवश्यक है।

(क) उम्मीदवार का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन, दैहिक दोष की स्थूलता नहीं होनी चाहिए।

(ग) पुरुषों के लिए कद कम से कम 157.5 सेंमी. (नौ सेना के लिए 157 सेंमी. तथा वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी.) का हो। महिलाओं के लिए कद कम से कम 152 सेंमी. हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमाऊं के व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है।

यह छूट नौ सेना और वायु सेना के मामले में लागू नहीं होगी। कद और वजन के मानक नीचे दिये जाते हैं :

कद और वजन के मानक (पुरुष)

सेंटीमीटर में कद (बिना जूता)	किलोग्राम में वजन		
	18 वर्ष	20 वर्ष	22 वर्ष
152	44*	46	47
155	46	48@	49
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	52
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	60	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	78

*नौसेना के लिए 45 @नौसेना के लिए 47

उपयुक्त सारणी में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौ सेना के लिए) वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे-चौड़े व्यक्तियों तथा पतले देहयष्टि पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

वायु सेना के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य वजन ऊपर दिए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत होगा।

कद और वजन के मानक (महिलाएं)

सेंटीमीटर में कद (बिना जूता)	किलोग्राम में वजन		
	20 वर्ष	25 वर्ष	30 वर्ष
1	2	3	4
148	39	41	43
150	40	42	43.5
153	42	43.5	45

1	2	3	4
155	43	44	46
158	45	46	48
160	46	47	49
163	47	49	51
165	49	51	53
168	50	52	54

(घ) आपके अपने हित में आपको यह सलाह दी जाती है कि सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने से पहले आप कान की मैल, आंखों के अपवर्तन दोष, त्वचा आदि के कवकी संक्रमण के लिए प्रारंभिक चिकित्सा जांच करवा लें।

(ङ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेमी. होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(च) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए।

(छ) उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत्त नहीं होना चाहिए।

(ज) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 से. मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके, कर्ण नासिका कंठ की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो।

(झ) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो और उम्मीदवार AIDS मुक्त हो।

(ञ) उदरपेशियां सुविकसित हों तथा जिगर या तिल्ली बढ़ी हुई न हो। उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ट) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अयोग्य होगा। यदि हर्निया की शल्य चिकित्सा हो गई हो तो वह वर्तमान परीक्षा से कम से कम एक वर्ष पहले हुई हो जिसका जखम पूरी तरह ठीक हो चुका हो।

(ठ) हाइड्रोसिल, बेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(ड) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असामान्यता मिलती है तो इससे उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(ढ) चर्म का ऐसा रोग जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना है तो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

4-256 GE/67

(ण) पुरुष उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से ऐनक सहित या ऐनक रहित (नौसेना तथा वायु सेना के लिए केवल ऐनक रहित) दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। मायोपिया 3.5 डी से अधिक नहीं होना चाहिए तथा हाइपरमेट्रोपिया एस्टिज्मेटिज्म सहित 3.5 डी. से अधिक नहीं होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम स्वीकृत दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता है : दूर दृष्टि (संशोधित) स्वस्थ आंख के लिए 6/6, खराब आंख के लिए 6/18, मायोपिया एस्टोप्टिज्मेशन सहित, -5.5 से अधिक नहीं हो। यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है, आंख की आंतरिक जांच दृष्टिपटलदर्शी (ओपथेलेटोमोस्कोप) से की जाएगी। उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी पी-III होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए।

(त) महिला उम्मीदवारों, संतानविहीन विधवाओं एवं तलाकशुदाओं सहित, के एस.एस.बी. में चयन के पश्चात् या प्रशिक्षण के दौरान, यदि किसी भी स्तर पर गर्भावस्था पाई जाती है, तो उन्हें कमीशन की मंजूरी से वर्जित कर दिया जाएगा तथा ओ.टी.ए. में सम्मिलित होने की तारीख से सेना अकादमी प्राधिकारियों द्वारा गर्भावस्था की पुष्टि होने पर वर्जन की तारीख तक किए गए खर्च की वसूली की जाएगी।

रेडियल केराटोमी तथा लेसर सर्जरी : जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केराटोमी करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा, उन्हें स्थाई तौर पर तीनों सेवाओं से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

पीआरके/लेसिक का पता लगाने के लिए सेवा मेडिकल बोर्ड में ए-स्कैन बायोमीटर द्वारा सभी उम्मीदवारों की अक्षीय लम्बाई मापी जाएगी।

जिन उम्मीदवारों ने अपवर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसर सर्जरी करवाई हुई है यदि वे निम्नलिखित मानदंड पूरे करते हैं तो ही सेना में कमीशन के लिए उन पर विचार किया जाएगा :

(i) यदि आयु 20 वर्ष से अधिक हो।

(ii) प्रक्रिया के पश्चात् छह महीने की अवधि के लिए स्थायी अपवर्तन सहित मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के लिए की गई सरल स्थिर लेसिक (एलएसआईके)/एक्सआईमर (पीआरके) लेसर प्रक्रिया।

(iii) एक स्वस्थ रेटिना

(iv) मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के लिए किसी भी मेरिडियन में ± 1.50 अधिकतम अवशेष अपवर्तन सहित अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की सही दृष्टि होनी चाहिए।

(v) अनुमत सीमा के अंदर अक्षीय लम्बाई।

टिप्पणी : उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के दौरान यह घोषणा करने को कहा जाएगा कि उसने उपर्युक्त लेसर प्रक्रिया करवाई है। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा उसके रेटिना/कोर्निया का संपूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा। यद्यपि, सेवा मेडिकल बोर्ड द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

तथापि जो उम्मीदवार उपरोक्तानुसार स्वीकृत सीमाओं में पाए जाते हैं, उन्हें अपील मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा जाएगा। अपील मेडिकल बोर्ड के समक्ष उसके कोर्निया तथा रेटिना का संपूर्ण मूल्यांकन तथा नेत्र विज्ञान में वरिष्ठ सलाहकार द्वारा रिकार्ड की जांच की जाएगी।

(थ) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाले उम्मीदवार स्वीकार्य हैं। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं। उम्मीदवार को तीव्र पायोरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(द) छाती का एक्स-रे परीक्षा में ग्रेव प्रशुका की उपस्थिति हेतु ग्रेव मेरुदण्ड के निचले भाग की परीक्षा भी शामिल होगी। सेना चिकित्सा बोर्ड द्वारा जरूरी समझने पर मेरुदण्ड के अन्य भागों की एक्स-रे परीक्षा की जाएगी।

2. केवल वायु सेना के उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त के साथ निम्नलिखित चिकित्सा मानक भी लागू होंगे :--

(क) वायु सेना के लिए स्वीकार्य मानव देह संबंधी माप निम्न प्रकार है :

कद	: 162.5 सेमी.
टांग की लंबाई	: कम से कम 99 सेमी. और अधिक से अधिक 120 सेमी.
अरु की लंबाई	: अधिक से अधिक 64 सेमी.
बैठ कर ऊंचाई	: कम से कम 81.5 सेमी. और अधिक से अधिक 96 सेमी.

(ख) लम्बोसेकरला मेरुदण्ड एवं ग्रेव का एक्स-रे किया जाएगा। एक्स-रे में प्रकट निम्नलिखित शर्तें अनहक होंगी:--

- (i) मेरुदण्ड का कणिकागुल्मीय रोग।
- (ii) आर्थराइटिस/स्पोण्डिलोसिस।
- (iii) मंद से अपेक्षाकृत अधिक कार्यफोसिस/लोडोसिस, क्लोलियोसिस कॉब-पद्धति 15" से अधिक अस्वीकृति का कारण बनेगा।
- (iv) स्पोण्डिलोसिथैसिस/स्पोण्डिलोसिस।
- (v) हर्निएटेड न्यूकलिय पलपोसिस।
- (vi) कशेरुका का संपीडन अस्थिभंग।
- (vii) श्वेयरमेन का रोग।
- (viii) प्रदर्शनीय तंत्रिकीय या परिसंचरणीय अभाव के साथ ग्रेव प्रशुका।
- (ix) एक से अधिक स्तर पर स्कलियोमोर्ल नोड की उपस्थिति।
- (x) शीर्ष घरानुकपाल (ऐटलांटो-आकसीपीटल) तथा ऐटलांटो अक्षीय असंगतियां।
- (xi) एस. वी. 1 तथा एल. वी. 5 से इतर स्पाईनाबाईफिड।
- (xii) एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय स्कारलाइजेशन।
- (xiii) विशेष द्वारा मानी गई कोई अन्य असामान्यता।

नोट : जिस उम्मीदवार में उपर दी गई कोई भी मेरुदंडीय स्थिति पाई जाती है, वह सेना नौसेना और वायुसेना के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।

(ग) कोहनी की उठान का कोण 10° (दस डिग्री) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(घ) छाती का एक्स-रे जरूरी है।

(ङ) दृष्टि।

दूर दृष्टि 6/6, एक आंख में तथा 6/6 तक सुधार योग्य 6/9

पास की दृष्टि प्रत्येक आंख को एन. 5

वर्ण दृष्टि सी. पी. I (एमएलटी)

मेनीफास्ट हायपरमेट्रोपिया +2.00 डीसीवाईएल "मायोपिया शून्य" और +0.75 डीसीवाईएल से अधिक न हो।

(च) नेत्र पेशी संतुलन

मेडोक्स रोड टेस्ट के साथ हैट्रोफोरिया निम्नलिखित से अधिक न हो :

(i) 6 मीटर पर	एक्सोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	एसोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	हाइपोफोरिया/	1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	हाइपरफोरिया	
(ii) 33 से. मी. पर	एक्सोफोरिया	16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	एसोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	हाइपोफोरिया/	1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	हाइपरफोरिया	

द्विनेत्री दृष्टि--अच्छी द्विनेत्री दृष्टि का होना अनिवार्य है फ्यूजन तथा स्टेरियोपसिस तथा साथ में अच्छा आयाम व गहनता।

(छ) मानक

(i) वाक परीक्षण : प्रत्येक कान से 610 सेमी. से कानाफूसी सुनाई दे।

(ii) श्रव्यतामितिक : 250 एच. जैड तथा 4000 एच जैड के बीच की आवर्तियों में व्यश्चित्त कमी 20 डीबी से अधिक न हो।

(ज) रुटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में हो।

3. नौ सैनिक विमानन शाखा के उम्मीदवार हेतु स्वास्थ्य मानक वही होंगे जो वायु सेना के उड़ान ड्यूटी हेतु उम्मीदवार के हैं।

4. किसी एक सेवा के लिए निर्धारित विशेष परीक्षण किये जाने के दौरान यदि किसी अक्षमता का पता चलता है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा अनहक ठहराए जाने की स्थिति में यह अक्षमता उम्मीदवार को अन्य सेवा (सेवाओं) के लिए भी अयोग्य ठहरा सकती है।

5. शारीरिक अवस्था : संभावित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधो-उल्लिखित दिनचर्या का पालन करके स्वयं को अच्छी शारीरिक अवस्था में रखें :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| (क) धावन/दौड़ | : 15 मिनट में 2 से 4 कि.मी. |
| (ख) रस्सी-कूद | : |
| (ग) पुश-अप एवं सित अप | : प्रत्येक न्यूनतम 20 |
| (घ) चिन-अप | : न्यूनतम 08 |
| (ङ) रस्सी पर चढ़ना/आरोहण | : 3 से 4 मीटर |

परिशिष्ट-III

सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गये हैं :—

सेना अधिकारी व 'नौ सेना' और 'वायु सेना' के समकक्ष रैंक के लिए वेतनमान :

(i) वेतन :

(क) रैंक	वेतनमान
लेफ्टिनेंट	: रु. 8250-300-10050/-
कैप्टेन	: रु. 9600-300-11400/-
मेजर	: रु. 11600-325-14850/-
लेफ्टिनेंट कर्नल	: रु. 13500-400-17100/-
कर्नल	: रु. 15100-450-17350/-
ब्रिगेडियर	: रु. 16700-450-18050/-

(ख) वेतन के अतिरिक्त नीचे दिए गए अनुसार रैंक वेतन भी दिया जाएगा:

कैप्टेन	: रु. 400/-
मेजर	: रु. 1200/-
लेफ्टिनेंट कर्नल	: रु. 1600/-
कर्नल	: रु. 2000/-
ब्रिगेडियर	: रु. 2400/-

ए वी एस समिति की अनुशंसाओं पर अधिकारी संवर्ग के पुनर्गठन के कारण पदोन्नति की अवधि कम कर दी गई है तथा समय वेतनमान पदोन्नति कर्नल (समकक्ष) के पद तक बढ़ा दी गई है तथा लेफ्टि. कर्नल (टी एस) का रैंक समाप्त कर दिया गया है। कर्नल (टी एस) (समकक्ष) लेफ्टि. कर्नल के रैंक वेतन के हकदार हैं जो अभी रु. 1600/- प्रतिमाह है।

(ग) रैंक	वेतनमान
मेजर जनरल	: रु. 18400-500-22400/-
लेफ्टिनेंट जनरल	: रु. 22400-525-24500/-
सेना स्टाफ व सेना	: रु. 26,000/- (नियत)
सेना संवर्ग के उप प्रमुख	
और आर्मी कमांडर	
सेना स्टाफ के प्रमुख	: रु. 30,000/- (नियत)

टिप्पणी—मेजर तथा समकक्ष रैंक पर मूल क्षमता में पदोन्नत अधिकारियों का वेतन आरंभ में रु. 11,600-325-14,850/- के वेतनमान में रैंक वेतन के अतिरिक्त रु. 11,925/- की दर पर नियत किया जाएगा।

(घ) सेवा अकादमियों में प्रशिक्षण के दौरान वृत्ति—पूरे प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 8000/- प्रतिमाह नियत की वृत्ति दी जाएगी।

(ii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु. 3,000/-, 4,500/-, 7,500/- या 10,000/- रु. का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है। सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय है :

- मास्टर उड़ान अनुदेशक—रु. 250/- प्रतिमाह
- वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I—रु. 200/- प्रतिमाह
- वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II—रु. 140/- प्रतिमाह
- मास्टर ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक—रु. 200/- प्रतिमाह
- ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक—रु. 140/- प्रतिमाह।

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है:—

(क) लेफ्टिनेंट तथा समकक्ष	रु. 4500/-
(ख) कैप्टेन तथा समकक्ष	रु. 5500/-
(ग) मेजर से कर्नल तक	रु. 7000/-
(घ) ब्रिगेडियर तथा ऊपर के अधिकारी	रु. 5250/-

अन्य भत्ते :

(क) प्रतिपूरक (नगर) एवं महंगाई भत्ते समय-समय पर सिविलियन राजपत्रित अधिकारियों पर लागू दरों और शर्तों के अध्वधीन देय हैं।
(ख) रु. 200/- प्रतिमाह की दर से किट रखरखाव भत्ता (ग) रैंक तथा तैनाती का क्षेत्र देखते हुए फील्ड क्षेत्र में तैनात अधिकारी रु. 2100/- से रु. 2600/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते तथा रु. 800/- से रु. 1000/- की दर से प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते के पात्र होंगे। (घ) प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त, 9000 से 15000 फुट तथा 15000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को क्रमशः रु. 530/- से रु. 1060/- तथा रु. 800/- से रु. 1600/- प्रतिमाह की दर से अधिक ऊंचाई/प्रतिकूल जलवायु भत्ता देय होगा। (ङ) सभी रैंक के अधिकारियों को प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त रु. 7000/- प्रतिमाह की दर से सियाचिन भत्ता देय होगा। तथापि, यह भत्ता अधिक ऊंचाई/प्रतिकूल जलवायु भत्ते के साथ देय नहीं है। (च) परिधान भत्ता : सेना तथा वायु सेना के लिए प्रारंभिक परिधान भत्ता रु. 6000/- है तथा नौ सेना कार्मिकों के लिए रु. 7000/- है। परिधान नवीकरण भत्ता 7 वर्षों की प्रभावी सेवा के बाद रु. 6000/- रु. 7000/- (छ) सभी अधिकारियों को मुफ्त राशन दिया जाता है। (ज) परिवहन भत्ता : उन अधिकारियों को, जिन्हें कार्यस्थल से एक कि. मी. के अन्दर अथवा कार्यस्थल एवं आवास परिसर के भीतर सरकारी आवास नहीं दिया गया है, "ए-I" तथा "ए" क्लास शहरों में 800/- रु. प्रतिमाह तथा अन्य शहरों में 400/- रु. प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता स्वीकार्य होगा।

(झ) बच्चों को शिक्षा भत्ता।

(क) भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. भारतीय सैनिक अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :

(क) उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है, या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन वस्त्र और किए गये व्यय तथा दिए गये वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन "जेंटलमैन कैडेट" के रूप में दर्ज किए जायेंगे। "जेंटलमैन कैडेट" पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए "भारतीय सैन्य अकादमी के नियम और विनियम लागू होंगे।"

3. यद्यपि आवास, पुस्तक, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को भारत सरकार वहन करेगी, यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना खर्च खुद बर्दाश्त करेंगे, भारतीय सैनिक अकादमी में (उम्मीदवार का न्यूनतम मासिक व्यय 200.00 रु. से अधिक होने की संभावना नहीं है) यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। नौ सेना और वायु सेना में स्थापित भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और इनके सदृश प्रशिक्षण में प्रशिक्षण ले रहे ऐसे पुरुष/महिला कैडेट, जिनके माता-पिता/अभिभावक की प्रतिमाह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है, वित्तीय सहायता लेने के हकदार हैं। जिन माता-पिता/अभिभावक की आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक लेकिन 2000/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है यदि उनका एक लड़का/आश्रित उक्त एक या एक से अधिक संस्था में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके बच्चों/आश्रितों को भी वही वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस परीक्षण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि संस्थाएं एक ही सेवा के अधीन हैं या नहीं।

वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय

सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए। जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

4. भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:--

(क) प्रतिमाह रु. 200.00 के हिसाब से 5 महीने का जेब खर्च रु. 1000.00

(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मर्दों के लिए रु. 2750.00

योग रु. 3750.00

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में नीचे लिखी राशि वापिस कर दी जाएगी :

200.00 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च 1000.00 रुपये

5. भारतीय सैनिक अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं :

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रुपये प्रति वर्ष है जो कैडेटों को भारतीय सैनिक अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।

(2) कर्नल कैडल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : इस छात्रवृत्ति की राशि 360/- रुपये प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता से अतिरिक्त होती है।

6. भारतीय सैनिक अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होगी वह :

(क) कैडेट को कमीशन दे दिए जाने पर दे दी जाएगी।

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापस कर दी जाएगी। कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी।

किन्तु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्यागपत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाएगा तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटारा कर दिया जाएगा।

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने वाले

जैटलमैन कैडेट को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किए जाएंगे। भारतीय सैनिक अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सेना मुख्यालय की अनुमति से प्रशिक्षण से हटया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को अपनी यूनिट में वापिस भेज दिया जाएगा।

8. कमीशन, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर ही दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी।

10. प्रशिक्षण

भारतीय सैनिक अकादमी में आर्मी कैडेट को "जैटलमैन कैडेट" का नाम दिया जाता है। उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंफैंट्री के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त जैटलमैन कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एसएचएपीई शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

11. बीमा

भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के जेन्टलमैन/महिला कैडेटों को जब 8,000/- रुपये प्रतिमाह वजीफा मिलता है, तब उनका रु. 15 लाख का बीमा किया जाता है। वे कैडेट जो अपंगता के कारण, चिकित्सीय आधार पर अकादमी से बाहर हो जाते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत अपंगता के लिए रु. 7.5 लाख का अपंगता अनुरक्षण प्रदान किया जाता है, जो कि समानुपातिक रूप से घटकर 20 प्रतिशत अपंगता के लिए रु. 1.5 लाख रह जाता है। यद्यपि, 20 प्रतिशत से कम अपंगता के लिए कोई अपंगता अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है लेकिन उन्हें रुपये 20,000/- का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा। मदिरा एवं औषधि व्यसन के कारण हुई अपंगता, अपंगता लाभ एवं अनुग्रह अनुदान के लिए अर्हक नहीं है। जो जेन्टलमैन/महिला कैडेट रु. 8,000/- प्रतिमाह का वजीफा प्राप्त करते हैं, उन्हें रु. 1,500/- प्रतिमाह की दर से प्रीमियम का अग्रिम भुगतान मासिक आधार पर करना होगा तथा वे नियमित सैन्य अधिकारियों पर लागू मुख्य सेना समूह बीमा योजना के सदस्य बनेंगे।

12. सेवा की शर्तें :

(1) तैनाती :

थलसेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किये जा सकते हैं।

(2) पदोन्नति

(क) स्थायी पदोन्नति

5-25602/07

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति, के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :

समयमान द्वारा :

लेफ्टिनेंट	(प्रशिक्षण पूर्ण होने पर)
कैप्टन	2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर	6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट कर्नल	13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल (टीएस)	26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा

चयन द्वारा :

कर्नल	20 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
ब्रिगेडियर	23 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट जनरल	28 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबंध नहीं

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर अफसर उच्चतर रैंकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों :

कैप्टन	3 वर्ष
मेजर	6 वर्ष
लेफ्टिनेंट कर्नल	6½ वर्ष
कर्नल	8½ वर्ष
ब्रिगेडियर	12 वर्ष
मेजर जनरल	20 वर्ष
लेफ्टिनेंट जनरल	25 वर्ष

(ख) नौ सेना अकादमी, गोवा में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए :

(i) वे उम्मीदवार, जो अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए अकादमी में चयनित होते हैं, उन्हें नौ-सेना की कार्यकारी शाखा के कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन्हें कैप्टन नौ-सेना अकादमी, गोवा को निम्नलिखित राशि जमा करना अपेक्षित होगा :

(कक) पॉकेट खर्च-वैयक्तिक खर्च, प्रसाधन, स्टेशनरी आदि रु. 650/- प्रतिमाह की दर से	रु. 3250/-
(खख) लांड्री, सिविलियन बियरर सिनेमा, हेयर कटिंग आदि रु. 350/- प्रतिमाह की दर से	रु. 1750/-
(गग) पहनावा और साज-सज्जा की मदों के लिए	रु. 2300/-

(घघ) भोजन एवं अन्य खर्चों की लागत	रु. 200/-
(डड) कैडेट मेस के लिए भोजन प्रभार 5 महीनों के लिए रु. 300/- प्रतिमाह की दर से	रु. 1500/-
योग :	रु. 9000/-

(ii) चयनित उम्मीदवारों को कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा नौसेना जहाज एवं स्थापना में प्रशिक्षण के लिए जाना होगा जो निम्नलिखित हैं :-

(कक) नौसेना अकादमी गोवा, नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम	20 सप्ताह
(खख) कैडेट प्रशिक्षण	06 महीने
(गग) मिडशिपमैन (जहाज पर प्रशिक्षण)	06 महीने
(घघ) उप-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम)	12 महीने

(iii) उपर्युक्त प्रशिक्षण के पूरे होने पर अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय नौ सेना के जहाजों पर नौ सेना निगरानी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए की जाएगी जिसके लिए कम से कम छह महीने की अवधि अनिवार्य है।

(iv) नौसेना अकादमी के कैडेटों के आवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, जब तक वे कैडेट रहते हैं, उनके पॉकेट तथा अन्य निजी खर्चों का भार उनके माता-पिता अथवा संरक्षक उठाएंगे। यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500.00 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने का इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन-पत्र दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट इस आवेदन-पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पास भेज देगा।

टिप्पणी: यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. एफ (पी) कोर्स में प्रवेश के लिए तीन तरीके हैं अर्थात् सीडीएसई/एनसीसी/एयरमैन। वे उम्मीदवार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं उनका वायु सेना चयन बोर्डों में वायु सेना तथा सशस्त्र सेवा की अन्य शाखाओं के लिए केवल एक बार परीक्षण/साक्षात्कार होगा। सामान्य उम्मीदवार जो एनसीसी या एयरमैन के रूप में आईएनएसबी/पीएबी परीक्षण में असफल हो जाते हैं और यदि यह पता चलता है कि उसने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के माध्यम से भी

आवेदन किया है तो उन्हें केवल थल सेना/नौसेना/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए ओएलक्यू परीक्षण के लिए दुबारा बुलाया जाएगा।

2. प्रशिक्षण पर भेजना :

वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। डाइरेक्ट एण्ट्री उम्मीदवारों की वरीयता सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एनसीसी उम्मीदवारों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाती है। डाइरेक्ट एण्ट्री उड़ान (पायलट) उम्मीदवारों की वरीयता सूची सं. लो. से. आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. प्रशिक्षण : वायु सेना अकादमी में उड़ानशाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी।

उड़ान प्रशिक्षण के दौरान बीमा सुरक्षा दरें (परिशोधन के अधीन हैं) : वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी दुर्घटना की स्थिति में उस फ्लाइट कैडेट के निकटतम संबंधी को रु. 800/- प्रतिमाह के मासिक अंशदान के लिए रु. 1,00,000/- अनुग्रह राशि के रूप में अदा करेगी जो सिविल क्षेत्र से आया हो और उड़ान प्रशिक्षण पा रहा हो। उड़ान प्रशिक्षण पा रहा कोई फ्लाइट कैडेट यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्षम हो जाता है और प्रशिक्षणमुक्त कर दिया जाता है तो उसे शत-प्रतिशत अक्षमता के लिए 20,000/- रुपये अनुग्रह राशि के रूप में अदा किए जाएंगे तथा यह राशि इस अनुपात में घटकर 20 प्रतिशत रह जाती है।

प्रशिक्षण के दौरान, कैडेट रु. 8000/- प्रति माह की वृत्तिका प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात् दी जाने वाली वृत्तिका को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा नहीं माना जाएगा। सरकार द्वारा फ्लाइट कैडेट को एक बार वेतन तथा भत्ते स्वीकृत कर लिये जाने पर मृत्यु सुरक्षा 50,000 रुपये होगी और शत-प्रतिशत अक्षमता सुरक्षा 25,000 रुपये होगी। वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी द्वारा यह सुरक्षा उड़ान प्रशिक्षण पा रहे प्रत्येक फ्लाइट कैडेट द्वारा 76/- रुपये के मासिक अप्रतिभेद अंशदान का भुगतान करने पर दी जाएगी जिसके लिए सदस्यता अनिवार्य होगी।

वित्तीय सहायता पर लागू होने वाली शर्तें :

(1) यद्यपि आवास, पुस्तक, वर्दी, ठहराने और चिकित्सा उपचार सहित, प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तो भी उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अपना जेब खर्च स्वयं वहन करें। वायु सेना अकादमी में प्रतिमास कम से कम 140/- रुपये (परिशोधन के अधीन) से अधिक खर्च होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के अभिभावक या संरक्षक उस खर्च को भी पूर्ण रूप या आंशिक रूप में वहन करने में असमर्थ हैं तो उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, जिस कैडेट के अभिभावक या संरक्षक की मासिक आय 750/- रु. या इससे अधिक है वह वित्तीय सहायता पाने के हकदार नहीं है। वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्ति तथा अन्य परिलब्धियां और सभी स्रोतों

से होने वाली आय को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार को अभिभावक/संरक्षक को अपने पुत्र/बच्चे के वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुन लिये जाने के तुरंत बाद अपना आवेदन अपने जिले के जिलाधीश के माध्यम से प्रस्तुत कर देना चाहिए। जिलाधीश उस आवेदन को अपनी अनुशंसा सहित कमांडेंट, उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स, बेगमपेट को अग्रेषित कर देगा।

(2) वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवार को आने पर निम्नलिखित रकम (परिशोधन अधीन) कमांडेंट के पास जमा करनी है।

(क) 140 रुपये प्रतिमास की दर से 6 माह के लिए जेब भत्ता	840 रुपये
(ख) वस्त्र और उपस्कर मर्दों के लिए	1500 रुपये
<hr/> योग : 2340 रुपये	

उपर्युक्त रकम में से निम्नलिखित रकम कैंडेट को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्थिति में वापस देय है :

140 रु. प्रतिमास की दर से 6 मास के लिए जेब भत्ता 840 रुपये।

4. भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं :

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाईंग अफसर के रैंक पर पास आउट होते हैं तथा रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं। भारतीय वायु सेना में दो प्रकार की पदोन्नति होती है अर्थात् कार्यकारी रैंक प्रदान करके और स्थायी रैंक प्रदान करके। प्रत्येक उच्च रैंक के लिए अतिरिक्त परिलब्धियां निर्धारित हैं। रिक्तियों की संख्या पर आधारित हर एक को उच्च कार्यकारी रैंक में पदोन्नति प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलते हैं। स्क्वेड्रन लीडर तथा विंग कमांडर के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति उड़ान (पायलट) शाखा की क्रमशः 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की सफलतापूर्वक सेवा पूरी करने पर दी जाती है। विंग कमांडर और उससे ऊपर के उच्चतर पदों में पदोन्नति विधिवत् गठित पदोन्नति बोर्डों द्वारा चयन के आधार पर की जाती है। उदीयमान अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं।

5. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत

वार्षिक अवकाश वर्ष में 60 दिन

आकस्मिक अवकाश वर्ष में 20 दिन एक बार में 10 दिन से अधिक नहीं।

अधिकारी पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 60 दिन तक की यात्रा में होने वाले प्रासंगिक व्यय की पूर्ति हेतु अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के साथ 10 दिनों तक के वार्षिक अवकाश के लिए नकद भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है।

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/आकस्मिक अवकाश लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और वापस अपने कार्य करने के स्थान तक आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो, और तत्पश्चात् 01 जनवरी, 1971 से आरंभ

होने वाले दो वर्षों के ब्लाक वर्ष में अपने परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों सहित एक बार अपने गृह नगर जाने और वापस आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। जिस वर्ष वह पत्नी तथा बच्चों सहित अपने कार्य स्थल से लीव स्टेशन/गृह नगर तक 1450 कि. मी. के रास्ते के लिए आने और जाने, दोनों तरफ के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को, जो प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उड़ान ड्यूटी पर तैनात होते हैं, अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपयुक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी।

जो अधिकारी छुट्टी लेकर अपने खर्च से यात्रा करने के इच्छुक हैं वे कलेण्डर वर्ष में 6 'एक तरफा यात्रा' फार्म डी पर पत्नी तथा बच्चों के साथ पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी द्वारा यात्रा के किराये का 60 प्रतिशत भुगतान करके यात्रा करने के हकदार होंगे। इसमें दो उक्त फार्म डी पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जायेगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहन और नाबालिग भाई शामिल होंगे।

6. पेंशन लाभ:

सेवा निवृत्ति पेंशन : सेवा निवृत्ति पेंशन के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा की कम से कम अवधि 20 वर्ष है। (लाभ के बिना) सेवा निवृत्ति पेंशन अधिकारी द्वारा उसकी सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान प्राप्त (वेतन, रैंक वेतन और प्रैक्टिस निषेध भत्ता, यदि कोई हो) की गई उन परिलब्धियों की औसत के 50 प्रतिशत के हिसाब से परिकलित की जाएगी, जो पेंशन के मामले में संगणनीय है, इस प्रकार निर्धारित की गई राशि संगणनीय अर्हक सेवा के 3 वर्ष (अर्थात् की गई वास्तविक सेवा तथा स्वीकार्य वर्षों की सेवा लाभ) के लिए सेवा निवृत्ति पेंशन होगी; संगणनीय अर्हक सेवा कम वर्षों के मामले में यह राशि अनुपात के हिसाब से कम होती जाएगी और सेवा निवृत्ति पेंशन किसी भी मामले में 1913 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

7. सेवा निवृत्ति उपदान :

सेवा निवृत्ति उपदान : सेवा निवृत्ति के लिए अर्हक सेवा की कम से कम अवधि (लाभ के बिना) 10 वर्ष है, सेवा निवृत्ति उपदान अर्हक सेवा की प्रत्येक छः महीने की अवधि पूरी करने पर आधे महीने की परिलब्धियों की एक समान दर के हिसाब से स्वीकार्य होगी। इस प्रयोजन के लिए परिलब्धियों में अधिकारी द्वारा लिया गया अंतिम वेतन, रैंक वेतन और प्रैक्टिस बंदी भत्ता (यदि कोई हो), प्रगतिरोध/वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ता (सेवा निवृत्ति/अशक्तता/मृत्यु की तिथि पर देय) शामिल होगा। पेंशन या उपदान के अतिरिक्त, प्रत्येक छः महीने की अवधि की अर्हक सेवा के लिए तथा 5 वर्ष का लाभ परिलब्धियों के चौथाई के बराबर मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान देय हैं, जो कि परिलब्धियों का $16\frac{1}{2}$ गुणा होगा और 3.5 लाख रुपये से अधिक न होगा। सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर मृत्यु और निवृत्ति उपदान इस प्रकार से होंगे:

(क) सेवा के पहले वर्ष यदि मृत्यु हो जाए तो दो महीने का वेतन।

(ख) पहले वर्ष की सेवा के बाद किंतु पांच वर्ष की सेवा से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो छः महीने का वेतन।

(ग) पांच वर्ष की सेवा के बाद किंतु 20 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो कम से कम 12 महीने का वेतन।

(घ) 20 वर्ष के बाद अथवा इससे भी अधिक वर्ष के बाद यदि मृत्यु हो जाए तो कम से कम 12 महीने का वेतन और अधिक से अधिक 33 महीने का वेतन इस शर्त पर देय होगा कि किसी मामले पर भी मृत्यु और निवृत्ति उपदान की राशि 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। विकलांगता पेंशन और विशेष परिवार पेंशन अवार्ड जिसमें बच्चों और आश्रितों (माता-पिता, बहन तथा भाई) को पेंशन देना भी शामिल है, निर्धारित नियमों के अनुसार भी देय है।

8. अन्य सुविधाएं:

अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप-आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाएं आदि के हकदार हैं।

(घ) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में भर्ती हो :

(क) उसे इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली-भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजा या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा। यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए आपरेशन या आपरेशन के दौरान मूर्च्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बाण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने के पूर्व वापस जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निश्चित करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जायेंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 11 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा। उन उम्मीदवारों को "सेना अधिनियम" के अंतर्गत जैण्टलमैन/महिला कैडेट के रूप में नामांकित किया जायेगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से जैण्टलमैन कैडेट अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत रहेंगे।

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा, शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा। जिसके कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम रु. 200 प्रतिमास से अधिक होने की संभावना नहीं है। किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिकार खेलना, सैरसपाटा इत्यादि का शौक रखता हो तो उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप से वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है। बशर्ते कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय रु. 1500 प्रतिमास से कम हो। जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन पत्र जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र को कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई को भेज देगा।

4. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गये उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित धन राशि जमा करनी होगी :

(क) रु. 1000/- प्रतिमाह की दर रु. 3000/-
से तीन महीने के लिए जेब खर्च भत्ता

(ख) वस्त्र तथा उपस्करों की मर्दों के लिए रु. 5000/-

(ग) 2 माह के लिए समूह बीमा राशि रु. 2000/-
(एजीआईएफ)

कुल रु. 10000/-

यदि कैडेटों की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त राशि में से (ख) के सामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी।

5. समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अंतर्गत परिधान भत्ता मिलेगा।

कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गये वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जायेगी। यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग-पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाये तो, इन वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जायेगा, इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

6. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले जैण्टलमैन कैडेटों का थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकृत होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व उनसे प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च वसूल किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से उम्मीदवारों को भर्ती किये जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावकों को इस आशय का एक बांड भरना होगा।

7. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद उम्मीदवारों को अकादमी से त्यागपत्र दिये बिना और प्रशिक्षण के खर्च का भुगतान किए बिना सशस्त्र सेना, नौसेना और वायु सेना अथवा किसी अन्य रोजगार में प्रवेश/आयोग की किसी प्रकार की परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किन्तु उन जैण्टलमैन कैडेटों से, जो चयन हो जाने के बाद नौ सेना और वायु सेना में कौरसपौडिंग कैडेट प्रशिक्षण संगठनों अथवा भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से त्यागपत्र देंगे उनसे मेस के खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा।

8. जिस जैण्टलमैन/महिला कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने के योग्य नहीं समझा जायेगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण अवधि की लागत अदा करने के बाद सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को उनकी रेजिमेंट कोर में वापिस भेज दिया जाएगा।

9. प्रशिक्षण :

चुने गए उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अंतर्गत जैण्टलमैन कैडेटों/महिला कैडेटों के रूप में नामांकित किया जायेगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के उपरान्त जैण्टलमैन कैडेटों/महिला कैडेटों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है।

10. सेवा की शर्तें :

(क) परिवीक्षा की अवधि :

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अधिकारी 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर वापस किए जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(ख) तैनाती :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर समय-समय पर आई.एच.यू./एम.ओ.डी. द्वारा यथा निर्धारित चुनिन्दा नियुक्तियों पर उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है।

(ग) नियुक्ति की अवधि तथा पदोन्नति :

अल्पकालिक सेवा कमीशन (पुरुष एवं महिला) 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा अर्थात् प्रारंभ में 10 वर्ष जो 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा। जो पुरुष अधिकारी सेना में दस वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए तो संबंधित नियमों

के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।

वे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो कमीशन पूर्व अनुदान के लिये चयनित नहीं हुए हैं लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें 14 वर्षों की कुल अवधि के लिये (5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा, इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेना निर्मुक्त किया जाएगा। महिला अधिकारी स्थायी कमीशन की पात्र नहीं हैं तथापि वे 14 वर्ष की अवधि तक वृद्धि के लिए अपना विकल्प दे सकती हैं।

(घ) सेवा का पांचवां वर्ष पूरा होने पर अल्पकालिक कमीशन प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान :

वे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी जिन्होंने डिग्री इंजीनियरी कोर्स अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स नहीं किया हो अथवा न ही कर रहे हों, जो पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा के 5वें वर्ष में सेना मुख्यालय को सेवा छोड़ने हेतु आवेदन करना होगा। तत्पश्चात् सेना मुख्यालय योग्यता के आधार पर आवेदन-पत्रों पर विचार करेगा और इस संबंध में सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। अनुमोदन उपरान्त इन अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन वे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी, जो डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसा ही कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स कर रहे हैं, वे 14 वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने के पहले तब तक कमीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनसे ऐसे कोर्स करने की यथानिर्धारित लागत वसूल नहीं कर ली जाती। उन्हें डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसे अन्य विशेषज्ञ कोर्सों के लिए नामांकित होने पर इस आशय का एक बाण्ड भरना होगा।

(ड) बढ़ाई गई अवधि के लिए विशेष प्रावधान :

बढ़ाई गई अवधि के दौरान उन्हें निम्नलिखित आधारों पर सेना से सेवामुक्त होने की अनुमति दी जाएगी :--

(i) सिविल पद प्राप्त करने पर

(ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर

(iii) अपना व्यवसाय आरम्भ करने पर/फैमिली व्यवसाय अपनाने पर।

(च) स्थायी पदोन्नति :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा इन नियमों के तहत अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी निम्न प्रकार से स्थायी पदोन्नति के पात्र होंगे :--

(i) दो वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर कैप्टन के रैंक में

(ii) छः वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर मेजर के रैंक में

(iii) तेरह वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में

6-25662/07

(छ) अनिवार्य शर्तें :

स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त वास्तविक रैंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्तें तथा साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यथा स्वीकार्य पदोन्नति परीक्षा भाग ख तथा घ हेतु पात्रता, समय सीमा और शास्त्रियां अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अधिकारियों तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिलाओं पर भी लागू होंगी।

(ज) वरिष्ठता का समायोजन :

एस.एस.सी. पुरुष अधिकारियों तथा एस.एस.सी. महिला अधिकारियों और साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण को समायोजित करने के लिए एस.एस.सी. पुरुष व महिला अधिकारियों की वरिष्ठता के लिए, विचाराधीन एस.एस.सी. कोर्स तथा इसके समतुल्य स्थायी कमीशन कोर्स की प्रशिक्षण अवधि के बीच के अन्तर की कोरसपॉइंटिंग अवधि द्वारा कम कर दिया जाएगा। इस वरिष्ठता के समायोजन को कैप्टन का पहला वास्तविक रैंक प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा। संशोधित वरिष्ठता क्रम में कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्रभावित नहीं होंगे।

(झ) संगणित कमीशन प्राप्त सेवा :

उपर्युक्त पैरा 10 (ज) के उपबंधों के अध्वधीन इन आदेशों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए गणना कमीशन सेवा अधिकारी को अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करने की तारीख से की जाएगी। कोर्ट मार्शल होने पर सेवा अवधि जब्त होने या सेना अधिनियम के अन्तर्गत सम्मरी अवार्ड मिलने पर तथा बिना अनुमति अवकाश पर रहने की अवधि को नहीं गिना जाएगा। वह अवधि जिसके दौरान छुट्टी की दरों का वेतन दिया गया तथा वह अवधि जिसके दौरान पी.ओ.डब्ल्यू. दरों पर वेतन दिया गया, को गिना जाएगा। किसी महिला अधिकारी को बिना वेतन के प्रदान किए जाने वाले अवकाश को भी पदोन्नति की सेवा अवधि के लिए गिना जाएगा। तथापि, उच्चतर वास्तविक रैंक के लिए स्वीकार्य वेतन तथा भत्तों की पात्रता के लिए सेवा अवधि को अधिकारी द्वारा सेवा में अर्हता प्राप्त करने की तारीख से गिना जाएगा बशर्ते कि इसे पहले इस तरह से तथा वास्तविक रैंक प्रदान करने की तारीख से न गिना गया हो।

(ज) छुट्टी :

छुट्टी के संबंध में ये अधिकारी अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खण्ड-I थल सेना के अध्याय पांच में उल्लिखित हैं वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी

के पासिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार शासित होंगे। एसएससी महिला अधिकारी एस.ए. एल. I/एस/92-एस के अनुसार प्रसूति अवकाश के लिए पात्र होंगी।

(ट) कमीशन की समाप्ति :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को पांच वर्ष सेवा करनी होगी किन्तु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त कर सकती है :—

- (i) अपचार करने या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या
- (ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर, या
- (iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या
- (iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर तीन महीने का नोटिस देने पर किसी अफसर को करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु इसकी पूर्णतः निर्णायक भारत सरकार होगी। करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा।

(ठ) सेवांत उपदान :

सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एसएससीओ सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए ½ माह की परिलब्धियों की दर से सेवांत उपदान के हकदार होंगे।

(ड) रिजर्व के रहने का दायित्व :

5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा पूर्ण करने के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए या 40 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे।

(ढ) विविध :

सेवा संबंधी अन्य सभी शर्तें जब तक उनका उपर्युक्त उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है वही होंगी जो नियमित अफसरों के लिए लागू हैं।

रामेश्वर दयाल

उप सचिव

संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/2313/3/11/98.--राष्ट्रपति ने श्री कांतिमहंती वेदा विद्या सागर, लोक अभियोजक, के.अ.ब्यूरो को 24.08.2007 अपराह्न से अगले आदेशों तक, के.अ.ब्यूरो में वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

सुरेन्द्र मोहन

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 14 सितम्बर 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/2317/3/एम-9/74.--श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, 31.08.2007 (अपराह्न) से उप-विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सुरेन्द्र मोहन

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 14 सितम्बर 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/2318/3/9/2005.--श्री टी. एस. बोस ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, 31.08.2007 (अपराह्न) से पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अनुराग

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. 2/2/07-प्रशासन/68184.--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी, श्री राजीव वर्मा को अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 06.09.2007 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

पी. एम. पिल्लै

विशेष कार्य अधिकारी

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

दिनांक 15 सितम्बर 2007

सं. 2/4/05-प्रशासन/6872.--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियन्ता, श्री निर्मल गोयल, को आयोग में तकनीकी परीक्षक (सिविल) के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 31.08.2007 (अपराह्न)

से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

पी. एम. पिल्लै

विशेष कार्य अधिकारी

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. 2/2/07-प्रशासन/68183.--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में सहायक, श्री एन. एस. रावत को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 06.09.2007 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

सतविंदर सिंह

अवर सचिव (प्रशासन)

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. ओ-दो-6508/2007-कार्मिक-1.--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक-सेवा निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 03.08.2007 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री के. बी. बैजू, सहायक कमान्डेंट (आई.आर.एल.ए.-6508), 03 बटालियन केरिपुबल ने दिनांक 01.09.2007 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.09.2007 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. ई-28017/6/नोटी/2007/कार्मिक-2/2246.--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अधीन सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, श्री सी एस वैला ने दिनांक 15.08.2007 (अपराह्न) से सहायक कमान्डेंट के औसुब इकाई, एन एल सी नैवेली के पद का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय

महानिदेशक/के.औसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं. 152.--महानिदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय

राजस्व इस कार्यालय के श्री संजय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को दिनांक 30.08.2007 (अपराह्न) से और श्री प्रवीण कुमार ग्रीवर एवं श्री जयपाल सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को दिनांक 30.09.2007 (पूर्वाह्न) से लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय
उप-निदेशक (प्रशासन)

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त का कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम)

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. ए-19018/1214/92-प्रशा.(राज.).-राष्ट्रपति, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली में उप निदेशक (यांत्रिकी) श्री एस. के. दास को निदेशक (यांत्रिकी) के पद पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संगठन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संस्थान, सोलन में स्थानापन्न आधार पर रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में दिनांक 12.06.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

महिन्द्र सिंह
उप निदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. ए-19011/488/2003/स्था./ए.पी.-विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री आर. आर. डोंगरे, सहायक खान नियंत्रक को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में तदर्थ आधार पर दिनांक 27.08.2007 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 1 जून 2007

सं. 1080सी/ए-32013/वरि. उपमहानिदेशक(परिचालन)/2007/19ए, --राष्ट्रपति जी श्री बी. सेनगुप्त, उपमहानिदेशक(भूविज्ञान), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को वरिष्ठ उपमहानिदेशक (परिचालन) के पद पर इसी विभाग में तथा 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर 23.05.2007 (पूर्वाह्न) से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

डी. टी. सिम्लेह
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते महानिदेशक

दिनांक 23 अगस्त 2007

सं. 2236/बी/ए-32013/उपमहानि. (भूवि.)/2006/19ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 686 एस. पी. से 693 एस.पी./ए-32013/उपमहानि. (भूवि.)/2006/19ए, दिनांक 28.02.2007 एवं 1102 एस. पी. से 1105 एस. पी., 980बी से 981बी/ए-32013/उपमहानि. (भूवि.)/2006/19ए, दिनांक 04.04.2007 में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करने पर राष्ट्रपति जी निम्नलिखित निदेशक (भूवि.)(चयन श्रेणी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इसी विभाग में तथा रुपये 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर उपमहानिदेशक (भूवि.) के पद पर पदोन्नति पर अस्थायी स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री के. एस. जामवाल	उपमहानिदेशक (भूवि.)	03.05.2007
2.	श्री जी. घटक	--वही--	04.04.2007
3.	श्री अमिताभ सरकार	--वही--	04.04.2007
4.	श्री दीपक श्रीवास्तव	--वही--	13.04.2007
5.	श्री वी. के. के. कल्लूराया	--वही--	04.04.2007
6.	श्री मंदू मजुमदार	--वही--	04.04.2007

डी. टी. सिम्लेह
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते महानिदेशक

दिनांक 14 सितम्बर 2007

सं. 1957/ए/ए-32013/रसा.(वरि.)/90/19बी.--राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित रसायनज्ञ (कनिष्ठ) की रसायनज्ञ (वरिष्ठ) के रूप में इसी विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से आगामी आदेशों तक पदोन्नति पर नियुक्ति अनुमोदित करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एम. वी. रमैयाह	30.04.2007 (पूर्वाह्न)
2.	श्री अशोक कुमार गोयल	25.04.2007 (अपराह्न)
3.	श्री आर. चट्टोपाध्याय	25.04.2007 (अपराह्न)
4.	श्री एम. के. चक्रवर्ती	25.04.2007 (अपराह्न)

डी. टी. सिम्लेह
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते महानिदेशक

संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता, दिनांक 1 सितम्बर 2007

सं. 4-338/2007/स्था.--भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक (प्रभारी), इस सर्वेक्षण के पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता के (डॉ.) श्रीमती गोपा चक्रवर्ती, अनुसंधान सहायक (सां.) को उसी केन्द्र में सहायक मानवविज्ञानी (सां.), समूह-ख (राजपत्रित) वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- के पद पर 23 अगस्त 2007 को अपराह्न से अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. आई. अहमद
कार्यालय प्रधान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 10 सितम्बर 2007

अधिसूचना सं. सी-257/725-स्टेनो(1)

सं. सी-3884/725-स्टेनो(1).--निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-I को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निजी सचिव (ग्रुप 'बी'-राजपत्रित) के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है:--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री स्वदेश बैनर्जी	16.07.2007
2.	श्रीमती बेला बैनर्जी (अनु. जाति)	13.08.2007

एम. गोपाल राव
मेजर जनरल
भारत के महासर्वेक्षक

जल संसाधन मंत्रालय

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-66, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. ए-19012/30/2002-स्था. पांच/1906.--अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, खेद व्यक्त करते हुए, दिनांक 09.09.2007 को श्री एस. सी. रंगा, अतिरिक्त सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के निधन की घोषणा करते हैं।

रविन्द्र मोंगा
अवर सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. 560(3)/रेगुलर/5841.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिए गये कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिए जायेंगे और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	116485	मैसर्स पुरन ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	49498	मैसर्स चान्द वनस्पति लिमिटेड
3.	18094	मैसर्स सुन्दरम इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	89380	मैसर्स ग्लारमा मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	66693	मैसर्स मनपुरिया मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	114223	मैसर्स नाथ एण्ड महेश कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड

वी. के. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कानपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. एल.सी./560(5)/555.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	20-07096	मैसर्स आर. जी. एग्रो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	20-20562	मैसर्स त्रिरल कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड
3.	20-28289	मैसर्स यू. आर. इन्टीरिटीड सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	20-27596	मैसर्स गोल्ड स्टोन इन्फार्मेशन एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
5.	20-28027	मैसर्स रेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
6.	20-30217	मैसर्स एन्डीवर्स कैरियर कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	20-24487	मैसर्स अवध इन्टरनेट प्राइवेट लिमिटेड
8.	20-28180	मैसर्स हैप्पी लाइफ सेल्स कन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड
9.	20-26873	मैसर्स जी. एम. मीडियाक्रियेशन प्राइवेट लिमिटेड
10.	20-27870	मैसर्स गमहील हाईब्रिड एग्रीटेक लिमिटेड
11.	20-27552	मैसर्स सुखश्री मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
12.	20-10688	मैसर्स यूनाइटेड ट्रेक्टर प्राइवेट लिमिटेड
13.	20-27606	मैसर्स कोड साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
14.	20-30398	मैसर्स इश्मा ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	20-27872	मैसर्स मार्क लाइफ साइन्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	20-28237	मैसर्स आर एम एस एग्री एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
17.	20-16013	मैसर्स इनोवेटिव फार्मास्यूटिकल्स इण्डिया लिमिटेड

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स करेप्लास पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. एल.सी./560(3)/20-011621/643.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तारीख से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स करेप्लास पालीमर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जालन्धर-144003, दिनांक 14 सितम्बर 2007

सं. 560(5)/2007.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त

कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	016609	मैसर्स आर. आर. बाओमेड प्राइवेट लिमिटेड
2.	016651	मैसर्स पाम रोडलाईस लिमिटेड
3.	016735	मैसर्स सैनी व्हीकल डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	016802	मैसर्स सैफ्टी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
5.	016830	मैसर्स कोटी टूर्यस प्राइवेट लिमिटेड
6.	016833	मैसर्स के. गणेशन स्कूल ऑफ कम्प्यूटेशन प्राइवेट लिमिटेड
7.	016888	मैसर्स निम्बार्क फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड
8.	016889	मैसर्स प्रकाश राईस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
9.	016910	मैसर्स बी. एम. वूलन एण्ड टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	016914	मैसर्स दुर्गेश एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
11.	017015	मैसर्स एस. आर. यू. कनिटर्स लिमिटेड
12.	017076	मैसर्स नरेन्द्रा वनस्पति लिमिटेड
13.	017184	मैसर्स पंजाब चिल्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	017192	मैसर्स सी. एन. एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
15.	017221	मैसर्स दूरो सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड
16.	017241	मैसर्स जी. एस. आर. इलैक्ट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
17.	017244	मैसर्स हिम बोटल्स प्राइवेट लिमिटेड
18.	017247	मैसर्स राम गोबिन्द टाईल्स एण्ड बोर्डस प्राइवेट लिमिटेड
19.	017314	मैसर्स कंता बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
20.	017364	मैसर्स पलिमसोल मैरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
21.	017376	मैसर्स वैस्टक कम्प्यू. सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
22.	017385	मैसर्स शैराओ इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	017392	मैसर्स नरेन्द्र थर्मोवेयर लिमिटेड
24.	017515	मैसर्स सैम इमपैक्स प्राइवेट लिमिटेड
25.	017610	मैसर्स प्रूथी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
26.	017856	मैसर्स रीमा मैनेजमेंट एण्ड एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
27.	017983	मैसर्स डेराबस्सी कैमीकल प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
28.	017994	मैसर्स सीगुल फोरजिंग प्राईवेट लिमिटेड
29.	018022	मैसर्स गोल्ड स्टार रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
30.	018066	मैसर्स लियो टावर्स लिमिटेड
31.	018081	मैसर्स पीक्सआई एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
32.	018237	मैसर्स हिमटोर्न कम्प्यूटर्स एण्ड कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
33.	018239	मैसर्स नन्दन सैलज प्राईवेट लिमिटेड
34.	018306	मैसर्स मल्होत्रा मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	018320	मैसर्स कुलपती टैक्सनिट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
36.	018352	मैसर्स एम ग्रे इमपैक्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	018385	मैसर्स हाई-लाईफ मशीनरी लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	018506	मैसर्स स. फौजदार सिंह एण्ड सन्ज इमपैक्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	018514	मैसर्स सिटी कॉलेज प्राईवेट लिमिटेड
40.	018609	मैसर्स मोडर्न ओरिचिड एग्रो सीड्स लिमिटेड
41.	018611	मैसर्स ईजी इमपैक्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	018634	मैसर्स डी. एच. इन्टरनैशनल प्राईवेट लिमिटेड
43.	018865	मैसर्स एडवांस मेडीकल टेक्नोलॉजिक्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	018869	मैसर्स सुरभी एस्टेट लिमिटेड
45.	018872	मैसर्स करन फेब्रिक ईजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	018943	मैसर्स रैड स्टार कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
47.	018992	मैसर्स रैंडम गारमैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	019027	मैसर्स के. जी. केमैसट्री कोचिंग कम्पनी लिमिटेड
49.	019047	मैसर्स एनकोन ट्रांसफोर्मर्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	019057	मैसर्स राईट डाईरेक्शन कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड
51.	019122	मैसर्स गोल्डन साइन्टीफिक एण्ड टेक्नीकल एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
52.	019123	मैसर्स बलबीर ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
53.	019164	मैसर्स रैम्पस हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
54.	019175	मैसर्स सुपर साईक्लोटैक प्राईवेट लिमिटेड
55.	019195	मैसर्स श्री पितम्बरा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
56.	019196	मैसर्स आधुनिक डाईस प्राईवेट लिमिटेड
57.	019205	मैसर्स टॉप मेकैनिक्ल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	019228	मैसर्स अकाशदीप बिल्डर्स एण्ड कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
59.	019276	मैसर्स गोकुल बैंकरीस प्राईवेट लिमिटेड
60.	019307	मैसर्स नोबल इन्फोरमैटिक ट्रेनिंग सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
61.	019365	मैसर्स स्वास्तिक मैनेजमेंट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
62.	019401	मैसर्स आयरविटी मार्केटिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
63.	019411	मैसर्स ब्रीच सिक्योरिटी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
64.	019431	मैसर्स सोहाना रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	019454	मैसर्स ए. ओ. जी. एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
66.	019461	मैसर्स चण्डीगढ़ कौरूगैटर्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	019510	मैसर्स पर्गटस स्टिक वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	019514	मैसर्स संगुईन टेक्नो प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
69.	019530	मैसर्स अम्बा इमपैक्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	019552	मैसर्स बी. एम. बिजनेस एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
71.	019566	मैसर्स रिलैबल इस्पात प्रोफाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	019596	मैसर्स साई कम्प्यूटेक इन्फोरमैटिक प्राईवेट लिमिटेड
73.	019600	मैसर्स टॉपटेक कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
74.	019601	मैसर्स पॉवर प्लाई टूज एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	019631	मैसर्स लिजैड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	019648	मैसर्स डिंकर जनरल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
77.	019715	मैसर्स चंद निटस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
78.	019726	मैसर्स क्रिस्टल पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
79.	019745	मैसर्स प्लग एण्ड प्ले कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	019758	मैसर्स पारामका कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
81.	019759	मैसर्स पण्डा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	019761	मैसर्स पारज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	019762	मैसर्स पारा रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
84.	019763	मैसर्स परवता होटल प्राईवेट लिमिटेड
85.	019768	मैसर्स प्रास्ट्रा कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
86.	019769	मैसर्स पाला प्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड
87.	019770	मैसर्स पार्टिया एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
88.	019781	मैसर्स मित्रल रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	019785	मैसर्स एस. एफ. कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
90.	019814	मैसर्स बाबा मखन शाह लबाना कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	020402	मैसर्स एस. जे. टी. बियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
91.	019889	मैसर्स राजा एन्टरटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	020403	मैसर्स किङ्सकेयर निट्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	019931	मैसर्स साऊथ ईस्ट एक्साईम प्राईवेट लिमिटेड	123.	020407	मैसर्स मैक्रोबायोसिस इन्फोरमैटिक्स टेक्नो प्राईवेट लिमिटेड
93.	019973	मैसर्स असीम ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	124.	020418	मैसर्स मानसरोवर फ्रैंट विंग प्राईवेट लिमिटेड
94.	020000	मैसर्स धनबचन एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	125.	020444	मैसर्स एकमे इन्फोरमैटिक्स सिस्टम लिमिटेड
95.	020050	मैसर्स महाकाली एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	126.	020467	मैसर्स ग्रिपलैंड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	020086	मैसर्स सत्यारूप कैमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	127.	020493	मैसर्स नीलकंठ कोरयर्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	020137	मैसर्स सी. आर. ऑटो प्राईवेट लिमिटेड	128.	020499	मैसर्स पी. एच. पोल्टी फार्म प्राईवेट लिमिटेड
98.	020142	मैसर्स रॉय लैमीनेशन प्राईवेट लिमिटेड	129.	020507	मैसर्स धतसन्ज होटल प्राईवेट लिमिटेड
99.	020154	मैसर्स प्वाइजर एयर टैक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	130.	020512	मैसर्स धनोला फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	020161	मैसर्स लुधियाना रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	131.	020531	मैसर्स डायमण्ड लिंक्स सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
101.	020167	मैसर्स शैलकोन स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	132.	020549	मैसर्स एसएफएल एस्टेट एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	020184	मैसर्स सुरभी मीडिया लिमिटेड	133.	020614	मैसर्स सायरा रिसोर्ट्स एण्ड कन्डोमीनस प्राईवेट लिमिटेड
103.	020192	मैसर्स सन लाईन एस्टेट एण्ड कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड	134.	020626	मैसर्स थाई गोल्डन इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
104.	020213	मैसर्स पुनीत मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	135.	020656	मैसर्स थाई गोल्डन ग्लोब नेट प्राईवेट लिमिटेड
105.	020219	मैसर्स गोल्डन कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	136.	020683	मैसर्स उषा टेलीसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	020227	मैसर्स साईबर इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	137.	020690	मैसर्स सतलुज ईकारुस व्हीकल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
107.	020247	मैसर्स एक्सलसाईयर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	138.	020710	मैसर्स आर. जे. एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
108.	020255	मैसर्स प्रोकोम टैलीकम्यूनीकेशन प्राईवेट लिमिटेड	139.	020712	मैसर्स ए. एस. मर्कन टाईल प्राईवेट लिमिटेड
109.	020262	मैसर्स जोर्बा एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	140.	020734	मैसर्स गोल्डमैन मल्टीलिंक सेल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
110.	020279	मैसर्स गुलाब एलॉय एण्ड मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड	141.	020751	मैसर्स सीसीएस फार्मास्यूटिकल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
111.	020311	मैसर्स भवानी प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड	142.	020752	मैसर्स एक्सल सरजीमड लिमिटेड
112.	020315	मैसर्स हंसा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	143.	020795	मैसर्स के. बी. रीसन डेरीवैटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	020319	मैसर्स पंजाब हैडलाईन मीडिया लिमिटेड	144.	020800	मैसर्स होप इण्डिया मिल्कफूड एण्ड फार्मिंग लिमिटेड
114.	020328	मैसर्स करल इन्टरनैशनल होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	145.	020807	मैसर्स जार्क माईक्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
115.	020342	मैसर्स जगसन बोर्डस इण्डिया लिमिटेड	146.	020808	मैसर्स इन्सा मैडीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	020358	मैसर्स न्यू पायर्स रोडवेयस प्राईवेट लिमिटेड	147.	020825	मैसर्स फौवर्ट ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
117.	020359	मैसर्स संदीप डीवाईन मैलोडी कैस्टस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	148.	020844	मैसर्स एक्ता रोतो माऊलिंग प्राईवेट लिमिटेड
118.	020366	मैसर्स पंजाब कैमलेड प्राईवेट लिमिटेड			
119.	020373	मैसर्स सप्यार वकेशन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			
120.	20397	मैसर्स चिमन इमपैक्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
149.	020871	मैसर्स मिस्टी पीक्स डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	020949	मैसर्स सैक्यूर कैम इण्डिया लिमिटेड
151.	020954	मैसर्स ओरियंटल मोडर्न एण्ड वैदिक रैमीडिस प्राईवेट लिमिटेड
152.	020961	मैसर्स के. के. के. स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
153.	020966	मैसर्स नोर्दन वूडक्यूटी एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड
154.	020970	मैसर्स चण्डीगढ़ युग प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
155.	020981	मैसर्स बीपीबी कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	020982	मैसर्स तलवार हस्पताल प्राईवेट लिमिटेड
157.	020997	मैसर्स शेरवाला एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
158.	021019	मैसर्स अकाल कृपा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
159.	021030	मैसर्स अर्श क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	021034	मैसर्स रिमक इमैज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	021046	मैसर्स आर. पी. एडवर्थाईसर्ज प्राईवेट लिमिटेड
162.	021109	मैसर्स एम्प्रो फिन्टैक प्राईवेट लिमिटेड
163.	021137	मैसर्स उत्तम एयरकोन प्राईवेट लिमिटेड
164.	021153	मैसर्स आर. वी. एस. इंटरप्राइसज़ प्राईवेट लिमिटेड
165.	021180	मैसर्स सुकरा इमपैक्स प्राईवेट लिमिटेड
166.	021181	मैसर्स यूरो लिडर्स डिजाईन्स जी. बी. लिमिटेड
167.	021186	मैसर्स रोवन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
168.	021188	मैसर्स डिवाइन हनी बी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
169.	021190	मैसर्स फनटास्टिक फूड प्राईवेट लिमिटेड
170.	021223	मैसर्स ग्रामीण एजुकेशनल डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
171.	021238	मैसर्स स्टैलर नेटकॉम प्राईवेट लिमिटेड
172.	021248	मैसर्स मैडीएड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
173.	021295	मैसर्स क्रास कन्ट्री ईमीग्रेशन कंसलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
174.	021300	मैसर्स राज इन्टरटेनमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
175.	021305	मैसर्स नवीना इमपैक्स प्राईवेट लिमिटेड
176.	021324	मैसर्स बल्यू बोनेट फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
177.	021339	मैसर्स आर्ट फोल्यो फैशनस प्राईवेट लिमिटेड
178.	021341	मैसर्स इमत्रा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	021348	मैसर्स शाईन स्टार ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
180.	021360	मैसर्स मरक्री स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड
181.	021361	मैसर्स दशमैश डेयरिस लिमिटेड
182.	021431	मैसर्स घुमन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
183.	021447	मैसर्स वाईस मीडिया इंटरनेट प्राईवेट लिमिटेड
184.	021450	मैसर्स कोहीनूर रिकोर्डिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
185.	021461	मैसर्स आईबीए इंटरप्राइसेज़ प्राईवेट लिमिटेड
186.	021536	मैसर्स श्री राज टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
187.	021566	मैसर्स हैमीस होलीडेस लिमिटेड
188.	021612	मैसर्स ई आईफल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
189.	021613	मैसर्स आईएसके एजुकेशन एबरोड प्राईवेट लिमिटेड
190.	021549	मैसर्स पाल डायनामिक प्राईवेट लिमिटेड
191.	021660	मैसर्स स्मिथ एग्रो वैनरिस एण्ड डिस्ट्रील्सज प्राईवेट लिमिटेड
192.	021665	मैसर्स जी. एस. पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
193.	021736	मैसर्स चंडैल कम्प्यूटर ट्रेनिंग एण्ड टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
194.	021764	मैसर्स आशीश निट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
195.	021777	मैसर्स प्राईम पैकवेल प्राईवेट लिमिटेड
196.	021783	मैसर्स ए. एम. एस. एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
197.	021813	मैसर्स एलाईट होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
198.	021818	मैसर्स रैनबो टेक्नोलिज्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	021832	मैसर्स सतकोम सक्मिर्स प्राईवेट लिमिटेड
200.	021846	मैसर्स मोहन पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
201.	021862	मैसर्स एनर्जी मीटर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
202.	021869	मैसर्स ओबजेक्ट फाऊंडरी प्राईवेट लिमिटेड
203.	021953	मैसर्स जे. टी. एयरवेयस एण्ड ट्रेवल सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
204.	021975	मैसर्स मैक्सवाल मर्कनटाईल प्राईवेट लिमिटेड
205.	021990	मैसर्स इनोवेटिव साईबर सोल्यूशन लिमिटेड
206.	022017	मैसर्स आर. एस. क्लोथिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
207.	022033	मैसर्स इंग्लस बिजनेस एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
208.	022052	मैसर्स सतनाम पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
209.	022076	मैसर्स विजयता टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
210.	022081	मैसर्स सी. एन. सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
211.	022103	मैसर्स सेलाईट कंस्ट्रक्शन एक्टिव नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
212.	022132	मैसर्स पैस एडवर्टाईसिंग प्राईवेट लिमिटेड
213.	022268	मैसर्स जालन्धर पैलस एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	022273	मैसर्स पैरामाऊंट एक्सहबीटर्स प्राईवेट लिमिटेड
215.	022291	मैसर्स बाबा टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
216.	022318	मैसर्स पाईनर एजुकेशनल्स प्राईवेट लिमिटेड
217.	022328	मैसर्स डिवेलो मोलेकुल्स प्राईवेट लिमिटेड
218.	022337	मैसर्स नैचर नूट्रीएंट्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	022341	मैसर्स विपन ऑयल प्राईवेट लिमिटेड
220.	022345	मैसर्स शाम ऑटोमोटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
221.	022380	मैसर्स लेहरा फरोजन्स प्राईवेट लिमिटेड
222.	022415	मैसर्स ए. एल. कबीर स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
223.	022424	मैसर्स योगसन्ज मीडिया एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
224.	022427	मैसर्स मानु पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
225.	022455	मैसर्स वर्ल्डवाइड मार्केटिंग लिमिटेड
226.	022482	मैसर्स बैन्टली टेक्नोलिज्स प्राईवेट लिमिटेड
227.	022490	मैसर्स आर. पी. बी. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
228.	022519	मैसर्स अमर डेवेलपर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
229.	022579	मैसर्स ओहरी इंटरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड
230.	022673	मैसर्स बिक्रम फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
231.	022691	मैसर्स वाईल्ड शॉट होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
232.	022753	मैसर्स बासरा इंटरप्राइजिस लिमिटेड
233.	022861	मैसर्स हाईलैंड हट्स प्राईवेट लिमिटेड
234.	022882	मैसर्स रिलेक्स फ्रोम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
235.	022919	मैसर्स एकेडमिया बुक्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
236.	022953	मैसर्स गारंटी मैटरिंग सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
237.	022967	मैसर्स मारवैल्यूस् इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
238.	022971	मैसर्स वटां पिंक प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड
239.	023012	मैसर्स आर. एच. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
240.	023027	मैसर्स अमृत सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
241.	023098	मैसर्स गोल्ड स्टार मिनचेम प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
242.	023100	मैसर्स नालागढ़ डिस्ट्रीलेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
243.	023105	मैसर्स निरमाया ऐजु. टेक प्राईवेट लिमिटेड
244.	023129	मैसर्स कमल आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
245.	023151	मैसर्स सिल्का सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड
246.	023172	मैसर्स चण्डीगढ़ लुधियाना टोल रोड कम्पनी लिमिटेड
247.	023205	मैसर्स सुपरियर रीयल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
248.	023393	मैसर्स जे. बी. कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
249.	023415	मैसर्स यूनीफाईड निटवेयर प्राईवेट लिमिटेड
250.	023491	मैसर्स एस. जी. एम. ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	023703	मैसर्स आरयम टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
252.	023923	मैसर्स न्यू वेव एजेसिज प्राईवेट लिमिटेड
253.	023944	मैसर्स एक्लेटिक इंटरनेट टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
254.	024176	मैसर्स गोपाल प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
255.	024213	मैसर्स कंटेक गिफ्ट्स एण्ड प्रिंटिंग प्राईवेट लिमिटेड
256.	024792	मैसर्स जी. एण्ड जी. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड

के. सी. मीना

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

पंजाब, हिमाचल एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चैतन्य एक्वागार्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/37127/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स चैतन्य एक्वागार्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेन इनफोटिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/37321/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सं. आरओसी/4145/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स तुषार पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एस. जे. एस. इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भाग्य लक्ष्मी पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/4685/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स भाग्य लक्ष्मी पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विस्पमैक टेक्सटाइल मशीनरी मैन्यूफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. 560(3)/2007/02117/6849.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स विस्पमैक टेक्सटाइल मशीनरी मैन्यूफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. एम. एस. कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/4660/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एस. एम. एस. कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पेशालीटी ऑयल एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/4591/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स स्पेशालीटी ऑयल एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीग्स पेट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/4514/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स वीग्स पेट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. जे. प्रोजेक्ट कंसलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/4583/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एस. जे. प्रोजेक्ट कंसलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आरओसी/4938/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स शक्ति जिमखाना प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

10-256/GU/2007

सं. आरओसी/37755/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स हाइफन सॉफ्टवेयरस प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आरओसी/40642/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स भेरूनाथ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साईं सोफटेक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૭ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/40604/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स साईं सोफटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेस्टीनवर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૭ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/40402/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स बेस्टीनवर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री एन. एन. फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૭ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/40333/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स श्री एन. एन. फुड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्युइनडिप एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૭ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/41130/एसटीए/560/2007-08.---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स क्युइनडिप एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ईथर फार्मा ओरगेनिक
(इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 7 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/40137/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स ईथर फार्मा ओरगेनिक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एनड्युर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 7 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/41129/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एनडयुर फार्मा प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दरियायी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૭ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/41189/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स दरियायी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चद्राविलास मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૭ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/41241/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स चंद्रगुलास मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से फ्राट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विकास ऑटो विज्ञान (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 7 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/38056/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स विकास ऑटो विजन (गुजरात) प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेनीसन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૭ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/37922/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स बेनीसन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्वीन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૭ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/37733/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स क्वीन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एचआरपी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 7 અગસ્ટ 2007

सं. आरओसी/37715/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स एचआरपी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओमकार आहार प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૭ અગસ્ટ ૨૦૦૭

सं. आरओसी/37303/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आरओसी/33590/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स रत्नाकर फूड प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

256/GU/2007

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स रथ टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डीजिटल मुवीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/31033/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स डीजिटल मुवीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमीक एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/31611/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अमीक एग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राज मंदिर रीयल्टी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/31686/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स राज मंदिर

रीयल्टी प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विश्वास टेक्नोकास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/31724/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स विश्वास टेक्नोकास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वासविक बाँयोसर्च प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आरओसी/31901/एसटीए/560/2007-08.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स वासविक बाँयोसर्च प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. क.र./प.ब./आई पी सी/560(एसएम)/07.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सू मोटो के अन्तर्गत एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गयी हैं।

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1	20116	ए वी सी सिन्डीकेट प्रा०लि०
2	86884	ए के पॉलीप्रोडक्ट्स प्रा०लि०
3	11604	ए के रक्षा इन्जीनियर्स प्रा०लि०
4	86242	ए आर कोरगेटेड कॉन्टेनर्स प्रा०लि०
5	54681	ए टू जेड कंसल्टन्सी प्रा०लि०
6	082072	ए.जे.के.राइस मिल प्रा०लि०
7	61751	ए.एम.इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
8	88910	ए.पी.इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स प्रा०लि०
9	43826	आकाक्षा ट्रेडर्स प्रा०लि०
10	51711	आर वी एक्सपोर्टर्स प्रा०लि०
11	68967	अष्टभूज मर्चेन्डाइज प्रा०लि०
12	86691	आस्था कम्युनिकेशन्स प्रा०लि०
13	77440	आतिश मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
14	31402	एबी टीटेक्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
15	33129	एबाकस कंसल्टिंग इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
16	27721	अभय कोल सिन्डीकेट प्रा०लि०
17	37111	अभिनंदन एण्टेरेल्स प्रा०लि०
18	67790	अभपारा टाइ-अप प्रा०लि०
19	54857	एवीटी कैरियर्स (एक्स-सर्विसमेंग) प्रा०लि०
20	029073	ऐस इलेक्ट्रीकल्स प्रा०लि०
21	32792	ऐस इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
22	67686	ऐस सर्विसेज प्रा०लि०
23	27022	आचार्य इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
24	60417	एक्लिमा फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
25	81364	एड-सील प्रा०लि०
26	81364	एड-सील प्रा०लि०
27	86344	एडियम कम्बाईन्ड प्रा०लि०
28	80151	आदित्य इम्पेक्स प्रा०लि०
29	31698	आडवाणी डेवलपर्स प्रा०लि०
30	81373	एडवर्ट ट्रेडर्स प्रा०लि०
31	86200	ऐरोक्युप सर्विसेज प्रा०लि०
32	60310	ऐरबी इन्टरप्राइजेज (दुर्गापुर) प्रा०लि०
33	62691	आगतुक कोम्मोड्रेड प्रा०लि०
34	40088	अग्रवाल प्रतिष्ठान प्रा०लि०
35	24925	एजेन्सीज एण्ड सेल्स प्रा०लि०
36	79373	एजीएम फिन्ान्शियल एण्ड कंसल्टन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
37	73900	एगोरा एजेन्सीज प्रा०लि०
38	73904	एगोरा ट्रेड एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
39	79815	एजीआर विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि०
40	31156	आगरा टीन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा०लि०
41	079620	एम एड एजेन्सी प्रा०लि०
42	87835	एयर एण्ड सरफेस ट्रेवेल्स प्रा०लि०
43	040225	एयर लाइन्स इन्वेस्टमेंट्स एण्ड लीजिंग प्रा०लि०
44	86548	एजे ओवरसीज प्रा०लि०
45	36246	अजन्ता निर्माण प्रा०लि०
46	54648	आकाश फिन्ान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
47	38131	एकेजे आर्ट प्रिन्टर्स प्रा०लि०
48	40231	अलकनन्दा सर्विसोज प्रा०लि०
49	86072	अलारिक डेवलपर्स प्रा०लि०
50	78140	अलबत्रा मर्चेंडाइज प्रा०लि०
51	62656	अल्चेमी इन्जीनियर्स प्रा०लि०
52	73509	अलोक फिनान्शियल सर्विसोज प्रा०लि०
53	32380	अल्फा ग्लोबल प्रा०लि०
54	74568	अमलतारा कंसल्टेशन प्रा०लि०
55	32115	अमर ग्रन्थ प्रकाशन प्रा०लि०
56	53655	अम्बाजी रिसोर्सेज एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
57	037876	अमीन मूवीज प्रा०लि०
58	70124	अमिसन डीलर्स प्रा०लि०
59	35455	एएमके डिजाइनर्स एण्ड इन्जीनियर्स प्रा०लि०
60	54690	अमोल क्रेडिट एण्ड फिस्कल प्रा०लि०
61	31413	अनापोल (इण्डिया) प्रा०लि०
62	62015	अनारकॉन इस्टेट्स प्रा०लि०
63	73824	अन्दाज ट्राकॉन प्रा०लि०
64	020035	एन्जेल्स केमिकल्स वर्क्स प्रा०लि०
65	66808	एन्लो-वेर डीलकॉम प्रा०लि०
66	28424	अर्गियान थिंट फण्ड प्रा०लि०
67	83058	अर्जेनिया इन्टरप्रिजर्स प्रा०लि०
68	70978	अकिश टाइ-अप प्रा०लि०
69	79087	अंकुर कॉम्पोजिटीज प्रा०लि०
70	43831	अन्मोल वूलेन एण्ड रपीनिंग मिल्स प्रा०लि०
71	26659	अन्नापुर्णा डेयरी प्रा०लि०
72	86403	अनपोल फार्मा प्रा०लि०
73	30230	अनसेन एण्ड मुखर्जी प्रा०लि०
74	40295	अनु होल्डिंग्स प्रा०लि०
75	36259	अनुभा कार्बन्स प्रा०लि०
76	86904	अपरण कम्प्यूटर प्रा०लि०
77	032771	अपेक्स डाटा सिस्टेम्स प्रा०लि०
78	55792	अपोलो रियलटर्स प्रा०लि०
79	35787	अपोला वेयरहाउसिंग प्रा०लि०
80	79823	एपीएस गृह निर्माण कम्पनी प्रा०लि०
81	28749	अरारवी इस्टेट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
82	89184	अर्चना कन्फेक्शनर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
83	81061	अरहम कम्प्यूटर प्रा०लि०
84	74737	अरहम सेकुरिटीज प्रा०लि०
85	70111	अर्जुन सेल्स प्रोमोशन प्रा०लि०
86	68594	ऐरोगोल्ड सप्लायर्स प्रा०लि०
87	10826	आर्ट टाइल्स एण्ड कंक्रीट वर्क्स (इण्डिया) प्रा०लि०
88	67880	आर्टमोस मर्चेंट्स प्रा०लि०
89	37904	आर्शिवाद प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
90	47539	आर्शिश फाइबर ब्यूटीलिटीज प्रा०लि०
91	86178	आसमान एग्रो प्रा०लि०
92	74154	अश्वनी एक्जुआ प्रा०लि०
93	33064	एसियन रेमेडिज प्रा०लि०
94	30038	आसाम कार्गो मूवर्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
95	018752	एसोसियेटेड ऐरबी इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
96	86442	एसोसियेटेड इन्क्लेव प्रा०लि०
97	28004	एसोसियेटेड इन्सुलेटर्स इण्डिया प्रा०लि०
98	32412	एसोसियेटेड रिफ्रेक्टोरिज प्रा०लि०
99	32772	एसोसियेटेड सैडल्स प्रा०लि०
100	37113	एसोसियेटेड स्प्रिंग मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा०लि०
101	76471	एससटीएम ओवरसीज प्रा०लि०
102	36379	एस्ट्रो कम्प्यूट प्रा०लि०
103	70638	अटारी प्रोपर्टीज प्रा०लि०
104	036258	एटीसी फ्रेट मूवर्स प्रा०लि०
105	33806	ऑरो ट्रस्ट प्रा०लि०
106	34123	ऑरम प्रोपर्टीज प्रा०लि०
107	33151	ऑटो कॉमर्स प्रा०लि०
108	80421	अवन्त गार्ड सप्लायर्स प्रा०लि०
109	77498	अवन्तिका मशीनरी मार्ट प्रा०लि०
110	86773	आविष्कार कम्प्युनिकेशन सर्विसेज प्रा०लि०
111	38884	अवलोन सिन्टेक्स प्रा०लि०
112	79227	अवतार टाइ-अप प्रा०लि०
113	54632	अयनिका कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
114	54662	आजमगढ़ ऑटो प्रा०लि०
115	35723	बी बी मेकेनिकल कम्पनी प्रा०लि०
116	18071	बी बी नन्दीज प्रा०लि०
117	20170	बी जिवॉन एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
118	31452	बी एम इस्टेट कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
119	14872	बी एम सेन (एजेन्सी) प्रा०लि०
120	14096	बी सेन एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
121	055389	बी.जे.स्टॉक फिनान्स प्रा०लि०
122	38812	बी.के.होटेल्स प्रा०लि०
123	50484	बाबा सलासार डेवलपर्स प्रा०लि०
124	32132	बच्चन सेल्स प्रा०लि०
125	76022	बादशा एग्रो सेन्टर प्रा०लि०
126	34000	बागरी इलेक्ट्रोनिक्स प्रा०लि०
127	81746	बजाज एक्जुआ-टेक प्रा०लि०
128	72640	बालाजी टायर्स प्रा०लि०
129	30778	बान-भट्ट आईस क्रीम इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
130	18297	बनारस आईस फैक्टरी प्रा०लि०
131	54506	बंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्क्लेव प्रा०लि०
132	76111	बारासात पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स प्रा०लि०
133	51667	बर्द्धमान इलेक्ट्रोडस प्रा०लि०
134	35167	बारोनी लोवेम प्रा०लि०
135	28869	बसंत ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
136	35120	बासुधारा भूमि-ओ-निर्माण
137	31892	बौमान लुप्तमान प्रा०लि०
138	038606	बाउरिया इस्पात उद्योग प्रा०लि०
139	27817	बजाज इन्जीनियरिंग एण्ड फाण्डी वर्क्स प्रा०लि०
140	23769	बियेरिंग स्पेशियलिस्ट्स प्रा०लि०
141	54480	बी पी ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
142	28900	बेहला केम क्राफ्ट प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
143	45259	बेल्स एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
144	40266	बेंगाल एग्रो प्रोडक्ट्स एण्ड प्लान्टेशन प्रा०लि०
145	54362	बेंगाल एन्टि बायोटेक्स प्रा०लि०
146	23880	बेंगाल बोबीन वर्क्स प्रा०लि०
147	86940	बेंगाल आईस क्रीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
148	27230	बेंगाल प्रोग्रेसिव हॉस्पिटल इक्युपमेंट कम्पनी प्रा०लि०
149	10661	बेंगाल रिफ्रेक्टोरिज प्रा०लि०
150	28458	बेंगाल सेविंग फिनान्स प्रा०लि०
151	28397	बेंगाल सिन्थेटिक मौल्डर्स प्रा०लि०
152	30404	बेरबेस टाइप फाण्डरी प्रा०लि०
153	81203	बीजीपी मैनुफैक्चर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
154	34085	भावतारणी इस्टेट्स प्रा०लि०
155	37095	भालोटिया लीजिंग एण्ड हायरिंग प्रा०लि०
156	11108	भारत टी इस्टेट्स प्रा०लि०
157	20282	भारती चित्रम प्रा०लि०
158	11285	भट्टाचार्य (एजेन्सी) एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
159	14312	भूजंग भूषण लीजिंग एण्ड फिनान्शियल सर्विसिंग
160	34517	भुवाल्का एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
161	60700	बिबदोल हाउसिंग इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
162	86976	बिग थी फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
163	32172	बिक्रम रोड लाइन्स प्रा०लि०
164	89837	बिमला लक्ष्मी एग्रो प्रा०लि०
165	62500	बीना के केनिकल्स प्रा०लि०
166	86786	बिनारी टेलीकॉम प्रा०लि०
167	47023	बिन्ध्यम इम्पेक्स ट्रेडिंग प्रा०लि०
168	86864	बायोग्राफिकल इन्साइक्लोपेडिया प्रा०लि०
169	86911	बिर्का एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
170	11301	बिस्टू चरणदे एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
171	81642	बिश्वजीत ट्रेडर्स प्रा०लि०
172	60496	बिटाट बिल्डर्स प्रा०लि०
173	70106	बिड्डल सेल्स प्रा०लि०
174	28302	ब्लेज एडवर्टीजिंग (कलकत्ता) प्रा०लि०
175	68316	ब्लीस मेटल प्रा०लि०
176	52089	ब्लू मैक्स स्मोकलेस कोल प्रा०लि०
177	55659	बीएम प्रोसेस इन्जीनियरिंग एण्ड टूबूल-शूटिंग प्रा०लि०
178	14310	बायोरगानिया इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
179	31472	बोकारा रोलर फ्लावर मिल्स प्रा०लि०
180	30446	बोकारो रासायन उद्योग प्रा०लि०
181	30872	बोनान्जा इलेक्ट्रोमेटल्स प्रा०लि०
182	40486	बुक फोरम प्रा०लि०
183	36977	ब्रेमेन टेक्निक प्रा०लि०
184	30702	ब्राइट सेरामिक्स प्रा०लि०
185	33115	ब्राइट प्लास्टिक्स प्रा०लि०
186	72827	ब्रिस्क वाणिज्य प्रा०लि०
187	70294	ब्रिस्क व्यापार प्रा०लि०
188	13258	ब्रोको एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
189	87866	ब्रदर्स ड्रग प्रा०लि०
190	27288	ब्राउन स्मिथ एण्ड कम्पनी प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
191	70659	बर्लिगटन कॉमर्स प्रा०लि०
192	37738	कलकत्ता बेवेरेगेज प्रा०लि०
193	81881	कलकत्ता बिरकुट्स प्रा०लि०
194	036399	कलकत्ता कोल ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
195	79414	कलकत्ता कोमेक्स प्रा०लि०
196	28890	कलकत्ता कॉमर्शियल कम्पनी (स्टूक्चरल) प्रा०लि०
197	52170	कलकत्ता फ्रेटिव प्रिन्टर्स प्रा०लि०
198	30742	कलकत्ता डेवलपमेंट हाउस सर्विसेज प्रा०लि०
199	55552	कलकत्ता फैन (सेल्स) प्रा०लि०
200	30664	कलकत्ता फ्रोजेन फूड्स प्रा०लि०
201	037881	कलकत्ता लैण्ड एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
202	14092	कलकत्ता मूविएंग प्रा०लि०
203	14697	कलकत्ता ऑप्टिकल कम्पनी प्रा०लि०
204	32936	कलकत्ता पाइप होल्स एसोसिएटेड प्रा०लि०
205	28399	कलकत्ता रेफ-एयर इन्जीनियर्स प्रा०लि०
206	50523	कैलमोस एक्सापोटर्स प्रा०लि०
207	027843	कैलसिकेम प्रा०लि०
208	40254	केमिओ प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
209	64229	कैप्कॉन विनिमय प्रा०लि०
210	14947	कार्ड बोर्ड बॉक्स ऑफ कलकत्ता प्रा०लि०
211	68942	कैरियुज केमिकल्स प्रा०लि०
212	67870	कारनेक्स विनकॉम प्रा०लि०
213	26202	कार्टर डाइइलैटिक पावर प्रा०लि०
214	82004	कैरिओ स्टील कम्पनी प्रा०लि०
215	60712	कार्टको इन्जीनियर्स प्रा०लि०
216	35218	कारटेक्स प्रा०लि०
217	31866	कैची सेविंग्स एण्ड फिनांस लिमिटेड
218	89881	सीवीके ग्लोबल सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्रा०लि०
219	37027	सीसीसीपी प्रिन्टर्स प्रा०लि०
220	60071	सी डी कॉन प्रा०लि०
221	86173	सेन्ट्रल कैरियर्स (आई) प्रा०लि०
222	011554	सेन्ट्रल पोनियटी कोल कम्पनी प्रा०लि०
223	87879	चैती टी कम्पनी प्रा०लि०
224	030278	चालिहा फिनाशियल कम्पनी प्रा०लि०
225	20791	चन्दा सिंह मोटर सर्विसेस प्रा०लि०
226	37058	चान्दमल प्रोपर्टीज प्रा०लि०
227	70555	चन्द्रिका विनकॉन प्रा०लि०
228	39175	चेफेयर फिनान्स एण्ड रिसोर्स प्रा०लि०
229	39789	चेम्फिल इण्डिया प्रा०लि०
230	74506	चौधरी सीमेन्ट प्रा०लि०
231	54266	चौधरी हार्ड-टेक कम्प्यूटर सिरवेस प्रा०लि०
232	018155	चौधरी प्रोपर्टीज प्रा०लि०
233	86970	चौधरी रोडवेज प्रा०लि०
234	30717	शिफको एण्ड स्टीलवर्ट कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
235	29329	साइन सिक्वाटींग (ईस्टर्न) प्रा०लि०
236	68106	सिप्लोक्स सप्लायर प्रा०लि०
237	86192	शिसको इन्जीनियरिंग एण्ड रिसर्च प्रा०लि०
238	60532	सितादल फिनान्स एण्ड सेल्सिम्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
239	68984	साइट्रिक बार्टर प्रा०लि०
240	38751	सिटी लेक फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
241	28380	सिवेलमेक रिफ्रीजेरशन्स प्रा०लि०
242	86898	क्लारियन इण्डस्ट्रीयल पार्क प्रा०लि०
243	37535	क्लासिक क्राफ्ट्स प्रा०लि०
244	39874	क्लासिक इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
245	023320	कोल ट्रेडर्स प्रा०लि०
246	62513	कोस्टल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
247	30262	कोलाबोरेट चिट एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा०लि०
248	70855	कोल्लोकेट विनिमय प्रा०लि०
249	31844	कोलोरल प्रा०लि०
250	24230	कलर्स इण्डिया प्रा०लि०
251	76656	कोमेट सप्लायर्स प्रा०लि०
252	54434	कोम्मेरकान्ट एक्सपोर्टर्स प्रा०लि०
253	18832	कॉमनवेल्थ स्पीनिंग एण्ड निटिंग मिल्स प्रा०लि०
254	38284	कंसेप्ट कॉन्सोर्टियम प्रा०लि०
255	81883	कंक्रीट प्रोमोटर्स प्रा०लि०
256	81233	कंक्येर्ड टेक्नोलॉजी प्रा०लि०
257	38605	कॉन्सोलीडेटेड प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
258	18424	कॉन्टीनेन्टल बोटल कम्पनी प्रा०लि०
259	011097	कॉन्टीनेन्टल मशीनरी कम्पनी प्रा०लि०
260	31429	कॉन्चेरिना इन्जीनियर्स प्रा०लि०
261	40424	कूच-बिहार बिल्डर्स फोरम प्रा०लि०
262	73720	कोस्को प्रोपर्टीज प्रा०लि०
263	40063	कॉस्मिक बिल्डर्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा०लि०
264	54195	कॉस्मिक ट्रेड एण्ड इम्पेक्स प्रा०लि०
265	30728	कॉक्सवेन लेबोरेटोरिज प्रा०लि०
266	88324	क्रेस्सेन्ट ड्रग्स प्रा०लि०
267	074044	क्रिप्टॉन इन्टरप्राइज प्रा०लि०
268	033145	क्रोम स्टील (इण्डिया) प्रा०लि०
269	51534	क्रिसूल केमिकल्स प्रा०लि०
270	30030	क्रिस्टल स्टील प्रा०लि०
271	60716	सीएसएस इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
272	60664	क्युबिकल कॉटेज प्रा०लि०
273	86902	साइबरलाइन सिस्टेम्स प्रा०लि०
274	62971	सिग्नस म्युजिक प्रा०लि०
275	78249	सिमिल प्रिन्ट्स प्रा०लि०
276	032076	डी डी वर्मा एक्सपोर्टर्स प्रा०लि०
277	14150	डी एन भट्टाचार्या प्रा०लि०
278	31691	डी एन कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
279	31691	डी एन कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
280	45289	डी आर सी कम्प्यूटेक प्रा०लि०
281	60539	डी-कॉन हाउसिंग प्रा०लि०
282	27585	दागा इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
283	10224	दागाबाबा प्रा०लि०
284	40386	दास एक्सपोर्टर्स प्रा०लि०
285	11220	दास एण्ड कम्पनी इण्डिया प्रा०लि०
286	30694	दस्तीदार ब्रदर्स प्रा०लि०

क्रम सं. कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
287 35438	डाउन फ्लेक्सोकोर्ड प्रा०लि०
288 60366	देब एण्ड दत्त एक्जीम प्रा०लि०
289 40082	देबार पॉलीमर्स एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०
290 054403	देबरति अपार्टमेंट प्रा०लि०
291 40096	डिसेन्ट ट्रेडर्स प्रा०लि०
292 67182	डेकोलिक सेल्स प्रा०लि०
293 35148	दी पी ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
294 70653	दीक्षा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
295 050150	दीपसिखा इलेक्ट्रो सिस्टम प्रा०लि०
296 37701	डेल्कॉन यूनिट्स प्रा०लि०
297 43879	डेल्टा लेजर्स प्रा०लि०
298 31545	डेल्टा मेटल वर्क्स प्रा०लि०
299 82441	डीलक्स ट्रेडलिक प्रा०लि०
300 55713	डेम्पो मैनेजमेंट एण्ड इम्पेक्स प्रा०लि०
301 27595	देश ओ दुनिया पब्लिशर्स प्रा०लि०
302 45392	देवर्ती डेवलपमेंट प्रा०लि०
303 74247	देवरन साइन्टिफिक इलेक्ट्रीकल मैनुफैक्चरिंग प्रा०लि०
304 84043	देवेन्द्र मर्केन्टाइल प्रा०लि०
305 45136	देवी इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
306 54546	देवमित फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
307 80210	देवकी एजेन्सीज प्रा०लि०
308 80208	देवकी टेक्सटाइल्स प्रा०लि०
309 82228	धनबाद ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
310 28031	धानकुरा कोलियरी प्रा०लि०
311 62944	धाकवाला ट्रेडर्स प्रा०लि०
312 54380	धनराज भारतराज प्रोपर्टीज प्रा०लि०
313 51894	धानुका इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्रा०लि०
314 79787	धनुष कॉमर्शियल्स प्रा०लि०
315 67038	डायमण्ड लौण्डरी प्रा०लि०
316 87849	डायमण्ड शाइन होलिडे रिसोर्ट्स प्रा०लि०
317 87848	डिजिटैक सॉफ्टवेक प्रा०लि०
318 51904	दिग्विजय फिन्वेस्ट प्रा०लि०
319 70123	दीनदयाल सेल्स प्रोमोशन प्रा०लि०
320 70123	दीनदयाल सेल्स प्रोमोशन प्रा०लि०
321 70012	दिन्गो डीलर्स प्रा०लि०
322 70008	दिन्गो विन्कॉम प्रा०लि०
323 66853	दिनतारा मर्केन्टाइल प्रा०लि०
324 52066	डिस्कबैंक सर्विसेज प्रा०लि०
325 51567	डायवर्स कॉमर्शियल्स प्रा०लि०
326 70568	दिव्य राणा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
327 27508	दोआबा फेब्रिकेशन एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
328 38723	डोमेस्टिक सेल्स प्रा०लि०
329 81436	डोना कलर-लैव प्रा०लि०
330 55709	डोनाल्ड एक्सपोर्ट एण्ड ट्रेडिंग प्रा०लि०
331 55694	ड्रीम फिन्कॉन एण्ड होल्डिंग प्रा०लि०
332 33588	ड्रीमलैण्ड ट्रेवेलर्स हवेल प्रा०लि०
333 86207	डीएसआई प्रोपर्टीज प्रा०लि०
334 35053	डीएसएम कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
335	43100	दुआ एयर कॉन प्रा०लि०
336	30243	दुर्गापुर चिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
337	73915	दुर्गापुर पिगेरी प्रा०लि०
338	32785	ड्यूरोकैम प्रा०लि०
339	86397	डायलैन् इम्पेक्स प्रा०लि०
340	43965	डायनेम्ड लेबोरेटोरिज प्रा०लि०
341	37032	डायनेमिक प्रमोशन्स प्रा०लि०
342	36499	ई बी आई कंस्ट्रक्शन्स एजेन्सी प्रा०लि०
343	38837	ईगल लीजिंग प्रा०लि०
344	38476	ईगल सेकुरिटी सर्विस प्रा०लि०
345	11841	ईस्ट बराकर कोल कम्पनी प्रा०लि०
346	66417	ईस्ट कोस्ट फेब्रिकेटर्स प्रा०लि०
347	45163	ईस्ट इण्डिया रियल इस्टेट्स प्रा०लि०
348	032051	ईस्ट इण्डिया स्ट्रीप एण्ड वायर प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
349	33119	ईस्टर सर्फिट प्रा०लि०
350	33077	ईस्टरमैन मास मीडिया प्रा०लि०
351	31948	ईस्टर्न कोक मेनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा०लि०
352	86317	ईस्टर्न इन्टरटेनमेंट प्रा०लि०
353	23011	ईस्टर्न फार्मिंग सोसाइटी प्रा०लि०
354	43994	ईस्टर्न मैलेब्लस एण्ड एलॉयड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
355	60387	ईस्टर्न मेगाट्रेन्ड प्रा०लि०
356	28501	ईस्टर्न ट्रेक्टर स्पेयर्स प्रा०लि०
357	51863	इको सर्विसेस एण्ड फिनान्स इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
358	79955	इकोनो ट्रेक चैन प्रा०लि०
359	40358	इकोनोमिक फिडस प्रा०लि०
360	86275	इड्डीकॉन टर्नकी सर्विसेज प्रा०लि०
361	31903	एडुकैड्स (इण्डिया) प्रा०लि०
362	67772	एडुकैम्प ट्राकॉन प्रा०लि०
363	27073	एडवाडर्स फैन एण्ड फर्नेस कम्पनी प्रा०लि०
364	46909	इफार पैट्स प्रा०लि०
365	30408	इफेक्टिव ट्रेड हाउस प्रा०लि०
366	37921	इकोस गियर्स प्रा०लि०
367	019783	इलेक्ट्रीकैलिली लाइटड एडवर्टिजिंग पिल्लर्स प्रा०लि०
368	46039	इलेक्ट्रोमैक कंस्ट्रक्शन एण्ड कंसल्टेंट (इण्डिया) प्रा०लि०
369	38668	इलेमेकॉन (इण्डिया) प्रा०लि०
370	30031	इल्फिन इलेक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
371	30264	एलोरा चिट एण्ड फिनान्स सेन्टर प्रा०लि०
372	30787	एम्पी इन्जीनियरिंग कंसोर्टियम प्रा०लि०
373	32472	एम्पायर प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
374	32371	एन्कॉन्स रिफ्रेक्टोरिज (कलकत्ता) प्रा०लि०
375	29586	इन्जीनियरिंग एण्ड मौल्टिंग वर्क्स इण्डिया प्रा०लि०
376	039916	इन्जे टेक्सो ट्रेड एण्ड फिनान्स (इण्डिया) प्रा०लि०
377	45278	इन्ने कम्प्युशोप्पी प्रा०लि०
378	89734	इन्विरो टूर्स प्रा०लि०
379	30665	इन्वायरन्मेंट कंट्रोल (इण्डिया) प्रा०लि०
380	80947	इन्वोमिन प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
381	70839	इप्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
382	70854	इप्सन सॉल्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
383	070841	इप्सम सप्लाय प्रा०लि०
384	70541	इप्पा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
385	26458	इरिना मशीन-ओ-मेटल कम्पनी प्रा०लि०
386	45151	इसेनेल फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
387	88156	इशाना पब्लिकेशन्स प्रा०लि०
388	032887	इस्नीना प्रा०लि०
389	77633	इस्सजाप्रा आयरन एण्ड स्टील प्रा०लि०
390	35532	इस्सटी एजेन्ट्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा०लि०
391	40337	इस्टेट डेवलपर्स इण्डिया प्रा०लि०
392	77145	इस्ट्रेल्ला कोम्मोडील प्रा०लि०
393	87840	इथनिका एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
394	30275	इट्सचीड इण्डिया प्रा०लि०
395	32108	इयुजेनिक फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
396	68155	यूरोपा एसोसियेट्स प्रा०लि०
397	50485	इवाना सेविंग्स एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
398	52240	इवेन्टर इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
399	39847	एवरेस्ट एस्वेस्टस प्रा०लि०
400	030098	एवरेस्ट कैपेसिटर्स प्रा०लि०
401	030228	एवरेस्ट वूड प्रोडक्ट्स एलॉयड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
402	088050	एक्सेक्यूटिव रिसोर्ट्स प्रा०लि०
403	28969	एक्सोफलक्स (इण्डिया) प्रा०लि०
404	38675	एक्सपो इन्जीनियर्स प्रा०लि०
405	40001	इजोन कूलिंग एण्ड इलेक्ट्रीकल इक्विपमेंट्स प्रा०लि०
406	032099	फेबकॉन केमिकल्स प्रा०लि०
407	86254	फेब्सकॉन प्रोजेक्ट्स (आई) प्रा०लि०
408	67226	फेसिट कोम्मोडिटीज प्रा०लि०
409	40102	फेयर डील कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
410	79228	फेयरडील ट्राकॉम प्रा०लि०
411	40351	फालता निटवियर इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
412	31829	फार्मकोक (इण्डिया) प्रा०लि०
413	80474	फास्टफ्लो सेल्स एजेन्सीज प्रा०लि०
414	37148	फेदोरिट मिल्कोन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
415	50585	एफडीटी टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा०लि०
416	70858	फियोज वाणिज्य प्रा०लि०
417	88150	फेर्न फ्लावर्स एण्ड प्लान्ट्स बुटिक प्रा०लि०
418	36843	फेरोइन्स्पेक्ट (इण्डिया) प्रा०लि०
419	77358	फेस्टीकॉन एजेन्सीज प्रा०लि०
420	033506	फिल्ट्रेशन एण्ड सेपरेशन (इण्डिया) प्रा०लि०
421	73038	फिनोलेक्स बार्टर सर्विसेज प्रा०लि०
422	68127	फर्स्ट रो डीलर्स प्रा०लि०
423	51916	फ्लेयर एम्पेरेल्स प्रा०लि०
424	86351	फ्लेम इलेक्ट्रोटेक प्रा०लि०
425	51137	फ्लेक्सी-होज प्रा०लि०
426	30701	फ्लावर होजियरी कम्प्लेक्स प्रा०लि०
427	62924	फ्लाईहाई ट्रेवेल्स प्रा०लि०
428	60056	फोरेक्स कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
429	70567	फोरमार्ट ट्रेडर्स प्रा०लि०
430	51677	फोरसूथ कंसल्टेंट्स फोरम प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
431	80106	फोर्टवर्थ कॉमर्स प्रा०लि०
432	72930	फ्रेजर सेल एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
433	81180	फ्री फ्लोविंग मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
434	70005	फ्रिस्की डीलर प्रा०लि०
435	60769	एफआरपी प्लटुजन प्रा०लि०
436	30621	जी.सी.केमिकल्स प्रा०लि०
437	74102	जी.डी.मिनेरल्स प्रा०लि०
438	45318	जी.मान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
439	37002	जी.एन.एस.कॉमर्शियल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
440	36841	जी.एस.कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
441	40071	जी.वी.प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
442	76459	गेनवेल ट्रेडिंग प्रा०लि०
443	73748	गजकर्ण हाउसिंग प्रा०लि०
444	55073	गैलेन्ट एक्सपोर्टर्स प्रा०लि०
445	80953	गणपति प्रचार प्रा०लि०
446	73057	गांधी एण्ड गांधी इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
447	61585	गंगाधरम सेल्स प्रमोशन प्रा०लि०
448	70108	गंगेश्वर सेल्स प्रा०लि०
449	43393	गांगुली ब्रदर्स एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
450	73742	गन्नाधिसाय हाउसिंग प्रा०लि०
451	18803	गर्स इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
452	054064	गरिमा एजेन्सीज एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
453	67659	गरिता ट्रेडकॉम प्रा०लि०
454	67655	गरूर विन्कॉम प्रा०लि०
455	34150	गौतम स्मॉल स्केल जूट इण्डस्ट्रीयल मशीनेरी एमएफजी
456	32273	गौतम स्टील एण्ड अल्काली इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
457	55518	जीबीसी इन्टरप्राइज लिमिटेड
458	86720	जीबीएलए एजेन्सी प्रा०लि०
459	51049	जेम प्रोपर्टीज प्रा०लि०
460	33511	जेनरल बेवेरेगेज प्रा०लि०
461	30301	जेनरल पप्टेक्स मशीन प्रा०लि०
462	79918	जेनियल कंसल्टेशन प्रा०लि०
463	86723	जेनस्टार शिपिंग एजेन्सी प्रा०लि०
464	040325	घोरावत ब्रदर्स प्रा०लि०
465	30764	घोस एण्ड मजूमदार रिसोलिंग एण्ड एलॉयड इन्जीनियरिंग
466	31114	घोष अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
467	84010	घोष फिनान्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
468	46856	गिरिराज शेल्लेक इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
469	62692	गिरिवर कोमोडिटीज प्रा०लि०
470	29553	ग्लासमैन ओवरसीज प्रा०लि०
471	81684	जीएमजी इम्पेक्स प्रा०लि०
472	34681	जीनेट इलेक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
473	74245	गोधूली इन्जीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
474	80613	गोल्डलीफ क्रिएशन्स प्रा०लि०
475	53545	गुड फुड मैनुफैक्चरिंग प्रा०लि०
476	54777	गुडफेथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
477	60804	गुडमार्क ट्रेडिंग प्रा०लि०
478	77366	गुडवाड कॉमर्शियल प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
479	:43048	गुडविल इलेक्ट्रोरिसर्टेम्स प्रा०लि०
480	:70650	गुडविश फाब्रिड प्रा०लि०
481	:67141	गूजा सेल्स प्रा०लि०
482	:24240	गोपा पिक्चर्स प्रा०लि०
483	:86707	गोपालपुर हैचेरी एण्ड एलॉयड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
484	:88063	गोपालपुर मिनेरल ट्रेडिंग ऑरगेनाईजेशन प्रा०लि०
485	:86821	गौतम होमियोपैथिक रिसर्च कम्पनी प्रा०लि०
486	:032068	गौतम प्रिन्टर्स प्रा०लि०
487	:87852	जीपीएम मौल्डर्स प्रा०लि०
488	:54349	ग्रेस इम्पेक्स प्रा०लि०
489	:72484	ग्रेस विन्कॉम प्रा०लि०
490	:28581	ग्राण्ड स्मिथि वर्क्स प्रा०लि०
491	:43256	ग्रासरूट्स इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
492	:38110	ग्रीन विउ लीडिंग एण्ड फिनान्शियल कम्पनी प्रा०लि०
493	:88976	ग्रीनटेक नेचुरल ऑयल प्रा०लि०
494	:61643	ग्रीउन्ड इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
495	:34001	ग्रोथ इन्जीनियरिंग सर्विसेज प्रा०लि०
496	:81978	गुजन कोम्मोडील प्रा०लि०
497	:43717	गुजन इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
498	:81512	गुजन टॉवर्स प्रा०लि०
499	:81693	गननायक वाणिज्य प्रा०लि०
500	:31706	गुप्ता बिस्कुट्स प्रा०लि०
501	:31906	गुरु मार्केटिंग कम्पनी प्रा०लि०
502	:43502	गुरु तेगबहादूर फ्लाउर एण्ड राइल मिल्स प्रा०लि०
503	:13184	एच चौधरी ब्रदर्स प्रा०लि०
504	:51968	एच.टी.डिजिटल कम्प्यूटर सेन्टर प्रा०लि०
505	:29376	हल्दिया इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
506	:51897	हलीसहर वायर प्रा०लि०
507	:33618	हैण्ड वूड इस्टेट प्रा०लि०
508	:014561	हक ब्रदर्स प्रा०लि०
509	:78255	हरलालका भोवनीपुर टेक्सटाइल प्रा०लि०
510	:54499	हरि लीफिन एण्ड प्रोपर्टीज प्रा०लि०
511	:70134	हरि-चिन्तन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
512	:62706	हरिलोक ट्रेडजीम प्रा०लि०
513	:80744	हरिसन मर्चेन्ट प्रा०लि०
514	:30772	हरित मेटल एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
515	:70130	हरिवार कॉमर्शियल प्रा०लि०
516	:28253	हर्ष स्प्रिंग कम्पनी प्रा०लि०
517	:31139	हेमकुण्ड बिल्डर्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा०लि०
518	:30768	हेनरीवोल्ट इलेक्ट्रीकल्स (इण्डिया) प्रा०लि०
519	:36105	हाय माइक्रो इन्फोटेक प्रा०लि०
520	:66637	हाइनेस मर्केन्टाईल्स प्रा०लि०
521	:73820	हाइपीक ट्राकॉन प्रा०लि०
522	:55634	हिल डेवलपमेंट फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
523	:81954	हिलम कोम्मोडिटीज प्रा०लि०
524	:20166	हिमालयन स्टोर्स एण्ड एजेन्सीज प्रा०लि०
525	:40267	हिमालयन ट्रेड एण्ड कार्स्टिंग इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
526	:30276	हिन्दुस्तान हैण्डलूम प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
527	46106	एचकेआर फ्यूल्स एण्ड फाउण्ड्रीज प्रा०लि०
528	86809	एचएमडी प्रोपर्टीज प्रा०लि०
529	31238	हुगली पेपर बोर्ड मिल्स प्रा०लि०
530	86320	होरिजोन मीडिया प्रा०लि०
531	79390	होटेल डॉक पैलेस प्रा०लि०
532	55944	होटेक्स मचेन्डाइज प्रा०लि०
533	14190	हाउस होम प्रा०लि०
534	23083	हावड़ा सिटी इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
535	28195	हावड़ा ग्लास इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
536	78135	हुबली सप्लायर्स प्रा०लि०
537	10912	हुगली एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
538	50249	हुमिंग बर्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
539	28236	इम्पाला एडवर्टिजिंग प्रा०लि०
540	28692	इम्पेक्स एसिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
541	67873	इन्डूक विनिमय प्रा०लि०
542	14352	इण्डिया कॉन्स प्रा०लि०
543	10654	इण्डिया इंक कम्पनी प्रा०लि०
544	11414	इण्डिया लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड बिल्डिंग सोसाइटी प्रा०लि०
545	27797	इण्डियन एग्रो-इण्डस्ट्रीयल इन्टरप्राइज प्रा०लि०
546	27833	इण्डियन एक्पो एक्जुआरियम प्रा०लि०
547	32279	इण्डियन ग्लोब्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
548	81783	इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज प्रा०लि०
549	027857	इण्डियन पॉन्टिन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०,
550	31178	इण्डियन वेल्लिंग प्रा०लि०
551	20702	इन्डो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
552	28691	इन्डो यूनिकॉन इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
553	86102	इन्डोसॉफ्ट टेक्नोलॉजिज (पी) लिमिटेड
554	30792	इन्दु वायर इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
555	27138	इन्डस प्रिन्टिंग इंक फैक्टरी प्रा०लि०
556	86076	इन्फोऑब्जेक्ट्स टेक्नोलॉजिज प्रा०लि०
557	81734	इन्लाइन डाटा इन्फोटेक प्रा०लि०
558	060924	इन्टेगरेटेड बिजनेस कम्प्यूटर्स प्रा०लि०
559	27705	इन्वेन्टर्स एण्ड मशीन मेकर्स कम्पनी प्रा०लि०
560	76498	इन्वेस्टवेल टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
561	75068	इरिस सर्जिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्रा०लि०
562	44665	जे एन एस फेब्रिक्स प्रा०लि०
563	40028	जे.गांगुली एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
564	38711	जे.एफ.रुस्टमजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
565	76733	जे.के.साहा कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्वेस्टर्स प्रा०लि०
566	55311	जे.एम.कम्प्लेक्स प्रा०लि०
567	74638	जे.पी.स्टॉक ब्रोकिंग प्रा०लि०
568	010260	जगन नाथ गुप्ता एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
569	40538	जगदेव राम एण्ड सन्स प्रा०लि०
570	77330	जगप्रेम मार्केटिंग प्रा०लि०
571	82298	जय राम मेडिकेम प्रा०लि०
572	31013	जैन एण्ड एसोसियेट्स (इण्डिया) प्रा०लि०
573	030730	जायसवाल केमिकल्स प्रा०लि०
574	37907	जाज मैरिन इन्जीनियरिंग प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
575	70550	जलाश्री सेल्स प्रमोशन प्रा०लि०
576	23809	जामग्राम फायरक्ले सिन्डीकेट प्रा०लि०
577	82029	जमशेदपुर इण्डस्ट्रीयल सेकुरिटी प्रा०लि०
578	30226	जनता थ्री व्हीलर्स प्रा०लि०
579	35448	जनमातर (रिसर्च) प्रा०लि०
580	67792	जानोसॉफ्ट ट्रेडलिक प्रा०लि०
581	35125	जार्दिनिर इन्जीनियर एण्ड कंस्ट्रक्टर प्रा०लि०
582	74266	जसोदा कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
583	30305	जायेर एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
584	33607	जयमेक एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्रा०लि०
585	43145	जेनेसिस इन्जीनियर्स प्रा०लि०
586	27738	जेन्नेर मेडिकल सर्विसेज प्रा०लि०
587	67020	झलक विनियोग प्रा०लि०
588	68825	झिनुक रिटेलर प्रा०लि०
589	31311	झस टाईमट्रोनिक्स प्रा०लि०
590	39402	जिबकॉन्स (इण्डिया) प्रा०लि०
591	45085	जिफिल फिनान्शियल सर्विसेज प्रा०लि०
592	67693	जिल केम ट्रेड एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
593	82064	जीवक एन्टिबायोटिक्स प्रा०लि०
594	81915	जेजे मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा०लि०
595	31251	ज्ञान विकास प्रा०लि०
596	88101	जोगेश्वरी रोडवेज प्रा०लि०
597	62587	जोर्डन विनिमय प्रा०लि०
598	15261	जुबली इन्जीनियरिंग एण्ड मेट पोलिशिंग वर्क्स प्रा०लि०
599	54364	जूडिसियर्स क्रेडिट एण्ड फिस्कल सर्विसेज प्रा०लि०
600	89104	जुगनू मर्चेन्डाइज प्रा०लि०
601	72661	जुपेक्स इन्जीनियर्स प्रा०लि०
602	034142	जुसला एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
603	33790	जुवेनिल (सर्वेयर्स) प्रा०लि०
604	68830	ज्वीन फर्निचर प्रा०लि०
605	55602	ज्योत एजेन्सीज प्रा०लि०
606	29285	ज्योति इलेक्ट्रोनिक्स प्रा०लि०
607	32373	ज्योति मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा०लि०
608	55497	ज्योति सेल्स प्रमोशन प्रा०लि०
609	29381	ज्योतिमय ट्रेडिंग एण्ड चिट फण्ड्स प्रा०लि०
610	40119	के डी प्रोपेरिज एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
611	77171	के.जी.एन. फिशोरी प्रोजेक्ट प्रा०लि०
612	43986	के.जी.यूनिफार्म्स प्रा०लि०
613	70815	के.जे.सर्विसेज प्रा०लि०
614	23981	के.एम.बनर्जी प्रा०लि०
615	38698	के.एन.कनोरिया एण्ड सन्स प्रा०लि०
616	30086	कादम्बिनी इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
617	46535	कैलाश कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
618	60965	कैलाश इन्क्लेक्स प्रा०लि०
619	70380	कैजेन इलारस्टोमर्स इण्डिया लिमिटेड
620	32299	काल कोम्प प्रा०लि०
621	86847	कलिंगा एकेडेमी प्रा०लि०
622	86614	कलियों प्रमोटर्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
623	77603	कल्याणी आईसक्रीम्स प्रा०लि०
624	78685	कल्याणकारी ट्रेडिंग प्रा०लि०
625	54348	कामा फिनान्शियर्स प्रा०लि०
626	32766	कामख्या सेरोमिक्स (इण्डिया) प्रा०लि०
627	009503	कनाई चांद दत्ता एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
628	86873	कंचल कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०
629	40115	कंचल ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
630	66419	कंचलजंगा हाई टेक प्रा०लि०
631	28213	कान्ति प्रसाद माइनिंग प्रा०लि०
632	87903	करिश्मा फैशन प्रा०लि०
633	31448	करुणामयी कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस प्लान्ट प्रा०लि०
634	50934	करुणामयी टॉवर्स प्रा०लि०
635	35636	कविता बॉन्ड्स एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड
636	79966	केय इम गैल्वेनिजर प्रा०लि०
637	74335	केशरी नंदन ट्रेडर्स प्रा०लि०
638	60636	खांडेलवाल वाणिज्य प्रा०लि०
639	23587	खन्ना कॉमर्शियल कारपोरेशन प्रा०लि०
640	37742	खडगपुर स्टील्स प्रा०लि०
641	24823	खारसावान टेक्नो केमिकल प्रा०लि०
642	10968	खास धर्माबांध कोलियरी कम्पनी प्रा०लि०
643	20357	खटाउ एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
644	79461	खजाना मोटर्स प्रा०लि०
645	40065	खेपा कार्स्टिंग इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
646	67089	किरण न्यूट्रीफुड्स प्रा०लि०
647	37559	क्जानरटाप प्रा०लि०
648	20136	कोले मजूमदार एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
649	60419	कोनारक कॉन्टेनर्स प्रा०लि०
650	31796	कोन्टेक्ट इण्डिया प्रा०लि०
651	43830	कोरोस डाटा (इण्डिया) प्रा०लि०
652	28857	कोटलपुर कोल्ड स्टोरेज इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
653	053074	कोठारी प्रोटफोलियोज प्रा०लि०
654	67656	कृकुन कॉमर्शियल प्रा०लि०
655	68829	कृपा ट्राकॉन प्रा०लि०
656	62917	कृष्णामनी कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
657	29741	कुबेर सेविंग्स यूनिट्स प्रा०लि०
658	070288	कुइल डीलर्स प्रा०लि०
659	70292	कुलदीपक कॉमर्शियल प्रा०लि०
660	15161	कुमुदिनी वेल्फेयर ट्रस्ट ऑफ बंगाल प्रा०लि०
661	46742	कुण्डू प्लास्टिक एण्ड रबड़ इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
662	033179	एल पी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
663	82491	ला हेवेन्स फुड प्रोसेजिंग प्रा०लि०
664	55615	ला मिस्टेयर लोजिक्स प्रा०लि०
665	29243	लाबको (फाउण्ड्री इन्जीनियरिंग) प्रा०लि०
666	72718	लाडु गोपाल होल्डिंग्स प्रा०लि०
667	80616	लाहोती फिन्ट्रेड प्रा०लि०
668	27226	लक्ष्मी प्लास्टिक्स एण्ड पॉलीथिलीन प्रा०लि०
669	50034	लक्ष्मी एम्पेरेल्स प्रा०लि०
670	043959	लक्ष्मी रॉक प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
671	40293	लाली होल्डिंग्स प्रा०लि०
672	24854	लैम्प प्रेस कैप्स प्रा०लि०
673	80615	लारी फिनान्स एण्ड होल्डिंग्स प्रा०लि०
674	68828	लतान्गी केमिकल्स प्रा०लि०
675	68775	लतान्गी विनिमय प्रा०लि०
676	54780	लौरेन्स लेबोरेटोरिज प्रा०लि०
677	70562	लीडर वार्टर प्रा०लि०
678	029195	लीगल एंड चैम्बर इण्डिया प्रा०लि०
679	54367	लियुकोस लैम्प्स प्रा०लि०
680	77212	लेक्सीटी इन्टरप्राइजेज एण्ड फिन्वेस्ट प्रा०लि०
681	67857	लिबरसन बार्टर प्रा०लि०
682	66549	लिबरसन गुड्स एण्ड सप्लायर्स प्रा०लि०
683	26457	लाइफ पिक्चर्स प्रा०लि०
684	88264	लिलान लेदर प्रा०लि०
685	77777	लोकार्पण कॉमर्स प्रा०लि०
686	31828	लोकेलम इण्डिया प्रा०लि०
687	67119	लोकवाणी कॉमर्शियल प्रा०लि०
688	81497	लोलेक्स इम्पेक्स (इण्डिया) प्रा०लि०
689	82183	लोटस फिन्कॉम प्रा०लि०
690	074551	लकी-टेस्ट प्रोसेज्जड फुड प्रा०लि०
691	30455	लुना इक्युपमेंट्स एण्ड स्पेयर्स प्रा०लि०
692	31661	लुना फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
693	19030	एम ए इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
694	86833	एम बी प्लान्टेशन प्रा०लि०
695	30736	एम के डी इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
696	10671	एम एल अग्रवाला एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
697	35066	एम एम बी शीट मेटल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
698	032033	एम.डी.एस. इण्डिया प्रा०लि०
699	30644	एम.के.पाइप एण्ड ट्यूब प्रा०लि०
700	81158	एम.एम.प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
701	10529	मशीनेरी एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०
702	30977	मशीनो फेब्रिक (हावडा) प्रा०लि०
703	83369	मधुवन सप्लायर्स प्रा०लि०
704	76078	मादरी एजेन्सीज प्रा०लि०
705	31325	माफेक्स प्रा०लि०
706	77372	मेजिक सप्लायर्स प्रा०लि०
707	70356	मेजिक विनिमय प्रा०लि०
708	79785	मेग्नम सीमेन्ट प्रा०लि०
709	35647	महावीर इम्पेक्स प्रा०लि०
710	43463	महान कैरियर्स प्रा०लि०
711	78096	महानन्दा डीलर्स प्रा०लि०
712	60415	महासंघम जेनरल इन्वेस्टमेंट एण्ड हाउसिंग फिन्ान्स
713	53620	महता ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
714	17442	महेश्वरी मेटल्स प्रा०लि०
715	077332	महिपाल ट्रेडर्स प्रा०लि०
716	006750	महिषादल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा०लि०
717	47883	मैडेन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
718	87599	मैहर स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
719	31050	मेर एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
720	11593	मैत्रा ब्रदर्स एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
721	079978	मेजेस्टिक इस्टेट्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि०
722	36236	मालु स्टीलर्स प्रा०लि०
723	67070	मामगली कोम्मोडिटीज प्रा०लि०
724	37785	मनकसिया क्राउन्स लिमिटेड
725	88492	मानव डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
726	74561	मानदेक कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
727	70278	मांधान व्यापार प्रा०लि०
728	40147	मंगलम करंट्रक्शन्स प्रा०लि०
729	47632	मनिष फिस्कल सर्विसेज प्रा०लि०
730	74003	मनोरंजन मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
731	51795	मानसरोवर स्टील्स प्रा०लि०
732	014668	मैनुफैक्चरर्स सिन्डीकेट प्रा०लि०
733	60308	मरियात्रे एण्ड कम्पनी (होटेल्स एण्ड ट्रेवल्स) प्रा०लि०
734	60958	मेरिन सेफ्टी सर्विसेज प्रा०लि०
735	81451	मेरिन ट्रान्समिसन्स प्रा०लि०
736	38647	मेरिनो एक्सपो प्रा०लि०
737	60964	मार्वेलस इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
738	40462	मास मिनेरल्स प्रा०लि०
739	026859	मस्कोट ग्राण्ड प्रा०लि०
740	70560	मातालिप सेल्स प्रा०लि०
741	27120	मैचलेस मोटर्स प्रा०लि०
742	79573	मातिगारा इस्पात उद्योग प्रा०लि०
743	44186	मैतरिकरा कम्युनिकेशन प्रा०लि०
744	33277	मावा टी प्रा०लि०
745	60628	मेवेरिक मार्केटिंग प्रा०लि०
746	89177	मैक्स केयर मेडिकेमेन्ट्स प्रा०लि०
747	30370	मैक्सवोल्ट इण्डिया प्रा०लि०
748	066800	मैक्सवेल एलॉयज स्टील प्रा०लि०
749	28217	मैक्सवेल इन्जीनियरिंग सर्विस (1971) प्रा०लि०
750	80374	मेयो ट्रेडर्स प्रा०लि०
751	79358	एमबीएल मार्केटिंग सर्विसेज प्रा०लि०
752	52119	एमसीओ (इण्डिया) मशीनरी प्रा०लि०
753	55871	मीडॉव नर्सिंग होम प्रा०लि०
754	79545	मेडि ब्लीस सर्विस सेन्टर एण्ड डायग्नोस्टिक प्रा०लि०
755	81447	मीना ऑयरन वर्क्स प्रा०लि०
756	011882	मीरलेस स्टीलर्स प्रा०लि०
757	44707	मेगा मीडिया प्रा०लि०
758	54135	मेगाकैश इंक (इण्डिया) प्रा०लि०
759	86029	मेगेल्लन शिपिंग प्रा०लि०
760	81043	मेघदूत इन्वेस्टमेंट कम्पनी (इण्डिया) प्रा०लि०
761	31953	मेघदूत ट्रेवल्स प्रा०लि०
762	24918	मेकोल प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
763	70358	मेल्लाडोन विन्कॉम प्रा०लि०
764	77631	मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
765	20783	मर्केन्टाइल एक्सप्रेस कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड
766	33195	मर्लिन प्रोपर्टीज प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
767	31908	मेटल पॉट (इण्डिया) प्रा०लि०
768	37168	मेटल थर्मिक प्रा०लि०
769	33508	मेट्राको सर्विसेज प्रा०लि०
770	37083	मेटसर्व (इण्डिया) प्रा०लि०
771	20074	मिदनापुर होर्टिकल्चर एण्ड एग्रीकल्चर्स प्रा०लि०
772	43605	मिलानो मार्केटिंग एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
773	50053	मिनर्वा टेक नोक्राफ्ट प्रा०लि०
774	029197	मीनी पम्स एण्ड इक्युपमेंट्स प्रा०लि०
775	31356	मीनीमेक इण्डस्ट्रीज (इन्जीनियर्स) प्रा०लि०
776	40257	मिन्टेक्स (टूल्स) प्रा०लि०
777	82295	मीरा पब्लिकेशन्स प्रा०लि०
778	23019	मीरा टैल्किज प्रा०लि०
779	24837	मीरबहार ब्रदर्स प्रा०लि०
780	80164	मिस्थुनिक इन्जीनियर्स प्रा०लि०
781	55864	मिताली प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
782	28214	मित्रा इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
783	55537	मित्रा मार्केटिंग एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
784	38864	मित्रता ऑफसेट प्रिन्ट एण्ड प्रकाश प्रा०लि०
785	86058	मितवा पेन्ट्स प्रा०लि०
786	73952	मोबार सेल्स प्रा०लि०
787	35554	मोदक एण्ड मोदक प्रा०लि०
788	80122	मॉडन फिशरी एण्ड प्लान्टेशन्स कम्पनी प्रा०लि०
789	30454	मोदीश क्लोथर्स प्रा०लि०
790	86832	मोहन प्लान्टेशन प्रा०लि०
791	68978	मोलिवा कोमोडिटीज प्रा०लि०
792	68879	मोलिवा मार्केटिंग प्रा०लि०
793	72848	मॉन्ट्राडिक सेल्स प्रा०लि०
794	18537	मूकजी एण्ड कौसेन्स लिमिटेड
795	40152	मून फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
796	32714	मोरिजावाला ऑयल इण्डस्ट्रीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
797	70217	मोती मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
798	55489	एमएसए फिनान्स एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
799	89749	मुखर्जी बागची एसोसियेट्स प्रा०लि०
800	37015	मुकुण्ड ट्रेडर्स एण्ड एजेंसीज प्रा०लि०
801	35705	मल्टी फिल्मस प्रा०लि०
802	030774	मल्टी प्रोसेस प्लान्ट एण्ड इक्युपमेंट्स (कलकत्ता) प्रा०लि०
803	86468	मल्टीमेक कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
804	85962	एमवीके सेकुरिटीज प्रा०लि०
805	31328	मिस्टिक लेबोरेटरी एण्ड रिसर्च सेन्ट प्रा०लि०
806	45277	एन आर एस नर्सिंग होम प्रा०लि०
807	10950	एन.सी.साव एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
808	16810	एन.गांगुली एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
809	9556	नव रूपम सिनेमा प्रा०लि०
810	60862	नव सारखा सेविक्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
811	76767	नबोजाल कृषि एण्ड लैण्ड डेवलपमेंट प्रा०लि०
812	61710	नमोद कंस्ट्रक्सी प्रा०लि०
813	40415	नंदनाम इस्टेट्स लिमिटेड
814	61761	नन्दी इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
815	82866	नानो फोटोनिक्स प्रा०लि०
816	72850	नारंग डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
817	28286	नारायण फिनान्शियर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
818	35885	नेयर सुगर मिल प्रा०लि०
819	032008	नैरोटेक्स प्रा०लि०
820	37034	नास्सेन्ट लेबोरेटरी प्रा०लि०
821	31893	नथानी इस्टेट्स प्रा०लि०
822	20043	नेशनल फलोर्स प्रा०लि०
823	10240	नेशनल यूनियन कारपोरेशन प्रा०लि०
824	81572	नवल फोर्स प्रा०लि०
825	40564	नीलम फेब्रिक्स एण्ड सिन्थेटिक्स प्रा०लि०
826	31483	नीलकमल सेल्स प्रा०लि०
827	46118	नेहा लैण्ड डेवलपर्स प्रा०लि०
828	28382	नेलीज प्रिन्टिंग प्रा०लि०
829	84442	नेटकॉम सोलुशन्स प्रा०लि०
830	31447	निउलिया फिश डेवलपमेंट कम्पनी प्रा०लि०
831	30722	न्यू ब्राइट टूल्स प्रा०लि०
832	11468	न्यू दामागोनिया कोल कम्पनी प्रा०लि०
833	040363	न्यू फ्रॉन्टियर कलर लेबोरेटोरिज प्रा०लि०
834	51971	न्यू इण्डिया सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
835	011362	न्यू मेरिन कोल कम्पनी (बेंगाल) प्रा०लि०
836	76439	न्यूकॉन ट्रेडिंग प्रा०लि०
837	72963	नेक्सजेन सिस्टेम्स प्रा०लि०
838	87629	निब्ल इन्फोटेक प्रा०लि०
839	11208	निचितपुर कोल कम्पनी प्रा०लि०
840	50615	नाईट क्वीन ट्रेवल्स कुरियर्स सर्विसेज प्रा०लि०
841	045349	निहार ब्रश वर्क्स प्रा०लि०
842	70295	निखार विनामय प्रा०लि०
843	74614	निखार रिटेलर प्रा०लि०
844	050026	निक्सन्स इन्जीनियर्स प्रा०लि०
845	38454	गिलेन्डु इस्टेट्स प्रा०लि०
846	61623	नीलकमल एडवाइजरी सर्विसेज प्रा०लि०
847	87844	निम्बस एस्थेटिक्स प्रा०लि०
848	61676	निम्बस रिसोर्सेज प्रा०लि०
849	40399	निप्पोन प्रिन्टकेम प्रा०लि०
850	68758	निर्भय एजेन्सीज प्रा०लि०
851	72949	निरीक्षण टाइम प्रा०लि०
852	67967	निर्जित प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
853	77462	निलॉन कंसल्टेन्सी एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
854	30206	निस्तारिनि चिट फण्ड प्रा०लि०
855	35063	नोयने इन्जीनियरिंग (इण्डिया) प्रा०लि०
856	66432	नॉर्थ ईस्ट इस्पात प्रा०लि०
857	76463	नॉर्थ प्वाइन्ट आवासन प्रा०लि०
858	33067	नॉर्थ स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
859	37074	नॉदर्न फिनान्स कम्पनी प्रा०लि०
860	54298	नॉदर्न मेट्रोपोलिटन इस्टेट एण्ड इन्क्लेव प्रा०लि०
861	23530	नौरी (इण्डिया) कम्पनी प्रा०लि०
862	30785	नौविस मेटालिन्द इण्डिया प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
863	75830	एनआरआई स्वीट होम प्रा०लि०
864	079975	नु-फाइवर्स प्रा०लि०
865	37117	नु-केम लेबोरेटोरिज प्रा०लि०
866	38641	नु-लीट बिजनेस मशीन्स प्रा०लि०
867	30737	ओमेगा लैम्प इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
868	86357	ओंकार फिनान्स कम्पनी प्रा०लि०
869	20283	ओंकार इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
870	43655	ओपा इस्टेट डेवलपर्स प्रा०लि०
871	74378	ओपाल ग्लास प्रा०लि०
872	060582	ओपुलेन्ट लीजिंग एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा०लि०
873	46892	ओरिकॉन इलेक्ट्रीकल कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
874	011293	ओरियण्ट इण्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
875	30743	ओरियण्ट पेट्रीराइड्स प्रा०लि०
876	14006	ओरियण्ट पॉटेरिज प्रा०लि०
877	29328	ओरियण्टल कन्डीमेन्ट्स एण्ड हर्बल प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
878	35037	ओरिजिनल होमियो-वायो लेबोरेटोरी प्रा०लि०
879	81647	ऑरफ़न मार्केटिंग प्रा०लि०
880	50141	ओएसएस स्टीलक्स प्रा०लि०
881	40003	ओएस्टर मर्केन्टाईल्स प्रा०लि०
882	050343	पी के कोल कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
883	38888	पी.एच.वी.रिसोर्सेज प्रा०लि०
884	36815	पी.के.इन्जीनियर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
885	47763	पी.एन.एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
886	86028	पी.एस. कंट्रोल इक्युपमेंट्स प्रा०लि०
887	60916	पैकवेल ऑफरोट प्रा०लि०
888	76104	पल्लवी टाइअप प्रा०लि०
889	55573	पाम एक्जीम एण्ड टावर प्रा०लि०
890	30266	पान्डब सेविंग्स एण्ड चिट स्कीम प्रा०लि०
891	55779	पंकज कॉमर्शियल बिल्डर्स प्रा०लि०
892	40364	पंकज प्लाइवूड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
893	35490	पन्नेश्वरी कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
894	51963	पांसकुरा स्मॉल सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
895	23601	पेपर इण्डिया प्रा०लि०
896	30452	पारागॉन रबड़ इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
897	45470	पारासन फिनान्स एण्ड हायर पर्वेज कम्पनी प्रा०लि०
898	46067	पारसनाथ पिक्चर्स (ईस्टर्न) प्रा०लि०
899	26418	पार्वती इन्जनीयरिंग वर्क्स प्रा०लि०
900	23706	पार्वती इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
901	62734	प्रचलित कोम्पोजिटीज प्रा०लि०
902	77609	पारूल कॉमर्शियल प्रा०लि०
903	40069	पशुपति पॉलीपैक प्रा०लि०
904	81970	पास्टोर मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
905	80530	पटेल हाउस प्रा०लि०
906	68754	पथिक सेल्स प्रा०लि०
907	27140	पाल्स ऑफिस इक्युपमेंट्स एण्ड रिक्लुजिड्स (एमएफजी) कम्पनी
908	66757	पाव्स (इण्डिया) प्रा०लि०
909	32316	पीकोक कैरियर्स प्रा०लि०
910	55539	पीकोक सिन्थेटिक्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
911	14200	पल इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
912	:60583	पेडिकल हाउसिंग फिनान्स कम्पनी प्रा०लि०
913	:33412	पेलिकॉन ट्रेवल सर्विसेज प्रा०लि०
914	:40048	पेल्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा०लि०
915	:34086	पेंगुइन प्रा०लि०
916	:37984	पीपुल्स फिनान्स लोन स्मॉल इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
917	:37451	पीपुल्स प्रोजेक्ट प्रा०लि०
918	:87586	पर्फेक्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स प्रा०लि०
919	:86957	पर्फेक्ट पैक एण्ड ट्रेड प्रा०लि०
920	:70885	पर्किन कॉमर्शियल प्रा०लि०
921	:81969	पेसेता ट्रेडिंग प्रा०लि०
922	:89196	पेस्मेको गैस सर्विसेज प्रा०लि०
923	:68711	पेटल सेल्स प्रा०लि०
924	:37024	पिक्कादली कलर्स प्रा०लि०
925	:032060	पिक विथर्स प्रा०लि०
926	:29817	पाइप सपोर्ट्स (इन्डो-ब्रिटिश) प्रा०लि०
927	:74361	पोलो वाणिज्य प्रा०लि०
928	:84507	पॉलीकैट केमिकल्स प्रा०लि०
929	:43244	पॉलीसिन्ट कॉन्टेनर्स प्रा०लि०
930	:40072	पोरवाल मेटल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
931	:74202	पॉवर डाटा प्रा०लि०
932	:23851	पॉवर इक्युपमेंट्स प्रा०लि०
933	:35351	पॉवर हैंडलर्स प्रा०लि०
934	:60675	प्रवेश फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
935	:82957	प्रभू ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
936	:79477	प्रदीप एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
937	:60649	प्रगति टेक्नोमेटिक्स प्रा०लि०
938	:78123	प्रज्ञा ट्रेडर्स प्रा०लि०
939	:81943	प्रकाश सेल्स एजेन्सी प्रा०लि०
940	:38506	प्रकृति एजेन्सीज प्रा०लि०
941	:81861	प्रनव मार्केटिंग प्रा०लि०
942	:51952	प्रतिदान सर्विसेज एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
943	:30075	प्रत्यूश टेक्सटाईल्स प्रा०लि०
944	:28200	प्रेसिमेक्स गज एण्ड टूल्स कम्पनी प्रा०लि०
945	:30091	प्रेकर्सर जेनरल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
946	:30076	प्रेम पॉवरलूम फैक्टरी प्रा०लि०
947	:26449	प्रेरकॉन स्ट्रक्चर्स प्रा०लि०
948	:80470	प्रिमेक्स मर्चेन्डाईज प्रा०लि०
949	:77605	प्रिन्ल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
950	:14281	प्रिन्टर्स कॉग्रेस प्रा०लि०
951	:51370	प्रीति इम्पेरेग्नेशन्स प्रा०लि०
952	:31439	प्रियदर्शी (इण्डिया) प्रा०लि०
953	:38882	प्रो कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
954	:38839	प्रोग्रेसिव रिसोर्सज प्रा०लि०
955	:72715	प्रोलिफिक एड-एजेन्सी प्रा०लि०
956	:068901	प्रोमैन कोमोडिटीज प्रा०लि०
957	:10394	प्रोस्पेक्टिव प्रोपर्टीज प्रा०लि०
958	:78160	प्रोटैन्शियल डेवलोकॉन प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
959	70798	प्रोटोकॉल प्लान्टेशन प्रा०लि०
960	40309	प्रोवा मार्केटिंग प्रा०लि०
961	32490	प्रयोजन प्रा०लि०
962	67178	पफको डीलर्स प्रा०लि०
963	84497	पुल्लोक मर्केन्टाईल्स प्रा०लि०
964	84497	पुल्लोक मर्केन्टाईल्स प्रा०लि०
965	31455	पुर्वाचल इस्टेट प्रा०लि०
966	43383	पुर्वाशा रिफ्रीजेशन प्रा०लि०
967	35115	प्योरटेक्स होटेल्स प्रा०लि०
968	31007	पुरुलिया चामेकल वर्क्स प्रा०लि०
969	86182	पुरुलिया हाइड्रो कार्बन्स प्रा०लि०
970	86210	पुर्वाचल टुर्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
971	70993	पुष्पसाला सेल्स प्रा०लि०
972	47448	क्वालिटी फिस्कल सर्विसेज प्रा०लि०
973	55636	क्वालिटी वाल्वर एण्ड स्पेयर्स प्रा०लि०
974	30150	क्वेम रेयोन एण्ड एलॉयड इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
975	027820	क्वीक ट्रेडर्स एण्ड फिनान्शियर्स प्रा०लि०
976	86276	आर डी इन्जीनियर्स एण्ड कंस्ट्रक्टर्स प्रा०लि०
977	85762	आर आर सॉफ्टवेक एजुकेशन प्रा०लि०
978	81823	आर.सुब्रामानियन चेम्बर्न प्रा०लि०
979	79551	आर.जी.एमो प्रा०लि०
980	20341	आर.एच.रोज प्रा०लि०
981	20341	आर.एच.रोज प्रा०लि०
982	47255	आर.के.क्रेडिट कम्पनी प्रा०लि०
983	11904	आर.एन.झुनझुनवाला एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
984	46410	आर.एस.मेटल्स प्रा०लि०
985	30692	आर.एस.बिजनेस मशीन्स प्रा०लि०
986	37098	रासायनिक प्रा०लि०
987	60391	रचना फूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
988	77857	रचना मर्केन्टाईल प्रा०लि०
989	70413	रदान्त ब्रोकिंग एण्ड एजेन्सी प्रा०लि०
990	43775	राधारागर अपार्टमेंट्स प्रा०लि०
991	89012	राधिका डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
992	45109	रेडियण्ट फोटो प्रा०लि०
993	76556	रघुनाथ फिस्कल सर्विसेज प्रा०लि०
994	30794	राय एस टी वेयरहाउसिंग कम्पनी प्रा०लि०
995	74363	रेनबो कॉमोर्ट्रेड प्रा०लि०
996	51582	रेनबो ऑफ-सेटर्स प्रा०लि०
997	51444	रेज इण्डिया लीजिंग एण्ड हायर पवर्ज प्रा०लि०
998	66429	रायसन सेल्स प्रा०लि०
999	78651	राजा डीलर्स प्रा०लि०
1000	38111	राजधानी विस्फोटक उद्योग प्रा०लि०
1001	55731	राजमान वाणिज्य प्रा०लि०
1002	054416	राजरितु इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
1003	86813	राली एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
1004	27132	राम जानकी जूट कम्पनी प्रा०लि०
1005	52073	राम ट्रेडर्स एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
1006	81324	राम अपराइज विल्डर्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1007	31695	रमेश कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
1008	85581	रामकृष्णा कॉन्टेनर्स प्रा०लि०
1009	28606	रामनगर साल्ट कम्पनी प्रा०लि०
1010	73322	रामराजा वाइन प्रा०लि०
1011	32594	रणदेव प्रा०लि०
1012	30680	रानी कॉटन्स प्रा०लि०
1013	30759	रानिगंज पम्प्स एण्ड एलॉयड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
1014	86627	रानिसति टाइ अप प्रा०लि०
1015	10117	रंजन एण्ड कम्पनी (ऑयरन एण्ड मोन्गर्स) प्रा०लि०
1016	86388	रेपिड कास्टोप्लेट प्रा०लि०
1017	72502	राशधारा सप्लायर्स प्रा०लि०
1018	23541	रसिकलाल पाठक एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
1019	36372	रतन कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
1020	055879	रत्ना सुटींग प्रा०लि०
1021	19596	रेमॉन एण्ड कम्पनी (इण्डिया) प्रा०लि०
1022	61691	रेसन इम्पेक्स प्रा०लि०
1023	54766	रेड-स्ट्रीप्स एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
1024	68928	रेडअलर्ट व्यापार प्रा०लि०
1025	70609	रेडस्ट्रीप डीलर्स प्रा०लि०
1026	51848	रिकोर्ड इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
1027	76790	रिलायबल इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
1028	86845	रिपोज ओवरसीज प्रा०लि०
1029	3777	रेवा कोल फिल्ड्स लिमिटेड
1030	37045	रेक्सवेल (इण्डिया) प्रा०लि०
1031	50901	रिच फिनवेस्ट प्रा०लि०
1032	80704	रिचफिल्ड माइनिंग प्रा०लि०
1033	20401	राइजिंग ईस्टर्न ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
1034	50391	रितार्च इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
1035	76081	रितेक्स मर्केन्टाइल प्रा०लि०
1036	64193	रोबर्ट व्यापार प्रा०लि०
1037	73323	रॉकेटिंग प्रोपर्टीज प्रा०लि०
1038	23836	रोजर्स इरिगेशन कम्पनी प्रा०लि०
1039	80181	रॉनीपेट प्रोपर्टीज प्रा०लि०
1040	40262	रॉक्सी फार्मासुटिकल्स प्रा०लि०
1041	87826	रोयैक्स प्रा०लि०
1042	34181	रबड रोलर्स कलकत्ता प्रा०लि०
1043	31675	रुबी (कैमेक) प्रोपर्टीज प्रा०लि०
1044	33653	रूमझुम हाससिंग इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
1045	30327	रुना चिट सेविंग्स एण्ड फिनांस कम्पनी लिमिटेड
1046	45070	रुंगटा कंस्ट्रक्शन्स प्रा०लि०
1047	26696	रूरल लैण्ड कम्पनी प्रा०लि०
1048	84219	एस बी पॉलीसोल प्रा०लि०
1049	86815	एस बी प्रोमोटर्स प्रा०लि०
1050	27058	एस बासु एण्ड कम्पनी (मेटल इन्जीनियर्स) प्रा०लि०
1051	037062	एस जी आर के (इण्डिया) प्रा०लि०
1052	40243	एस के सिंधी प्रोपर्टीज प्रा०लि०
1053	86650	एस मेडिको प्रा०लि०
1054	10598	एस पी दे एण्ड कम्पनी प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1055	89195	एस पी मेरिटाइम प्रा०लि०
1056	86041	एस एस बी ओवरसीज प्रा०लि०
1057	53660	एस.डी.कैमेक्स प्रा०लि०
1058	60849	एस.के.लुमिनायरे प्रा०लि०
1059	55960	एस.कान्त एक्जीम प्रा०लि०
1060	70837	एस.आर.फि.गन्स एण्ड सेकुरिटीज प्रा०लि०
1061	66513	सचर सेरॉमिक्स प्रा०लि०
1062	53618	सैक पैक प्रा०लि०
1063	70207	साधन विनिमय प्रा०लि०
1064	54319	साधना हाउसिंग प्रोमोटर्स प्रा०लि०
1065	031731	सफारी प्रा०लि०
1066	089866	सफेक्स इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
1067	60361	सागर सी फुड्स प्रा०लि०
1068	23795	सहारिया इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
1069	40362	सैनी इन्टरक्राफ्ट प्रा०लि०
1070	86409	सेलेक्ट-ओ-स्टील प्रा०लि०
1071	86283	साल्ट एण्ड एलॉयड वर्क्स प्रा०लि०
1072	54359	सम्प्रीति सुरक्षा फिनान्स एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
1073	46461	सम्राट हैण्डिक्राफ्ट्स प्रा०लि०
1074	70206	समता टेक्सटायल्स प्रा०लि०
1075	27254	संविक ट्रेडर्स प्रा०लि०
1076	79194	संयुक्ति गुड्स प्रा०लि०
1077	051025	राने हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
1078	81479	राधती प्रोपर्टीज प्रा०लि०
1079	54542	शान्तिपुर हैण्डलूम एण्ड इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेन्टर
1080	76533	सांज पब्लिशर्स प्रा०लि०
1081	28256	संजना सी फुड्स प्रा०लि०
1082	51814	सप्तासु इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
1083	28242	सराफ गाइन्स एण्ड मेटल्स प्रा०लि०
1084	70205	सारन डीलर्स प्रा०लि०
1085	86088	सरत मार्केट कम्प्लेक्स प्रा०लि०
1086	87887	सारथी कंसल्टन्सी एण्ड इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
1087	70934	सर्वमंगला एजेन्सीज प्रा०लि०
1088	88581	सर्वानन्द एग्रो वेस्ट प्रा०लि०
1089	75271	सरमित इम्पेक्स प्रा०लि०
1090	60268	सर्ना एयरकंडीशनिंग एण्ड रिक्रीजेशन कम्पनी प्रा०लि०
1091	43476	सारको इन्जीनियर्स प्रा०लि०
1092	76629	सेटेलाइट डीलर्स प्रा०लि०
1093	8735	रावरुघना इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
1094	86955	सातुन सेकुरिटीज प्रा०लि०
1095	81683	सत्यम राइस प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
1096	82867	सौरभ फेरो एलॉयड प्रा०लि०
1097	72999	सवेरा इम्पोर्ट प्रा०लि०
1098	90364	सायन एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
1099	67064	सायन ट्रेवल सर्विसेज प्रा०लि०
1100	31144	साइंटिफिक ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्रा०लि०
1101	81847	स्कॉच एण्ड कम्पनी (डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड ब्रेवरेज) प्रा०लि०
1102	9509	स्क्रीन कारपोरेशन (1938) प्रा०लि०

क्रम सं. कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1103 86025	सीरकान्ता एग्रो कम्पनी प्रा०लि०
1104 18007	सेलेक्टेड खास झरिया कोलियरी प्रा०लि०
1105 038467	सेमिकॉन सिस्टेम्स प्रा०लि०
1106 45032	सेम्मी वैली इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
1107 36290	सेन्टीनेल फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
1108 39278	सेटरक्वायर एडवर्टीजिंग (इण्डिया) प्रा०लि०
1109 86952	शैल ट्रान्सपोर्ट एण्ड एजेंसी प्रा०लि०
1110 82009	शक्ति मशीन्स एण्ड एलॉयड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
1111 43796	शक्ति पॉवर प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
1112 82099	शकुन कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
1113 43761	शंक्स फास्टनर्स प्रा०लि०
1114 88036	शरद इन्टरलिक्स प्रा०लि०
1115 037883	शार्प कॉमर्शियल प्रा०लि०
1116 51527	शार्प पेपर कवर्टर्स प्रा०लि०
1117 70136	शौनक टाइ-अप प्रा०लि०
1118 32609	साव स्कॉट डिरटीलेरिज प्रा०लि०
1119 46712	साव वैलेस एजुकेशनल इन्स्टीच्युशन प्रा०लि०
1120 23075	शेखर एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
1121 82059	शिक्षा फिनान्स प्रा०लि०
1122 35335	शीला लॉकिंग डेवाइसेज प्रा०लि०
1123 70352	शिल्पी ट्रेडकॉम प्रा०लि०
1124 47584	शिव शक्ति बिजनेस प्रा०लि०
1125 045348	शिवा एग्रो केम प्रा०लि०
1126 45244	शिवराम जूट एण्ड फाइबर ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
1127 76435	शिवर्पण कोमोडिटीज प्रा०लि०
1128 074610	शिवर्पण डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
1129 72764	शिवशक्ति हायर पर्चेज एण्ड लीजिंग प्रा०लि०
1130 32171	श्रमन ट्रेड्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
1131 55555	श्री बालाजी व्यापार एण्ड वाणिज्य प्रा०लि०
1132 33005	श्री बलदेव ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
1133 018074	श्री भारतीय ट्रेडिंग सिन्डीकेट प्रा०लि०
1134 28231	श्री मधुसुदन राइस मिल्स प्रा०लि०
1135 40163	श्री रानिसति जूट प्रा०लि०
1136 80705	श्री श्रीनिवास राइस मिल प्रा०लि०
1137 36203	श्री वेंकटेश उद्योग प्रा०लि०
1138 32353	श्रेष्ठ कॉमर्शियल कम्पनी प्रा०लि०
1139 54764	श्रेयांश ट्रेडर्स प्रा०लि०
1140 79577	श्री गुरु इन्जीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
1141 43620	श्री जगदम्बा लो एण्ड मेटालर्जिकल कोक मैनुफैक्चर
1142 70137	श्रीगौरी सेल्स प्रा०लि०
1143 86903	शुभम ऑटो प्रा०लि०
1144 80513	श्याम टेक्नो प्रा०लि०
1145 027841	श्यामली जौथा खमार प्रा०लि०
1146 76077	सिद्धार्थ सेल्स प्रा०लि०
1147 038503	सिद्धार्थ फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
1148 86716	साइन एड एण्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
1149 86705	सिग्नोन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
1150 81689	सिल्वरदीप ट्रेडर्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1151	66912	सिल्वरसन टाइ-अप प्रा०लि०
1152	54997	सिमर्ना एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
1153	77492	सिमि कोमोट्रेड प्रा०लि०
1154	81981	सिमरन ट्रेडिंग्स प्रा०लि०
1155	28224	सिन्हा एजेंसी प्रा०लि०
1156	23953	सरकार डेयरी एण्ड फार्म प्रा०लि०
1157	11463	सितलपुर कोल कम्पनी प्रा०लि०
1158	39887	सिवा कोल्ड स्टोरेज (रायगंज) प्रा०लि०
1159	60433	एसजे विजनेस प्रा०लि०
1160	55900	एसकेएस मार्केटिंग प्रा०लि०
1161	86601	स्काईलार्क नर्सिंग होम एण्ड पॉलीक्लीनिक प्रा०लि०
1162	81348	स्मार्ट सेकुरिटीज एण्ड फिनांस प्रा०लि०
1163	79743	एसएमई प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
1164	37524	स्मिता रबड़ वर्क्स प्रा०लि०
1165	43727	स्नोराइट प्रा०लि०
1166	33146	सोलर ऑक्सीजन प्रा०लि०
1167	32423	सोलर साइंटिफिक ग्लास इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
1168	030099	सोलफोन इण्डिया प्रा०लि०
1169	30068	सोल्वेन्ट सेर्विस यूनिट एण्ड चिट फण्ड प्रा०लि०
1170	8738	सोमनस होल्डिंग्स प्रा०लि०
1171	60777	सोनाटा कम्युनिकेशन एण्ड एडवर्टिजिंग प्रा०लि०
1172	79885	सोनाटा डायर्स गिल्ड प्रा०लि०
1173	76614	सौरव फिनान्सियल सर्विसेज प्रा०लि०
1174	36604	साउथ एण्ड इस्टेट्स प्रा०लि०
1175	36998	सोवन (इण्डिया) प्रा०लि०
1176	82875	स्पंदन कोमोडिटीज प्रा०लि०
1177	86996	स्पंदन डेवलपर्स प्रा०लि०
1178	30042	स्पेशल ऑयन एण्ड स्टील कार्टेजिज प्रा०लि०
1179	55623	स्पेक्ट्रम बिल्डर्स प्रा०लि०
1180	40356	स्पेक्ट्रम प्रोसेजर्स प्रा०लि०
1181	87818	स्पीड ट्रेक प्रा०लि०
1182	81699	स्पीडेक्स मार्केटिंग प्रा०लि०
1183	77612	एसपीजी फार्मासियुटिकल्स प्रा०लि०
1184	60331	स्पलेन्डोर एडवर्टिजिंग प्रा०लि०
1185	36406	स्पलेन्डोर पेन्ट्स प्रा०लि०
1186	81243	एसपीआर इंजीनियरिंग प्रा०लि०
1187	43714	एसपीआर ट्रेडर्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
1188	066913	स्क्वायर प्लस बार्टर प्रा०लि०
1189	66678	एसआर मास्टर म्यूजिक प्रा०लि०
1190	31016	श्री गोविन्दा (एसोसियेटेड) हाजियरी मिल्स प्रा०लि०
1191	51573	सृष्टि ट्रेडिंग एण्ड फिनवेर प्रा०लि०
1192	86134	श्री गणेश फुलेश्वरी क्लीनिक एण्ड नर्सिंग होम
1193	30865	श्री मुरारी राइस मिल्स प्रा०लि०
1194	18968	श्री निम्बरक प्रोपर कजोर कोल कम्पनी प्रा०लि०
1195	18381	श्री प्रकाश कम्पनी लिमिटेड
1196	72763	श्रीकृष्ण हायर पर्चेज प्रा०लि०
1197	81756	सृष्टि एम्प्रेरेल्स प्रा०लि०
1198	30202	स्टालियोन लेदर एण्ड बोर्ड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०

क्रम सं. कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1199 10003	स्टेण्डर्ड पेन्ट वर्क्स प्रा०लि०
1200 81625	स्टार इलेक्ट्रोफॉवर इक्युपमेंट्स प्रा०लि०
1201 70379	स्टारडोक्स कॉमर्शियल प्रा०लि०
1202 78277	स्टेटस मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
1203 28585	स्टेर्लिंग मिन-केम इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
1204 51552	स्टीच पैक प्रा०लि०
1205 76173	स्टोवेन कॉमर्स प्रा०लि०
1206 76688	स्ट्रीट लाइन व्यापार प्रा०लि०
1207 43742	स्ट्रोम कंट्रोल्ले (इलेक्ट्रीकल्स) प्रा०लि०
1208 54618	स्टाइलेक्स इण्डिया प्रा०लि०
1209 60389	स्टाइली ट्रेड प्रा०लि०
1210 067923	स्टाइक्स कॉमर्स प्रा०लि०
1211 43175	सुबनरेखा बिल्डर्स प्रा०लि०
1212 81817	सुबीर फोटोकॉम प्रा०लि०
1213 34014	सुजीकॉन मैनुफैक्चरिंग प्रा०लि०
1214 66619	सुख-धान डीलर्स प्रा०लि०
1215 67075	सुखसागर कोमोर्ट्रेड प्रा०लि०
1216 37800	सन ग्रेनाइट एण्ड मार्बल इण्डिया प्रा०लि०
1217 51540	सन शाइन टी प्लान्टेशन इण्डस्ट्री प्रा०लि०
1218 30272	सुन्दरम चिट्स एण्ड सेविंग्स प्रा०लि०
1219 80133	सुन्दरम सॉफ्टवेयर प्रा०लि०
1220 40273	सुन्दरवन कॉर्न इण्डस्ट्रीज कम्पनी प्रा०लि०
1221 081645	सुन्दरवन टेक्सट्राइ प्रा०लि०
1222 10452	सुन्दरदास एण्ड सन्स प्रा०लि०
1223 74060	सुनेप्स ट्राकॉन प्रा०लि०
1224 86889	सुनिल कॉलेक्शन प्रा०लि०
1225 38348	संकर वाच कम्पनी प्रा०लि०
1226 37072	सनशाइन बिजनेस प्रा०लि०
1227 54521	सनशाइन क्रेडिट एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
1228 54597	सनशाइन फिनवेस्ट कम्पनी प्रा०लि०
1229 88157	सनसॉफ्ट टेक्नोलॉजिज प्रा०लि०
1230 50120	सुष्कॉन इम्पेक्स (इण्डिया) प्रा०लि०
1231 76025	सुपर एक्युआ एण्ड मेरिन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
1232 31625	सुपर क्लॉक मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा०लि०
1233 31625	सुपर क्लॉक मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा०लि०
1234 28311	सुपर एक्सप्रेस रोडवेज प्रा०लि०
1235 80942	सुपर फार्मासिउटिकल्स मशीनेरिज प्रा०लि०
1236 30698	सुपरफ्लीट प्रा०लि०
1237 87836	सुप्रिम ट्रेक्जिम प्रा०लि०
1238 032052	सुरेशा फिनान्स प्रा०लि०
1239 37175	सुरेका कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
1240 27697	सुरेन्द्र एजेन्सीज प्रा०लि०
1241 70782	सुसीतल वाणिज्य प्रा०लि०
1242 054262	सुश्री इन्ट्रेड प्रा०लि०
1243 86124	स्वरूपनगर रहमानिया राइस मिल प्रा०लि०
1244 76693	स्वास्तिक सप्लायर्स प्रा०लि०
1245 074604	स्वाति कोमोडील प्रा०लि०
1246 31960	स्वाति इन्जीनियरिंग प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1247	038239	सिगोटेक्स बिजनेस प्रा०लि०
1248	24913	सिन्थेटिक डाइ स्टाफ कम्पनी प्रा०लि०
1249	85994	सिरटेम्स एनर्जीजर्स प्रा०लि०
1250	086180	टी.एम.शाह प्रा०लि०
1251	70140	तबरसुम मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
1252	38112	टीएसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
1253	18649	तमलुक हिन्दुस्तान मोटर ट्रान्सपोर्ट प्रा०लि०
1254	31861	तारक नाथ जेनरल फिनान्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
1255	50905	तारकनाथ फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
1256	37186	तरित स्ट्रक्चरल्स प्रा०लि०
1257	38669	तास्को ऑयल एण्ड जेनरल मिल्स प्रा०लि०
1258	60854	ततार सिरटेम्स प्रा०लि०
1259	67524	टेक्नो कॉमर्शियल प्रा०लि०
1260	67713	टेक्नो ट्राकोंग प्रा०लि०
1261	50878	टेराकॉन इन्जीनियर्स प्रा०लि०
1262	86011	टेक्सवूल इण्डिया प्रा०लि०
1263	51807	थर्डवेव प्रोपर्टीज प्रा०लि०
1264	28434	श्री ईएस इन्जीनियर्स प्रा०लि०
1265	43356	टिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
1266	44400	टायरोज मार्केटिंग प्रा०लि०
1267	37505	तिलोत्तमा फिनान्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा०लि०
1268	72789	टाइमेक्स कॉमर्शियल प्रा०लि०
1269	70214	तिलोकीनाथ एडकॉन प्रा०लि०
1270	87858	तिरुपति फाईल्स प्रा०लि०
1271	73969	तिरुपति मिहिक ट्रेडर्स प्रा०लि०
1272	84428	तिरुपति विन्ट्रेड प्रा०लि०
1273	81715	तियाशा कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा०लि०
1274	74924	टीएनटी फैशनस प्रा०लि०
1275	31759	टॉप फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
1276	70511	टॉपग्रेन कॉमर्शियल प्रा०लि०
1277	70618	टॉपग्रेन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
1278	70297	टॉपग्रेन गुड्स एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
1279	75365	टॉप्पर कॉमोडिटीज प्रा०लि०
1280	80950	टॉपटेक ट्रेडकॉम प्रा०लि०
1281	79196	टोटेन कॉमोडिटीज प्रा०लि०
1282	5116	ट्रेडर्स इम्पोर्टियम इण्डिया प्रा०लि०
1283	29801	ट्रावाकोर चिट फण्ड प्रा०लि०
1284	86766	टीआरबी ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी प्रा०लि०
1285	38874	ट्रेजर (इण्डिया) प्रा०लि०
1286	81648	ट्रीट टाइ अप प्रा०लि०
1287	54338	ट्रेण्ड इण्डिया मार्केटिंग एण्ड पब्लिकेशन प्रा०लि०
1288	40294	त्रि होल्डिंग्स प्रा०लि०
1289	37755	त्रिशिता प्रिन्टर्स प्रा०लि०
1290	35487	त्रिकैल इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
1291	37094	त्रिकेम फार्मासिउटिकल्स प्रा०लि०
1292	28543	त्रिगुण पिक्चर प्रा०लि०
1293	64258	त्रिकुट विनियोग प्रा०लि०
1294	074606	त्रिमास कोमोडील प्रा०लि०

क्रम सं. कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1295 30274	ट्रोइस टेक्निसियन्स प्रा०लि०
1296 26422	ट्रोप्पोन फार्माकेम प्रा०लि०
1297 62700	टफलिन एडवाइजरी सिस्टेम प्रा०लि०
1298 35711	टर्नकी प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) प्रा०लि०
1299 84489	तुषार कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०
1300 78083	ट्वीन्कल कोमोडिटीज प्रा०लि०
1301 31693	टाइपोग्राफिक्स प्रा०लि०
1302 084436	उद्यान मार्केटिंग प्रा०लि०
1303 70212	उद्यावाणी कोमोड्रेड प्रा०लि०
1304 30688	उज्जैनी रोलिंग मिल्स प्रा०लि०
1305 76695	उजाला सेल्स एजेन्सीज प्रा०लि०
1306 77412	उलेख मर्चेंडाइज प्रा०लि०
1307 14892	यूलिक बिजनेस एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
1308 54893	यूलिक फिनान्स प्रा०लि०
1309 54773	यूलिक रिसोर्सिज प्रा०लि०
1310 36498	उल्लिक (होटेल्स) प्रा०लि०
1311 43619	अल्टीमेट फिनान्स प्रा०लि०
1312 030604	अल्ट्रा फार्मा प्रा०लि०
1313 76540	अल्ट्रा ड्रेडकॉन प्रा०लि०
1314 28696	यूनि फिल्टर कम्पनी प्रा०लि०
1315 60455	यूनिकॉर्न सिस्टेम प्रा०लि०
1316 38311	यूनिफायर कॉन्सल्टन्स प्रा०लि०
1317 37086	यूनिक एक्जुरेट्स प्रा०लि०
1318 85653	यूनिमेग मार्केटिंग प्रा०लि०
1319 78262	यूनिप्रो इन्फोटेक प्रा०लि०
1320 32568	यूनिक रोडवेज प्रा०लि०
1321 35076	यूनाइटेड एकाउंटिंग सिस्टेम एण्ड सर्विस प्रा०लि०
1322 028437	यूनाइटेड डक्टाइल कास्टिंग प्रा०लि०
1323 74448	यूनाइटेड राइस इन्जीनियरिंग एण्ड केमिकल कम्पनी प्रा०लि०
1324 54236	यूनिटी एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
1325 34171	उन्नाव पेपर मिल्स प्रा०लि०
1326 37944	उषा टूल्स मैनुफैचरिंग प्रा०लि०
1327 70781	उत्तमआशा मर्चेंट्स प्रा०लि०
1328 035580	उत्तर बंग प्लास्टिक्स प्रा०लि०
1329 18101	उत्तरायन प्रा०लि०
1330 37843	वी.वी. प्लास्टिक्स प्रा०लि०
1331 55691	वेदिका फिन्को प्रा०लि०
1332 60584	वैदिक लीजिंग एण्ड फिनान्स कम्पनी प्रा०लि०
1333 038589	वैशाली आइस एण्ड रिफ्रीजरेशन प्रा०लि०
1334 72895	वाटिका एजेन्सी प्रा०लि०
1335 50689	वाटिका इन्वेस्टर्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा०लि०
1336 73486	वैकटेश्वर सर्विसेज प्रा०लि०
1337 43610	वेनस इन्जीनियरिंग कंसर्न प्रा०लि०
1338 20075	वेनस ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
1339 31337	वेस्ता इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
1340 68955	विजय नवशक्ति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
1341 032016	विक्रान्त ग्लास इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
1342 61726	विनाम रिसोर्सिज प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1343	70367	विन्लाइन गुड्स प्रा०लि०
1344	54126	वर्गो डेवलपर्स एण्ड फिन्वेस्ट प्रा०लि०
1345	26839	विमानी साहनी एजेन्सीज प्रा०लि०
1346	19544	विवेकानन्द क्लीनिक्स प्रा०लि०
1347	72670	वालडेन मार्केटिंग प्रा०लि०
1348	50314	वैल्लेम टी गार्डेन्स प्रा०लि०
1349	78222	वारसाव एजेन्सीज प्रा०लि०
1350	79699	वे लिक बार्टर प्रा०लि०
1351	37866	वेड हिन्दुस्थान पॉवर प्रा०लि०
1352	64230	वेलकम टाइ-अप प्रा०लि०
1353	37442	वेलफाट जेनरल फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
1354	70603	वेलफलेस ट्रेडर्स प्रा०लि०
1355	80848	वेलकीन कम्युनिकेशन्स प्रा०लि०
1356	46950	वेलकीन मार्केटाईल्स प्रा०लि०
1357	72838	वेलफ्यूवर डीलर्स प्रा०लि०
1358	067053	वेल्मेट एक्जुआ प्रा०लि०
1359	70057	वेल्टेक कॉमर्शियल प्रा०लि०
1360	23326	वेस्ट बेंगाल रोडवेज प्रा०लि०
1361	30070	वेस्ट बेंगाल सेविंग्स एण्ड एग्रीकल्चरल फिनान्स प्रा०लि०
1362	011956	वेस्टर्न ऑक्सी-एसीटीलीन एण्ड इलेक्ट्रीक वेल्डिंग कम्पनी प्रा०लि०
1363	052062	व्हील्स विनियोग एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
1364	81874	व्हाइट होरिजोन (इण्डिया) प्रा०लि०
1365	76084	विन्टेक्स एजेन्सी प्रा०लि०
1366	70369	विन्दुर सेल्स प्रमोशन प्रा०लि०
1367	38614	विन्वूड कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
1368	51381	वॉन्डर कॉन्टेनर्स प्रा०लि०
1369	78344	क्षितिज सप्लायर्स प्रा०लि०
1370	38980	याक कॉमर्शियल कम्पनी प्रा०लि०
1371	43703	यामिनी कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
1372	32377	यांत्रिक इक्विपमेंट प्रा०लि०
1373	055979	याशिका इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
1374	32743	यॉर्क पेट्रो केमिकल्स प्रा०लि०
1375	28396	यग इलेक्ट्रीकल इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
1376	86575	युथ लेण्डवेस्ट प्रा०लि०

उज्जवल राय
कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1.	71308	ए.के.मीनी राईस मिल प्रा०लि०
2.	71162	ए.ओ.बी.प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
3.	62704	आकृति प्लास्टिक्स प्रा०लि०
4.	44620	अपार मुद्रण प्रा०लि०
5.	44172	आरेक्स कॉमर्शियल प्रा०लि०
6.	74986	आर्मी इस्टेट्स प्रा०लि०
7.	44183	आविष्कार स्मॉल इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
8.	80785	एसेकॉम इलेक्ट्रो-इन्जीनियर्स प्रा०लि०
9.	60710	एड-ए-कैब सर्विसेज प्रा०लि०
10.	40792	एड-इन्डास प्रा०लि०
11.	80116	एडवॉस इलेक्ट्रो पॉवर प्रा०लि०
12.	24045	अजन्ता सोप एण्ड कॉस्मेटिक्स कम्पनी प्रा०लि०
13.	82215	अका फिन्वेस्ट प्रा०लि०
14.	80555	आकाश हाउस प्रा०लि०
15.	81537	एकेसी इन्जीनियर्स प्रा०लि०
16.	82180	अख्तर फुटवीयर्स प्रा०लि०
17.	72123	अलिका बार्टर एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
18.	46040	अलिपुर प्रोडक्शन्स प्रा०लि०
19.	39624	अलोक एण्ड अरविन्द (इन्जीनियर्स) प्रा०लि०
20.	25894	अमरज्योति ग्लास वर्क्स प्रा०लि०
21.	24507	अम्बिका टेक्सटाईल मिल्स प्रा०लि०
22.	72592	एएनबी टेक्नो प्रा०लि०
23.	23615	एन्सीलेरी इण्डस्ट्रीज लग्स प्रा०लि०
24.	82187	एंकलेश्वर सर्विसेज एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
25.	42410	एंटाकर्टिक कूलर्स प्रा०लि०
26.	81727	अनुभव मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
27.	82501	अपरोशा प्लान्टेशन्स प्रा०लि०
28.	85438	एपीएस पेट प्रा०लि०
29.	27905	आर्सी ट्रेड (मैरिन कॉन्ट्रेक्टर्स) प्रा०लि०
30.	26292	अरविन्द स्टील्स प्रा०लि०
31.	46154	आसनसोल स्मॉल स्केल कॉंटेज उद्योग प्रा०लि०
32.	27906	अशोका म्युचुअल बनेफिट स्कीम्स प्रा०लि०
33.	26326	एसियन फोर्जिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
34.	24477	आसाम बिहार कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
35.	11050	एसोसियेटेड मेटल इण्डस्ट्रीज ऑफ इण्डिया प्रा०लि०
36.	80105	एस्ट्रा ट्राकॉम प्रा०लि०
37.	72486	अतिथि कॉन्चिन प्रा०लि०
38.	13557	अतुल चन्द्र पाल तरिणीचरण प्रा०लि०
39.	24789	ऑटो मेन्डर प्रा०लि०
40.	18928	बी बी सी प्रा०लि०
41.	18909	बी एम मंत्री एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
42.	72322	बी.टी.इन्फोटेक प्रा०लि०
43.	27827	बी.पी.केमिकल्स प्रा०लि०
44.	82137	बी.एस.टी.इन्टरनेशनल प्रा०लि०
45.	24238	बाडु स्टील वर्क्स प्रा०लि०
46.	44311	बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
47.	9883	बंगलोर व्हाइट लीड सिन्डीकेट प्रा०लि०
48.	81472	बान्गो फार्म हाउस प्रा०लि०
49.	18388	बानिक संघ प्रा०लि०
50.	18036	बांकुड़ा ऑटोमोबाइल कम्पनी प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
51.	71234	बार्च इंजीनियर्स प्रा०लि०
52.	24261	बर्ना कुटिर प्रा०लि०
53.	46586	बासु मार्केटिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा०लि०
54.	9993	बेहार कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०
55.	18875	बलियाघाटा टिम्बर वर्क्स प्रा०लि०
56.	42535	बेल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
57.	60715	बेंगाल पोर्सलैन कम्पनी (1993) प्रा०लि०
58.	61604	भद्रकाली इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
59.	23905	भगवानदास इस्टेट्स प्रा०लि०
60.	18441	भारत ओरियेंट कारपोरेशन प्रा०लि०
61.	23929	भारद्वाज इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
62.	46715	भोज केटरर्स प्रा०लि०
63.	39161	भौमा टूल्स प्रा०लि०
64.	6309	बिधु भूषण दस एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
65.	80349	विद्याधरी एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
66.	27988	बिहार कोल सिन्डीकेट प्रा०लि०
67.	46017	बिर पैकेजिंग्स प्रा०लि०
68.	26270	बिरभूम माइनिंग प्रा०लि०
69.	29430	बिरकैयने (इण्डिया) प्रा०लि०
70.	81593	विश्वास सोलर इन्स्ट्रुमेण्ट प्रा०लि०
71.	82474	ब्युसर्किल ट्रेडलिक प्रा०लि०
72.	18347	बॉब फ्रेमजी प्रा०लि०
73.	11356	बुक लैण्ड प्रा०लि०
74.	23877	ब्राइटवेल प्रा०लि०
75.	72111	बजट कैपिटल प्रा०लि०
76.	72110	बजट डेवलपर्स प्रा०लि०
77.	46443	बुलथारब रबड प्रोसेस प्रा०लि०
78.	26224	बिजनेस एण्ड कम्प्यूटिंग मशीन्स प्रा०लि०
79.	39901	बक्सटन-फे फार्मासिएटिकल्स प्रा०लि०
80.	72284	सी.डी.कम्प्यूटर्स प्रा०लि०
81.	41555	केबल्स (इण्डिया) प्रा०लि०
82.	81881	कलकत्ता बिस्कुट्स प्रा०लि०
83.	72483	कैपकोयन ट्रेडलिक प्रा०लि०
84.	18957	कार केयर प्रा०लि०
85.	72392	केयर ड्रग-केम प्रा०लि०
86.	26285	केमेयॉन प्रा०लि०
87.	71728	केमिक्स स्ट्रक्चरल प्रा०लि०
88.	72460	सेन्चुरी ब्रोकिंग एण्ड एजेन्सी कम्पनी प्रा०लि०
89.	25885	चक्रवर्ती एण्ड घोष (कस्ट्रक्शन) प्रा०लि०
90.	7986	चामरिया ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
91.	23356	चन्दन टिम्बर ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
92.	80423	चन्द्रिमा कॉमर्शियल प्रा०लि०
93.	61240	चार्ट प्वाइन्ट कन्सोलिडेशन प्रा०लि०
94.	80865	चेरी कॉमर्शियल प्रा०लि०
95.	62997	चोपरा होम्स प्रा०लि०
96.	82580	चौधरी लीजिंग प्रा०लि०
97.	11268	चौधरी राय एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
98.	62417	क्लाइमेक्स मार्केटिंग प्रा०लि०
99.	18476	कॉमर्शियल ट्रस्ट प्रा०लि०
100.	46051	कॉम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रा०लि०
101.	82175	कम्पु-क्वेस्ट सिस्टम्स सॉफ्टवेयर्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
102.	23961	कन्सर्न प्रा०लि०
103.	27682	कॉन्ट्रोमेटिक इन्जीनियर्स प्रा०लि०
104.	72658	कॉन्टशिप कोमोडील प्रा०लि०
105.	42411	कूल होम कम्पनी प्रा०लि०
106.	24951	कोपे प्रा०लि०
107.	24223	कॉरपोरेट इलेक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
108.	42351	क्रेडेन्स प्लास्टो इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
109.	82249	साइबर डिजिटल सिस्टम्स प्रा०लि०
110.	23826	डी.के.आदित्य एण्ड ब्रदर्स प्रा०लि०
111.	26280	दासनगर पौल्ट्री फार्म प्रा०लि०
112.	71773	डावसन बार्टर प्रा०लि०
113.	81100	डीसीएमबी कम्युनिक सिस्टम्स प्रा०लि०
114.	29968	डी.कॉम चिट एण्ड सेविंग्स कम्पनी प्रा०लि०
115.	23925	देवी चित्रम प्रा०लि०
116.	24147	देवी टेक्सटाईल्स प्रोसेजर्स प्रा०लि०
117.	82579	डेलीट ट्रेडर्स प्रा०लि०
118.	46724	डीपेनडेबल डेवलपर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
119.	74937	डबी मार्केटिंग प्रा०लि०
120.	74895	देववर्षा मार्केटिंग प्रा०लि०
121.	74863	धनधान ट्रेक्जिम प्रा०लि०
122.	61100	धनोदय ट्रेक्जिम प्रा०लि०
123.	42696	डायमेट हाई टेक इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
124.	85358	डिजिटल सोर्स प्रा०लि०
125.	82606	डिग्निटी कॉमर्शियल प्रा०लि०
126.	74802	डिप्लोमेट ट्राकॉन प्रा०लि०
127.	41184	डायवर्स प्रोजेक्ट्स एण्ड सर्विसेज इण्डिया प्रा०लि०
128.	74891	दिव्यश मार्केटिंग प्रा०लि०
129.	61716	डीएलएस एक्सप्रेस प्रा०लि०
130.	81436	डोना कलर-लैब प्रा०लि०
131.	60870	डॉवेल व्यापार प्रा०लि०
132.	72652	द्रव्य कोमोडील प्रा०लि०
133.	39599	ड्रीमलैण्ड मर्केन्टाईल्स प्रा०लि०
134.	12122	डुबराजपुर राइस मिल्स प्रा०लि०
135.	23977	दत्ता रपाइस प्रा०लि०
136.	80515	डायनेमिक इन्टरेड मैनेजमेन्ट प्रा०लि०
137.	46554	डायनेटेक मशीनेरीज प्रा०लि०
138.	24916	ईस्ट चपटोरिया कोल कम्पनी प्रा०लि०
139.	11351	ईस्ट गोधर कोलियरी प्रा०लि०
140.	62087	ईस्ट वेस्ट आर्बिट्रेज इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
141.	23494	ईस्ट जोन कारपोरेशन प्रा०लि०
142.	71599	इस्टेन्ड एक्सपोर्ट प्रा०लि०
143.	18657	ईस्टर्न एरोसियेटेड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
144.	39911	ईस्टर्न कूलिंग कम्पनी प्रा०लि०
145.	26241	ईस्टर्न फोरम प्रा०लि०
146.	26510	एडकॉन्स (इण्डिया) प्रा०लि०
147.	41460	ईडीपी सर्विसेज प्रा०लि०
148.	80560	एग्रा कॉमर्शियल कृषि बंधु फिनान्स कं० प्रा०लि०
149.	24959	इलेक्ट्रीकल इन्सुलेशन ट्यूब्स प्रा०लि०
150.	23663	इलेक्ट्रो फैब्रिक्स प्रा०लि०
151.	24708	इलेक्ट्रो प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
152.	39906	इलपी फुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
153.	71069	इमुलसो प्लास्ट प्रा०लि०
154.	72481	इपिका ट्राकॉन प्रा०लि०
155.	75820	एक्सेल ईस्टेट्स प्रा०लि०
156.	9075	एक्सेलसियोर पौल्ट्री एण्ड एग्रीकल्चरल फार्म प्रा०लि०
157.	71716	एक्जोटिक टाई-अप प्रा०लि०
158.	40001	इजोन कूलिंग एण्ड इलेक्ट्रीकल इक्युपमेंट्स प्रा०लि०
159.	26219	फातेमाबाद टी कम्पनी प्रा०लि०
160.	74801	फेडरिक सप्लायर्स प्रा०लि०
161.	25908	फेरस कास्टिंग्स एण्ड इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
162.	24282	फिल्म ट्रेडर्स प्रा०लि०
163.	82537	फिटवर्थ इम्पेक्स प्रा०लि०
164.	82598	फिवोवस डेवलपर्स प्रा०लि०
165.	71409	फलीयूरॉन टाईअप प्रा०लि०
166.	80582	फ्लोरा एजेन्सी ट्रेड प्रा०लि०
167.	72468	फोनसार्क कोमोडिटीज प्रा०लि०
168.	23667	फोनटानिया इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
169.	80850	फ्यूचर कोमोडो ट्रेड प्रा०लि०
170.	18429	जी पी सी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
171.	59027	जी.एम.आर.कंसल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड
172.	26278	जी.आर.फाउण्ड्रीज प्रा०लि०
173.	71617	गजया निर्माण प्रा०लि०
174.	62471	गामा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
175.	71652	गांधीसाया प्रोपर्टीज प्रा०लि०
176.	13378	गणपत्राय एण्ड सन्स (1946) प्रा०लि०
177.	26290	जेनरल कास्टिंग्स प्रा०लि०
178.	42550	घोष कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
179.	71373	ग्लेशियर मार्केटिंग प्रा०लि०
180.	26297	ग्लीमी साईन्टिफिक ग्लास वर्क्स प्रा०लि०
181.	72609	गॉडस्पीड कोमोसेल्स प्रा०लि०
182.	24342	गोसाबा बिल्डर्स एण्ड ट्रेडर्स प्रा०लि०
183.	71645	गुणप्रेविष्टया प्रोपर्टीज प्रा०लि०
184.	71653	गुणसम्पन्न प्रोपर्टीज प्रा०लि०
185.	71720	गुरुगुणय प्रोपर्टीज प्रा०लि०
186.	72320	हकीम जूट टवीन प्रा०लि०
187.	74815	हेलो डीलर्स प्रा०लि०
188.	25888	हैम्परमैन प्रा०लि०
189.	24497	हेमो एण्ड सन्स प्रा०लि०
190.	23752	हरण चन्द्र साहा प्रा०लि०
191.	23436	हरिहरपुर मल्टीपर्स फार्म प्रा०लि०
192.	9073	हरिपुर फार्मर्स सिन्डीकेट प्रा०लि०
193.	72475	हवेल टाई-अप प्रा०लि०
194.	46541	हीना रियल इस्टेट्स प्रा०लि०
195.	80503	हाई-टेक इण्डस्ट्रीयल प्लान्ट्स प्रा०लि०
196.	75819	हाईलैण्ड डेवलपर्स प्रा०लि०
197.	62682	हिल्टॉन केमिकल्स प्रा०लि०
198.	24948	हिन्द लाईन्स प्रा०लि०
199.	18181	हिन्दुस्तान एसोसोरिज एण्ड ऑटोमोबाईल प्रा०लि०
200.	21228	हिन्दुस्तान इन्टरप्राइजेज लिमिटेड
201.	13236	हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रीज एण्ड मशीन मैनुफैक्चरिंग कं० प्रा०लि०
202.	71408	ऑनेस्टपेन्नी कोमोसेल्स प्रा०लि०
203.	29435	होशिटल एप्लियान्सेज मैनुफैक्चरिंग कं० इण्डिया प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
204.	72866	हावडा टेक्सटाईल्स प्रोसेसर्स प्रा०लि०
205.	18847	हरिश चन्द्र बोस एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
206.	67335	इच्छा एजेन्ट्स प्रा०लि०
207.	13984	इम्पेक्स ट्रेडर्स प्रा०लि०
208.	8048	इण्डिया पिक्चर्स प्रा०लि०
209.	23906	इण्डियन एण्ड फोरेन ट्रेडिंग कारपोरेशन प्रा०लि०
210.	42283	इण्डियन बोटलटॉप्स प्रा०लि०
211.	13427	इण्डियन सोप एण्ड ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
212.	25923	इण्डियन टैक्स केसेज पब्लिकेशन्स प्रा०लि०
213.	27627	इण्डिजेनस इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
214.	29823	इन्द्रामेक प्रा०लि०
215.	24834	इण्डस्ट्रीयल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स प्रा०लि०
216.	42349	इन्फो-एड सर्विसेज प्रा०लि०
217.	4883	इन्टरनेशनल टायर्स एण्ड मोटर्स प्रा०लि०
218.	72203	इन्टेक्स इण्डिया कंसल्टेन्ट्स प्रा०लि०
219.	25907	आईओटीए इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
220.	24007	जे.एन.डागा एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
221.	39412	जागरण फिनान्शियल कम्पनी प्रा०लि०
222.	29311	जैन टेक्सटाईल एजेन्सीज एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
223.	46667	जणगण लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड क्रेडिट प्रा०लि०
224.	24219	जसकरम सोहन लाल प्रा०लि०
225.	60192	जीवन सरिता हाउसिंग फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि०
226.	72051	जेकेएम हाउसिंग प्रा०लि०
227.	74778	जोलेन बार्टर प्रा०लि०
228.	11710	जोरकुरी कोल कम्पनी प्रा०लि०
229.	46477	जेएसएन मार्केटिंग प्रा०लि०
230.	18824	जुगान्तर छाया (प्रतिष्ठान) प्रा०लि०
231.	42454	जूहुदी ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
232.	72660	जूपेक्स सेल्स एण्ड सप्लाय प्रा०लि०
233.	44989	के सी इन्जीनियरिंग एण्ड सर्विसेज प्रा०लि०
234.	23580	के एल प्रा०लि०
235.	23437	कैलाश चन्द्र पाल एण्ड सन्स प्रा०लि०
236.	8547	कालिथान सुरातन कोलियरी प्रा०लि०
237.	23509	कैल्लोल चित्र प्रा०लि०
238.	18823	कल्पना मूविज प्रा०लि०
239.	29996	कल्पतरु चिट एण्ड क्रेडिट कम्पनी प्रा०लि०
240.	3127	कमलालय (एक्सपोर्ट) प्रा०लि०
241.	39306	कमप्राद (इण्डिया) प्रा०लि०
242.	72382	कामरूप इन्जीनियर्स प्रा०लि०
243.	24095	कामरूप इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
244.	23702	कनक इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
245.	9078	कंगा एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
246.	23207	करनपुर इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
247.	82538	कर्नाफुल्ली बिल्डर्स एण्ड प्रोमोटर्स (इण्डिया) प्रा०लि०
248.	81855	कावेरी फिन्वेस्ट प्रा०लि०
249.	80483	काव्या वेयरहाउसिंग प्रा०लि०
250.	25895	केसेल पावर इन्जीनियर्स प्रा०लि०
251.	80493	केमेर बागशेव मैनुफैक्चर्स कम्पनी (1996) प्रा०लि०
252.	26207	खाण्डेवल राइस मिल्स प्रा०लि०
253.	29176	खरदाह नूतन बाजार प्रा०लि०
254.	11838	खास गणेशपुर कोल माइन्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
255.	74777	किलोडेमा बार्टर प्रा०लि०
256.	72467	किलोडेमा मर्केन्टाईल्स प्रा०लि०
257.	74885	किप्पी गुड्स एण्ड सप्लाय प्रा०लि०
258.	27896	किशान ट्यूब्स प्रा०लि०
259.	71591	कोहिनूर इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
260.	9917	कूण्डु चौधरीज प्रा०लि०
261.	60911	कुशल व्यापार प्रा०लि०
262.	11141	लाहा इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
263.	46270	लैनेक फार्मासिउटिकल्स (इण्डिया) प्रा०लि०
264.	72478	लेकवेस्ट कोम्मोट्रेड प्रा०लि०
265.	46020	लक्ष्मी डायक प्रा०लि०
266.	9060	लक्ष्मी शिपिंग कम्पनी प्रा०लि०
267.	82453	लीजेन्ड इलेक्ट्रोविजन प्रा०लि०
268.	82880	लाइमलाईट कोम्मोडील प्रा०लि०
269.	81497	लोलेक्स इम्पेक्स (इण्डिया) प्रा०लि०
270.	46092	लोटस सेविंग्स एण्ड क्रेडिट कम्पनी प्रा०लि०
271.	23937	एम.एल.दत्ता एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
272.	29048	एम.पी.केशन प्रा०लि०
273.	46522	माँ बताई चण्डी हाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
274.	71671	मैडपास मार्केटिंग प्रा०लि०
275.	71405	महंत कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
276.	23720	मैती साल्ट्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
277.	42076	मालदा फ्लावर मिल्स प्रा०लि०
278.	85112	मालिंकार्जुन स्टील्स प्रा०लि०
279.	13216	मैनेजमेंट्स प्रा०लि०
280.	24200	मानिक ब्रदर्स प्रा०लि०
281.	80485	मांकरम फैब्रिकेटर्स प्रा०लि०
282.	26317	मनोज ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
283.	72573	मनोत शैयर्स एण्ड सेकुरिटीज प्रा०लि०
284.	33670	मनराग प्रिन्टिंग एण्ड पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
285.	23623	मैरिन रेफरिंग एण्ड इलेक्ट्रीक प्रा०लि०
286.	81147	मास्क मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
287.	46778	मैक्सफिल्टर प्रा०लि०
288.	42267	मैक्सी-क्रोप्स प्रा०लि०
289.	74839	एमडीए पब्लिकेशन्स प्रा०लि०
290.	23829	मेकेनिजेशन प्रा०लि०
291.	74958	मेगासिन गुड्स एण्ड सप्लाय प्रा०लि०
292.	61242	मेरिडियन मैरिन शिपिंग एजेन्सीज प्रा०लि०
293.	41468	माइक्रो प्रोपर्टीज प्रा०लि०
294.	59871	मिडलटन इस्टेट्स प्रा०लि०
295.	46166	मिनोल्टा इन्वेस्टमेंट्स प्रा०लि०
296.	71037	मोनोटोन्स व्यापार प्रा०लि०
297.	37305	मानसून (इण्डिया) प्रा०लि०
298.	23204	मोल्डर्स प्रा०लि०
299.	23760	मूवी इन्टरनेशनल प्रा०लि०
300.	62901	एमआरसी मोडुलर मार्केटिंग प्रा०लि०
301.	40150	मूखर्जी चौधरी एण्ड एसोसियेट्स प्रा०लि०
302.	39650	मुकुल कॉस्मेटिक्स प्रा०लि०
303.	46636	मल्टीमिक्स मार्केटिंग प्रा०लि०
304.	13786	मुरी प्रोपर्टीज प्रा०लि०
305.	81370	मुर्शिदाबाद फार्म हाउस प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
306.	60392	एन.आर.पॉलीक्लीनिक एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रा०लि०
307.	25886	एन.एस.कुमार कॉन्टेक्टर्स प्रा०लि०
308.	71306	नस्कर प्रोपर्टीज प्रा०लि०
309.	23993	नटबर दत्ता प्रोपर्टीज प्रा०लि०
310.	13195	नेशनल ग्लास इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
311.	72238	नवयुग डेवलपमेंट प्रा०लि०
312.	80486	नीलाम्बूल लेमिनेटर्स प्रा०लि०
313.	26293	नियो-एग्रो फार्मिंग प्रा०लि०
314.	81569	नेविगेटिंग मर्चेन्ट्स प्रा०लि०
315.	13224	न्यू इरा इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
316.	23003	न्यू मॉडर्न स्ट्रक्चरल एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
317.	61356	एनएच बिल्डर्स प्रा०लि०
318.	18370	निप्पोनस्टील प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
319.	23230	निवा ऑटो सर्विस प्रा०लि०
320.	23722	नियोगी पिक्चर्स प्रा०लि०
321.	72713	नॉर्थ बेंगाल प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
322.	46510	नॉर्थ इण्डिया ऑटोमोबाइल्स प्रा०लि०
323.	72577	नोवोनिका बार्टर प्रा०लि०
324.	26204	ओ.के.बैटरी प्रा०लि०
325.	72700	ओसियनस एकजीम प्रा०लि०
326.	81483	ओडिसी स्पॉन्ज स्टील कम्पनी लिमिटेड
327.	85511	ऑरगेनिक एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
328.	26213	ओरियन्ट सिटी बुक कम्पनी प्रा०लि०
329.	26281	ओरियन्ट स्ट्रीप्स एण्ड पाईप्स प्रा०लि०
330.	9228	ओरियन्टल इस्टेट्स एण्ड मैनुफैक्चर्स प्रा०लि०
331.	23971	ओरियनवे प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
332.	18925	पी.सी.सी. प्रा०लि०
333.	80058	पी.सरजुबाला लोकनाथ पेपर मिल्स प्रा०लि०
334.	75805	पैसिफिक न्यूट्रीयेन्ट्स प्रा०लि०
335.	26267	पंचल वायर एण्ड बोर्ड इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
336.	74969	पंचानन एजेन्सीज प्रा०लि०
337.	61118	पंडित रामचन्द्र शर्मा आयुर्वेदिक फार्मसी प्रा०लि०
338.	62153	परिचय इम्पेक्स प्रा०लि०
339.	74775	परिजात एडवाइजरी प्रा०लि०
340.	23664	पार्क एसेटेन्स प्रा०लि०
341.	80416	पॉल चौधरी प्लास्टिक्स प्रा०लि०
342.	81982	पायेल कॉमर्शियल प्रा०लि०
343.	72114	पी पी बी कंसल्टेन्ट्स प्रा०लि०
344.	72317	पियुश गैसेज प्रा०लि०
345.	24228	प्लास्टिक पावडर्स प्रा०लि०
346.	24144	प्लुटोनियन हार्डवेयर एण्ड मेटल्स प्रा०लि०
347.	23565	पॉलीथिन इण्डस्ट्रीयल पाइप एण्ड इक्युपमेंट प्रा०लि०
348.	46120	प्रभात ट्यूब्स प्रा०लि०
349.	30649	प्रगति टेक्नोमेटिक्स प्रा०लि०
350.	31861	प्रनव मार्केटिंग प्रा०लि०
351.	29351	प्रेट्टी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
352.	44881	प्राइम फिल्मस प्रा०लि०
353.	46580	प्रिजिम प्रिन्ट्स प्रा०लि०
354.	18902	प्रोड्यूसर्स फोरम प्रा०लि०
355.	72116	प्रोग्रेसिव ट्राकॉम प्रा०लि०
356.	31618	प्रोसपेरस कोमोडिटीज प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
357.	80264	क्वालिटी विनिमय प्रा०लि०
358.	46608	आर सी कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
359.	25919	आर.वी.एन.बैटरीज प्रा०लि०
360.	24984	राधा कृष्ण खेतान एण्ड सन्स प्रा०लि०
361.	82459	रेडियल एक्सपोर्ट प्रा०लि०
362.	18885	रेडियो एण्ड एसेसोरिज (इण्डिया) प्रा०लि०
363.	13878	रेडियोनिक्स प्रा०लि०
364.	9932	राजकूमार गुजाधर एण्ड सन्स प्रा०लि०
365.	25914	राजकमल उद्योग प्रा०लि०
366.	74979	राजपुताना मर्केन्टाइल प्रा०लि०
367.	80275	राम प्रताप हाउस प्रा०लि०
368.	80315	रामकृष्ण ट्रेडर्स प्रा०लि०
369.	72561	रामनिक एक्सपोर्ट प्रा०लि०
370.	80182	रामनिक होल्डिंग्स प्रा०लि०
371.	39371	रैंक कॉमर्स प्रा०लि०
372.	74806	राशधारा बार्टर प्रा०लि०
373.	74923	रथयान कॉमर्शियल प्रा०लि०
374.	61014	रेक्सोला इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
375.	24717	रिजेन्ट कैलेन्डर प्रा०लि०
376.	26300	रेमिको इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
377.	72540	रॉकवर्थ ग्रेनाइट्स प्रा०लि०
378.	46681	रोहन एजेन्सीज प्रा०लि०
379.	24471	रोला (इण्डिया) प्रा०लि०
380.	24521	रूबी ऑयल (इण्डिया) प्रा०लि०
381.	60203	रायदक कंसल्टेन्सी प्रा०लि०
382.	23477	एस जी बोस एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
383.	23482	एस एम दे एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
384.	24715	एस वी इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
385.	85417	एस.डी.मर्केन्टाईल्स प्रा०लि०
386.	24955	एस.के.इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
387.	80463	एस.आर.ट्वीन्स प्रा०लि०
388.	80091	सेफ्टी फिन्कोम प्रा०लि०
389.	18600	सागर ब्रदर्स प्रा०लि०
390.	72629	साहा प्रमोटर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
391.	62702	सहस्र जूट प्रा०लि०
392.	41665	सैला प्रोपर्टीज प्रा०लि०
393.	26291	सनातन आयरन एण्ड स्टील चैन मैनुफैक्चरिंग कं० प्रा०लि०
394.	46013	संयुक्त हाउसिंग सोसाइटी प्रा०लि०
395.	72164	सपना टीडीफिन प्रा०लि०
396.	74974	सप्त रश्मी गुड्स एण्ड सप्लाय प्रा०लि०
397.	39910	सराफ एयर कंडीशनिंग कम्पनी प्रा०लि०
398.	40002	सराफ शीट मेटल वर्क्स प्रा०लि०
399.	72083	सरकार एसोसियेटेड इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
400.	75373	सरनाम इन्टरप्राइजेज प्रा०लि०
401.	74912	सरताज ट्राकॉन प्रा०लि०
402.	82550	एसएसएस कुरियर प्रा०लि०
403.	82272	सेटेलाइट लेदर फैशन प्रा०लि०
404.	72840	सती सिन्टेक्स प्रा०लि०
405.	13039	सतीश चन्द्र चटर्जी एण्ड सन्स प्रा०लि०
406.	60883	सतकीर्ति कोम्मोट्रेड प्रा०लि०
407.	23915	सत्यजीत राय प्रोडक्शन्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
408.	26268	सेलेक्टस इन्जीनियर्स प्रा०लि०
409.	61241	सर्वोनव इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०
410.	23819	शादोस इन्टरनेशनल प्रा०लि०
411.	25903	शाह एण्ड संघवी ट्रेडर्स प्रा०लि०
412.	82101	शकुन बिजनेस एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
413.	18064	शर्मा एण्ड कम्पनी प्रा०लि०
414.	13166	शेरगढ़ प्रोपर्टीज प्रा०लि०
415.	81570	शिव दानी कोमोडोरेड प्रा०लि०
416.	46623	शिव स्ट्रेस्सड प्रेफैब स्ट्रक्चरल्स प्रा०लि०
417.	74880	श्रद्धांजली मार्केटिंग प्रा०लि०
418.	25913	श्री माधवजी फिनान्स प्रा०लि०
419.	71665	श्री संयोगिता व्यापार प्रा०लि०
420.	81494	श्री श्री माँ तारा राइस मिल प्रा०लि०
421.	44035	श्रीखंड डेवलपर्स प्रा०लि०
422.	72630	सिद्धि दाता डेवलपर्स प्रा०लि०
423.	80447	सिल्वर लाइन मीडिया प्रा०लि०
424.	81689	सिल्वरदीप ट्रेडर्स प्रा०लि०
425.	24015	सिन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
426.	23574	सिन्दरी आयरन फाउण्ड्री प्रा०लि०
427.	42172	एसकेबी कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
428.	72074	एसकेपी स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
429.	23062	स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
430.	82468	स्नोटैम्प मार्केटिंग प्रा०लि०
431.	26205	सोदपुर बाली एण्ड ऑयल मिल्स प्रा०लि०
432.	80720	सॉफ्टशोर सिस्टेम्स प्रा०लि०
433.	11544	सोहनलाल मोहनलाल प्रा०लि०
434.	23713	सोलेस ड्रग्स प्रा०लि०
435.	39414	सोलेक्स बिजनेस प्रा०लि०
436.	44834	सूराजपेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
437.	80385	सौमित्रा फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
438.	25891	साउथ कलकत्ता प्रेस प्रा०लि०
439.	26277	सदर्न ड्रग सप्लायज एण्ड स्टोर्स प्रा०लि०
440.	85473	स्पेनिन केम प्रा०लि०
441.	44930	श्री वृद्धि फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
442.	18982	श्री हुरदूतराय जूट मिल्स प्रा०लि०
443.	24299	श्री राम कृष्ण स्टोर्स एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०
444.	46628	स्टालिओन प्लास्टिकेम् इण्डिया प्रा०लि०
445.	24266	स्टील फर्नीचर प्रा०लि०
446.	71149	स्टीचर्स एक्जीम प्रा०लि०
447.	41951	सुभाह पिकचर्स प्रा०लि०
448.	20546	सुधीर चन्द्र दास एण्ड सन्स (इण्डिया) प्रा०लि०
449.	81813	सुगम कॉमर्शियल प्रा०लि०
450.	24309	सुहरिद इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०
451.	61698	सुख फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा०लि०
452.	82345	सनस्टार विनकॉम प्रा०लि०
453.	80942	सुपर फार्मासिउटिकल्स मशीनेरिज प्रा०लि०
454.	24779	सूरज उद्योग प्रा०लि०
455.	75791	सूर्या डेस्क टू डेस्ट सर्विसेज प्रा०लि०
456.	72579	सूर्याशी इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
457.	81636	एसवी कंसल्टेंट्स प्रा०लि०
458.	23733	स्वदेशी इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
459.	81325	स्वस्तिक पब्लिसिटी प्रा०लि०
460.	24501	स्वीनी ट्रान्सपोर्ट प्रा०लि०
461.	72655	सिग्नस सिस्टेम्स प्रा०लि०
462.	72521	तमन्ना डील कॉम प्रा०लि०
463.	72380	तपांग होटेल एण्ड रिसोर्ट्स प्रा०लि०
464.	72354	तराई कोमोडिटीज प्रा०लि०
465.	72853	तराई इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
466.	85181	तारामाँ डेयरी प्रा०लि०
467.	72559	टौरस कॉन्टेनर्स प्रा०लि०
468.	26276	टौरस इक्युपमेंट प्रा०लि०
469.	24985	टेक्नो लेबोरेटोरिज इण्डिया प्रा०लि०
470.	24783	थिन फोर कम्पनी प्रा०लि०
471.	24290	तिलोकचन्द सेठिया प्रा०लि०
472.	24012	टिन्कर प्रा०लि०
473.	39851	तिरुपति ऑडियोविजुअल्स प्रा०लि०
474.	62556	त्रिनिटि डाटामेटिक्स प्रा०लि०
475.	72068	तुल्ली प्रोपर्टीज प्रा०लि०
476.	29170	टर्नकी इन्जीनियरिंग प्रा०लि०
477.	71681	टीवीएच सॉफ्टवेयर प्रा०लि०
478.	72526	टायफोर्ड विन्ट्रेड प्रा०लि०
479.	24469	यू.बी.फिल्म्स प्रा०लि०
480.	44781	यूजेएस रोलिंग स्टीप्स प्रा०लि०
481.	42781	उमा मेडिको सर्जिकल एण्ड फार्मासुटिकल्स प्रा०लि०
482.	42692	उमान होल्डिंग्स प्रा०लि०
483.	61069	उमंग ट्रेड एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
484.	26210	उमातारा टेक्नीको प्रा०लि०
485.	23355	यूनिकॉम सेल्स प्रा०लि०
486.	26308	युनाईटेड टूल्स मेकर्स प्रा०लि०
487.	71175	उपवन मार्केटिंग सर्विसेज प्रा०लि०
488.	27844	उत्कल एक्सपोर्टर्स प्रा०लि०
489.	24192	उत्कल प्रोपर्टीज एण्ड फिनान्स प्रा०लि०
490.	62853	वी.बी मर्केन्टाइल प्रा०लि०
491.	23188	वी.जी.चावदा प्रा०लि०
492.	82182	वालाजी फिन्कॉन प्रा०लि०
493.	89737	वारी मीडिया एण्ड प्रिन्ट प्रा०लि०
494.	72532	वरुण टेक्सट्रेड प्रा०लि०
495.	72684	वीरसाली सेल्स प्रमोशन प्रा०लि०
496.	72028	वर्टेक्स मर्केन्टाइल प्रा०लि०
497.	26296	विनोद वाणिज्य प्रा०लि०
498.	82265	वामिका एम्सपोर्ट्स प्रा०लि०
499.	74807	वेलविशर ट्राकॉन प्रा०लि०
500.	42569	वेस्ट बेंगाल लॉ रिपोर्टर प्रा०लि०
501.	29338	वेस्ट बेंगाल फार्मासुटिकल्स एंड फिटोकेमिकल डेवलपमेंट
502.	81874	व्हाइट होरिजोन (इण्डिया) प्रा०लि०
503.	46555	विन फिल्म एडवर्टाईजिंग सर्विसेज प्रा०लि०
504.	23054	वूड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
505.	62599	वूल फेल्टर्स प्रा०लि०
506.	72531	योगिनी कोमोडिटीज प्रा०लि०
507.	74921	जी मैनेजमेंट प्रा०लि०
508.	71224	जेफिर कैपिटल एण्ड सेक्युरिटीज प्रा०लि०
509.	42263	जूक केमिकल्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1.	38788	21स्वी सेन्चुरी प्रोजेक्ट प्रा०लि०
2.	35798	ए.के.भट्टाचार्यजी एन्ड को० प्रा०लि०
3.	16772	ए.एन. घोष प्रा०लि०
4.	50571	ए. के.रिसोर्ट्स प्रा०लि०
5.	28699	ए.एन एश एन्ड को० प्रा०लि०
6.	27414	आइन बारता प्रकाशनी प्रा०लि०
7.	37246	आरके शिल्पा उद्योग प्रा०लि०
8.	32195	ए. बी नॉटोमैच प्रा०लि०
9.	51631	अभी ट्रेड एन्ड क्रेडिट प्रा०लि०
10.	66112	अभिलासा वेनकॉम प्रा० लि०.
11.	81011	अभियन्ता मल्टी सिस्टमस प्रा०लि०
12.	38858	अबीरवब इंडिया प्रा०लि०
13.	053029	एबीएम इलक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्रा०लि०
14.	029658	एसीटो ड्रग्स प्रा०लि०
15.	53694	एकूमेन (जे) मार्केटिंग प्रा०लि०
16.	36814	एडी प्रोसेस एन्ड मार्केटिंग को० प्रा०लि०
17.	30964	एडी थियेटर प्रा०लि०
18.	37618	एडफोकस प्रा०लि०
19.	78706	आदित्य विनट्रेड प्रा०लि०
20.	66448	एडोनिश प्रोपरटीज प्रा०लि०
21.	80484	एडवैथा पेट्रो केमिकल्स प्रा०लि०
22.	32455	एडवान्सड अपरेटस(इलक्ट्रिकल्स) प्रा०लि०
23.	33994	एडवान्सड पोलिमर्स प्रा०लि०
24.	53976	एडवान्सड सिस्टम्स इंजिनियर्स प्रा०लि०
25.	31698	एडवानी डेवेलपर्स प्रा०लि०
26.	34512	एडवीयम लेबोरेटरीज प्रा०लि०
27.	15976	एयरोफायल्स प्रा०लि०
28.	52772	एजीडी कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०
29.	66114	अहिंसा डीलकॉम प्रा०लि०
30.	70037	अहरीवाल रेसिंग फिनेन्स प्रा०लि०
31.	76793	एआइसी सी फुड्स प्रा०लि०
32.	030300	एयर कम्प्रेसर एन्ड न्यूमैटिक टूल्स (इंडिया) प्रा०लि०
33.	30286	अजन्ता पोर्टलेण्ड पोजोलाना सिमेन्ट एन्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०
34.	52738	अजय वेली एग्रो फोरेस्ट्री डेवलपमेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा०लि०
35.	001988	आकाक्षा इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा०लि०
36.	80948	आकाश कन्सलटेन्सी प्रा०लि०
37.	60530	अलबेट्रोस इक्विपमेन्ट्स मेन्यूफैक्चरर्स प्रा०लि०
38.	20869	एलेक्स मिलर (मद्रास) प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
39	17770	एलेक्स मिलर (मरचेन्ट्स) प्रा०लि०
40	75653	एलेक्सिन्स फरमास्यूटिकल्स प्रा०लि०
41	72712	अल्फा एन्ड ओमेगा इंजिनियर्स प्रा०लि०
42	43150	आल्विन बिल्डर्स प्रा०लि०
43	44573	आल्प्स ट्रर्स प्रा०लि०
44	38154	अमर सेवा कोष प्रा०लि०
45	76791	अमेरिकन हेल्थकेयर एन्ड फुड प्रा०लि०
46	70751	एम्पलीवोक्स ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
47	79164	अमृत मैनेजमेन्ट प्रा०लि०
48	57980	आनम एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
49	32688	आनंद मेडिकल हाल प्रा०लि०
50	29581	आनंदलोक अपार्टमेन्ट्स प्रा०लि०
51	37479	एन्कर होटल्स प्रा०लि०
52	16102	एन्डरसन राइट (रामगढ़) प्रा०लि०
53	80754	जेल्ल्स सिरिल प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
54	60643	अनिल फिनांसियल सर्विसेस प्रा०लि०
55	53752	अनीरवन फुड एन्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
56	53393	अंकिता अपलाइनस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
57	16491	अन्नापूर्णा फार्मिंग एन्ड फिशरी प्रा०लि०
58	64190	अनुकम्पा मेरचेन्ट्स प्रा०लि०
59	032169	अनुपम प्लास्टिक प्रा०लि०
60	66012	अनुराग आटो प्रिशिसन प्रा०लि०
61	33831	अनुराग बिल्डर्स प्रा०लि०
62	52660	अनुश्री एन्ड अनुश्री मेरकन्डाइस प्रा०लि०
63	77986	अनुसिखा ट्रेडिंग को० प्रा०लि०
64	55012	अनुवर्त फिनेन्स प्रा०लि०
65	37974	एषेक्स कोम्बाइन्स प्रा०लि०
66	31132	एपीएच प्रा०लि०
67	87392	अपोलो कम्प्रीटीज प्रा०लि०
68	40527	अपोलो कन्सलटेन्ट्स प्रा०लि०
69	80456	एकुआ केसकेड प्रा०लि०
70	76746	अराधना पोलिमर्स प्रा०लि०
71	80030	आराग्या नर्सिंग होम प्रा०लि०
72	33836	आरती इलेक्ट्रीकल्स एन्ड इंजिनियर्स प्रा०लि०
73	36298	आरावली मार्केटिंग एन्ड इंजिनियरिंग प्रा०लि०
74	26606	अककॉन स्ट्रक्चरर एन्ड प्रा०लि०
75	64289	अरीहन्ट कम्प्रीटीज प्रा०लि०
76	32321	अरोती टूल्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
77.	78008	एरोस चेम प्रा०लि०
78.	61756	आर्थर ब्लूम डाइग्नोस्टिक्स (इंडिया) प्रा०लि०
79.	36353	आर्यादाहा पेपर इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०
80.	20251	आर्याबरता एन्ड को० प्रा०लि०
81.	31779	आसनसोल कन्स्यूमर्स एजेन्सी प्रा०लि०
82.	77458	आसनसोल फार्म हाउस प्रा०लि०
83.	38779	आसनसोल टॉकीज प्रा०लि०
84.	38320	आशा ग्लास इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०
85.	30417	आशाखायर एन्ड वुड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
86.	1037254	एशतर डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०
87.	24636	अशोक फेब्रिकेटिंग इंडस्ट्रीज प्रा०लि०
88.	34039	अशोका श्रेयान्स एन्ड को० प्रा०लि०
89.	66111	अश्वमी मेरचेन्ट्स प्रा०लि०
90.	15425	एशियाटिक कन्स्ट्रक्शन एन्ड टान्सपोर्ट को० प्रा०लि०
91.	31709	एसफल इंडिया प्रा०लि०
92.	32421	एसपाइरिंग इंजिनियर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स प्रा०लि०
93.	27923	एसोसिएटड (होम प्रोडक्ट्स) डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
94.	31244	एसोसिएटड सिस्टम्स प्रा०लि०
95.	20109	एसोसिएटड पायोनियर ट्रेडर्स प्रा०लि०
96.	50167	एसुरेन्स होल्डिंग्स प्रा०लि०
97.	53103	आस्था रिसोर्सस प्रा०लि०
98.	30843	अटाक फरमास्यूटिकल्स प्रा०लि०
99.	30959	एटीज हेलीडेज एन्ड केमिकल्स प्रा०लि०
100.	89975	एटीएस पोल्टरी एन्ड इक्विपमेन्ट्स प्रा०लि०
101.	17378	अट्टा टेक्स्टाइल्स प्रा०लि०
102.	20819	आटो गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०
103.	16139	आटोमोबाइल सर्विस एन्ड इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०
104.	53576	अविनाशी कन्सलटेन्सी एन्ड मार्केटिंग प्रा०लि०
105.	72828	अविन्या ट्रेडिंग प्रा०लि०
106.	54470	अजीज टोबॉको कम्पनी प्रा०लि०
107.	60942	बी. आर फाउन्डेशन प्रा०लि०
108.	23731	बी.के.साहा एन्ड सन्स प्रा०लि०
109.	10643	बी. एन.कुमार एन्ड को० प्रा०लि०
110.	53864	बी.ए.आर. केरियर्स प्रा०लि०
111.	55358	बी.डी. एलेक्ट्रोमेक प्रा०लि०
112.	55358	बी.डी. एलेक्ट्रोमेक प्रा०लि०
113.	40537	बेबीलोन कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०
114.	74654	बादल रबर वर्क्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
115.	50442	बदुरिया बोर्ड एन्ड लॉमिनेटिंग इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०
116.	34185	बेफसन कमर्शियल प्रा०लि०
117.	77947	बागरी रिसोर्स प्रा०लि०
118.	27613	बैदनाथ आइरन एन्ड स्टील प्रा०लि०
119.	36424	बैदनाथ ऑइल रेफिनेरीज प्रा०लि०
120.	77233	बैशनो मेरकेनटाइल प्रा०लि०
121.	79835	बाज गार्डेन्स प्रा०लि०
122.	52730	बजरंग टी प्लानटेशन प्रा०लि०
123.	44718	बजरंगबली फाउन्डरी प्रा०लि०
124.	52808	बालाजी केपिटल इन्वेस्टर्स प्रा०लि०
125.	70059	बालेश्वर मरचेन्ट्स प्रा०लि०
126.	29522	बनारसी इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा०लि०
127.	81096	बनर्जी एगरो प्रा०लि०
128.	53676	बंगाल फाइबरोप्लास्ट प्रा०लि०
129.	44220	बाँकुरा स्टील इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०
130.	51018	बंसलता फिनेन्स एन्ड सेविंग्स कम्पनी प्रा०लि०
131.	30449	बारानगर ब्रास फाउन्डरी प्रा०लि०
132.	82446	बर्मन टेडर्स प्रा०लि०
133.	31314	बसंत फ्रूट प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
134.	012578	बसीरहाट सिनेमा को० प्रा०लि०
135.	89014	बासच फरमास्यूटिकल्स प्रा०लि०
136.	31892	बाउमान लुफ्तमान प्रा०लि०
137.	31967	बेको साइकल्स प्रा०लि०
138.	35738	बीसोको प्लास्टोचेम प्रा०लि०
139.	53096	बेइ-इची कम्प्यूटोनिक्स प्रा०लि०
140.	30263	बेलानगर चिट एन्ड सेविंग्स को० प्रा०लि०
141.	009820	बंगाल आर्ट प्रेस प्रा०लि०
142.	053229	बंगाल बॉक्स (1991) प्रा०लि०
143.	11244	बंगाल मिल्स एजेन्सी प्रा०लि०
144.	76773	बेनटेक भारतीया इंजीनियर्स प्रा०लि०
145.	30203	बहरामपुर चिट एन्ड इन्वेस्टमेन्ट को० प्रा०लि०
146.	16494	बियाद प्रा०लि०
147.	16499	भागीरथी बरफ समिति प्रा०लि०
148.	70179	भोसमेन्ड सेल्स प्रा०लि०
149.	20237	भुटोरिया एन्ड सन्स प्रा०लि०
150.	44597	बिभास एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
151.	016115	बिहार साहित्या भवन प्रा०लि०
152.	20661	बिस्वास मोटर सर्विस प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
153.	32281	ब्लोकी एन्ड सन (कलकता प्रा०लि०)
154.	31331	ब्लू चेम प्रा०लि०
155.	31281	ब्लू ओशियन मेराइन प्रा०लि०
156.	89862	ब्लू स्काइ ट्रेक्स एन्ड ट्रॉवल्स (इंडिया) प्रा०लि०
157.	66610	ब्लूस्टार सप्लायर्स प्रा०लि०
158.	72386	बॉडी इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा०लि०
159.	037276	बोलांगीर स्टील एन्ड रोलिंग मिल्स प्रा०लि०
160.	38571	बॉन इंडिया एमएफजी प्रा०लि०
161.	83027	बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०
162.	70622	ब्रिजधारा टेक्सट्रेड प्रा०लि०
163.	020759	ब्राउन इलेक्ट्रिक को० प्रा०लि०
164.	35047	बीएसएस मेटल मेनुफैक्चरिंग को० प्रा०लि०
165.	17797	बरनट डेविस एन्ड को० प्रा०लि०
166.	44537	सी.जी. केरियर प्रा०लि०
167.	27717	सी.जी. इंजिनियरिंग प्रा०लि०
168.	28528	कलकता एलॉय एन्ड स्टील ट्रेडर्स प्रा०लि०
169.	20096	कलकता एल्युमिनियम वर्क्स प्रा०लि०
170.	31072	कलकता बोर्ड मिल्स प्रा०लि०
171.	18622	कलकता सेंट्रल कन्स्ट्रक्शन को० प्रा०लि०
172.	18508	कलकता कन्स्ट्रक्टरस प्रा०लि०
173.	30084	कलकता एक्सट्रूशन्स प्रा०लि०
174.	54566	कलकता फेक्टोरिंग एन्ड पोर्टफियो मैनेजरस प्रा०लि०
175.	36581	कलकता होमियो लेबोरेटरी प्रा०लि०
176.	38560	कलकता इन्डस्ट्रीयल एनालिटिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रा०लि०
177.	27417	कलकता प्रेस्टीरेड प्रा०लि०
178.	44933	कलकता यूरोलॉजी रिसर्च सेंटर प्रा०लि०
179.	79029	केनडियाना फुड्स प्रा०लि०
180.	38955	केसल ओक इंडिया प्रा०लि०
181.	31866	केची सेविंग्स एन्ड फिनेन्स लि०
182.	35295	केथेय एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
183.	54552	सेडार फरमास्यूटिकल वर्क्स प्रा०लि०
184.	36840	सीजीएम इंजीनियर्स एन्ड सर्विसस प्रा०लि०
185.	54114	चेलेन्जर राइस मिल एन्ड कॉटेज प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
186.	012893	चाँदबाली राइस मिल्स प्रा०लि०
187.	53073	चन्द्रा आकाश फिनेन्स एन्ड हाउसिंग को० प्रा०लि०
188.	020510	चन्द्रा इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०
189.	79270	चेरियट एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
190.	20617	चटर्जी हाजरा प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
191.	64194	चेम्बुर मार्केटिंग प्रा०लि०
192.	12568	केमिकल एन्ड फरमास्यूटिकल्स सप्लाई एजेन्सी प्रा०लि०
193.	35890	केमीकोट (इंडिया) प्रा०लि०
194.	60844	चेरी कोमोट्रेड प्रा०लि०
195.	70013	चिक मेरकॉनडाइस प्रा०लि०
196.	77270	चिरमी कमोडीटीज प्रा०लि०
197.	77505	छोक्सी मशीनरी प्रा०लि०
198.	17911	चौरंगी होटल प्रा०लि०
199.	31593	क्रोम चेम (इंडिया) प्रा०लि०
200.	20213	क्रोम मेटल वर्क्स प्रा०लि०
201.	015812	सिटी एक्सीबीटरर्स प्रा०लि०
202.	30058	सिटी सर्विसस एन्ड हाउलेज को० प्रा०लि०
203.	18178	सिटी स्टोर सप्लाई को० प्रा०लि०
204.	43181	सिटीकेप डेवलपरर्स प्रा०लि०
205.	27412	सिवलमेक प्रा०लि०
206.	36177	सिविटेक निर्माण प्रा०लि०
207.	51629	क्लेटॉफ कन्सलटेन्ट्स प्रा०लि०
208.	67184	कोसिट्रा गुड्स प्रा०लि०
209.	70120	कॉकबर्न डिस्ट्रीब्यूटरर्स प्रा०लि०
210.	20683	कोक ओवन कन्स्ट्रक्शन को० प्रा०लि०
211.	34560	कोलिम्बया रबर रोलर्स एन्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०
212.	031240	कोमनवेल्थ एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
213.	77442	कोम्पास ट्रेडिंग प्रा०लि०
214.	36572	कोनेज पेपर प्रा०लि०
215.	61667	कॉनकोर्ड एक्सीम इंडिया प्रा०लि०
216.	31404	कनसारटियम प्रोपरटीज प्रा०लि०
217.	34532	कन्स्ट्रक्टीव कन्स्ट्रक्शन को० प्रा०लि०
218.	12819	कनटेनरर्स (इंडिया) प्रा०लि०
219.	030081	कन्ट्रोल गियर्स (बंगाल) प्रा०लि०
220.	67454	कूलब्रेन विनमोय प्रा०लि०
221.	44128	कोव्न्पोर फिनेन्स प्रा०लि०
222.	80424	सीआरए फिनेन्स प्रा०लि०
223.	78218	क्रिएटिव एडवाइसरी प्रा०लि०
224.	30662	क्रिस्टालिन प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्रा०लि०
225.	8043	कुथारट्सन एन्ड हारपर इंडिया प्रा०लि०
226.	70753	सिरिलिक डीलर्स प्रा०लि०
227.	31750	डी.एस प्लाइवुड प्रा०लि०
228.	64023	डी एस मेडी सिस्टम्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
229.	55380	डी.डी.फीड कम्पनी प्रा०लि०
230.	53036	डी.एच. मेन्टरर्स प्रा०लि०
231.	40587	डी.रेन आटो एसेसरीस प्रा०लि०
232.	23305	दफ्तर सिल्पा प्रतिष्ठान प्रा०लि०
233.	74829	दमाला ट्रेकॉन प्रा०लि०
234.	70272	डारकिन ट्रेडिंग प्रा०लि०
235.	30748	डरयानी एन्ड सन्स प्रा०लि०
236.	38465	दास टी एन्ड फिनेन्स प्रा०लि०
237.	54624	दास टेक प्रा०लि०
238.	52918	दास वायर एन्ड फिनेन्स प्रा०लि०
239.	66753	दाशी एक्सपोर्ट्स प्रा०लि०
240.	79190	दयामाजी कर्मशियल प्रा०लि०
241.	060557	देबाम बिल्डरर्स एन्ड इम्पेक्स प्रा०लि०
242.	74533	देबदीप टायरर्स प्रा०लि०
243.	27998	देबोनी रेफिरिजेशन प्रा०लि०
244.	44513	देबटेक एक्सपोर्टर्स एन्ड बिल्डरर्स (इंडिया) प्रा०लि०
245.	53601	दीपाबाली सेविंग्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि०
246.	55906	देल्स्टार सेविंग्स एन्ड कमर्स प्रा०लि०
247.	43791	देमाक ब्रिक्स प्रा०लि०
248.	37333	दियोघर स्टील रोलिंग मिल्स प्रा०लि०
249.	76833	डरबी व्यापार प्रा०लि०
250.	31721	देशप्रान इन्डसट्रीयल डेवलपमेन्ट को० प्रा०लि०
251.	54575	देया नेया फिनेन्स एन्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्रा०लि०
252.	054418	डीजीएचसी ट्रिज्म डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन प्रा०लि०
253.	60890	धान प्रयोग टेडरर्स प्रा०लि०
254.	70330	धान ट्रेडलिक प्रा०लि०
255.	83217	धानानिया मेरकेनटाइल प्रा०लि०
256.	70105	धानशाला व्यापार प्रा०लि०
257.	60738	धनश्री विनियोग प्रा०लि०
258.	44160	धिनजान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि०
259.	67600	धूमसेन कमर्स प्रा०लि०
260.	37557	डायलॉग रिसर्च एन्ड एप्लीकेशन प्रा०लि०
261.	23318	डाइमन्ड हारबर आइरन स्टोर प्रा०लि०
262.	37789	डाइमन्ड टी को० प्रा०लि०
263.	20692	डाइना प्रा०लि०
264.	67191	डिडयानिया फिनेन्स प्रा०लि०
265.	51498	दिलवारा पेपर इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०
266.	28383	दीपक एक्सपो ट्रेडरर्स प्रा०लि०

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
267.	60385	दीपशिखा एजेन्सी लि०
268.	30929	दिसीपेपर एन्ड बोर्ड मिल्स प्रा०लि०
269.	79981	डिवाइन सेक्युरीटीज प्रा०लि०
270.	80921	दिव्या दृष्टि कोमोट्रेड प्रा०लि०
271.	52892	दिव्याद्राष्ट्र ट्रेडर्स एन्ड कमर्शियल्स प्रा०लि०
272.	74893	दिव्यांश गुड्स एन्ड सपलाइ प्रा०लि०
273.	077675	डाल्फिन प्रोजेक्ट्स प्रा०लि०
274.	54477	डोलसेम्स कमर्शियल प्रा०लि०
275.	30413	डोवर इंजिनियरिंग प्रा०लि०
276.	70028	डोवल डीलकोम प्रा०लि०
277.	44441	डाउनइस्ट टोवरर्स प्रा०लि०
278.	024409	डबसन वाटरप्रूफ वर्क्स प्रा०लि०
279.	66605	दुलाल ट्रेडिंग प्रा०लि०
280.	32250	दमदम प्लासिक्स प्रा०लि०
281.	74295	इरोसील फ्लूरोसील प्रा०लि०
282.	30398	डाइनामिक सिस्टम प्रा०लि०
283.	053259	इ.इ.आइ टेक्नलॉजी प्रा०लि०
284.	27480	इस्ट इंडिया केश क्रेडिट को० प्रा०लि०
285.	85772	इस्ट वेस्ट एयर कन्डीशनिंग प्रा०लि०
286.	36579	इस्टर्न आडियो प्रा०लि०
287.	36400	इस्टर्न कोल ट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०
288.	38642	इस्टर्न डाइनामिक्स प्रा०लि०
289.	30480	इस्टर्न मल्टीमेक्स प्रा०लि०
290.	28482	इस्टर्न रिफाइनरी इक्विपमेन्ट्स एन्ड सर्विसेस प्रा०लि०
291.	9812	इस्टर्न टाइप फाउन्डरी एन्ड ओरियन्टल प्रिन्टिंग वर्क्स प्रा०लि०
292.	79007	इकोनामी मेरकॉनडाइज प्रा०लि०
293.	17697	एडीसन इलेक्ट्रिक एन्ड इंजिनियरिंग को० प्रा०लि०
294.	20610	एडवार्ड मोडर्न केमिकल्स (इंडिया) प्रा०लि०
295.	30285	एलीगेन्ट कम्पोजिस्ट्स प्रा०लि०
296.	70759	एम्पोस टाइ-अप प्रा०लि०
297.	32635	एमट्रोनिक्स प्रा०लि०
298.	79979	एपीक सेक्युरीटीज प्रा०लि०
299.	70854	एपसन सेल्स प्रा०लि०
300.	070841	एपसन सपलाइ प्रा०लि०
301.	12399	इक्वेटेबल इन्वेस्टमेन्ट को० प्रा०लि०
302.	28992	इस्टर्न केमी कलर्स प्रा०लि०
303.	35302	एस्वी टोबॉको प्रा०लि०
304.	82394	इटीआइ (इंडिया) प्रा०लि०

उज्जवल राय
कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नई-6, दिनांक 05 सितम्बर 2007

संख्या 40509 से 50127 तक/560(3)/एसयूओ मोटो-2006--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अनुसार पर उक्त कम्पनीयों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कंपनियाँ विघटित की जाएगी।

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	40509	एस ट्रैन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2	40518	स्पीड लैन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
3	40527	ऐएनआरए मेडि & बयो-टेक् प्राइवेट लिमिटेड
4	40537	मार्क यू एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	40581	शा टेलिलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
6	40593	प्रसन्ना सिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	40614	ओवैसिया पेट्रो लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
8	40615	शिवानंदा केटिल ब्रीडिंग एण्ड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
9	40628	जंबो एक्सप्रेस सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
10	40664	विलयिल चिट्स (कुलित्तुरै) प्राइवेट लिमिटेड
11	40665	जयदेव इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
12	40707	हेप्ता एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
13	40724	विनो पेपर एण्ड प्लास्टिक बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
14	40735	फ्लेक्सग्लास शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	40740	ईस्ट फील्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	40741	सिलिकान सिस्टम्स एण्ड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
17	40745	आर्बिट एयर लिंक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
18	40752	आरएचसी इन्वेस्टिमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	40758	आर एम के सेक्यूरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
20	40766	हनुमान मैनपवर कन्सल्टन्ट्स एण्ड कान्द्राक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	40774	रामसन डिस्टिल्लेरीस प्राइवेट लिमिटेड
22	40777	क्यूबीए ऐटीकाम प्राइवेट लिमिटेड
23	40785	सानपाक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
24	40787	राजलक्ष्मी पिल्लिमेज प्राइवेट लिमिटेड
25	40793	अग्रिमा अग्रो फुड प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
26	40799	स्नो एन्टरटेन्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
27	40805	टेल्फोन मौटर्स प्राइवेट लिमिटेड
28	40812	मेट्रो लेबोरेटरीस चेन्नै प्राइवेट लिमिटेड
29	40813	अमियन्ट प्रापर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
30	40822	श्री सेल्वसुंदरम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	40826	सन देव इन्फोप्लस प्राइवेट लिमिटेड
32	40838	सी ब्रीस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	40854	गौतम्स आफ्सेट प्राइवेट लिमिटेड
34	40862	मुत्तादल टेक्सटैल प्राइवेट लिमिटेड
35	40863	एरोस्टार एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
36	40868	प्रोफेशनल हेल्थ केर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
37	40875	एन & एन अग्रिकल्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
38	40877	श्री शक्ति अग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
39	40880	डिजिटनेट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
40	40885	एलन्साबा एन्टरटेन्मेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
41	40886	बारुनी ट्रेडिंग कंपली प्राइवेट लिमिटेड
42	40887	पेट एशिया प्राइवेट लिमिटेड
43	40892	दिव्यश्री फौउन्डेसन्स प्राइवेट लिमिटेड
44	40900	वेल वाल्व्स प्राइवेट लिमिटेड
45	40925	यप्पीस कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
46	40928	श्री भारतीयार चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
47	40935	किंबर & पार्कर्स इंडिया लिमिटेड
48	40940	ऐसनबर्ग एण्ड असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
49	40955	टेक्सनो असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
50	40963	इन्क्राफ्ट साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
51	40969	अबूर्वा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
52	40970	हरिनाथ कन्सल्टरकशन प्राइवेट लिमिटेड
53	40987	श्री वेलवन पेपर & बोर्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
54	40995	श्रीनिवासा मिल्क प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
55	40996	एमएनआर फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
56	41004	चित्रा मिन-केम प्राइवेट लिमिटेड
57	41006	आनंद कन्सल्टरक्सन्स & इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
58	41040	राम वाटरानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
59	41041	वेलप्रभा सागा प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
60	41045	अव्वै कन्सल्टरैक्सन प्राइवेट लिमिटेड
61	41047	के एम एस प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
62	41048	जैवन्त फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
63	41051	प्रणा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
64	41055	पेन्टा डिसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
65	41056	जाब्सक कंटेक प्राइवेट लिमिटेड
66	41059	एसकेएन सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
67	41076	वेल मुरुगा रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
68	41101	जी एस एन्टरटेन्मेंट सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
69	41102	प्रेम पेकेजिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
70	41107	बे इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
71	41111	रंदन कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
72	41113	गुड डे (इंडिया) फनान्स लिमिटेड
73	41129	करूर आल्वा अग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
74	41132	जैन स्पैसस एण्ड पिक्कल्स लिमिटेड
75	41139	टिरमेक्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
76	41154	राजको ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
77	41164	मैन्डट्रन्ड इन्फो टेक प्राइवेट लिमिटेड
78	41179	प्रकाश टेप्स प्राइवेट लिमिटेड
79	41180	श्री राज राजेश्वरी जेम्स प्राइवेट लिमिटेड
80	41182	गुडडे चिट् फन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
81	41186	गोविंदराज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
82	41195	फेर मैक्रो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड
83	41202	तिल्लै राजन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
84	41214	जीवीके फुड प्रासर्सस एण्ड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
85	41217	एसएमए एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
86	41218	अल्फ्रेड एण्टरटेन्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
87	41221	युनीग्राण्ड पवर सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड
88	41236	स्पार्क इन्फर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
89	41241	रायर शिमा रिसार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
90	41244	विट्टलशा सिल्क प्राइवेट लिमिटेड
91	41251	ताय साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
92	41255	जेयगांधी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
93	41256	यूरोलिक इन्टरनेशनल टूर्स & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
94	41258	आर बी रेडियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
95	41263	जाह्नवी साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
96	41268	के एस टी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
97	41271	अल्टेयर ग्लोबल सर्वीसस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
98	41281	प्रीमियर टेक्नालजी सोल्यूशन्स लिमिटेड
99	41287	कार्तिकेयन एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
100	41290	निक्की इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
101	41291	स्वर्णरेखा चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
102	41295	अब्लाय हनिल बट्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
103	41297	एसएन पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
104	41298	है—लैन ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
105	41301	एस सी लेदर प्राइवेट लिमिटेड
106	41309	मेक जे पालिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
107	41323	मगेस्वरीस आर्ट आफ वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
108	41328	इंडस एचआर कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
109	41329	एस एस एलक्ट्रिकल कान्द्राक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
110	41340	इंटग्रेटेड सिनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
111	41358	सिल्वर विंग्स ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
112	41388	डयमण्ड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
113	41398	साजिन कोकनट फैब्र प्राइवेट लिमिटेड
114	41400	कार्तिकेयन सागो फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड
115	41402	न्यू कर्पगम रेडिमेड्स प्राइवेट लिमिटेड
116	41419	अर्मरल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
117	41420	इंटरस्टिच फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
118	41428	स्पीड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
119	41446	सलुब्रिटी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
120	41450	वी एस कार केर प्राइवेट लिमिटेड
121	41451	फोरस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
122	41453	एस वी एल अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
123	41460	ईबल लेदर गार्मेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
124	41467	मंत्रा इन्नोवेटिव सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
125	41469	यूनी—मेट ट्रीट्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
126	41476	वीमन कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
127	41479	चेम्प इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
128	41482	आर एस फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
129	41485	मिडास सैबरकेफ प्राइवेट लिमिटेड
130	41490	हिच हैकर रिसर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
131	41494	प्रेड इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
132	41496	सन सैट प्रापर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
133	41514	युनिमाक अक्वा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
134	41530	वेंकटेश्वरा फाउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
135	41540	जक्का एण्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
136	41542	मोमेण्टम कन्सल्टन्सी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
137	41547	एक्साट आटोमेशन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
138	41560	सिनक्स इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
139	41562	इन्नेट ट्रेड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
140	41565	डोसी एण्ड डोसी वाचर्स प्राइवेट लिमिटेड
141	41566	लिब्रा लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
142	41573	सिटी सर्विस कार्ड प्राइवेट लिमिटेड
143	41591	पर्वीण एण्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
144	41805	विन्सी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
145	41851	सिरडी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
146	49867	एलान्वियम नारायणन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
147	41871	एक्सपेड कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
148	41875	मेटको ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
149	41882	जे एस जे होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
150	41887	माल्गुडी रेस्टारेंट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
151	41910	एफटीएस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
152	41911	अव्वु टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
153	41912	वेल ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
154	41930	जीजो एजन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
155	41933	काव्या इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
156	41937	जोमन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
157	41945	डी जी आर साउण्ड कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
158	41946	नान्मुगी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
159	41958	लेण्ड-सी एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
160	41962	काम्पो रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
161	41977	रायल कन्सट्रक्शन्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
162	41991	जेनटेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
163	42003	आईआईएसटी काम प्राइवेट लिमिटेड
164	42008	कार्निंक रेस्टारन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
165	42011	आश्रम अग्रो प्राइवेट लिमिटेड
166	42018	सायपुत्तिरर केम प्राइवेट लिमिटेड
167	42019	श्री रेणुगांबाल कंप्यूटर अकाडमी प्राइवेट लिमिटेड
168	42052	नाहर & नाहर कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
169	42059	अनुभवन इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
170	42064	एस्तटिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
171	42078	डीकार्बीस कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
172	42110	एनजीएल वसन्त फैनान्स & इन्वेस्ट्मेन्ट्स लिमिटेड
173	42124	चिन्नमनूर श्री लक्ष्मी नारायणा चिट् फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
174	42125	केल्विन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
175	42140	वीनस पी यू फोम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
176	42141	बी बी फिल्मस एण्ड मास एण्टरटेन्मेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
177	42143	पासुपोन ग्राफैट्स एण्ड पवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
178	42145	एसीएस सिनीआर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
179	42146	अम्मू ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
180	42157	मासा फारक्स प्राइवेट लिमिटेड
181	42160	जेया एजुकेशनल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
182	42175	ए हेच भोगीस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
183	42179	टेक्साल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
184	42200	जेयराम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
185	42221	लाल सिंजेस मेनुफाक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
186	42229	रायल फार्मुलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
187	42234	सुजिन रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
188	42241	रत्तिनम नाडार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
189	42245	दुमारोस टेक्नालजी टुडे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
190	42250	सी शोर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
191	42259	मास्क्युट इन्नोवेटिव प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
192	42265	आस्त्र रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
193	42271	हाट स्पॉट किच्यन प्राइवेट लिमिटेड
194	42272	जोविन जूबिल ट्रेड & एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
195	42282	ऐऐएसटी इन्फोसिस लिमिटेड
196	42286	टी-साफ्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
197	42292	रेल-ट्रा हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड
198	42305	एमराल्ड शिपिंग सर्वीसस (साउथ) प्राइवेट लिमिटेड
199	42363	जेमिनी सैफर प्राइवेट लिमिटेड
200	42367	आल्वार केरोसिन & ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
201	42406	मोरा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
202	42411	शरीफ लेदर इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
203	42415	पी आर बी प्रैम कार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
204	42416	देवीनारायणन होटल्स & रिसर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
205	42417	एएनटी साफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
206	42421	डेविड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
207	42428	ग्रीण चैनल्स नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
208	42429	काफ-टी-प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
209	42435	मेट-ट्रीट अप्लिकेशन साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
210	42451	जीलाट टेक्नालजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
211	42480	एफएक्स टेक शाप प्राइवेट लिमिटेड
212	42484	लक्ष्मण टेक्नो प्रासस प्राइवेट लिमिटेड
213	42489	टीआरआर एक्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
214	42494	ए वी हेल्थ सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
215	42504	कामनेट कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
216	42532	मास्क इन्फोकंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
217	42534	एक्सपेन्स कम्पसीयल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
218	42537	रूरल इंस्टिट्यूट आफ इन्फर्मेशन टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
219	42540	जूपिटर कार्पेट प्राइवेट लिमिटेड
220	42543	रेप्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
221	42546	प्रांफ्ट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
222	42553	डॉ. एस सुब्रमणियन ऐ हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
223	42564	श्रीशा स्टाक्स प्राइवेट लिमिटेड
224	42571	देवा सिस्टम एण्ड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
225	42575	पेर्ल कोटेशन्स अडवैसरी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
226	42579	वीबीएस फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
227	42581	एस बी शेर्स प्राइवेट लिमिटेड
228	42594	सायु संद्रश एण्टप्राइस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
229	42596	माप्ले एनर्जिक्स सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
230	42597	उषवर सुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
231	42598	ईगिल हेल्थ केर मार्केटिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
232	42600	करास्सी फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड
233	42609	डउन टउन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
234	42610	सिंक्टरा इन्फोवेअर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
235	42614	राहल विंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
236	42679	फन वर्ल्ड टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
237	42684	मडगंजी टेक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
238	42688	होको फ्रैट प्राइवेट लिमिटेड
239	42690	तूत्तुकुडी एम पी आर एजंसीस लिमिटेड
240	42713	केआरएस असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
241	42726	न्यू ट्रान्सवर्ल्ड बिसिनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
242	42728	मास्क कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
243	42731	इंडस कार्डि केर प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
244	42742	संजीवम्मा कन्सल्टरकन्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
245	42756	लीडर एजुकेशनल कउनसेल्लिंग प्राइवेट लिमिटेड
246	42757	पासपोर्ट कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
247	42768	स्फीक्स मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड
248	42780	अनिल्ला अग्री प्राइवेट लिमिटेड
249	42804	वर्षद अलुमिनियम प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
250	42807	चेन्नै एण्टरटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
251	42820	यू-वी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
252	42823	मिडिल ईस्ट टेलस कंप्यूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
253	42825	राधिका पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
254	42832	देबविन मेन पवर्स प्राइवेट लिमिटेड
255	42834	वर्डवैस कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
256	42839	डी एस एस इंजीनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रियल एक्जुप्लेंट प्राइवेट लिमिटेड
257	42842	लालवाणी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
258	42848	तेनाक्षी चिट् फन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
259	42850	एमएमके अग्री एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
260	42851	ट्रान्सिक्विप्सन स्पेशालिटीस प्राइवेट लिमिटेड
261	42854	जे आर के एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
262	42858	आम्निस्कैब सोल्यूशन्स लिमिटेड
263	42867	पानाविशन टेक्नालजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
264	42879	विलाश इंजीनियरिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
265	42881	श्री विग्नेश हैड्रालिक फिनिश प्राइवेट लिमिटेड
266	42883	जेसु द्रावल इनीशियेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
267	42886	शानराज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
268	42888	वीपीएस कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
269	42902	फीनिक्स सेफ्टी मेचिस एण्ड फयरवर्क्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
270	42903	फेन हेर्ब्स एण्ड स्पैसस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
271	42904	कूल लुक ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
272	42914	वायु मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
273	42916	ट्रिनिटी पब्लिक प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
274	42917	आर जी सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
275	42923	अक्षय कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
276	42945	रायस अप्परल ग्लोबल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
277	42947	श्री शम्भुगा रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
278	42953	त्रिशूल अग्री बयोटेक प्राइवेट लिमिटेड
279	42958	वी डी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
280	42960	सिस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
281	42961	होटेल चिदंबर राजम प्राइवेट लिमिटेड
282	42963	बैसन लेबरटरीस प्राइवेट लिमिटेड
283	42964	किरन स्कोयरवेअर प्राइवेट लिमिटेड
284	42976	मदर लेंड शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
285	42977	एफ्फीसियन्ट हेर्बल फूयल प्राइवेट लिमिटेड
286	42986	बोस्टन इंजीनियरिंग कन्सल्टन्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
287	42988	रश्मि टिंबर प्राइवेट लिमिटेड
288	43001	सहानी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
289	43016	स्पेक्टरम किचन डिवाइसस प्राइवेट लिमिटेड
290	43019	रेड & ग्रीन इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
291	43026	इनसइट असोशियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
292	43028	यूटीखस एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
293	43030	ताम्सन एलपीजी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
294	43037	रेवती ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
295	43039	मरुदु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
296	43041	चेन्नै सेल्फ रियलैशंसन सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
297	43042	वास एक्युपेण्ट्स एण्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
298	43050	बैराहा देसी फार्मस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
299	43052	विण्ड इन्फर्मेशन टेक्नालजी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
300	43054	राकसिटी ग्रीन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
301	43068	श्रीडी टेलिविस्टास प्राइवेट लिमिटेड
302	43070	टापनाट्च मेनेज्मेंट सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
303	43071	फ्रीडम कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
304	43073	ए आर आर किड्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
305	43076	इंटल कोमेक्स मेनेज्मेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
306	43078	कामकार इन्वेस्टमेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
307	43081	स्पेशलसेम पेइंट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
308	43084	तारिणी फोम प्राइवेट लिमिटेड
309	43088	कन्मालै हउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
310	43106	सैनार कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
311	43110	खार्डिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
312	43121	टी एस आर चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
313	43122	रास्प इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
314	43146	चोलन सुगर्स लिमिटेड
315	43150	सुम्रा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
316	43159	धर्मा आरएक्स कार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
317	43176	इंपीरियल सेक्यूरिटी & डिटेक्टिव ब्यूरो आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
318	43178	कोर्नुकोपिया कम्यूनिकेशन सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड
319	43179	डयफ्री हेर्बल कान्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
320	43190	मरुवूर आनलैन सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
321	43191	पोडियम फेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
322	43200	सिल्मिया फोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
323	43207	वृंदगिरी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
324	43209	विकविस ट्रेडिंग एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
325	43211	ब्रह्मा फाउण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
326	43215	है-स्पीड नेटवर्क एक्ज्युप्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
327	43217	ट्रान्सवाल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
328	43310	मेक्सम हास्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
329	43326	वल्सुवर चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
330	43333	कैरे टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
331	43334	पेलिकन बयो इन्वोवेसन्स प्राइवेट लिमिटेड
332	43338	आल्फू इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
333	43341	शातकला क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
334	43342	गायत्री आफ्शोर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
335	43343	सोन्नेटो इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
336	43346	आर ए मुबारक सेक्यूरिटी अशोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
337	43350	विश्वधारा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
338	43355	अरुलमिगु वीजी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
339	43397	शक्ति श्री ट्रान्सकिप्सन्स प्राइवेट लिमिटेड
340	43398	लीड आडियो एण्ड वीडियो प्राइवेट लिमिटेड
341	43417	ओम्स आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
342	43426	केआरएस सीएनसी प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
343	43437	मिल्लेनियम मेरैन प्राइवेट लिमिटेड
344	43447	चेन्नै सेटसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
345	43453	सम्स मेरैन प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
346	43462	जवाहर कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
347	43466	के आर वी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
348	43484	ई-जोन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
349	43524	जीनियस सोल्यशन्स प्राइवेट लिमिटेड
350	43531	केसीएम फोरेक्स सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
351	43560	सीनु प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
352	43580	क्विकान गोस प्राइवेट लिमिटेड
353	43587	एमपीएल मार्केटिंग लिमिटेड
354	43593	डबल्यूपी बिसिनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
355	43595	पीआरबी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
356	43598	चेन्नै एयर—सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
357	43605	जूवेनैल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
358	43607	गुहन टेक एण्ड रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
359	43619	एमराल्ड मार्केटिंग अशोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
360	43620	एसपीएस कन्सल्टरक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
361	43628	सी आर के कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
362	43629	ले'स फुड प्राइवेट लिमिटेड
363	43649	बिन्साइ लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
364	43680	लैक चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
365	43687	वासुम साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
366	43689	सीकर्स हास्पिटालिटी मैनेज्मेंट कन्सल्टन्स सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
367	43705	करेयान इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
368	43707	विशान्ती केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
369	43710	पांडिच्चेरी वाटरप्रूफर्स प्राइवेट लिमिटेड
370	43715	क्वाड्रा पवर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
371	43719	टेलि डाटा नेटवर्किंग सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
372	43723	मेल्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
373	43728	सीपीपीएस इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
374	43730	मदुरै श्री राघवेंद्रा आटो एन्सिल्लरीस प्राइवेट लिमिटेड
375	43737	शैनलक फिनान्सियल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड

क्र.संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
376	43750	कार्पोरेट एक्सपो & कन्वेन्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
377	43762	जे बी नाग हैजीनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
378	43765	न्येक्लिया इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
379	43768	विजयविष्णु हउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
380	43774	लारा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
381	43780	मूकाबिगै सिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
382	43781	डार्टर आवेरसीस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
383	43787	कनिमवलम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
384	44003	एलिगंट प्रिंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
385	44004	प्रामिनेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
386	44008	मेक्सेल साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
387	44039	एयरटेल इन्फोसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
388	44061	यूसि वर्ल्ड आनलैन लिमिटेड
389	44091	पुनित साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
390	44107	एस्सेल मेडी ट्रान्सक्रिप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
391	44208	सिंगपूर इन्सुरंस ब्रोकर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
392	44209	त्रिटैक एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
393	44210	गास्पी साफ्टवेयर लिमिटेड
394	44213	डे केर फार्मरन्सस प्राइवेट लिमिटेड
395	44214	टार्गेट साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
396	44223	सौंदर्या प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
397	44233	सबी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
398	44258	श्री मारुती आटो कन्वर्सन किट्स प्राइवेट लिमिटेड
399	44266	एसोक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
400	44277	इन्नोवेटिव केड ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
401	44282	बोन्साइ इंजीनियरिंग एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
402	44297	विजयन मिल्क प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
403	44298	अरुनै सिटी केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
404	44302	ज्योति रोडवेस प्राइवेट लिमिटेड
405	44312	बेनरास इंजीनियरिंग एण्ड कन्सल्टन्स सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
406	44319	श्री अभिरामी पौल्ट्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड
407	44321	ईको फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
408	44332	शांके इंडिया एण्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
409	44334	श्री देवी फ्लै एश ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
410	44335	नयीत इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
411	44339	इमेज फ्यूशन काम प्राइवेट लिमिटेड
412	44348	एवरब्रैन साफ्ट टेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
413	44351	इन्नोवेटिव प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
414	44355	श्री मीनाक्षी मेटल कोपोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
415	44358	फर्नोफ मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
416	44359	साम्यु ई-बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
417	44361	धना बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
418	44374	गुरु प्रकाश होटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
419	44378	ग्लोबस्टार इंडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
420	44391	एल-शील्ड टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
421	44394	श्री गोविंद कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
422	44395	आईसीजी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
423	44400	एस आर सिनीटेक प्राइवेट लिमिटेड
424	44434	आल टैम सोल्यूशन्स.काम प्राइवेट लिमिटेड
425	44448	अल्लीग्रो फ्रैट फार्डवर्डस एण्ड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
426	44460	एबकान कम्प्यूनिक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
427	44463	गोमतीराम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
428	44485	वेब वर्ल्ड डेटा सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
429	44504	ट्रेडिशन टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
430	44511	कारप्लस लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
431	44522	प्रीम्ट इस्टिट्यूट आफ कन्टेन्यूइंग एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
432	44539	डेनियल एलक्ट्रिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
433	44556	हेच एम हास्पिटल (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
434	44557	पेंटा साफ्ट्सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
435	44562	वी जे ग्लोबल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
436	44572	उलिस्सस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
437	44580	पीवीपी इन्फोमीडिया सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
438	44581	एडज नेटवेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
439	44582	आंध्र हेर्बोकेम प्राइवेट लिमिटेड
440	44588	ए के एस मैक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
441	44590	वर्ल्ड लिंक इंडिया. काम प्राइवेट लिमिटेड
442	44597	डीसीवीएस हेल्थ केर प्राइवेट लिमिटेड
443	44599	नेक्स्टलिंक्स साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
444	44610	इन्सिट्रा अशोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
445	44614	अन्नम्मे कास्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
446	44632	फेस अडवांस्ड कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
447	44634	एक्सप्लिसिट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
448	44635	पुष्पालोक एक्सपोर्ट्स & इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
449	44640	चिन्नमनूर श्री सरवणा चिट् फन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
450	44666	एजीएस इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
451	44667	क्वेस्ट ई—काम प्राइवेट लिमिटेड
452	44685	इंटरकेट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
453	44686	श्रीवारी सिस्टम्स एण्ड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
454	44713	टैकून प्रोडक्शन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
455	44881	एषिल प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
456	45112	इन्फो हाईवे कन्सल्टन्ट प्राइवेट लिमिटेड
457	45136	हापी शापर्स प्राइवेट लिमिटेड
458	45172	मद्रास मरैनसेफ्टी & केर प्राइवेट लिमिटेड
459	45186	वीआरजे स्पेसरेडियो प्राइवेट लिमिटेड
460	45192	किगिसन्स & ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
461	45214	जगदराज बयोपवर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
462	45215	फ्री अडवान्सड कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
463	45226	स्टीफन्स कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड
464	45242	नेट मेर्ज टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
465	45253	गोल्ड क्रस्ट गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
466	45259	सिटीहोम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
467	45260	आनंद—जॉन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
468	45268	लाजिक स्केनिंग टेक्नालजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
469	45271	रेहोबोत मेरिटैम प्राइवेट लिमिटेड
470	45278	हार्डकोर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
471	45284	प्रणाम टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
472	45291	एस बी के शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
473	45294	संबा टेक्नालजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
474	45310	अनुविनु ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
475	45313	न्यू लिम्सा एयर ट्रवल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
476	45341	न्यू एरा जाब्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
477	45349	यंग ट्रान्सपोर्ट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
478	45350	ईप्पूपिल कंसल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
479	45363	चेन्नै फ्रन्ट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
480	45366	हाईटेक चिट्फंड प्राइवेट लिमिटेड
481	45370	विशुअलराय इन्फोवे प्राइवेट लिमिटेड
482	45384	हिमालयन होम नीड्स प्राइवेट लिमिटेड
483	45388	इनप्राक्टिस टेकनालजीस प्राइवेट लिमिटेड
484	45395	स्टार फोरेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
485	45402	पाटचमेजिक एक्पोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
486	45405	श्री बालाजी दर्शन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
487	45413	पीसीएस इम्पेक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
488	45427	धनवंत्री एजेंसीस प्राइवेट लिमिटेड
489	45432	एम. एस. इंजीनियरिंग कन्सल्टन्ट्स & कान्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
490	45440	स्कैलैन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
491	45442	नमह टेकनालजीस प्राइवेट लिमिटेड
492	45446	ब्रालकाम इन्फो सोल्यूसन प्राइवेट लिमिटेड
493	45448	नैल इम्पोर्ट & एक्स्पॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
494	45453	चेरान आर & डि सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
495	45455	विलवनकोड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
496	45457	क्विकसिल्वर अप्पियरल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
497	45476	किनगिनी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
498	45483	पेरडिगम ई-सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
499	45485	शिवरुक ग्रैनेट्स एण्ड मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
500	45502	इनम्को (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
501	45505	मण्णा मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
502	45507	स्रिक प्रापर्टी डेवलपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
503	45509	टार्गट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
504	45516	बीनशाप कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
505	45518	मेगासाफ्ट इंटग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
506	45529	रुद्रा साफ्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
507	45563	नान बारगैन अड्वान्टेज सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
508	45566	डिजिटलवेव टेक्नालाजीस & रिसर्च इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
509	45573	मद्रास ललिता रियालिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
510	45581	पिक्सल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
511	45600	आरवी फेशनस प्राइवेट लिमिटेड
512	45601	आरवी ट्रन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
513	45602	कानसोरटीयम मिनरल्स एण्ड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड
514	45605	इ-सेल्फ साफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
515	45622	चेन्नै इंशुरन्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
516	45629	एन-शक्ति श्री टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड
517	45650	खान सिस्टम्स. काम प्राइवेट लिमिटेड
518	45661	सौतपाईट कन्टेनर लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
519	45662	वाणी कंप्यूटर अकाडमी प्राइवेट लिमिटेड
520	45685	लीड इन्फरमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
521	45686	जे.पी.एस. ट्रावल्स & कारगो प्राइवेट लिमिटेड
522	45693	मक्सिकोल अड्हीसिक्स प्राइवेट लिमिटेड
523	45694	आर.हेच. केम्बियो प्राइवेट लिमिटेड
524	45696	सरवणा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
525	45708	ट्रान्सवर्ल्ड डिटक्टिव ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड

कम् संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
526	45709	एम.पी.एम. शांति ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
527	45712	मै शेर्स प्राइवेट लिमिटेड
528	45733	टेकसाफ्ट ट्रान्सक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड
529	45743	सुका डिस्ट्रिब्यूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
530	45749	अमेट शिपमेनेजमेंट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
531	45751	दंडपाणी टेक्सटैल मिल प्राइवेट लिमिटेड
532	45757	टीएन कमर्शियल & इंडस्ट्रियल गैड प्राइवेट लिमिटेड
533	45762	एविस्टास नेटवर्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
534	45764	अबानी सर्विसस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
535	45777	वेट्री टैंकर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
536	45789	याशना ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
537	45794	अळगु विनायगा टेक्नालाजिस प्राइवेट लिमिटेड
538	45796	डेटा जेनरल (इंडिया) लिमिटेड
539	45802	हेब्रोन फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
540	45812	स्पर्श कनेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
541	45818	एरेम एयर ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
542	45826	हिब्रोन इमेज मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
543	45841	हिमालया क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
544	45863	ऐ जेन मल्टिमिडिया प्राइवेट लिमिटेड
545	45873	वेरीसाफ्ट कन्ट्रोल्ल्स & टेक्नालाजीस प्राइवेट लिमिटेड
546	45875	पंडिट मरैन प्राइवेट लिमिटेड
547	45887	मासआफ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
548	45896	एबीसी नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
549	45899	अलर्ट मेनेजमेंट कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
550	45928	सीटीहेच-साफ्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
551	45937	ट्रिपिल एसस प्राइवेट लिमिटेड
552	45939	डिजिमेजिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
553	45951	होटल वेवसाई प्राइवेट लिमिटेड
554	45979	लिविंगस्टोन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
555	45993	ग्रेलाईन अडवरटैसिंग एण्ड डिजिटल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
556	45998	चेन्नै शाप्पी प्राइवेट लिमिटेड
557	46002	वेगा साफ्टवेयर सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
558	46004	वोजस साफ्टवेयर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
559	46005	स्पेड टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
560	46007	टस्क साफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
561	46012	अप्पला बिल्डर्स & कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
562	46019	अप्सुन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
563	46022	वी.जे.चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
564	46040	श्रीवत्सव ईको-फ्रन्डली पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
565	46041	बानु इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
566	46046	ट्रिटान साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
567	46047	हिल अण्ड विल हेल्थ केर टेक प्राइवेट लिमिटेड
568	46049	चायस क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
569	46051	जेआरएस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
570	46053	आळवार केम्को प्राइवेट लिमिटेड
571	46056	एसपी टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
572	46057	ओरिआन न्यूट्रासीटिकल्स टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
573	46058	अरोमेटिका एक्स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
574	46059	वेल अक्वा टेक प्राइवेट लिमिटेड
575	46061	कांची कार्गो प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
576	46064	ऐडेंटिटी साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
577	46071	फ्यूजेनसाफ्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
578	46074	इंटेल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
579	46075	हिलराय टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
580	46077	सविता फ्लाट्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
581	46091	सगाशियस साफवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
582	46092	मेडिसन डाट काम प्राइवेट लिमिटेड
583	46107	ला बेल्ली टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
584	46111	एसडीएन कार्गो कनक्शन प्राइवेट लिमिटेड
585	46112	आईशा शू प्राइवेट लिमिटेड
586	46124	एवरट्रस्ट एक्सिम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
587	46126	श्री राघवेंद्रा रेसिडन्सी प्राइवेट लिमिटेड
588	46128	ट्रिनिटी फारवर्डस (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
589	46129	सैफ्री कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
590	46130	रुरल फोकस काम प्राइवेट लिमिटेड
591	46133	जेयकिसान हैटेक अग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
592	46149	नालेड्ज फउण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड
593	46150	विरिक्सा साफवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
594	46152	मेलियोरा कापिटल प्राइवेट लिमिटेड
595	46156	शरक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
596	46157	सरोन मेटल आर्ट प्राइवेट लिमिटेड
597	46162	कोजेन्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
598	46163	वाणियम्बाडी आर.एस. हास्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
599	46171	मेटपोर फिलिम्स प्राइवेट लिमिटेड
600	46172	बाल्विक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
601	46174	दुर्गालक्ष्मी डयरी प्राइवेट लिमिटेड
602	46175	इंदर टैल्स & सानिटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
603	46176	एफ & बी मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
604	46180	जोतिका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
605	46185	ट्रान्सुनिटेड ट्रावल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
606	46187	बे ऐटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
607	46191	टी सी एम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
608	46219	ऐऐएन फोकस.काम प्राइवेट लिमिटेड
609	46220	डीनोवा कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
610	46224	फुलूटान टेक्नालजिस प्राइवेट लिमिटेड
611	46225	अक्टिविटी टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
612	46226	सन्सिटिन्ड ए—मैल एक्प्रिस प्राइवेट लिमिटेड
613	46228	एसपीजी ओवर्सीस फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
614	46229	स्कैमेक नेटवर्क सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
615	46230	स्कैमेक इंटरनेट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
616	46231	प्रापइंडिया.काम प्राइवेट लिमिटेड
617	46242	स्ट्रेटजिक वेबकाम टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
618	46244	पी.एम.आर. कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
619	46250	चिज़र एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
620	46265	ब्लूस्टील ओवर्सीस लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
621	46266	ओपनवेव डीएसएस प्राइवेट लिमिटेड
622	46271	जैईरा सनशैन डिजिटल रिकार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
623	46277	बी2जी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
624	46285	अम्मास इंटरलिक्स काम प्राइवेट लिमिटेड
625	46286	क्विक आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
626	46287	निकेतन इंफरमेशन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
627	46295	श्री ई.एम.आर. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
628	46297	बीबीए साफ्टवेयर & सोल्युषनस प्राइवेट लिमिटेड
629	46302	पानव्यू टूर्स & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
630	46304	शैनी फार्मस एण्ड बिल्डस प्राइवेट लिमिटेड
631	46309	सी गुल कम्यूनिकेशन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
632	46313	आरएसके पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
633	46314	हिबोन साफ्टवेयर सोल्युषन्स प्राइवेट लिमिटेड
634	46317	सार्क फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड
635	46318	बल्लाक इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
636	46320	सक्सस वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
637	46322	रघुनाथ ग्रीन पवर प्राइवेट लिमिटेड
638	46323	तिरुमला ग्रीन पवर एंटरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
639	46324	ग्रीन पवर रियल्टरस प्राइवेट लिमिटेड
640	46325	पवन ग्रीन चानल प्राइवेट लिमिटेड
641	46329	एस.जी. वेन्चेर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
642	46331	मेट्रो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
643	46337	एवाल्स साफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
644	46341	विन्क्स टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
645	46348	गेतसमेन साफ्टवेयर सोल्युषनस प्राइवेट लिमिटेड
646	46352	भ्रमा वेबबिज़ टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
647	46355	सूपरट्रानिक्स टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
648	46360	आर्मस्टारग टेकस्विकल ट्रेनिंग & रेक्यूटमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
649	46365	कामिक्सम ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
650	46369	ईटीजी साफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
651	46372	जसील कंप्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
652	46376	विनवेयर सोल्युषनस प्राइवेट लिमिटेड
653	46378	प्रिमियर नेटवर्क तमिलनाडु प्राइवेट लिमिटेड
654	46380	कस्टमैज्ड क्वालिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
655	46382	रत्नदीप सेक्यूरिटिस प्राइवेट लिमिटेड
656	46384	कलिबरप्लस सिस्टम्स एण्ड सोल्युषनस प्राइवेट लिमिटेड
657	46391	टैयरा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
658	46408	रियल टैम प्राजक्ट्स लिमिटेड
659	46419	सीएडबल्यू इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
660	46421	फान्टास इमेज प्राइवेट लिमिटेड
661	46424	विनटेक शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
662	46427	हेवन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
663	46429	शिक्षाक टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
664	46432	आदिनाथ इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
665	46433	स्टीम्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
666	46437	श्रीसेल एक्स्पॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
667	46440	ऐ—काम अड्वैसरी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
668	46441	ब्लू ऐ—बयो टेक प्राइवेट लिमिटेड
669	46444	रुष्मी इंटरनेट अडवरटैसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
670	46447	एफएम सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड
671	46448	फोर्ट पब्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
672	46450	स्टीलेत डिटेक्टीवस एण्ड सेक्यूरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
673	46455	अडीप्टी साफ्टवेयर कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
674	46456	डीडीएम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
675	46458	सीडीएस हालिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम-संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
676	46460	ग्रांड सिटी पब्लिकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
677	46463	डलसिन ट्रवल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
678	46467	काल हस इंडिया लिमिटेड
679	46476	केवीएस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
680	46478	पडंतलुमूडु डबल यज चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
681	46480	शास्त्रा वेब सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
682	46482	पेन्टरक्कस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
683	46484	एक्सिन साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
684	46486	अभिरामी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
685	46490	इनसेम टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
686	46499	मशहूर कास्टूम्स एण्ड युटिलिटिस शप्पर्स प्राइवेट लिमिटेड
687	46500	सन कार केर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
688	46501	ग्रान्ड केश फोरक्स प्राइवेट लिमिटेड
689	46506	लेडर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
690	46507	अय्यप्पास ट्रावल्स & टूरस प्राइवेट लिमिटेड
691	46508	एकाम्बरेश्वर हवुसिंग डिवलप्मेंट & एक्पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड
692	46509	बीम-साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
693	46510	पराशक्ति सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
694	46511	मौंट शिपिंग & मरैन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
695	46517	यूनैटी हेर्बो हेल्थ कार्नर्स प्राइवेट लिमिटेड
696	46519	अमेज़ कम्प्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
697	46520	विक्टरी असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
698	46521	वीगेस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
699	46523	वेल साफ्टेक वेल्ड प्राइवेट लिमिटेड
700	46526	अट्लान्टिकसाफ्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
701	46528	वितराना सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
702	46529	मारवी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
703	46530	सुल्ताना हर्बलस प्राइवेट लिमिटेड
704	46536	टैकून मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
705	46541	अजीलान (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
706	46542	येल्ला केबस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
707	46543	जयगंगा अग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड
708	46544	सनलैट ई काम प्राइवेट लिमिटेड
709	46546	साफ्टलिक स्कूल आफ कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
710	46553	एबीए फिलिम्स प्राइवेट लिमिटेड
711	46555	डेटाड्रव इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
712	46556	जीनोम टेक्नालजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
713	46558	सैफर चिप्स टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
714	46562	टेराफिर्मा टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
715	46565	रिच टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
716	46569	आरसन आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
717	46579	फेस्टाल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
718	46582	जी डी नाडार पेपर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
719	46584	प्रुडेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
720	46585	मिल्लीनियम मिनरल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
721	46586	लांडमार्क लांडस्केप्स प्राइवेट लिमिटेड
722	46587	हिल टाप कंप्यूटर एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
723	46588	डेटाबेस इंडिया इन्फो सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
724	46591	माब डीसिल्लियन कंप्यूटर सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
725	46594	डैनासिस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम-संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
726	46596	सैनोस्टार ट्रड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
727	46604	रामसैस स्पोर्टवेअर & सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
728	46609	गिल्मीगुल्शन इंपक्स प्राइवेट लिमिटेड
729	46614	ज्जैयलाजिक टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
730	46623	सुहेरा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
731	46627	वेंकट रियालिटी प्राइवेट लिमिटेड
732	46629	मोगम इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
733	46637	वेब ऐ.काम सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
734	46647	सैबरस्टार साफ्टवेअर सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
735	46654	मनावेट्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
736	46655	ट्रनिटी फाउंडेशनस प्राइवेट लिमिटेड
737	46656	ए टू इज़ड डोमस्टिक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
738	46675	रोशनी नेट प्राइवेट लिमिटेड
739	46677	गिल्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
740	46682	पीबी लिग्स प्राइवेट लिमिटेड
741	46683	दौलंस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
742	46696	कांची ग्रानैट्स प्राइवेट लिमिटेड
743	46699	सिद्धा केन्सर हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
744	46702	श्री कृषी डिजिटल ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
745	46703	एमबीबीएस ऐन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
746	46704	एएनआर फाशन्स लिमिटेड
747	46705	इन्फोस्ट्रीक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
748	46709	पी सी एस साफ्टवेअर सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
749	46713	पीसीएस सिस्टम्स एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
750	46717	नेमिसिस इन्फर्मेशन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड

कस संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
751	46720	प्रोक्लेम सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
752	46725	पैसापवर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
753	46757	रहुमणीया असासियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
754	46761	जीनियस सेक्यूरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
755	46768	स्कैशूट काम प्राइवेट लिमिटेड
756	46770	ग्लीनसिस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
757	46773	बेर्टर वेल्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
758	46775	साटलिक टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
759	46778	स्कै सेफवे इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
760	46780	सिल्क रुट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
761	46787	प्रोअक्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
762	46788	लिम्को मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
763	46901	रोबस्ट कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
764	46908	पोन मईल ज्वल्लर्स प्राइवेट लिमिटेड
765	46909	बेस्टीन मल्टी पेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
766	46916	गोल्डनइंडियन्स कंप्यूटर सर्विसस लिमिटेड
767	46917	ट्रैलक्स एयरलाईन्स लिमिटेड
768	46930	एड्विन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
769	46932	सेफालिक इन्फरमेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
770	46934	चिपसिस सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
771	46935	अरुलानंद फंडरिस प्राइवेट लिमिटेड
772	46938	जीब्रा एक्स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
773	46941	संकेशवरा स्टाक्स प्राइवेट लिमिटेड
774	46945	सिल्वर एडज़ अड्वैसरी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
775	46947	पल्लवा प्रोपरटीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
776	46948	श्री विघ्नेश कंप्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
777	46954	चेन्नै संजीवी मार्केटिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
778	46956	क्रैस क्रास क्लासिक्स प्राइवेट लिमिटेड
779	46957	पार्मा प्लस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
780	46958	डिजिलाग एमबीडिड् सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
781	46965	धनप्रभु टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
782	46966	एक्सैट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
783	46973	डेवलप्मेंट 2002.काम प्राइवेट लिमिटेड
784	46976	श्री साइ एम्ब्राइडरी एण्ड लेबल्स प्राइवेट लिमिटेड
785	46981	ओन-डीरफूल शाप्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
786	46983	अरचीर सेक्यूरिटी एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड
787	46984	अस्ट्रेल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
788	46988	वीकनेक्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
789	46996	रिच नेट विशन.काम प्राइवेट लिमिटेड
790	47004	ए.एम. अग्रो फूड्स (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड
791	47018	फंराटीयर पसिफिक टेक्नालजीस & साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
792	47031	रिलाक्स अक्वा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
793	47032	एलएल2बी.काम प्राइवेट लिमिटेड
794	47034	ओम मेनपवर कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
795	47035	इन्फानेट टेक्नालजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
796	47043	सीमिण्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
797	47045	ऐएसएस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
798	47061	मालयाड्री ऐश्वर्या ट्रडर्स प्राइवेट लिमिटेड
799	47066	गमजेन साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
800	47067	स्पाट कमाडिटी कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
801	47072	एएसएनएस कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
802	47080	कृन्सेर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
803	47093	ग्लोबल मैनिंग & ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
804	47101	ओपेल इलक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
805	47107	मेंटल कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
806	47108	अबीस इलक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
807	47133	क्विक रीच सिंगललैन.काम प्राइवेट लिमिटेड
808	47135	मार्स डेकोराटर्स प्राइवेट लिमिटेड
809	47138	प्रिस्टिज़ि मल्टि प्लाट्स प्राइवेट लिमिटेड
810	47142	सिल्कविण्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
811	47156	वीकेंप हास्पिटालिटिस प्राइवेट लिमिटेड
812	47157	एएल साफा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
813	47163	शुरभी इन्फोव.काम प्राइवेट लिमिटेड
814	47168	युनैटेड नंदी एक्सपोर्ट & इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
815	47176	विवेक इन्फो सोल्यूषन प्राइवेट लिमिटेड
816	47177	सैबरकर ऐटी कन्सल्टन्ट प्राइवेट लिमिटेड
817	47185	नवोदया है लैफ प्राइवेट लिमिटेड
818	47187	एक्सक्यूटिव क्लब प्राइवेट लिमिटेड
819	47195	गृहप्रवेश प्रापर्टिस प्राइवेट लिमिटेड
820	47196	के.एस. फउण्डेशनस प्राइवेट लिमिटेड
821	47201	इन्नरविशन इंटरियरस प्राइवेट लिमिटेड
822	47202	पोन्गुरु ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
823	47212	ऐटान पालिफब्स प्राइवेट लिमिटेड
824	47227	ऐकानईडु आनलैन प्राइवेट लिमिटेड
825	47235	ओपनार्क टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्र.संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
826	47240	फोरवेस मल्टिविशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
827	47241	जी.के.आर. ट्रावल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
828	47242	लान्सीएयर सेप्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
829	47246	वैडरेस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
830	47251	प्रोफैड्स कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
831	47261	स्कै ई अक्शन.काम प्राइवेट लिमिटेड
832	47263	जेएसमाग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
833	47267	ब्रेट सौद कान्द्राक्टिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
834	47272	स्हेनजेन टूर्स & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
835	47275	सिल्वरहार्वस्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
836	47276	ड्रीमकेन आनलैन प्राइवेट लिमिटेड
837	47287	साईटो टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
838	47294	एमएसवी वेब साल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
839	47313	मासन आर्ट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
840	47314	वैभवलक्ष्मी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
841	47322	हउस आफ स्टेल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
842	47323	सरस्वती साफटेक प्राइवेट लिमिटेड
843	47325	सिस्माक सोल्यूषनस प्राइवेट लिमिटेड
844	47333	आशाएण्ड गेस एजेन्सि प्राइवेट लिमिटेड
845	47336	अरिवोली एजेन्सिस प्राइवेट लिमिटेड
846	47337	बयो आरकानिक्स लबोराटोरिस प्राइवेट लिमिटेड
847	47344	केकेआर फउण्डेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
848	47346	विरोहा कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
849	47359	मुनावारा ट्रेडिंग & कान्द्राक्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
850	47362	सेवनहिल्स मेनेजमेण्ट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम-संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
851	47367	एन एम डी ट्रवल्स प्राइवेट लिमिटेड
852	47368	अनुक्षा.काम प्राइवेट लिमिटेड
853	47373	वीसेन कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
854	47376	फिनजिन फैनानशियल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
855	47380	पीजीवी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
856	47381	हीवीया इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
857	47383	लयेस इन्फर्मेशन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
858	47384	एमके माग्नूम ट्रेडलक्स प्राइवेट लिमिटेड
859	47387	डीएसए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
860	47390	हैग्लोरी.नेट प्राइवेट लिमिटेड
861	47391	सनसाफ्ट कंप्यूटर एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
862	47393	वे नेट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
863	47394	मोलिकुलार बयोसईन्स प्राइवेट लिमिटेड
864	47407	इन्टग्रल अग्रि-रिसोर्स कमाडिटिस प्राइवेट लिमिटेड
865	47411	डिवैन शिपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
866	47414	जे.एल. इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
867	47417	लेर्नप्रो साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
868	47422	इबेलवेल्ड.काम प्राइवेट लिमिटेड
869	47425	स्कैलिंग एक्सिम्प प्राइवेट लिमिटेड
870	47433	सैमन फशन्स प्राइवेट लिमिटेड
871	47440	रघुराम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
872	47442	लिबन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
873	47461	हिमालया क्रियेटिव विडियोस प्राइवेट लिमिटेड
874	47473	विसक्यूब टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
875	47478	कार्गुवेल टिबर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम-संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
876	47479	टेकमार्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
877	47487	सलनाज ट्रवल प्राइवेट लिमिटेड
878	47491	आर.आर.डी. कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
879	47501	मिडास टेक्सकेम प्राइवेट लिमिटेड
880	47503	एसएस साफ़वेयर रिसर्च & रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
881	47514	क्लस्टर मनेजमेन्ट कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
882	47517	डेन असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
883	47529	एस.के.एन. वेल्डनेट प्राइवेट लिमिटेड
884	47531	रेहोप मनेजमेन्ट कन्सल्टन्सी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
885	47539	ई.ए.पी. इडिरिसिंग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
886	47540	गेम्का एक्स्पैमेंट सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
887	47551	एसीएफए फ़ाइट लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
888	47552	टेक्सट्रा वेंचेर्स प्राइवेट लिमिटेड
889	47554	वल्लिबेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
890	47566	अक्यूल्ड कंप्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
891	47580	सैदापेट एलक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
892	47589	चेन्नै स्टाक्स & शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
893	47604	जेंटिक मेगा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
894	47608	प्लासेर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
895	47609	साईगुरु प्रापर्टिस एण्ड डिवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
896	47610	मार्सवास टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
897	47615	पवरप्लांट कन्सल्टिंग एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
898	47616	लारुस साफ़्ट प्राइवेट लिमिटेड
899	47618	अड्वान्सड इविंग एण्ड कारपोरेट अकतमी प्राइवेट लिमिटेड
900	47619	साफ़टप्रो सोल्यूषन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
901	47622	मैस्टी गार्डन्स प्राइवेट लिमिटेड
902	47657	हेर्बो एवरग्रीन मार्केटर्स प्राइवेट लिमिटेड
903	47663	इस्ट कोस्ट ट्रेडिंग एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड
904	47683	सीटपेर्सन्ट फ्लवर्स प्राइवेट लिमिटेड
905	47716	राकफोर्ट हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
906	47717	द्विन टैटिल एडुकेशनल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
907	47724	नेटस्कोयर.काम प्राइवेट लिमिटेड
908	47733	टु-डे फर्निचर & इंटिरियर डेकोरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
909	47735	माक्सट्रेड बिसिनस कन्सोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड
910	47736	एएमएस प्रोटेक्टिव पैन्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
911	47738	डीप नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
912	47743	डॉ. टियोस लिंगी मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
913	47763	हैंडर सेक्यूरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
914	47770	लिंगुवा फान्का प्राइवेट लिमिटेड
915	47780	रन्नर्स ऐ-टेक प्राइवेट लिमिटेड
916	47796	लिफ्ट एण्ड लिफ्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
917	47801	श्री विश्वा रेस्टारंट प्राइवेट लिमिटेड
918	47823	शांता बोटानिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
919	47861	इन्फोवेल्ड कार्डस प्राइवेट लिमिटेड
920	47885	बयो-कप पेपर्स प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
921	47888	सी.सी.ए. इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
922	47889	एरो ट्रवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
923	47891	सूर्या नेटसाफ्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
924	47893	साग ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
925	47894	कार्टिना ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
926	47898	अल्लमण्डा कन्सल्टिंग एण्ड सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
927	47906	लक्षरी ट्रवल जोन प्राइवेट लिमिटेड
928	47929	लैफकेर एन्शुयर मेनेज्मेंट प्राइवेट लिमिटेड
929	47932	गार्ग बूक्स प्राइवेट लिमिटेड
930	47936	ब्रिल्लियण्ट नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
931	47943	यूनिवर्सल इन्शुरन्स सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
932	47948	वेफउण्ड कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
933	47954	ग्लोरियस डिसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
934	47955	स्कैनैट इन्फो प्राइवेट लिमिटेड
935	47966	हार्पस फिलिम्स प्राइवेट लिमिटेड
936	47988	एसकेएस इन्फोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
937	47991	डोरमेन लांग एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
938	47997	सौत इंटरलिंग मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
939	48073	स्टीर एक्पोर्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
940	48076	एम.एस.के.आर. फ्लाट्स प्राइवेट लिमिटेड
941	48077	पोन्बाबू चिट् फंड प्राइवेट लिमिटेड
942	48078	श्रीनावलडी इन्वेस्टेमेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
943	48086	बी.वी. स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
944	48105	सुशि मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
945	48112	बीवीएस सिल्क वेक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
946	48113	ई-मिडिया सोल्यूषन्स प्राइवेट लिमिटेड
947	48118	वान्वा फ्रूट लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
948	48126	अभि इन्फोसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
949	48134	कादीजा डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
950	48139	एम्पयर लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
951	48140	ईलूक साफ्टवेअर प्राइवेट लिमिटेड
952	48143	मैक्रोपार्क टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
953	48147	एल & आर बिल्डर्स & सूपर प्राजेक्ट कन्सल्टन्ट प्राइवेट लिमिटेड
954	48161	डेटास्मार्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
955	48165	बारनाकेल-ईडा-कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
956	48168	श्री जीनीईस फिलिम्स प्राइवेट लिमिटेड
957	48170	एवरब्रैट सेक्यूरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
958	48171	फ्यूचर ऐटी कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
959	48178	इन्टग्रेटेड एनविशानमेंटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
960	48202	एसपी जेएन प्राजेक्ट्स & सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
961	48212	नैस डेटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
962	48217	नागूर आईल बैंक प्राइवेट लिमिटेड
963	48219	होटल अडैयार राज प्राइवेट लिमिटेड
964	48220	कावेरी गार्नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
965	48251	जे के बी लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
966	48257	यूएसबी मेनपवर कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
967	48266	डीक्सिकान टेहफूड्स कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
968	48269	सुरबीश्री मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
969	48281	विक्टरी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
970	48285	रेश्मा एजेन्सिस प्राइवेट लिमिटेड
971	48286	चेन्नै टेक्नोप्यूर कोटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
972	48293	योगलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
973	48294	राजराजन टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
974	48295	एआरएस मेजिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
975	48299	जयराम मार्केटिंग कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
976	48310	ब्लाक गोल्ड बिटुमेन प्राइवेट लिमिटेड
977	48317	मेकानिकल सोल्यूषन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
978	48323	विघ्नेश शिपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
979	48343	स्कैटच टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
980	48349	न्यूपेंटगन स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
981	48360	वैकर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
982	48366	श्री कमल चिट्स चेन्नै प्राइवेट लिमिटेड
983	48372	डापलैन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
984	48374	अम्रिता मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
985	48386	डीन टूरस & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
986	48388	बालाजी बिसनस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
987	48406	जेजेएम एक्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
988	48408	विस्कार साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
989	48414	अभिरामी फूड्स & रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
990	48432	जी जी बी एण्टर्प्रसस प्राइवेट लिमिटेड
991	48433	एमएसएम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
992	48438	ड्रीम कास्ट एन्टरटेनमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
993	48443	देवी फूड्स & केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
994	48446	ओशनाप्स सोल्यूषन्स प्राइवेट लिमिटेड
995	48449	वोयाजिर ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
996	48455	स्किलफुल हन्ड्स रेक्यूटिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
997	48470	नैबरहुड येल्लो पेजस प्राइवेट लिमिटेड
998	48478	श्री नागप्पा ज्वल्लरी प्राइवेट लिमिटेड
999	48487	सप्तऋषि के कन्सट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
1000	48495	टैटाली डिजिटल स्टूडियोस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1001	48507	सी आर एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
1002	48508	सत्यनारायणन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1003	48516	महा प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1004	48541	मायूरी मिशिनरी प्राइवेट लिमिटेड
1005	48545	के. अय्यादुरै सांझ मैन्स प्राइवेट लिमिटेड
1006	48549	विन सन् 2005 मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1007	48552	श्रीसाई नम्बिकै चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1008	48566	कमान्डो ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
1009	48585	मिशन साफ्टवेयर कन्सल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1010	48587	एन ए के मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1011	48591	एस एस नैट साफ्ट सोल्युषनस प्राइवेट लिमिटेड
1012	48634	सर्फेस आलोइस प्राइवेट लिमिटेड
1013	48646	सिल्वर शैन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
1014	48651	यूसैला शूस प्राइवेट लिमिटेड
1015	48661	युवा रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड
1016	48671	अंजु प्रेम नेट अप्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1017	48673	स्कैलैट ट्रवल्स प्राइवेट लिमिटेड
1018	48675	श्री बालाजी फैन केमिकल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1019	48683	इन्फोट्रनिक्स टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1020	48697	सक्सस साफ्टवेयर सोल्युषनस प्राइवेट लिमिटेड
1021	48707	बे सिमेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1022	48710	साधना फ्राजिन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1023	48711	कर्पगम इंजीनियर्स & बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1024	48715	टेजसाफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड
1025	48736	रायल इंडिया मार्केटिंग एण्ड कंटेनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1026	48754	अवाल इंडिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1027	48757	चेन्नै एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
1028	48760	नूताल्स प्लस कार्डस प्राइवेट लिमिटेड
1029	48768	श्री सार्णम चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1030	48770	अप्पर इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1031	48771	जाय एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1032	48777	क्लासिक अदिसिव प्राडेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1033	48780	आकाश गंगा अप्परेल मार्केटिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1034	48787	कोफी प्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1035	48790	अधिथि मेनेज्मेंट एण्ड सोल्युषनस प्राइवेट लिमिटेड
1036	48792	जियान इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1037	48795	मैनिंग साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1038	48796	ए पी एन मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1039	48798	लैफ टेलिविशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1040	48801	क्रासवेल्ड टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1041	48805	एन वी एस आटोमोबाइल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1042	48806	बुक मास्टर पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1043	48811	बाडी एण्ड सेन्स फिट्नेस प्राइवेट लिमिटेड
1044	48812	बारा लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1045	48818	रायल डिसेनर प्राइवेट लिमिटेड
1046	48825	मल्लिगै होम नीड्स एण्ड सर्विसस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1047	48836	प्रेसन मेडिकेर प्राइवेट लिमिटेड
1048	48837	मेक्यू मीडिया मेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1049	48842	युनीकांप साफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1050	48867	अन्नामलै लक्ष्मी मुदलियार हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1051	48869	लक्या साफ्टवेअर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1052	48877	सकीस फुड्स & किड्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
1053	48879	हैलेण्ड स्प्रिंग्स फुड & बेवरेजिस प्राइवेट लिमिटेड
1054	48880	डेनल इंडस्ट्रियल टूल प्राइवेट लिमिटेड
1055	48882	आरवी कूरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1056	48883	प्रिमस प्रिसिसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1057	48888	पवरमैण्ड्स साफ्टवेअर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1058	48893	कर्णवती किचवन्स एण्ड बेडरूम सूट प्राइवेट लिमिटेड
1059	48897	दस्तरा कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1060	48905	दासरी डिजिटल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
1061	48912	माज ट्रेडर्स एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1062	48914	प्रो-लैन ट्रेड वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड
1063	48928	श्री अरुणा रेसिन & केमिकल प्राइवेट लिमिटेड
1064	48932	कोरमेण्डल हेल्थ केर प्राइवेट लिमिटेड
1065	48935	नेटल कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1066	48983	टेलिक. नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1067	48989	आर एस आर पी सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1068	48990	आस्सान एजुकेर प्राइवेट लिमिटेड
1069	48997	पार्वती फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1070	48999	कौमारम क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1071	49001	लक्कि ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1072	49009	एक्सेंट साफ्टवेअर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1073	49011	फिडलिटी मेटाकेम प्राइवेट लिमिटेड
1074	49015	प्रेरणा प्रोमोशनल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1075	49017	कोगिटेट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1076	49019	यू-निक इन्फोवेअर प्राइवेट लिमिटेड
1077	49020	सन स्टाक्स एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1078	49023	राक्सबर्ग-देवराज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1079	49027	टिम्मीस नेट साफ्टवेअर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1080	49031	इन्नोवेअर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1081	49032	आल्टो साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1082	49033	केस्पियन वाटर (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
1083	49034	टच्चेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1084	49036	प्रेम हेंगर्स प्राइवेट लिमिटेड
1085	49040	एनएलपी एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
1086	49041	श्री कार्तिकेयन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1087	49047	गोवन्ना ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1088	49050	गुडविल पालिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
1089	49053	सेंबोन एण्टरप्राइसस प्राइवेट लिमिटेड
1090	49054	सनवेक्स साफ्टवेअर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1091	49056	ईडन अग्रिकल्चर एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1092	49058	एमिको साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1093	49062	ओरियण्ट ग्रीन कायर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1094	49068	मालिंद कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1095	49070	एशियन मनी रेमिट्टनसेस प्राइवेट लिमिटेड
1096	49072	मेक्कोय कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1097	49080	हिमालया फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
1098	49086	यू विन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1099	49088	श्री रासी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1100	49091	इंडो मलेशियन चेंबर आफ कामर्स

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1101	49093	स्कैलिमिट मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1102	49094	केपमार्क अडवाइसरी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1103	49105	एसवीई पवर प्राइवेट लिमिटेड
1104	49108	रूपकली एक्पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड
1105	49112	आरपीएन सरफेस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1106	49113	दौलत एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1107	49131	एलडीजी विंडफार्मस प्राइवेट लिमिटेड
1108	49134	एवरग्रीन हेल्थकेर प्राइवेट लिमिटेड
1109	49135	बांडी साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1110	49137	जग वीरा एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड
1111	49144	प्रोडिजी मेनेज्मेण्ट कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1112	49147	एल.एन. पयोमेट्रिक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1113	49148	हो-केर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1114	49165	एस आई एस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1115	49171	तैरो लेब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1116	49173	टी एस लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1117	49174	एस जी एस पौल्ट्री फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
1118	49175	एन्चर वेल्ड मेनेज्मेण्ट कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1119	49190	टिरपिल डाट्स इमेजस प्राइवेट लिमिटेड
1120	49198	इंडस वेल्डी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
1121	49203	ओ निला अम्यूसमेण्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड
1122	49206	तेजास रिन्यूबल टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1123	49209	अमेरिकन वुड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1124	49214	ट्रफाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1125	49228	डिजीकान इन्सट्रुमेण्ट्स एण्ड पवर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1126	49233	वी बी एम अशोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
1127	49237	टीम टेन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1128	49240	मेगा स्टार नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड
1129	49242	अमेथिस्ट टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1130	49246	फिलंट सेक्यूरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
1131	49253	मुत्तमिल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1132	49255	ट्वेंटी फर्स्ट सेन्चुरी बयो-टेक इन्नोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1133	49259	एसडीजीसी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1134	49266	विनायक इम्प्रेसन्स प्राइवेट लिमिटेड
1135	49269	एन एन बी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
1136	49270	अल्फी हेर्बलक्यूर प्राइवेट लिमिटेड
1137	49272	होटेल ली-मण्ट प्राइवेट लिमिटेड
1138	49273	यूनी-लाजिस्टिक्स लैन प्राइवेट लिमिटेड
1139	49278	ओवल पार्क अग्रो टेक एण्ड फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1140	49279	टेलि साउथ कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1141	49280	क्वान्टस इन्फोसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1142	49285	तिलोत्तमा फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1143	49286	जियान रेमडीज़ प्राइवेट लिमिटेड
1144	49289	फेमिली केर एन्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
1145	49294	ई3 डिजिटल टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1146	49295	श्री मूकाबिगा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1147	49301	अधिका ऐटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
1148	49304	श्री अम्मन अग्रो टेक फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1149	49305	थास इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
1150	49306	एमपी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1151	49308	नालिन ट्रावल्स एण्ड टूरस प्राइवेट लिमिटेड
1152	49309	वलर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1153	49310	मद्रास कफे (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
1154	49315	बेस4बैन्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1155	49316	डबल्यू-ओन सेक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
1156	49318	नम्बिस इम्पोर्ट्स & एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1157	49320	शाबु कन्सयूमर प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1158	49322	फिडा इंजीनियरिंग & टेक्निकल कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1159	49324	प्रिसेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1160	49325	नवीन पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1161	49326	हिल्टन रिसर्च & ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट
1162	49328	प्राण्ट लाजिस्टिक्स & ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
1163	49330	क्रोसियर टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1164	49331	जे.पी. बिल्डर्स (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
1165	49332	सेप इंजीनियरिंग & कन्सल्टरक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1166	49336	हरेश्वर ऐटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1167	49339	टी टी असोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1168	49345	अलिकार टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1169	49359	मुरुगन है-टेक अग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1170	49365	हर्जुन होम डेलिवर्स प्राइवेट लिमिटेड
1171	49376	मिल्लेनियम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड
1172	49377	मंगै आफिस नीड्स प्राइवेट लिमिटेड
1173	49387	अपेक्स शिपिंग सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1174	49388	एस जी के टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1175	49400	टेरा फिरमा फार्मासिटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1176	49406	अल्मिक्स अस्फाल्ट एक्जुप्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1177	49408	जिनीसिस ऐ केर प्राइवेट लिमिटेड
1178	49413	इन्फिनेट फ्लोरा प्राइवेट लिमिटेड
1179	49415	केपिटल इन्प्रिन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1180	49429	अविघ्ना एण्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
1181	49431	जीवरत्न एण्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
1182	49435	जुलू स्टार इंपोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1183	49439	रिफार्म अक्वा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1184	49441	मेनंग ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1185	49443	मीनाक्षी मेडिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1186	49444	एंग्लो सीस कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
1187	49449	मूवेदर विसन्स लिमिटेड
1188	49457	महाजनम.काम प्राइवेट लिमिटेड
1189	49458	अचिल्लस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1190	49459	मोनारो इंडिया सेक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड
1191	49466	केन्नि बयोमेड प्राइवेट लिमिटेड
1192	49467	मेपिल थाट्स प्राइवेट लिमिटेड
1193	49471	रवी बयालजिकल प्राइवेट लिमिटेड
1194	49480	विग्रे अग्रो एण्ड अल्लैड फार्म प्राडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1195	49491	इंडस इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड
1196	49492	क्रोयडान कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1197	49494	ग्रीन फोर्स ईको सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1198	49507	इट्टेग्रा इन्फोटेल् प्राइवेट लिमिटेड
1199	49509	शक्ति इंस्ट्रुमेंट्स एण्ड टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1200	49527	भारतमास कन्सल्टरक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1201	49528	लाजिक इन्साइट्स साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1202	49530	संस्ट्रीम कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1203	49532	एमकेदत्ता ब्रिजवे अग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड
1204	49534	अरम मेनपोरुलगम प्राइवेट लिमिटेड
1205	49535	एयरशैन एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
1206	49551	मेरिट गेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड
1207	49558	जी नेक्स्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1208	49561	पी स्कोयर्ड कन्सल्टन्सी सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1209	49575	स्टान्डर्ड रोड्स कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
1210	49580	ओस्मिया साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1211	49591	विस्कार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1212	49603	आरएसआर ऑटिक एक्सपोर्ट्स & इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1213	49605	पेलिता नसि कंडार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
1214	49606	वी-टीम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1215	49610	श्री अमृता कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1216	49616	सिंगपूर ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1217	49621	पनामा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1218	49623	मतिवाणन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
1219	49624	मीनाक्षी एक्सपोर्ट्स (वेल्लूर) प्राइवेट लिमिटेड
1220	49628	तिरुवान्कूर राजा वैद्य सालै प्राइवेट लिमिटेड
1221	49639	जेएसआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1222	49643	जेरिखो ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
1223	49652	एसकेटिएस कन्सल्टन्सी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1224	49657	आरंज सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1225	49660	एमसीटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1226	49664	लाणसर सेक्यूरिटी & एल्लैड सर्वीसस (चेन्नै) प्राइवेट लिमिटेड
1227	49667	वी स्टार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1228	49669	ग्रीन अग्रो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1229	49670	रापिया रेक्यूटमेंट एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1230	49674	सिंगपूर कोरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1231	49680	सेंट अब्रहम अग्रो प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1232	49689	श्री अम्मन साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1233	49700	हुआ टांग सीफुड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1234	49701	बी बी कस्टमर सपोर्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1235	49702	कटारी इंपोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1236	49709	अर्नको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1237	49711	श्रीपाल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड
1238	49712	ओशो फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1239	49715	लेक्स्ल्स एक्सकवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1240	49717	एडिफैस इन्फर्मेशन एण्ड टेक्निकल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1241	49723	उदय रीकन्डिशनर्स प्राइवेट लिमिटेड
1242	49725	कोरमेण्डल फिशरीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1243	49726	काप्पा लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1244	49734	चेन्नै लान्केमी प्राइवेट लिमिटेड
1245	49745	ईलुक फेर्स प्राइवेट लिमिटेड
1246	49753	कुमार नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1247	49754	शुभ इन्फो प्राइवेट लिमिटेड
1248	49755	चेन्नै एनएमआरए स्केन्स प्राइवेट लिमिटेड
1249	49756	डी बी टेकनो हेचआर प्राइवेट लिमिटेड
1250	49759	सिस्ट्राल टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1251	49770	पेटर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1252	49771	केस इन्फर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1253	49777	मैक्रो कंर मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1254	49781	साम पेल्ले प्राइवेट लिमिटेड
1255	49791	जे के एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड
1256	49792	सेलटेक साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1257	49797	ओमेगा बयो हेल्थकेर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1258	49813	अरक्कल पवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1259	49821	एम जी एम स्टोन करसर्स प्राइवेट लिमिटेड
1260	49825	एस जे आडियो प्यूपल प्राइवेट लिमिटेड
1261	49833	श्री मुष्पात्ताम्न मल्टीमार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1262	49838	बीनस्टाल्क अडवरटैसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1263	49839	सीएस अक्वाटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1264	49843	एडन (इंडिया) अप्लैयन्स प्राइवेट लिमिटेड
1265	49856	राकोड लेबरटरीस प्राइवेट लिमिटेड
1266	49860	बालाजी नालेज हाउस प्राइवेट लिमिटेड
1267	49865	पाटिन इन्फोटेन्मेंट प्राइवेट लिमिटेड
1268	49867	एलान्चियम नारायणन टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1269	49869	एस्चुआरी आइलैंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1270	49872	जानवी मेडिस्करैब्स प्राइवेट लिमिटेड
1271	49874	विग्नेश कम्प्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1272	49879	श्री किरण बिल्डर्स & प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1273	49883	बिसिनेस लीडर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1274	49885	नैन स्टार शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
1275	49888	पोल्लक्स टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1276	49897	मेण्टारी हालिडेस प्राइवेट लिमिटेड
1277	49911	हेप्टगन कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड
1278	49914	मयिलै टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
1279	49921	भाग्य रेखा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1280	49931	वीन्यू साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1281	49933	इन्फ्राए साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1282	49942	गामा लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1283	49953	रेहान सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1284	49955	रेपिडो साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1285	49957	स्वर्णलक्ष्मी बयोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1286	49963	वीएसई गोल्ड हाउस प्राइवेट लिमिटेड
1287	49970	आई-फोन कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1288	49971	नन्दा टेक्नालजीस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1289	49978	निम्मी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1290	49985	नित्या एयर ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
1291	49999	एस & के कान्सेन्ट्रिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1292	50000	रद्रसानो इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1293	50001	पेक विसन प्राइवेट लिमिटेड
1294	50006	जे के एस कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1295	50019	ब्लास्सम हार्ट कन्सल्टन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1296	50025	साइ शक्ति कृपा फउंडेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1297	50027	विस्ता पालिप्राइवेट्स एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1298	50028	फ्येस टैम अप्पेरल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड
1299	50030	श्री सेल्वाबिगै चिट् फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
1300	50031	जेजी सनरैस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1301	50032	टिरग साफ्टवेअर प्राइवेट लिमिटेड
1302	50033	एलएसएनसी इंपेक्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1303	50034	ऐकिवे आनलैन सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1304	50036	चेन्नै स्केन्स एण्ड लेब्स प्राइवेट लिमिटेड
1305	50037	ट्रान्सरिम टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1306	50049	रैट गार्डस सेक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड
1307	50050	एन्टरान एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
1308	50051	वेदा क्वालिटी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1309	50052	विनुशा कन्टैनर लैन प्राइवेट लिमिटेड
1310	50053	अग्नि किरियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1311	50054	सालिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1312	50056	अमुदम डायरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड
1313	50060	डैव & ब्लासम्स वायेजस टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1314	50061	प्रोटेला टेक्नालजी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1315	50062	ग्रीन व्हील्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1316	50064	सीएमआई सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1317	50065	एम सी एस इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1318	50066	यू केन कंस्यूमर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1319	50071	रेक्सको ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1320	50077	एच & आर स्टील डीटैलिंग प्राइवेट लिमिटेड
1321	50080	एमराल्ड अप्पेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1322	50090	बू-वे इंटग्रेटेड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1323	50094	एल्डोराडो आई टी एनेबल्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड
1324	50095	श्री विजय मारुती एक्सपोर्ट्स एण्ड इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1325	50096	एसजीएस किरडिट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1326	50101	नीबर्न एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1327	50109	कास्टर & पोल्लक्स प्राइवेट लिमिटेड
1328	50114	श्री केएसआर स्पिन्नर्स प्राइवेट लिमिटेड
1329	50118	बालानंद एण्टरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
1330	50119	मोक्या इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1331	50120	सिल इन्फर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1332	50124	किनी टेक्नालजीस प्राइवेट लिमिटेड
1333	50125	मोल्डो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1334	50127	सेल्सियस कैंटीन & मल्टि सर्वीस प्राइवेट लिमिटेड

डी. सूर्यनारायण
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलानाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोविंद पॉय रायदूरकर मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 24-981.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोविंद पॉय रायदूस्कर मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के डायमंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 24-1016.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स के डायमंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्पिनान सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 24-754.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्पिनान सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कर्टींग एंड्ज मार्केटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 24-2660.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कर्टीग एड्ज मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आयडी हेल्थ रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 24-2478.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स आयडी हेल्थ रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ताजमहल इनवेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 24-472.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ताजमहल इनवेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेरामाऊंट डिस्ट्रीलरीज एण्ड वायनरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 24-2635.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पेरामाऊंट डिस्ट्रीलरीज एण्ड वायनरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इक्सोटिक गेम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 24-2637.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स इक्सोटिक गेम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्माल हैप्पी ईगल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 24-2639.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्माल हैप्पी ईगल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिरिया इंडस्ट्रीयल एण्ड लेबोरेटरी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-403001, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. 24-2653.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिरिया इंडस्ट्रीयल एण्ड लेबोरेटरी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. के. गायचोर
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमान मेट्रोग्राफ्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. 2007 का असम की 61-02-003221/964.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अमान मेट्रोग्राफ्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

को. आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोपिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. 18051/560.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोपिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस एम अमीरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तमाम बिल्डर्ज कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. 13254/560.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स तमाम बिल्डर्ज कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस एम अमीरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आईटी ट्री टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. 17017/560.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स आईटी ट्री टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस एम अमीरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेनज कुरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. 14400/560.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेनज कुरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस एम अमीरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इजी केयर मेडिकल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/आर ओ सी/एरनाकुलम/560/2007/00008.
--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स इजी केयर मेडिकल

प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस एम अमीरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस जे के इनवेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 7 सितम्बर 2007

सं. 560(3)/एम सी ए/आर ओ सी/एरनाकुलम/560/2007/00004
--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस जे के इनवेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस एम अमीरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

एरणाकुलम-682021, दिनांक 13 दिसम्बर 2006

सं. 560(5)/एस एम.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	2851	मैसर्स स्वतंत्रा भारतम प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	6250	मैसर्स युवा तेजस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	8375	मैसर्स टाइम चिट्स एण्ड क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	8559	मैसर्स वेस्टन वाच कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	8626	मैसर्स सनस्मिता केमिकल्स एण्ड पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	8663	मैसर्स मेनस्ट्रीम इण्डिया मेराइन प्राईवेट लिमिटेड
7.	8673	मैसर्स एमराल्ड ग्रीनरीस एण्ड हॉलीडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	8703	मैसर्स दि ओरीजनल टेक्नो सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	8711	मैसर्स यूनिको गोत फार्म प्राईवेट लिमिटेड
10.	8795	मैसर्स प्रगति प्लान्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
11.	8878	मैसर्स कुट्टनाड कनस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	9001	मैसर्स फाइन कलर इमेजस प्राईवेट लिमिटेड
13.	9009	मैसर्स पून्जीलाय प्लान्टेन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
14.	9076	मैसर्स मेनोत एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	9087	मैसर्स गैरुड ऑफ आर्ट्स एण्ड आईडियास प्राईवेट लिमिटेड
16.	9109	मैसर्स स्पर्णा मयूरा फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
17.	9113	मैसर्स वेर्नर क्लीनसर प्राईवेट लिमिटेड
18.	9140	मैसर्स पालघाट सुपरफाइन श्रेड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	9156	मैसर्स टेक्नीकल एनालाइसिस एण्ड रिचर्स सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
20.	9233	मैसर्स पीसी टेक कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	9456	मैसर्स एक्वा एजीआरटी टेक प्राईवेट लिमिटेड
22.	9480	मैसर्स डिंक पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	9526	मैसर्स चौवल्लूर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	9544	मैसर्स स्प्रिंकल कनस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	9547	मैसर्स एमबी सीसी प्राईवेट लिमिटेड
26.	9665	मैसर्स अभय मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
27.	9692	मैसर्स क्रिसेन कम्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	9696	मैसर्स फ़िल्म एकेडमी प्रोडक्शन्स केरला प्राईवेट लिमिटेड
29.	9943	मैसर्स अन्ना पेपर कनट्रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	9944	मैसर्स जे एण्ड पी श्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	9973	मैसर्स के. टी. टी. साइन्टिफिक प्राईवेट लिमिटेड
32.	9982	मैसर्स फैक्स कम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
33.	10038	मैसर्स स्मैक फाईनाइसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
34.	10048	मैसर्स अवनूर कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	10075	मैसर्स बटकुषि चिट्स एण्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
36.	10085	मैसर्स रेटीना प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	10225	मैसर्स सालाबार कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	10289	मैसर्स अमृता कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	10337	मैसर्स एडब्ल्यूएस ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
40.	10343	मैसर्स श्री. वी. एस बिल्डर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
41.	10346	मैसर्स ग्रीनवे इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
42.	10428	मैसर्स नेटवर्क इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
43.	10478	मैसर्स पोन्ट ली प्राईवेट लिमिटेड
44.	10509	मैसर्स कारवांस इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
45.	10527	मैसर्स ट्रियोन शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
46.	10544	मैसर्स तुरुतिकोट्टु प्लान्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	10546	मैसर्स ए एण्ड ए बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	10587	मैसर्स दर्शनम चिट्स एण्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
49.	10616	मैसर्स हेरीटेज इण्डिया टूर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
50.	10633	मैसर्स कोलम्बस मेरीटाइम प्राईवेट लिमिटेड
51.	10671	मैसर्स स्वराज्या ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	10688	मैसर्स एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
53.	10712	मैसर्स तिरुवोनम क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	10735	मैसर्स केआरजे होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	10745	मैसर्स सुब्रामण्या प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	10754	मैसर्स बुक्स एक्वा प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	10756	मैसर्स पावरटेक्स केबल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	10803	मैसर्स चार्टेक्स बेन्वर्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	10815	मैसर्स स्कारलेट कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	10824	मैसर्स अनचनगढ़ी चिट्स एण्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
61.	10877	मैसर्स आरती कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
62.	10920	मैसर्स इन्साफ कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
63.	10937	मैसर्स फलाव-आर-पाक फूड्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
64.	10940	मैसर्स डाटाब्रेन इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	10948	मैसर्स रिया एडवर्टाइसिंग एण्ड मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
66.	10960	मैसर्स नेसस सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	10970	मैसर्स रिलीफ रेमीडीस प्राईवेट लिमिटेड
68.	10994	मैसर्स इंटरनेट इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
69.	11037	मैसर्स वर्ल्ड चैनल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
70.	11061	मैसर्स अछुतान कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	11097	मैसर्स परुदीसा बीच रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	11117	मैसर्स काग्रो वर्ल्ड फ्रेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
73.	11134	मैसर्स भूमिका लैंड डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	11145	मैसर्स पुतुर हायरपर्वेस एण्ड इनवेस्टमेन्ट लीसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
75.	11171	मैसर्स इन्डस डायरेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
76.	11190	मैसर्स मेपिल वेन्चयर्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	11198	मैसर्स प्रवता रीयल एस्टेट एण्ड कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
78.	11199	मैसर्स ज्योमन प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	11200	मैसर्स टीमफेयर चिट्स एण्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
80.	11212	मैसर्स विंध्या रबर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	11241	मैसर्स इन्वायरमेंटल एण्ड नोन-कनवेन्शनल एनर्जी रिचर्स एण्ड कंसलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
82.	11278	मैसर्स सी बेड लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	11284	मैसर्स इन्फो-सर्व मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
84.	11302	मैसर्स त्रिवेन्द्रम मेडिकल सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
85.	11305	मैसर्स श्री आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	11352	मैसर्स भारतमुद्रा प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
87.	11369	मैसर्स गोडस ऑन कन्ट्री टूरिसम प्राईवेट लिमिटेड
88.	11400	मैसर्स वी. एस. एण्ड एफ. चिट्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	11421	मैसर्स कोचिन इनवेस्टमेंट्स एण्ड चिट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
90.	11456	मैसर्स वितयातिल चिट्स एण्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
91.	11457	मैसर्स जोडियाक स्टोनक्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
92.	11466	मैसर्स मालाबार सोलर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	11477	मैसर्स ज्योमन हाऊसिंग डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
94.	11481	मैसर्स एक्सर इंडस्ट्रीयल सिक्यूरिटी फोर्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	11485	मैसर्स गुडरिच लेबोरेटरीस प्राईवेट लिमिटेड
96.	11490	मैसर्स फोरब्राइट फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
97.	11512	मैसर्स एसबीएस टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
98.	11534	मैसर्स डिफेन्डर फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
99.	11543	मैसर्स जे एण्ड जे क्रियेटीव ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	11600	मैसर्स इंडीग्रेटेड हर्बल रेमीडिस प्राईवेट लिमिटेड
101.	11624	मैसर्स लाइव लिंक प्राईवेट लिमिटेड
102.	11638	मैसर्स क्वीनमेरीस चिट्स एण्ड वेन्चयर्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	11655	मैसर्स पेनिनसुलार केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	11676	मैसर्स तारकम चिट्स एण्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
105.	11681	मैसर्स साइबेरियन इन्फार्मेशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
106.	11768	मैसर्स एक्वेट मेराइन एक्जुपमेंट्स एण्ड मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	11793	मैसर्स मामांगम कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
108.	11802	मैसर्स पूर्वा अन्टोलोजिकल रिचर्स एण्ड इन्फेरिलिटी सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
109.	11811	मैसर्स एडप्लस कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	11925	मैसर्स अन्जना फार्मस एण्ड प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	11930	मैसर्स ऑरियन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	11949	मैसर्स जेबकोन शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
113.	11961	मैसर्स स्कीमेटिक टेक्नोक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	12019	मैसर्स कट्टप्पना कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
115.	12093	मैसर्स एसोटैड मार्केटिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
116.	12126	मैसर्स मेनडोट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
117.	12161	मैसर्स स्माइल केयर हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
118.	12232	मैसर्स स्पोर्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
119.	12256	मैसर्स फ्लाय-अप सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	12272	मैसर्स केसल कम्प्यूटर्स एण्ड एजुकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	12283	मैसर्स मलयालम ऑयल्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
122.	12313	मैसर्स श्री स्टार पॉवर सिस्टम्स लिमिटेड
123.	12315	मैसर्स निच्छु इवेंट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	12342	मैसर्स गोल्डस्टार वुड एण्ड फूड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
125.	12349	मैसर्स कन्नम्बा कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
126.	12360	मैसर्स कोस्मोपोलिटन ट्रेवल प्राईवेट लिमिटेड
127.	12362	मैसर्स डिवाइन ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
128.	12395	मैसर्स यू एस एस एकेडमीक प्राईवेट लिमिटेड
129.	12396	मैसर्स प्रोस्पेक्टस ट्रेनिंग एण्ड स्टाफिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
130.	12404	मैसर्स श्री शैल होलीडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	12422	मैसर्स पलमैरा होलीडेस एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
132.	12518	मैसर्स रेमी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	12529	मैसर्स आईनम इण्डिया मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
134.	12547	मैसर्स मैत्री प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
135.	12584	मैसर्स ताछेल डिस्ट्रीलरीज प्राईवेट लिमिटेड
136.	12632	मैसर्स ट्रीटोप होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	12634	मैसर्स शंकरापदम विजयल कम्बाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	12674	मैसर्स एम्पर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	12694	मैसर्स टी के एम कन्सलटेन्सी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
140.	12734	मैसर्स सेलकेयर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
141.	12910	मैसर्स जेएसवी एक्स्ट्रेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	12911	मैसर्स कालवरी फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
143.	12960	मैसर्स गुप्ती एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	13005	मैसर्स सारथी एण्ड एसोसिएट फाइबर एम्पायर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
145.	13025	मैसर्स चाचीस होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
146.	13036	मैसर्स सिग्नल कम्प्यूनिकेशन्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
147.	13041	मैसर्स स्कोटक फेबचेम प्राईवेट लिमिटेड
148.	13071	मैसर्स एसआरएच मेडिकल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	13074	मैसर्स हाई रेंज बेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	13085	मैसर्स ट्रस्टड ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
151.	13093	मैसर्स ओस्रो इन्फो टेक प्राईवेट लिमिटेड
152.	13103	मैसर्स गेट वर्ल्ड कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
153.	13120	मैसर्स इलान्जिकल फर्नीचर ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
154.	13132	मैसर्स गोल्डन ऑटोगेस प्राईवेट लिमिटेड
155.	13270	मैसर्स न्यूमार्क बायोलोजिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	13274	मैसर्स क्रिस्टिया वेन्चर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	13297	मैसर्स यूरस टेक कम्पोजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
158.	13302	मैसर्स पी. वाई. मोहम्मद अस्लाम कन्ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
159.	13325	मैसर्स पापुलर ऑक्साइडस प्राईवेट लिमिटेड
160.	13335	मैसर्स आर्या कोस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	13353	मैसर्स एल. आर. वी. कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
162.	13359	मैसर्स सार्क लामेक्स स्पाईस एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
163.	13362	मैसर्स वाइटबर्ड ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
164.	13369	मैसर्स सौदा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
165.	13379	मैसर्स मेडीस्क्रिप्ट टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
166.	13383	मैसर्स फ्लोरिडा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
167.	13431	मैसर्स एस्टेट एक्सप्लोर्स प्राईवेट लिमिटेड
168.	13457	मैसर्स फ्रैंट एक्सप्रेस लोजिस्टिक्स (इंटरनेशनल) प्राईवेट लिमिटेड
169.	13489	मैसर्स सोरोबन प्रिम्स ऑफिस टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
170.	13495	मैसर्स साऊथ इंडिया प्रोड्यूस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
171.	13496	मैसर्स टोटल फ्रैंट प्राईवेट लिमिटेड
172.	13522	मैसर्स इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी सोल्यूशन्स तेलिरातु इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
173.	13538	मैसर्स ट्रावनकोर लीशर्स प्राईवेट लिमिटेड
174.	13539	मैसर्स गार्ड डी नोर्ड सोफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
175.	13541	मैसर्स कोचिन टूक एण्ड ट्रेलर केरियर प्राईवेट लिमिटेड
176.	13549	मैसर्स विंग्स एडवर्गइजिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
177.	13569	मैसर्स अक्षरप्रिया पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	13574	मैसर्स अश्विनी आयुर्वेदिक हर्बल कंसनट्रेट्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	13575	मैसर्स सन बीम एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
180.	13593	मैसर्स इंटरनेट सिक्कुरिटीस प्राईवेट लिमिटेड
181.	13602	मैसर्स ग्लाइडर्स ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
182.	13616	मैसर्स बनयान इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
183.	13619	मैसर्स कुट्टम्बर कोकोनट प्रोसेसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
184.	13633	मैसर्स इन्डोमास ट्रेड्स एण्ड ट्रांस प्राईवेट लिमिटेड
185.	13641	मैसर्स ब्राइट रेसोर्डेसी प्राईवेट लिमिटेड
186.	13670	मैसर्स किषककेपल्लिवकल श्राम्बी एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
187.	13686	मैसर्स इन्द्रधनुष मेनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
188.	13709	मैसर्स कोडाकल टाइल फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
189.	13722	मैसर्स रीडवेल पब्लिशिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
190.	13733	मैसर्स कोचिन कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
191.	13764	मैसर्स अल-गायत्री ग्लोबल इन्फोसोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	14060	मैसर्स हॉसपस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
193.	14422	मैसर्स एमसी अनजी नेट सर्विसेस लिमिटेड
194.	14974	मैसर्स सेप टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
195.	15110	मैसर्स साइबरस्पेस सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

एस एम अमीरुल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोच्चि-682021, दिनांक 6 सितम्बर 2007

सं. एस एम 560(3)/एस एम/आर ओ सी/एरनाकुलम/10660/2007
--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज से तीन महीने के बाद रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित हो जाएंगी:--

क्र.	पंजीकरण सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	4801	मैसर्स फलेक्सोन ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	4802	मैसर्स मार्डन माही केम प्राईवेट लिमिटेड
3.	4803	मैसर्स बेलजे रीयल एस्टेट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
4.	4804	मैसर्स एम जी एम चिट फंड्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
5.	4816	मैसर्स पेटीओट केरला प्राईवेट लिमिटेड
6.	4818	मैसर्स यूरोटाईल प्राईवेट लिमिटेड
7.	4821	मैसर्स कोमिनट्रेक्स सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	4822	मैसर्स श्री रामाकृष्णा क्ले प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	4830	मैसर्स पेनक्वून कमर्शियल एण्ड मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
10.	4831	मैसर्स विचिनतनम प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
11.	4835	मैसर्स इसेक फिलटकूल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	4836	मैसर्स विजयपुर कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	4839	मैसर्स सान्ता फी फ्रूट्स एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	4844	मैसर्स केरला पब्लिक असीसटेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
15.	4849	मैसर्स रिची रबर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
16.	4852	मैसर्स ट्रेवनकोर प्लास्टिक्स एण्ड फाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	4853	मैसर्स पनडारी विडियो प्राईवेट लिमिटेड
18.	4855	मैसर्स ऐंजल्स डीप सी फिशिंग एण्ड मेराइन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	4863	मैसर्स पारकेम एग्रीको प्रोमोटर्स एण्ड कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	4871	मैसर्स एडम सुगर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	4916	मैसर्स माटसन लेमीनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	4925	मैसर्स डी. वी. डियो एरोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	4927	मैसर्स जी ए एम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
24.	4938	मैसर्स पेरियार ब्रिक्की एण्ड डिस्टिलरीस प्राईवेट लिमिटेड
25.	4942	मैसर्स रेनबो रबर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
26.	4943	मैसर्स ट्रावनकोर एक्वा कल्चर प्राईवेट लिमिटेड
27.	4946	मैसर्स बिम्स इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	4951	मैसर्स जलश्री मेराइन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
29.	4954	मैसर्स यूनीफेब लेटेस्ट टेक्नोलोजीस पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	4955	मैसर्स ओरनामेन्टल पेलेस मेन्यूफेक्चर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
31.	4962	मैसर्स क्लेरीट्रोनिक्स सिस्टम्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
32.	4998	मैसर्स अलसु वीनस बिजनेस कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	5008	मैसर्स स्नो क्वीन मेराइन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
34.	5014	मैसर्स मग्मा फार्मास्यूटिकल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	5019	मैसर्स सम्राटियन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
36.	5034	मैसर्स पी. जे. एम. मेक्रो प्रोसेसर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
37.	5043	मैसर्स इरामेत चिट्टी फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	5051	मैसर्स परिपावनम कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
39.	5052	मैसर्स सहयाद्री फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
40.	5056	मैसर्स त्रयलार साइन इंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड
41.	5074	मैसर्स बिटज इण्डिया एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	5077	मैसर्स इविडिया बिबरेजस प्राईवेट लिमिटेड
43.	13507	मैसर्स शेरकर ग्लास लिमिटेड

के. श्रीकुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

एरनाकुलम-682021, दिनांक 3 नवम्बर 2006

सं. 560(5)/2006.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से रजिस्टर से काट दिये गये और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं:--

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	4332	मैसर्स विजोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2.	8492	मैसर्स ऑरबिट लिंक्स इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	10853	मैसर्स क्रोटकेप फाईनांस लिमिटेड
4.	8782	मैसर्स डिकोरा स्विचस् प्राईवेट लिमिटेड
5.	8884	मैसर्स मालाबार एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
6.	13043	मैसर्स प्लाटून इंटरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
7.	7156	मैसर्स क्रोडगनल्लूर प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
8.	7919	मैसर्स टेक्नोपार्क डेवलपमेंट्स लिमिटेड
9.	8284	मैसर्स वेन्नाली फाईनेंस एण्ड हायर पर्सिसिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	5341	मैसर्स पुष्पांजली पलाईवुड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
11.	5338	मैसर्स सिटी अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	8805	मैसर्स सुकापुरम फाईनेंस पार्क प्राईवेट लिमिटेड
13.	8530	मैसर्स सेंट मेरीस चिट्टीस प्राईवेट लिमिटेड

एस एम अमीरूल मिल्लत
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

हैदराबाद-500195, दिनांक 30 अगस्त 2007

सं. आर ए सी/एस ई एस-2005/560(3)/अगस्त 2007.--सूचना दी जाती है कि कम्पनी कार्य मंत्रालय के इस ई एस-2005 आसान कलम स्कीम-2005 दिनांक 28.01.2005 के अनुसार इस कार्यालय में आवेदन किया है, सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	01-19025	मैसर्स धारीवाल मार्केटिंग इण्डिया लिमिटेड
2.	01-15473	मैसर्स नागावली प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	01-18028	मैसर्स पिट्टी लूब्रिकेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	01-10701	मैसर्स मारुथी फेरो एलॉयस लिमिटेड
5.	01-17113	मैसर्स आर. के. पोलीसाक्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	01-16353	मैसर्स साई लक्ष्मी एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	01-10074	मैसर्स इन्दूपुरू वेंकटा राव एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
8.	01-32470	मैसर्स तंगाडा मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	01-32233	मैसर्स सुवा सप्लीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	01-19601	मैसर्स साव्या दूस एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	01-15677	मैसर्स कपिल केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	01-20062	मैसर्स स्वाति फाइबर्स लिमिटेड

1	2	3
13.	01-22113	मैसर्स रीवराइन बायोटेक लिमिटेड
14.	01-22552	मैसर्स एसेस मेडिकल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	01-20049	मैसर्स अश्विनी फाइबर्स लिमिटेड
16.	01-28352	मैसर्स ताराकंठी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	01-28496	मैसर्स ट्राईस्ट इंजीनियरिंग एण्ड फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	01-23332	मैसर्स बाटको केरियर्स लिमिटेड
19.	01-4137	मैसर्स जया पोली एलायंस प्राईवेट लिमिटेड
20.	01-7639	मैसर्स कोलिन डियो स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	01-41825	मैसर्स विनशाईन मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
22.	01-40133	मैसर्स रिलाईएबल मोनोलिथिक्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	01-6305	मैसर्स कारंत मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	01-30796	मैसर्स एम एम के पावर प्राईवेट लिमिटेड
25.	01-4819	मैसर्स टेलीन्यूज प्राईवेट लिमिटेड
26.	01-4690	मैसर्स पुष्पा पेपर बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	01-4232	मैसर्स एलजेके मेनेजमेंट कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	01-4692	मैसर्स हरिदास प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
29.	01-38747	मैसर्स वालीवेटी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
30.	01-33711	मैसर्स रैंक मेडिका प्राईवेट लिमिटेड
31.	01-12091	मैसर्स एडी एक्सप्रेसन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
32.	01-1017	मैसर्स श्री गिरीराज इन्टरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड
33.	01-17518	मैसर्स ट्रांसमाइंड इन्फोटेक लिमिटेड
34.	01-17596	मैसर्स स्मार्ट फाईनैसियल एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
35.	01-14396	मैसर्स प्रनीत एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड
36.	01-10021	मैसर्स दास प्रोग्रेसिव सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	01-34309	मैसर्स इन्सीस इंटीग्रेटेड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	01-30385	मैसर्स एवोन बायो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
39.	01-31285	मैसर्स ट्रांस सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	01-39326	मैसर्स श्रीमाता टेलीकोम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	01-15425	मैसर्स जोय स्टार इनस्यूलेशन प्राईवेट लिमिटेड
42.	01-22047	मैसर्स गुडअर्थ लैब्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	01-33742	मैसर्स तेलगू टाकिस.कोम प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
44.	01-30325	मैसर्स शिगोल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	01-31967	मैसर्स समायका इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
46.	01-34936	मैसर्स ई.बायोटेक लिमिटेड
47.	01-35050	मैसर्स नेट स्टार सोफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	01-32202	मैसर्स कोसाइन एनर्जी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	01-28370	मैसर्स श्री श्रीनिवासा थिएटर्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	01-30568	मैसर्स डॉ. जे. वी. राव पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	01-10006	मैसर्स श्री लक्ष्मी गणपति कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	01-23844	मैसर्स साई शेखर ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	01-23953	मैसर्स परिमाला एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
54.	01-23952	मैसर्स कामारेड्डी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
55.	01-28870	मैसर्स ओएससी एग्रीजर्न प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	01-15553	मैसर्स इन्डकोम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	01-15213	मैसर्स डब्ल्यूआईएस टेकनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	01-38125	मैसर्स महायोगी लक्ष्मम्मा पावर प्राईवेट लिमिटेड
59.	01-15449	मैसर्स कपिला फाईनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
60.	01-20743	मैसर्स आईकोन सिक्क्यूरिटीस लिमिटेड
61.	01-21553	मैसर्स सीसी नेट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
62.	01-32949	मैसर्स केसीके इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
63.	01-16489	मैसर्स प्रीमियर मेनेजमेंट कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	01-32498	मैसर्स एसआरजे मेडिसोफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
65.	01-35331	मैसर्स हनुमान गिनिंग प्राईवेट लिमिटेड
66.	01-20405	मैसर्स सुपर सप्लाय एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड
67.	01-26611	मैसर्स सिबल .सन टेक्नोलोजिस लिमिटेड
68.	01-36350	मैसर्स उत्तम एनीमिडिया लिमिटेड
69.	01-8214	मैसर्स केएम इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	01-27686	मैसर्स डेक्कन रिक्रिएशन्स लिमिटेड
71.	01-37935	मैसर्स डाटाफोर्मिक्स आईटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	01-21097	मैसर्स सिल्वर ओएक आर्कड प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
73.	01-20859	मैसर्स श्रीनिवासा फाइबर इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
74.	01-35230	मैसर्स तक्षशिला सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
75.	01-20516	मैसर्स इण्डिया प्राइमस्टोक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट लिमिटेड
76.	01-35831	मैसर्स सिंधु पॉवर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	01-35095	मैसर्स ऑटोफिन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
78.	01-10602	मैसर्स एशियन मिनरल्स इंडस्ट्रीस लिमिटेड
79.	01-13944	मैसर्स एन. सी. एस. लेबोरेट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
80.	01-11015	मैसर्स एन. सी. एस. मोलासिस प्राईवेट लिमिटेड
81.	01-38714	मैसर्स यूनिवर्सल शूगर एक्सचेंज लिमिटेड
82.	01-16156	मैसर्स सिम्हागिरि एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	01-15911	मैसर्स श्री लक्ष्मी परमात्मा फार्मिनेस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	01-16917	मैसर्स नूर इंजीनियरिंग कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
85.	01-36087	मैसर्स डाटाफोरमिक्स टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
86.	01-36739	मैसर्स वीएसएम जेंटिंग आइसलैंड एण्ड इन्टरटेनमेंट लिमिटेड
87.	01-38223	मैसर्स ट्रेडिशनल फार्मा लिमिटेड
88.	01-38114	मैसर्स मलमान मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
89.	01-20702	मैसर्स श्री सेष साई लक्ष्मी श्रीनिवासा फार्मिनेस प्राईवेट लिमिटेड
90.	01-20111	मैसर्स तेलंगाना ऑयल टेक प्राईवेट लिमिटेड
91.	01-31136	मैसर्स अन्नामाया रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	01-29971	मैसर्स श्रीविद्या टेलीसॉफ्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
93.	01-29797	मैसर्स विजय इंटरनेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
94.	01-38229	मैसर्स आंध्रा ज्योति इंटरटेनमेंट एण्ड मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
95.	01-35104	मैसर्स आंध्रा ज्योति डाट कॉम प्राईवेट लिमिटेड
96.	01-22690	मैसर्स विजय बालाजी एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
97.	01-23330	मैसर्स स्प्रिंगलैंड एजुकेशनल एकेडमी लिमिटेड

1	2	3
98.	01-8779	मैसर्स श्री वासवी चिट फंड्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	01-41304	मैसर्स अरसीस इंटरप्राइस प्राईवेट लिमिटेड
100.	01-15204	मैसर्स बर्कशाइर इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

उक्त दर्शाए कम्पनियों को प्रस्ताव के अनुसार हटाने के बारे में किसी विशेष से कोई आपत्ति हो तो वे इस तारीख से 90 दिनों के भीतर अपनी शिकायत लिखित रूप में आवश्यक दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरी के पास प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रस्ताव के अनुसार बिना किसी सूचना के कम्पनियों के नामों को हटाया जाएगा।

हेनरी रिचर्ड
कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/560(3)/2007-2008.--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो, रजिस्ट्रार से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	22027	मैसर्स अमलास वेकेशन क्लब (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
2.	22064	मैसर्स गोरव ऑयल फील्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	22083	मैसर्स एमराल्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	22085	मैसर्स इम्पीरियल होलीडेस प्राईवेट लिमिटेड
5.	22106	मैसर्स इन्ट्यूटिव टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
6.	22109	मैसर्स फलो लाइन ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
7.	22116	मैसर्स नवोदय हेल्थ एण्ड फिनवेस्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
8.	22155	मैसर्स चेमिन्ड इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	22174	मैसर्स मैसूर वस्तुशिल्प बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	22175	मैसर्स रिशि वैली फार्मस एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	22197	मैसर्स ओजासी सॉफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
12.	22208	मैसर्स स्टर्लिंग एग्रो फार्मस एण्ड इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	22221	मैसर्स अन्नपूर्णेश्वरी डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	22228	मैसर्स डायनामिक इस्टेट्स डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	22236	मैसर्स तवाक्कल क्रशिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
16.	22238	मैसर्स वी. जी. एल. इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	22254	मैसर्स बशेश्वर पोलीथीन वैगस प्राईवेट लिमिटेड
18.	22257	मैसर्स मंजूनाथ पोल्ट्री फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
19.	22265	मैसर्स बेनैट एक्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	22282	मैसर्स डेफोडिल्स एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
21.	22283	मैसर्स बड्स एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
22.	22284	मैसर्स फ्लोरिस मेडोस एण्ड फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
23.	22318	मैसर्स बेंगलोर इन्फोटेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	22361	मैसर्स कनिष्का कॉफी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
25.	22412	मैसर्स ओलम्पिया लकजरी रिसोर्ट्स वेन्चर प्राईवेट लिमिटेड
26.	22418	मैसर्स कनल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
27.	22431	मैसर्स मेडोस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
28.	22433	मैसर्स पद्मावती पैराडाईज डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	22456	मैसर्स साई किरण प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	22470	मैसर्स ब्रोनको एण्ड क्रश ट्राव-एड्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	22481	मैसर्स आर्या रिसोर्ट्स एण्ड फार्म प्राईवेट लिमिटेड
32.	22483	मैसर्स सुधा सिलंक प्राईवेट लिमिटेड
33.	22524	मैसर्स एस. एस. मशीनरीस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
34.	22556	मैसर्स रोज-एन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	22589	मैसर्स निसारगा इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	22633	मैसर्स एस. वी. वाटर पार्कस एण्ड काटेजस प्राईवेट लिमिटेड
37.	22641	मैसर्स रूफस्केप प्लास्टिकस प्राईवेट लिमिटेड
38.	22669	मैसर्स वेन्ट एक्सिया कन्ज्यूमर अपलाइंसेस प्राईवेट लिमिटेड
39.	22681	मैसर्स नित्या हार्डवेयर मेन्यूफैक्चरिंग एण्ड सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
40.	22690	मैसर्स फूनिन एडवेन्चर टूरस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
41.	22694	मैसर्स हिल्टी माइक्रो इन्फोरमेशन सिस्टम्स एण्ड टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
42.	22699	मैसर्स सूर्या प्रभा एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	22703	मैसर्स इकोटेल सिस्टम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
44.	22753	मैसर्स टेलमाको इलेक्ट्रिक प्राईवेट लिमिटेड
45.	22766	मैसर्स सन सोलमेक्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	22785	मैसर्स फाइनकास्ट एलायज प्राईवेट लिमिटेड
47.	22805	मैसर्स मेनगोस सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
48.	22812	मैसर्स श्रीगुरु राघवेंद्रा इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
49.	22816	मैसर्स सूर्या एडवटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
50.	22833	मैसर्स कावेरी पार्सल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
51.	22839	मैसर्स सनोवा एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
52.	22851	मैसर्स अनुशा कम्प्यूटर्स एण्ड सोफ्टवेयर डेवलपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	22867	मैसर्स प्लस सिस्टम एण्ड इनफिनिटी इन्फोर्मेशन प्राईवेट लिमिटेड
54.	22880	मैसर्स बालाजी ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	22890	मैसर्स मिस मेडीकेटिक्स नेचर फोरमुलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	22893	मैसर्स सिससोफ्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	22899	मैसर्स श्री वीरेश्वर गिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
58.	22901	मैसर्स सर्वेक्षा रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड
59.	22922	मैसर्स इन्फोरेक सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
60.	22933	मैसर्स यूगोवै एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	22967	मैसर्स श्रीनी कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	22997	मैसर्स ओम साई फ्लोरोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
63.	23047	मैसर्स विश्वदीप मिडिया सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
64.	23050	मैसर्स हयामुखा प्लांट्स एण्ड एक्सट्रेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	23053	मैसर्स फोर डाईमेंशन टूरस एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	23064	मैसर्स एस एक्सपोजिशन प्राईवेट लिमिटेड
67.	23066	मैसर्स रूपाश्री फ्लोरोटेक प्राईवेट लिमिटेड
68.	23068	मैसर्स फोक्स बिजनेस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
69.	23077	मैसर्स इन्डेक्स स्टॉक एण्ड शेयर प्राईवेट लिमिटेड
70.	23094	मैसर्स पोर्टसब्रिज एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	23107	मैसर्स सुपरनोवा सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
72.	23108	मैसर्स जीईसी पावर कम्पनी ऑफ कुद्रेमुख इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
73.	23132	मैसर्स अपराजिता इन्टेलपावर प्राईवेट लिमिटेड
74.	23150	मैसर्स कोरेन मोलेन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
75.	23157	मैसर्स सीताराम एक्सट्रेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	23173	मैसर्स इम्पार कम्प्यूनिकेशन्स एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
77.	23185	मैसर्स एस. बी. आर. राइस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	23199	मैसर्स मेनन टेकओवर कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	23216	मैसर्स आरकेएच राइट केयर प्राईवेट लिमिटेड
80.	23220	मैसर्स साईवर स्टार प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	23227	मैसर्स संक्रांति एग्रो सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	23247	मैसर्स संकल्प कम्फोर्ट्स एण्ड होम्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
83.	23265	मैसर्स सर्वेयर कौनेन टूरस एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड
84.	23293	मैसर्स सिनियर्स इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	23356	मैसर्स ग्रीन मेडोज होम रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	23357	मैसर्स प्रगति कोरुगेटेड बॉक्सेस प्राईवेट लिमिटेड
87.	23379	मैसर्स चिया होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	23404	मैसर्स हॉक एयर प्राईवेट लिमिटेड
89.	23406	मैसर्स सप्तगिरि होलीडेज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	23420	मैसर्स पोन्नी एक्सप्रेस लाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	23424	मैसर्स ग्रीनग्लोरी इम्पेक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
92.	23427	मैसर्स एस आर एस मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	23433	मैसर्स ग्रेफक्स स्पेक्ट्रम प्राईवेट लिमिटेड
94.	23446	मैसर्स फ्रंटलाइन कम्प्यूनिकेशन्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	23448	मैसर्स जेडएपी मल्टीमिडिया प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	23451	मैसर्स पंसालीन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	23453	मैसर्स एस. अंकीरेड्डी कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	23465	मैसर्स प्रोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
99.	23492	मैसर्स ओरवित रिंग ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	23534	मैसर्स अरुणा ज्योति इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	23538	मैसर्स विभा टेक्नोलॉजिक्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	23542	मैसर्स कोहलर लक्ष्मी पावर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
103.	23585	मैसर्स प्रमीला एग्रो फार्मस प्राईवेट लिमिटेड
104.	23635	मैसर्स लीजरली वेकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	23640	मैसर्स पद्मा पेट वोटल्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
106.	23648	मैसर्स टीसीएफ कमर्शियल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	23657	मैसर्स विजयालक्ष्मी रिकवरी एजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	23670	मैसर्स सीलोकस बेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
109.	23684	मैसर्स विशाल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
110.	23685	मैसर्स देवाता पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
111.	23686	मैसर्स अचर पेंट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
112.	23692	मैसर्स कॉकण कोस्टल लाईस प्राईवेट लिमिटेड
113.	23696	मैसर्स विनसोम कान्सटेक प्राईवेट लिमिटेड
114.	23711	मैसर्स आर. एच. एगोटेक प्राईवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिमटेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/7833/560(3)/2007.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिमटेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित की जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बैंगलूर, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/560(3)/2006.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो, रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	8157	मैसर्स स्प्रिंगफील्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	6732	मैसर्स आर. एल. केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	10388	मैसर्स आइरस टेक्नोलॉजिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	7146	मैसर्स जेटीवी मेटल फिनिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	10382	मैसर्स बाश ग्रिल्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	10948	मैसर्स स्वच्छन्दा कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	10221	मैसर्स सदरन माइक्रो लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	7826	मैसर्स पल्लवी फूड प्रोडक्ट्स बेवरेजस प्राईवेट लिमिटेड
9.	8801	मैसर्स साइधर इम्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	8759	मैसर्स चिन्ना नाची मुथ्यू राक ड्रिल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	4613	मैसर्स सुबागो पैक प्राईवेट लिमिटेड
12.	7565	मैसर्स वीएल फार्नेस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	4592	मैसर्स गैस एण्ड इलेक्ट्रीकल एप्लैसेस इंडस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
14.	9646	मैसर्स फरलोन रबर एण्ड सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	10471	मैसर्स त्रिदेवी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	3601	मैसर्स सी एस कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	8767	मैसर्स एन्ध्रापर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	10950	मैसर्स कैन्डर वॉच केसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
19.	3637	मैसर्स जॉनसन मेरीटाइम एण्ड मर्कनटाइल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
20.	3396	मैसर्स एम. एस. कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
21.	3311	मैसर्स अन्नापूर्णा पेपर मिल्स लिमिटेड
22.	8092	मैसर्स सूर्या टाइल्स लिमिटेड
23.	10242	मैसर्स पेनिनसूला स्काईवेज प्राईवेट लिमिटेड
24.	4206	मैसर्स गणेशा फिनिशिंग इक्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	11503	मैसर्स वोरा टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कम्पनी पंजीयक
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर-34, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. 560(5)/आर.ओ.सी.बी./एस.टी.ए./560(5).--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1.	4898	मैसर्स यूनिवर्टेक्स मशीनरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	25072	मैसर्स क्यूएसएस स्पेयर्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
3.	30664	मैसर्स लउंज आर्ट्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कम्पनी पंजीयक
कर्नाटक

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
EXAMINATION NOTICE NO. 02/2008—CDS-I
(LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : 29-10-2007
COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION (I), 2008
[INCLUDING SSC WOMEN (NON-TECHNICAL) COURSE]
(COMMISSION'S WEBSITE : <http://www.upsc.gov.in>)

New Delhi, the 29th September 2007

No. F-8/3/2007-E.I(B).—A Combined Defence Services Examination will be conducted by the Union Public Service Commission on 17th February, 2008 for admission to the undermentioned courses.

Name of the Course and Approximate No. of Vacancies:

1. Indian Military Academy, Dehradun—126th Course commencing in January, 2009 [Includes 32 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders]. 250
2. Naval Academy, Goa—Course commencing in January, 2009 Executive (General Service) [including ten vacancies reserved for NCC 'C' Certificate holders (Naval Wing)]. 40
3. Air Force Academy, Hyderabad—(Pre-Flying) Training Course commencing in January, 2009 i.e. No. 185th F(P) Course. 32
4. Officers' Training Academy, Chennai—89th SSC Course commencing in April, 2009. 175
5. Officers Training Academy, Chennai—3rd SSC Women (Non-Technical) Course commencing in April, 2009. 15

NOTE : The number of vacancies given above is tentative and may be changed at any stage by H. Q.

N.B. (I) (a) A candidate is required to specify clearly in column 22 of the Application Form the Services for which he/she wishes to be considered in the order of his/her preference. A male candidate is advised to indicate as many preferences as he wishes to, subject to the condition given at paras (b) and (c) below, so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointment.

Since women candidates are eligible for OTA only, they should give OTA as their first and only preference.

(b) (i) : If a male candidate is competing for Short Service Commission (Army) only, he should indicate OTA as the one and only choice. However, a male candidate competing for Short Service Commission Course at OTA as well as permanent commission course at IMA, Naval Academy and Air Force Academy should indicate OTA as his last preference, otherwise OTA will be deemed to be the last choice even if it is given a higher preference by the candidate.

(b) (ii) : Women candidates are being considered only for Short Service Commission at OTA. They should indicate OTA as the only choice.

(c) Candidates who desire to join Air Force Academy must indicate AFA as first choice, as they have to be administered pilot aptitude battery test at one of the AFSB and AF Medical

at Central Medical Establishment/Institute of Aviation Medicines. Choice exercised for AFA as second or third will be treated as invalid.

(d) Candidates should note that, except as provided in N.B. (II) below, they will be considered for appointment to those courses only for which they exercise their preference and for no other course(s).

(e) No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission. No change of choice once exercised will be allowed. Second choice will come for consideration only when the first choice is not offered to the candidate by Services HQ. When first choice is offered and a candidate declines the same, his candidature will be cancelled for all other choices for regular commission.

N.B. (II) The left-over candidates of IMA/Naval Academy/Air Force Academy courses viz., those who have been recommended by the Union Public Service Commission for grant of permanent commission on the basis of the final results of this Examination, but who could not be inducted on these courses for any reason whatsoever may be considered for grant of SSC even if they have not indicated their choice for this course in their applications, if they are subsequently willing to be considered for this course subject to the following conditions :

(i) There is a shortfall after detailing all the candidates who competed for the SSC Course; and

(ii) The candidates who are detailed for training even though they have not expressed their preference for SSC will be placed in the order of Merit List after the last candidate who had opted for this Course, as these candidates will be getting admission to the Course to which they are not entitled according to the preference expressed by them.

(iii) Candidates with Air Force as first and only choice cannot be considered as left over for grant of SSC (OTA) if they fail in the Pilot Aptitude Battery Test. Such candidates, if they desire to be considered for SSC (OTA) should exercise their option for OTA also.

NOTE 1 : NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) holders may also compete for the vacancies in the Short Service Commission Course but since there is no reservation of vacancies for them in this course, they will be treated as general candidates for the purpose of filling up vacancies in this course. Candidates who have yet to pass NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) examination, but are otherwise eligible to compete for the reserved vacancies, may also apply but they will be required to submit the proof of passing the NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) examination to reach the Army HQ/Rtg. CDSE Entry, for SSC male candidates and SSC women entry for female candidates West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066

in case of IMA/SSC first choice candidates and Naval HQ (R&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110 011 in case of Navy first choice candidates and PO 3 (A)/Air Headquarters 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110 011 in case of Air Force first choice candidates by 15th November, 2008. To be eligible to compete for reserved vacancies the candidates should have served for not less than 2 academic years in the Senior Division Army Wing and 3 academic years in the Senior Division Air Wing/Naval Wing of National Cadet Corps and should not have been discharged from the NCC for more than 24 months for IMA/Naval Academy/Air Force Academy courses on the last date of receipt of Application in the Commission's Office.

NOTE 2 : In the event of sufficient number of qualified NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) holders not becoming available on the results of the examination to fill all the vacancies reserved for them in the Indian Military Academy Course/Air Force Academy Course/Naval Academy Course, the unfilled reserved vacancies shall be treated as unreserved and filled by general candidates.

Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, standard, syllabus of the examination, (b) Guidelines with regard to physical standards for admission to the Academy and (c) Brief particulars of services etc. for candidates joining the Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

2. Centres of Examination : The Examination will be held at the following Centres :

Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Allahabad, Bangalore, Bareilly, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Cuttack, Dehradun, Delhi, Dharwar, Dispur, Gangtok, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mumbai, Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Raipur, Ranchi, Sambalpur, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram, Tirupati, Udaipur and Visakhapatnam.

The centres and the date of holding the examination as mentioned above are liable to be changed at the discretion of the Commission. While every effort will be made to allot the candidates to the centre of their choice for examination, the Commission may, at their discretion allot a different centre to a candidate, when circumstances so warrant. Candidates admitted to the examination will be informed of the time table and place or places of examination.

Candidates should note that no request for change of centre will normally be granted. When a candidate, however, desires

a change in centre from the one he/she/had indicated in his/her application form for the Examination, he/she must send a letter addressed to the Secretary, Union Public Service Commission, giving full justification as to why he/she desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after the 28th November, 2007 will not be entertained under any circumstances.

NOTE : While filling in his/her application form, the candidates should carefully decide about his/her choice for the centre for the examination. More than one application form a candidate giving different centres will not be accepted in any case. Even if a candidate sends more than one completed application, the Commission will accept only one application at their discretion and the Commission's decision in the matter shall be final.

If any candidate appears at a Centre/Paper other than the one indicated by the Commission in his/her Admission Certificate, the papers of such a candidate will not be valued and his/her candidature will be liable to cancellation.

3. Conditions of Eligibility :

(a) Nationality : A candidate must either be :

- (i) a Citizen of India, or
- (ii) a subject of Bhutan, or
- (iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will, however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination provisionally subject to the necessary certificate being given to him/her by the Govt. before declaration of result by UPSC.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status :

(i) For IMA—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 1985 and not later than 1st January, 1990 only are eligible.

(ii) For Naval Academy—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 1987 (2nd January, 1985 in

case of NCC Naval Wing 'C' Certificate holders) and not later than 1st January, 1990 only are eligible.

(iii) For Air Force Academy—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 1986 and not later than 1st January, 1990 only are eligible.

(iv) For Officers' Training Academy—SSC Course for men Male candidates (married or unmarried) born not earlier than 2nd January, 1984 and not later than 1st January, 1990 only are eligible.

(v) For Officers' Training Academy—(SSC) Women Non-Technical Course):

Unmarried women, issueless widows who have not remarried and issueless divorcees (in possession of divorce Documents) who have not remarried are eligible. They should have been born not earlier than 2nd January 1984 and not later than 1st January, 1990.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the attested/certified copy of Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate an attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing the date of his/her birth or exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

NOTE 1 : Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2 : Candidates should also note that once a Date of Birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an

Examination, no change will be allowed subsequently or at a subsequent examination on any ground whatsoever.

NOTE 3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth in column 8 of the application form for the Examination. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

(c) Educational Qualifications :

(i) For I.M.A. and Officers' Training Academy— Degree of a recognised University or equivalent.

(ii) For Naval Academy—B.Sc. (with Physics & Mathematics) or Bachelor of Engineering.

(iii) For Air Force Academy—Degree of a recognised University (with Physics and Mathematics at 10+2 level) or bachelor of Engineering.

Graduates with first choice as Army/Navy/Air Force are to submit proof of graduation provisional certificates on the date of commencement of the SSB Interview at the SSB.

Candidates who are studying in the final year Degree course and have yet to pass the final year degree examination can also apply but they will be required to submit proof of passing the degree examination to reach the Army HQ/Rtg. CDSE Entry, West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and Naval HQ "DMPR" (R & R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidate and PO3(A)/Air Headquarters, 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011 in case of Air Force first choice candidates by the following dates failing which their candidature will stand cancelled :

(i) For admission to IMA, Naval and Air Force Academy on or before 15th November, 2008.

(ii) For admission to Officer's Training Academy, Chennai on or before 1st February, 2009.

Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by government as equivalent to professional and technical degrees would also be eligible for admission to the examination.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he/she possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his/her admission to the examination.

NOTE I : Candidates, who have yet to pass their degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates who have yet to qualify in the final year Degree Examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the Degree examination

by the prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

NOTE II : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE III : In the event of Air Force candidates being suspended from Flying training for failure to learn flying, they would be absorbed in the Navigation/Administration/ Logistic Branch of the IAF. This will be subject to availability of vacancies and fulfilling the laid down qualitative requirements. (including 60% in graduation).

(d) Physical Standards :

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to Combined Defence Services Examination (I), 2008 as per guidelines given in Appendix-V.

4. Fee :

A candidate seeking admission to examination must pay to the Commission a fee of Rs. 100/- (Rupees one hundred only) through a single Central Recruitment Fee Stamp of the requisite denomination. Central Recruitment Fee Stamp (NOT postage stamps) may be obtained from the post office and affixed firmly on the application form in the space provided therein. The stamp must be got cancelled from the issuing Post office with the date stamp of the post office in such a manner that the impression of the cancellation mark partially overflows on the application form itself but within the space provided on the form. The impression of the cancellation mark should be clear and distinct to facilitate the identification of date and the Post Office of issue.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or representative abroad as the case may be for credit to account head '051-Public Service Commission-Examination Fees' and attach the receipt with the application. **CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES/ SCHEDULED TRIBES ARE NOT REQUIRED TO PAY ANY FEE. NO FEE EXEMPTION IS, HOWEVER, AVAILABLE TO OBC CANDIDATES AND THEY ARE REQUIRED TO PAY THE FULL PRESCRIBED FEE.**

'Postage Stamps' will in no case be accepted in lieu of Central Recruitment Fee Stamp.

NOTE (i) : CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THE FEE SENT THROUGH INDIAN POSTAL ORDERS, BANK DRAFT, MONEY ORDERS, CROSSED CHEQUE, CURRENCY NOTES OR TREASURY CHALLAN ETC. WILL NOT BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND

SUCH APPLICATIONS WILL BE TREATED AS WITHOUT FEE AND WILL BE SUMMARILY REJECTED.

NOTE (ii) : Applications not accompanied by the prescribed Fee (Unless remission of Fee is claimed) shall be summarily rejected.

NOTE (iii) : Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

5. How to Apply :

(a) The UPSC have developed an application form common for all their examinations which can be processed on computerised machines. This application form alongwith an information Brochure containing general instructions for filling up the form, an acknowledgement card and an envelope for sending the application is obtainable from the designated Head Post Offices/Post Offices throughout the country as listed in Appendix-III of Notice against cash payment of Rs. 20/- (Rupees twenty only). Form should be purchased from the designated Head Post Offices/Post Offices only and not from any other agency. This form can be used only once and for only one examination. Candidates must use the Form supplied with the information Brochure only and they should in no case use photocopy/reproduction/unauthorisedly printed copy of the Form. Since this form is electronically scannable, due care should be taken to fill up the application form correctly. While filling up the application form, please refer to detailed instructions given in Appendix-II of this Notice. The candidates should also fill up in the relevant places of the acknowledgement card, their Application Form Number (8-digit) and the name of the examination. The applicants are required to Affix the postage stamp of Rs. 6/- on the Acknowledgement Cards and send the same alongwith application form to UPSC. If an applicant fails to affix the postage stamp of requisite amount his Acknowledgement Card will not be dispatched and Commission will not be responsible for non-receipt of Acknowledgement Cards by the applicant. The duly filed in application form and the acknowledgement card along with unstamped self addressed envelope to receive a SSB interview call letter should then be mailed in the special envelope supplied with the Information Brochure. The candidates should also write the name of examination viz. "Combined Defence Services Examination-(I) 2008" on the envelope before despatching it to "Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069".

(b) All candidates (except those serving in Armed Forces) should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his/her application through his/her employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered. Persons serving under the Public Enterprises are however, required to submit an undertaking that they have informed

in writing their Head of Office/Department that they have applied for this Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

Candidates serving in the Armed Forces must submit their application through their Commanding Officer who will forward it to the Commission indicating in the forwarding letter the name of the applicant and his application Form Number (8-digit). Failure to comply with this instruction will entail cancellation of his candidature/rejection of his application.

NOTE : APPLICATIONS NOT ACCOMPANIED BY THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED AS IN PARA 4 ABOVE) OR INCOMPLETE OR DEFECTIVE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED.

No representation or correspondence regarding such rejection shall be entertained under any circumstances. Candidates are not required to submit along with their applications any certificate in support of their claims regarding age, educational qualifications, Scheduled caste/Scheduled tribe/OBC and fee remission etc.

THE CANDIDATES APPLYING FOR THE EXAMINATION SHOULD ENSURE THAT THEY FULFIL ALL THE ELIGIBILITY CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION.

Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. written examination and interview test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the written examination or interview test, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

Candidates are advised to keep ready the following documents in original along with their attested copies soon after the declaration of the result of the written part of the examination which is likely to be declared in the month of May, 2008 for submission to the Army HQ/Naval HQ/Air HQ as the case may be :

(1) Matric/Higher Secondary School Certificate or its equivalent showing date of birth. (2) Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet showing clearly having passed degree examination and eligible for award of degree.

In the first instance all qualified candidates eligible for SSB interview will carry their original Matric/Higher Secondary School Certificate as also their Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet with them while

going to the Services Selection Centres for SSB interview. Candidates who have not yet qualified the final year Degree examination must carry with them a certificate in original from the Principal of the College/Institution stating that the candidate has appeared/is appearing at the final year Degree examination. Candidates who do not carry the above certificates with them while going to the Services Selection Centres shall not be allowed to appear for the SSB interview. No relaxation for non-submission of the above certificates in original at the selection centre is allowed, and candidates who do not carry with them any of these certificates in original will not be permitted to appear for their SSB test and interview and they will be sent back home at their own expense.

If any of their claims is found to be incorrect/false/fraud/fabricated they may render themselves liable to disciplinary action by the Commission in terms of the following provisions :

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

- (i) obtaining support for his/her candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene languages or pornographic matter, in the script(s), or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or
- (xi) being in possession of or using mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination, or
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable :
 - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he/she is a candidate and/or

- (b) to be debarred either permanently or for a specified period :
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
- (c) if he/she is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rules shall be imposed except after,

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he/she may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him/her into consideration.

CANDIDATES MAY NOTE THAT THEY SHOULD NOT APPLY TO THE U.P.S.C. FOR APPLICATION FORM, RULES SYLLABUS ETC. APPLICATION FORM AS MAY BE PURCHASED FROM THE DESIGNATED HEAD POST OFFICES/POST OFFICES LISTED IN APPENDIX-III SHOULD BE USED AS EXPLAINED ABOVE.

6. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

(i) The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Raod, New Delhi-110069 on or before 29th October, 2007.

(ii) In respect of applications received only by post (by post/speed post) from the candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad, the last date for receipt of applications is 5th November, 2007. The benefit of extended time will be available only in respect of applications received by post/speed post from the above mentioned areas/regions. In the case of applications received by hand or through courier service, benefit of extended time will not be available regardless of the place of residence of the applicant.

Candidates who are claiming the benefit of extended time should clearly indicate in Column 13(II) of the application form, the area code of the particular area or region (e.g. Assam, Meghalaya, J&K etc.) where they are residing. In case they fail to do so, the benefit of extended time will not be allowed to them.

NOTE I : Candidates should clearly note that the Commission will in no case be responsible for non-receipt of

their application or any delay in receipt thereof on any account whatsoever. No application received after the prescribed last date will be entertained under any circumstances and all the late applications will be summarily rejected. They should, therefore, ensure that their applications reach the Commission's Office on or before the prescribed last date.

NOTE II : Candidates can also deliver their applications personally at the Commission's counter. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission.

NOTE III : Applications received through Couriers or Courier Services of any type shall be treated as having been received "By hand" at the Commission's Counter.

7. ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS :

Immediately on receipt of an application from a candidate, the Acknowledgement Card submitted by him/her along with the application form will be despatched to him/her by the Commission's office duly stamped in token of receipt of his Application. If a candidate does not receive the Acknowledgement Card within 30 days, he/she should at once contact the Commission by quoting his/her Application Form No. (8-digit) and name & year of examination. Candidates delivering the application form in person at the Commission's Counter will be issued Acknowledgement Card at the Counter itself. The mere fact that a candidate's application has been acknowledged by the Commission does not mean that his/her candidature for the examination has been accepted by the Commission. Candidates will be informed at the earliest possible about their admission to the examination or rejection of their application.

8. CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION/ ARMY/NAVAL/AIR HEADQUARTERS :

The Commission will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases :

- (i) Every candidate for this examination will be informed at the earliest possible date of the result of his/her application. Admission certificates, indicating the Roll Nos., Centre and the Courses to which admitted will be issued to the candidates who are admitted to the examination. The admission certificate will bear the photograph of the candidate. If a candidate does not receive his/her admission certificate or any other communication regarding his/her candidature for the examination three weeks before the commencement of the examination, he/she should at once contact the Commission. On receipt of such a communication, Admission certificate or a duplicate copy thereto will be issued to the admitted candidate. Information in this regard can also be obtained from the Facilitation Counter

located in the Commission's Office either in person or over phone Nos. 011-23381125/011-23385271/011-23098543. In case no communication is received in the Commission's Office from the candidate regarding non-receipt of his/her admission certificate at least 3 weeks before the examination, he/she himself/herself will be solely responsible for non-receipt of his/her Admission Certificate. It may be noted that the Admission Certificate will be issued at the address as photo-copied from the application form filled in by the candidate. The candidate should, therefore, ensure that the address given by him i/her in the application form is correct and complete with pin code.

No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he/she holds a certificate of admission for the examination. On receipt of Admission Certificate, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of UPSC immediately.

The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per age and educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the application form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions by the UPSC.

- (ii) In the event of a candidate receiving more than one Admission Certificate from the Commission, he/she should use only one of these Admission Certificates for appearing in the examination and return the other(s) to the Commission's Office.
- (iii) If a candidate receives an Admission Certificate in respect of some other candidate on account of handling error, the same should be immediately returned to the Commission with a request to issue the correct Admission Certificate. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of an Admission Certificate issued in respect of another candidate.
- (iv) The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.
- (v) Candidates should note that the name in the Admission Certificate in some cases, may be abbreviated due to technical reasons.
- (vi) A candidate must see that communications sent to him/her at the address stated in his/her application are redirected, if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity. Although the Commission make every

effort to take account of such changes, they cannot accept any responsibility in the matter.

IMPORTANT : All communications to the Commission/Army Headquarters should invariably contain the following particulars :

1. Name and year of the examination.
2. Application Form Number (8-digit).
3. Roll Number (if received).
4. Name of candidate (in full and in block letters).
5. Complete postal Address as given in the application with telephone number, if any.

N.B. : (i) Communications not containing the above particulars may not be attended to.

N.B. : (ii) If a letter/communication is received from a candidate after an examination has been held and it does not give his/her full name and Roll Number, it will be ignored and no action will be taken thereon.

N.B. : (iii) Candidates recommended by the Commission for interview by the Services Selection Board who have changed their addresses subsequent to the submission of their application for the examination should immediately after announcement of the result of the written part of the examination notify the changed address, alongwith an unstamped self addressed envelope, also to Army Headquarters, A.G's Branch Rtg. CDSE Entry, Section, for males and SSC Women Entry Section, for women candidates West Block-III, Ground Floor, Wing 1, Ramakrishnapuram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and Naval HQ (R&R Section) Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates, and PO 3 (A) Air HQs., 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011 in case of Air Force first choice candidates. Failure to comply with this instruction will deprive the candidate of any claim to consideration in the event of his/her not receiving the summon letter for interview by the Services Selection Board. Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests, if any relating to their interview direct to the Army Headquarters, A.G's Branch Rtg. CDSE Entry, West Block III Ground Floor, Wing 1, Ramakrishnapuram, New Delhi-110066 in case of candidates having IMA or OTA as their first choice and PO3 (A)/Air Headquarters, 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011 in the case of candidates having Air Force as first choice and Naval HQ (R&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in the case of candidates having Navy as first choice.

Candidates are requested to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in very genuine circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army Headquarters/

Air Headquarters/Naval HQ will be the sole deciding authority. Such requests should be sent to Selection Centre/SSB from where the call for SSB interview has been received.

N.B. : In case a candidate does not get the interview call for SSB interview for IMA by 4th week of August, 2008 and by 4th week of October, 2008 for OTA, he/she should write to Army Headquarters/Rtg. CDSE Entry/SSC Women Entry for Officers Training Academy, 175, West Block III, Ramakrishnapuram, New Delhi-110066 or contact on telephone No. 26173215 regarding non-receipt of the call-up letter.

For similar query by the Navy/Air Force candidates, having first choice as given *ibid*, should write to Naval Hqrs. or Air Hqrs. as mentioned in N.B. III (in case of non-receipt of call by 4th week of August, 2008).

(vii) ORIGINAL CERTIFICATES SUBMISSION OF—

Those candidates who qualify in the SSB interview will be required to submit their original certificates along with two attested copies thereof in support of educational qualification at Services Selection Centre after SSB interview. Those appearing for Degree Examination will be required to submit their certificates by 15th November, 2008 (1st February, 2009 in the case of SSC only). Instructions for the same will be given at SSB. Original certificates will be returned back after verification. Certified true copies or photostat copies of the certificates will not be accepted in any case.

9. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES.

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Candidates who are declared successful in the written exam will be detailed for intelligence and personality test at the Service Selection Board based on their preference, by the respective service HQ. Results of the test conducted by Service Selection Board will hold good for all the courses (i.e. Indian Military Academy (DE) Course, Dehradun, Naval Academy Goa Course, Air Force Academy (Pre-Flying) Course Hyderabad and SSC (NT) Course at OTA (Chennai) for which the candidate has qualified in the written exam, irrespective of the service HQ conducting it.

Two-stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and Intelligence Test has been introduced at Service Selection Boards. All the candidates will be put to stage one test on first day of reporting at Selection Centres. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests and all those who fail to pass stage one, will be returned back.

Only those candidates who qualify at stage two will be required to submit photocopy each of :—(i) Matriculation pass certificate or equivalent in support of date of birth, (ii) Bachelors Degree/Provisional Degree along with mark sheets of all the years/semesters in support of educational qualification.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the test there at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Candidates will be required to sign a certificate to this effect on the form appended to the application.

To be acceptable, candidates should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination and (ii) SSB test as fixed by the Commission in their discretion. The candidates will be placed in the order of merit on the basis of the total marks secured by them in the written examination and in the S.S.B. tests. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success at the examination confers no right of admission to the Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy or the Officers' Training Academy as the case may be. The final selection will be made in order of merit subject to medical fitness and suitability in all other respects and number of vacancies available.

Note : Every candidate for the Air Force and Naval Aviation is given Pilot Aptitude Test only once. The Grade secured by him at the first test will therefore hold good for every subsequent interview at the Air Force Selection Board. Those who have failed Indian Navy Selection Board/Pilot Aptitude Battery Test earlier and those who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force.

TEST/INTERVIEW AT AIR FORCE SELECTION BOARDS FOR THOSE CANDIDATES WHO APPLY FOR AIR FORCE THROUGH MORE THAN ONE SOURCE :—

There are three modes of entry into F (P) course viz. CDSE/NCC/Airmen. Candidates who apply for the Air Force through more than one source will be tested/interviewed at the Air Force Selection Boards only once for Air Force. Common candidates who fail in INSB/PAB tests as an NCC or Airmen candidate will be called again for OLQ testing for Army/Navy/OTS only if it is found that they have applied through CDS Exam. Candidates who qualify in the written examination for IMA (D.E.) Course and/or Navy (S.E.) Course and/or Air Force Academy course irrespective of whether they have also qualified for SSC Course or not will be detailed for SSB test in August to October, 2008 and candidates who

qualify for SSC Course only will be detailed for SSB tests in November, 2008 to January, 2009.

10. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE : Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, Indian Military Academy, Air Force Academy, Naval Academy, Goa, Officers' Training Academy, Chennai but were removed therefrom on disciplinary ground will not be considered for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy or for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the Indian Military Academy for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy. Candidates who were previously selected as Special Entry Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence Academy or from Naval Training Establishments for lack of Officer-like qualities will not be eligible for admission to the Indian Navy.

Candidates who were withdrawn from Indian Military Academy, Officers' Training Academy, NCC and Graduate course for lack of Officer-like qualities will not be considered for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the NCC and Graduates' course for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

11. RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY : Candidates for the Indian Military Academy Course or Naval Academy Course or Air Force Academy Course or women candidates joining Officers' Training Academy must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his/her application though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him/her by the Government.

No male candidate for the Short Service Commission course (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for admission to the Officers' Training Academy/grant of Short Service Commission. Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

12. OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY : After admission to the Indian Military Academy or the Naval Academy or the Air Force Academy, candidates will not be considered for any other commission. They will also not be permitted to appear for any interview or examination after they have been finally selected for training in the Indian Military Academy or the Naval Academy or the Air Force Academy.

13. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE/SHE HAS SUBMITTED HIS/HER APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

RAMESHWAR DAYAL

Deputy Secretary

Union Public Service Commission

APPENDIX-I

The scheme, standard and syllabus of the examination

A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The Competitive examination comprises :

(a) Written examination as shown in para 2 below.

(b) Interview for intelligence and personality test (vide Part 'B' of this Appendix) of such candidates as may be called for interview at one of the Services Selection Centres.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :

(a) For Admission to Indian Military Academy, Naval Academy and Air Force Academy:—

Subject	Duration	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100
3. Elementary Mathematics	2 Hours	100

(b) For Admission to Officers' Training Academy :—

Subject	Duration	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100

The maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be equal for each course i.e. the maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be 300, 300, 300 and 200 each for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy respectively.

3. The papers in the all the subjects will consist of objective type questions only. The question papers (Test Booklets) of General Knowledge and Elementary Mathematics will be set bilingually in Hindi as well as English.

4. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. The candidates are not permitted to use calculator for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

B. STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINATION

STANDARD

The standard of the papers in Elementary Mathematics will be of Matriculation level. The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

SYLLABUS

ENGLISH (Code No. 01)

The question paper will be designed to test the candidates' understanding of English and workmanlike use of words.

GENERAL KNOWLEDGE (Code No. 02)

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidate should be able to answer without special study.

ELEMENTARY MATHEMATICS (Code No. 03)

ARITHMETIC

Number System—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers. Fundamental operations, addition,

subtraction, multiplication, division, Square roots, Decimal fractions.

Unitary method—time and distance, time and work, percentages, applications to simple and compound interest, profit and loss, ratio and proportion, variation.

Elementary Number Theory—Division algorithm. Prime and composite numbers. Tests of divisibility by 2, 3, 4, 5, 9 and 11. Multiples and factors. Factorisation Theorem. H.C.F. and L.C.M. Euclidean algorithm. Logarithms to base 10, laws of logarithms, use of logarithmic tables.

ALGEBRA

Basic Operations, simple factors, Remainder Theorem, H.C.F., L.C.M., Theory of polynomials, solutions of quadratic equations, relation between its roots and coefficients (Only real roots to be considered). Simultaneous linear equations in two unknowns—analytical and graphical solutions. Simultaneous linear inequations in two variables and their solutions. Practical problems leading to two simultaneous linear equations or inequations in two variables or quadratic equations in one variable & their solutions. Set language and set notation, Rational expressions and conditional identities, Laws of indices.

TRIGONOMETRY

Sine x , cosine x , Tangent x when $0^\circ \leq$

$x \leq 90^\circ$ Values of $\sin x$, $\cos x$ and $\tan x$,

for $x = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ and 90°

Simple trigonometric identities.

Use of trigonometric tables.

Simple cases of heights and distances.

GEOMETRY

Lines and angles, Plane and plane figures, Theorems on (i) Properties of angles at a point, (ii) Parallel lines, (iii) Sides and angles of a triangle, (iv) Congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) Concurrence of medians and altitudes, (vii) Properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, (viii) Circles and its properties including tangents and normals, and (ix) Loci.

MENSURATION

Areas of squares, rectangles, parallelograms, triangle and circle. Areas of figures which can be split up into these figures (Field Book), Surface area and volume of cuboids, lateral surface and volume of right circular cones and cylinders, surface area and volume of spheres.

STATISTICS

Collection and tabulation of statistical data, Graphical representation frequency polygons, histograms, bar charts, pie charts etc. Measures of central tendency.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

In addition to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his/her intellectual qualities but also his/her social traits and interests in current affairs.

APPENDIX-II

Guidelines with regard to Physical Standards for Candidates for Combined Defence Services Examination.

Note : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS. THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS AND THE GUIDELINES FOR THE SAME ARE GIVEN BELOW :

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE, THEREFORE, ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

1. A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Women candidates will undergo Medical Examination by a Medical Board comprising male/female doctors/specialists/Gynaecologist. There will be a Lady Medical Officer as Member of Board. Only those candidates will be admitted to the Academy who are declared fit by the Medical Board. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Board and procedure for request for an Appeal Medical Board (AMB) will also be intimated to the candidate.

Candidates who are unfit may apply for Appeal Medical Board (AMB) to be completed within 42 days of SMB and may request for Review Medical Board (RMB) within one day of completion of Appeal Medical Board.

Candidates declared unfit by AMB will be intimated by the President AMB about procedure of challenging the findings of AMB. The candidates will also be intimated that holding Review Medical Board (RMB) will be granted at the discretion of DGAFMS based on the merit of the case and that RMB is not a matter of right.

Candidates shall automatically report to the hospital opted by them on any working day, keeping in view, the time taken by Postal authorities to deliver their Medical document at the Hospital for medical examination. No call shall be given by the opted hospital and no correspondence in this regard shall be entertained. The candidate must be

physically fit according to the prescribed physical standards which are summarised below :

- The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of duties.
- There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or over weight.
- The minimum acceptable height for male candidates is 157.5 cms. (157 cms for Navy and 162.5 cms for Air Force). For Women candidates minimum acceptable height is 152 cms. For Gorkhas and individuals belonging to hills of North-Eastern region of India, Garhwali and Kumaon, the Minimum acceptable height will be 5 cms less. In case of candidates from Lakshadweep, the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms.

These concessions are not applicable for Navy and Air Force. Height and Weight standards are given below. interpolation for weights against height not mentioned may be done.

Height and Weight Standards (Males)

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	18 years	20 years	22 years
152	44*	46	47
155	46	48@	49
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	52
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	60	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	78

*45 for Navy @ 47 for Navy

A $\pm 10\%$ (for Navy) departure from the average weight given in the Table above is to be considered within normal limit. However, in individuals with heavy bones and broad built as well as individuals with thin built but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

The acceptable weight for Air Force candidates will be $\pm 10\%$ of the average weight given above.

Height and Weight Standards (Females)

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	20 years	25 years	30 years
148	39	41	43
150	40	42	43.5
153	42	43.5	45
155	43	44	46
158	45	46	48
160	46	47	49
163	47	49	51
165	49	51	53
168	50	52	54

(d) In your own interest you are advised to undergo a preliminary medical check up for wax in ears, refractory error of eyes, fungal infection of skin etc. before reporting for the SSB interview.

(e) Chest should be well developed. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.

(f) There should be no disease of bones and joints of the body.

(g) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.

(h) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms. in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat.

(i) There should be no sign of functional or organic disease of the heart and blood vessel. Blood pressure should be normal and candidates be free from AIDS.

(j) The muscles of abdomen should be well developed and there should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.

(k) Un-operated hernias will make a candidate unfit. If operated, this should have been done at least one year prior to the present examination and healing is completed.

(l) There should be no hydrocele, varicocele or piles.

(m) Urine examination will be done and any abnormality, if detected will be a cause for rejection.

(n) Any disease of the skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.

(o) A male candidate should be able to read 6/6 in a distant vision chart with each eye with or without glasses (For Navy and Air Force without glasses only) Myopia should not be more than 3.5D and hypermetropia not more than 3.5D including Astigmatism. For women candidates the minimum acceptable visual acuity are distant Vision (corrected) better eye 6/6, worse 6/18, Myopia of not more than minus 5.5 including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be CP-III. A candidate should be able to recognise red and green colours.

(p) For women candidates if pregnancy is detected at any stage after selection at SSB or during training will debar the candidates including issue less widow/divorcee from grant of commission and cost recovered from the date of joining OTA till the date of debar on confirmation of pregnancy from Military Hospital Authorities.

RADIAL KERATOTOMY and LASER SURGERY: Candidates who have undergone or have the evidence of having undergone Radial Keratotomy to improve the visual acuity, will be permanently rejected for all three services.

In order to detect PRK/LASIK all the candidates at SMB will be subjected to the measurement of Axial length by A-Scan biometer.

Candidates who have undergone LASER Surgery for correction of refractive error will be considered for commission in Army if they fulfill following criteria:—

- (i) Age more than 20 years.
- (ii) Uncomplicated stable LASIK/Excimer (PRK) laser procedure done for Myopia or Hypermetropia, with stable refraction for a period of six months after the procedure.
- (iii) A healthy retina

- (iv) Corrected vision should be 6/6 in better eye and 6/9 in worse eye, with maximum residual refraction of ± 1.50 in any meridian for myopia or hypermetropia.

- (v) Axial length within permissible limits.

NOTES : The candidates will be asked to declare at the time of medical examination that he has undergone LASER procedure as above. He will be subjected to a thorough corneal and retinal evaluation by the ophthalmologist. However he will be declared unfit at the SMB and those found to be within the acceptable limits for approval as above will be advised to undergo an Appeal Med. Board. During AMB he will be subjected to a thorough corneal and retinal evaluation as also scrutiny of the records by a Senior Adviser in Ophthalmology.

- (q) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.

- (r) X-Ray examination of the chest will include the lower part of cervical spine for presence of cervical ribs. X-Ray examination of other parts of spine will be taken if the SMB considers it necessary.

2. In addition to the above, the following medical standards will be applicable in respect of Air Force candidates only :

- (a) Anthropometric measurements acceptable for Air Force are as follows :

Height	162.5 cms
Leg Length	Min. 99 cms & Max. 120 cms.
Thigh Length	Max. 64 cms.
Sitting Height	Min. 81.5 cms. & Max 96 cms.

- (b) X-ray of Cervical and Lumbosacral spine will be carried out. The following conditions detected in the X-ray will be disqualifying :

- (i) Granulomatous disease of Spine.
- (ii) Arthritis spondylosis.
- (iii) More than Mild Kyphosis/Lordosis, Scoliosis more than 15" by Cobb's method will be cause for rejection.
- (iv) Spondylothesis Spondylosis
- (v) Herniated Nucleus Pulposus.
- (vi) Compression fracture of Vertebra.
- (vii) Scheuermanns Disease
- (viii) Cervical Ribs with demonstrable neurological or circulatory deficit.

- (ix) Presence of Schmorl's node at more than one level.

- (x) Atlanto-occipital and Atlanto-axial anomalies.

- (xi) Incomplete Sacralisation unilateral or Bilateral.

- (xii) Any other abnormality, if so considered by specialist.

- (xiii) Sphenabifida at SV1 and LV5 Level alone or together.

NOTE : Candidates having any of the abovementioned spinal conditions are considered unfit for Army, Navy and Air Force.

- (c) Carrying angle of elbow should not be more than 10° (ten degree).

- (d) X-Ray of Chest is compulsory.

- (e) Vision

Distant Vision 6/6, in one eye and 6/9 Correctable to 6/6 Near Vision N-5 each eye Colour Vision CP-1 (MLT) Manifest Hypermetropia must not exceed +2.00 Dcyl 'Myopia-Nil' & +0.75 Dcyl.

- (f) Ocular Muscle Balance

Heterophoria with the Maddox Rod Test must not exceed :

- (i) at 6 metres Exophoria 6 prism dioptres,
Esophoria 6 prism dioptres,
Hypophoria/Hyperphoria
1 Prism Dioptres.

- (ii) at 33 cm Exophoria 16 prism dioptres
Esophoria 6 prism dioptres;
Hypophoria/Hyperphoria 1 prism
Dioptres.

Binocular Vision—Must possess good binocular vision (fusion and stereopsis with good amplitude and depth)

- (g) Hearing Standards

- (i) Speech test : Whispered hearing 610 cms.
each ear.

- (ii) Audiometric Test : Audiometric loss should not exceed +20 db in frequencies between 250 Hz and 4000 Hz.

- (h) Routine ECG and EEG should be within normal limits.

3. The Medical standards for candidates of Naval Aviation Branch will be the same as for flying duties of Air Force.

4. Detection of any disability in the course of a special test carried out prescribed for one service, may render the

candidate unfit for any other service(s), if so considered as disqualifying by Medical Board.

5. Physical Conditioning : Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition by following the undermentioned routine :—

- (a) Running : 2 to 4 Km. in 15 minutes
- (b) Skipping :
- (c) Pushups & Sit-ups : Minimum 20 each
- (d) Chin ups : Minimum 08
- (e) Rope Climbing : 3 to 4 metres.

APPENDIX-III

(Brief Particulars of service etc.)

Pay Scale of Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

(i) Pay

(a) Rank	Pay Scale
Lt.	Rs. 8250-300-10050
Capt.	Rs. 9600-300-11400
Major	Rs. 11600-325-14850
Lt. Col.	Rs. 13500-400-17100
Col.	Rs. 15100-450-17350
Brig.	Rs. 16700-450-18050

(b) In addition to pay, Rank pay will also be given as under :

Capt.	Rs. 400
Major	Rs. 1200
Lt. Col.	Rs. 1600
Col.	Rs. 2000
Brig.	Rs. 2400

Due to restructuring of the officer's cadre on recommendations of AVS committee, promotion period has been reduced and Time Scale promotion has been increased upto the rank of Col (equivalent) and rank of Lt Col (TS) has been abolished. Col (TS) (equivalent) is entitled to rank pay of Lt Col, which is currently Rs. 1600/- P.M.

(c) Rank	Pay Scale
Maj. Gen.	Rs. 18400-500-22400
Lt. Gen.	Rs. 22400-525-24500
Vice Chief of the Army Staff & Army Commander	Rs. 26000 (Fixed)
Chief of the Army Staff	Rs. 30,000 (Fixed)

NOTE : The pay of officers on promotion to the rank of Major and equivalent in a substantive capacity will be fixed initially

at the rate of Rs. 11925/- in the pay scale of Rs. 11,600-325-14,850/-, in addition to rank pay.

(d) Stipend during training at Service Academies : Fixed Stipend Rs. 8000/- per month for the entire duration of training.

(ii) Qualification Pay and Grant

Officers possessing certain prescribed qualification are entitled to lumpsum Qualification Grant of Rs. 3,000/-, 4,500/-, 7,500/- or 10,000/- based on the qualification held by them.

The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification, Pay, based on the Qualification held by them as under :—

- (i) Master Aviation Instructor—Rs. 250/- p.m.
- (ii) Senior Aviation Instructor Class I—Rs. 200/- p.m.
- (iii) Senior Aviation Instructor Class II—Rs. 140/- p.m.
- (iv) Aviators holding Master Green Card—Rs. 200/- p.m.
- (v) Aviators holding Green Card—Rs. 140/- p.m.

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army/Aviation Corps are entitled to flying allowance as under :

- (a) Lt. and equivalent Rs. 4,500/-.
- (b) Capt. and equivalent Rs. 5,500/-.
- (c) Maj. to Col. Rs. 7,000/-.
- (d) Brig. and above Rs. 5,250/-.

Other Allowances : (a) Compensatory (City and Dearness) Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time. (b) A kit maintenance allowance of Rs. 200/- p.m. (c) Depending upon the rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for Compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs. 2100/- to Rs. 2600/- p.m. and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs. 800/- to 1000/- p.m. (d) In addition to the Compensatory Modified Field Area Allowance Officers posted to area situated at a height of 9000 ft. to 15000 ft. and area above 15000 ft. High altitude/uncongenial climate allowance would be admissible at the rate of Rs. 530/- to Rs. 1060/- and Rs. 800/- to Rs. 1600/- p.m. respectively. (e) Siachen Allowance at the rate of Rs. 7000/- per month will be admissible in addition to Compensatory Field Area Allowance to officers of all ranks. This allowance is, however, not admissible in conjunction with High Altitude/Uncongenial climate allowance. (f) Outfit Allowance : Initial Outfit allowance is Rs. 6000/- for Army and Air Force and Rs. 7000/- for Navy Personnel. Renewal outfit allowance : Rs. 6000/- Rs. 7000/- after seven years of effective service. (g) Free rations are provided to all officers. (h) Transport Allowance :

"Transport allowance @Rs. 800/- per month in "A - 1" and "A" Class cities and Rs. 400/- per month at other places shall be admissible to officers not provided with Government accommodation within a distance of 1 KM from the place of work or within a campus housing the place of work and residence." (j) Children Education Allowance.

(A) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRADUN

1. Before the candidate joins the Indian Military Academy.

(a) He will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain. In the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) His parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered; he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training for about 18 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as gentlemen cadets. Gentlemen cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Indian Military Academy, Dehradun.

3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Indian Military Academy are not likely to exceed Rs. 200.00 per month. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance may be granted by the Government. Gentlemen/Lady Cadets undergoing training at Indian Military Academy, Officers Training Academy and corresponding training establishments in Navy and Air Force, in whose cases the income of parents/guardians does not exceed Rs. 1500/- (under revision) per month are eligible for financial assistance. In case of parents/guardians whose income exceeds Rs. 1500/- (under revision) per month but does not exceed Rs. 2000/- (under revision) per month, the same financial assistance will be given in respect of all the sons/wards if there are more than one son/ward simultaneously undergoing training in one or more than one of the above institutions

irrespective of the fact whether the institutions are under the same service or not. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance. The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should, immediately after his son/ward has been finally selected for training at the Indian Military Academy, submit an application through the District Magistrate of his District who will with his recommendation forward the application to the Commandant, Indian Military Academy, Dehradun.

4. Candidate finally selected for training at the Indian Military Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :

(a) Pocket allowance for five months	Rs. 1000.00
@ Rs. 200.00 per month.	
(b) For item of clothing and equipment	Rs. 2750.00
Total	Rs. 3750.00

Out of the amount mentioned above the following is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

Pocket allowance of five months @ Rs. 200.00 per month —Rs. 1000.00.

5. The following Scholarships are tenable at the Indian Military Academy :

(I) **PARSHURAM BHAU PATWARDAN SCHOLARSHIP**—This scholarship is awarded to cadets from MAHARASHTRA AND KARNATAKA. The value of one scholarship is upto a maximum of Rs. 500.00 per annum for the duration of a cadet's stay at the Indian Military Academy subject to the cadet's making satisfactory progress. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(II) **COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP**—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and is awarded to an eligible Maratha cadet who should be a son of ex-serviceman. The Scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

6. An outfit allowance at the rate and under the general conditions applicable at the time for each cadet belonging to the Indian Military Academy will be placed at disposal of the commandant of the Academy. The unexpended portion of the allowance will be :—

- handed over to the cadet on his being granted a commission, or
- if he is not granted a commission refunded to the State.

On being granted a commission article of clothing and necessities purchased from the allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles will, however be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

7. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen Cadet resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services, will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Indian Military Academy. A Gentlemen Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may with permission of the Government, be discharged. Service candidates under these circumstances will be reverted back to their parent Unit.

8. Commission will be granted only on successful completion of training. The date of commission will be that following the date of successful completion of training. Commission will be permanent.

9. Pay and allowances, pensions, leave and other conditions of service after the grant of commission will be identified with those applicable from time to time to regular officers of the army.

10. Training : At the Indian Military Academy Army Cadets, known as Gentlemen Cadets, are given strenuous Military training for a period of 18 months aimed at turning out, officers capable of leading infantry subunits. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt. subject to being medically fit, in S.H.A.P.E.

11. Insurance : The Gentlemen/Lady Cadets of IMA/OTA when in receipt of stipend of Rs. 8000/- per month are insured for Rs. 15 lac. Those who get medically boarded out of the Academy on account of disability, the disability cover provided for 100% disability will be Rs. 7.5 lac which is proportionately reduced upto Rs. 1.5 lac for 20% disability. However, for less than 20% disability, no disability benefit is eligible but an ex-gratia of Rs. 20,000/- will be paid. Disability due to alcoholism and drug addiction will not qualify for disability benefit and ex-gratia. Premium at the rate of Rs. 1500/- will have to be paid in advance on a monthly basis by the Gentlemen/Lady Cadets who are in receipt of stipend of Rs. 8000/- per month and will become members of the Main Army Group Insurance Scheme as applicable to Regular Army officers.

49—256 GI/2007

12. TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE

(i) POSTING

Army officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

(ii) PROMOTION

(a) Substantive promotions

The following are the service limits for the grant of the substantive promotion to higher ranks

By time scale :

Lt.	On completion of training
Capt.	2 years of reckonable commissioned service
Major	6 years of reckonable commissioned service
Lt. Col.	13 years of reckonable commissioned service
Col (TS)	26 years of reckonable commissioned service

By Selection :

Col.	20 years of reckonable commissioned service
Brigadier	23 years of reckonable commissioned service
Major Gen.	25 years of reckonable commissioned service
Lt. Gen.	28 years of reckonable commissioned service
General	No restrictions

(b) Acting promotion

Officers are eligible for acting promotion to higher ranks on completion of the following minimum service limits subject to availability of vacancies:

Captain	3 years
Major	6 years
Lt. Colonel	6½ years
Colonel	8½ years
Brigadier	12 years
Major General	20 years
Lt. Gen.	25 years

(B) FOR CANDIDATES JOINING THE NAVAL ACADEMY, GOA

1. (a) Candidates, finally selected for training at the Academy will be appointed as cadets in the Executive Branch of the Navy. They will be required to deposit the following amount with the Captain, Naval Academy, Goa.

(aa) Pocket Expenses—Personal expenses, Rs. 3250/- Toiletries, stationary etc. @ Rs. 650 pm	
(bb) Expenses on Laundry, Civilian bearer, Cinema, hair cutting etc. @ Rs. 350 per month	Rs. 1750/-
(cc) For items of clothing & equipment	Rs. 2300/-
(dd) Cost of meals and miscellaneous expenses	Rs. 200/-
(ee) Table money charge for cadet mess pm for 5 months @ Rs. 300/-	Rs. 1500/-
Total	Rs. 9000/-

(ff) Insurance : A sum of Rs. 780/- non-refundable premium for a cover of Rs. 8 Lakhs is required to be paid by the candidate on reporting to the Naval Academy during the six months of training. An additional premium of Rs. 780/- would be payable for each relegated term.

(ii) Selected candidates will be appointed as cadets and undergo training in Naval ships and establishment as under :—

(aa) Naval Orientation course at Naval Academy, Goa 20 weeks

(bb) Cadets Training 6 months

(cc) Midshipmen afloat training 6 months

(dd) Sub-Lieutenant (Technical course) 12 months

(iii) On completion of the above training the officers will be appointed on board Indian Naval Ships for obtaining Naval watch keeping certificate for which a minimum period of six months is essential.

(iv) The cost of training including accommodation and allied services, books, uniform, messing and medical treatment of the cadets of the Naval Academy will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will, however, be required to meet their pocket and other private expenses while they are cadets. When a cadet's parent or guardian has an income less than Rs. 1500 per mensem and is unable to meet wholly or partly the pocket expenses of the cadet financial assistance upto Rs. 140 per mensem may be granted by the Government. A candidate desirous of securing financial assistance may immediately after his selection, submit an application through the District Magistrate of his District, who will with his recommendations, forward the application to the Director of Manpower Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

Note : Further information, if desired, may be obtained from the Director of Manpower, Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

(C) FOR CANDIDATES JOINING THE AIR FORCE ACADEMY

1. There are three modes of entry into F(P) Course viz. CDSE/NCC/Airmen. Candidates who apply for Air Force through more than one source will be tested/interviewed at Air Force Selection Boards only once for Air Force as well as other arms of services. Common candidate who fail in INS-B/PAB test as an NCC or Airmen candidate will be called again for OLQ testing for Army/Navy/OTA only, if it is found that he has applied through CDS Exam., also.

2. Detailing for Training—Candidates recommended by the AFSBs and found medically fit by appropriate medical establishment are detailed for training strictly on

the basis of merit and availability of vacancies. Separate merit list are prepared for Direct entry candidates through UPSC and for NCC candidates. The merit list for Direct Entry Flying (Pilot) candidates is based on the combined marks secured by the candidates in the tests conducted by the UPSC and at the Air Force Selection Boards. The merit list for NCC candidates is prepared on the basis of marks secured by them at AFSBs.

3. Training—The approximate duration of training for Flying Branch (Pilots) at the Air Force Academy will be 74 weeks.

Insurance cover during Flying Training—(Rates are under revision).

Air Force Group Insurance Society would pay Rs. 1,00,000/- for a monthly contribution of Rs. 800/- pm as ex-gratia award to the next-of-kin of a flight cadet drawn from Civil life and undergoing flying training in an unfortunate eventuality. In case, flight cadet undergoing flying training is medically invalidated boarded out, he would be paid Rs. 20,000/- as ex-gratia award for 100% disability and this reduces proportionately upto 20%.

Cadets are authorised stipend amounting to Rs. 8000/- per month during training. "On successful completion of training the stipend admitted will be converted as pay for all purposes. However, the period of training shall not be treated as commissioned service."

Once flight cadets are granted pay and allowances by government, the death cover would be Rs. 50,000/- and the disability cover would be Rs. 25,000/- for 100% disability. This cover would be provided by AFGIS on payment of monthly non-refundable contribution of Rs. 76/- by each flight cadet undergoing flying training for which membership would be compulsory.

Conditions governing Financial Assistance :

(i) While the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Air Force Academy are not likely to exceed Rs. 14,000/- (under revision) per mensem. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly/partly even this expenditure, financial assistance may be granted by the Government. No cadet whose parent or guardian has an income of Rs. 750/- or above per month would be eligible for the grant of the financial assistance. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance. The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should immediately, after his son/ward has been finally selected for training at the Air Force Academy, submit an application through the District Magistrate of his district who will,

with his recommendations, forward the application to the Commandant, Pre Flying Training Courses, Begumpet.

(ii) Candidates finally selected for training at the Air Force Academy will be required to deposit the following amount (under revision) with the Commandant on arrival:—

(a) Pocket allowance for six months	Rs. 840/-
@ Rs. 140/- per month	
(b) For item of clothing and equipment	Rs. 1500/-
Total	Rs. 2340/-

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned.

Pocket allowance for the six months	
@ Rs. 140/- per month—	Rs. 840/-.

4. Career Prospects :

After successful completion of training, the candidates pass out in the rank of Flying Officer and will be entitled to the pay and allowance of the rank. Time scale promotions to the rank of Flight Lieutenant, Squadron Leader, Wing Commander and Group Captain are granted on completion of 2 years, 6 years, 13 years and 26 years of successful service respectively. Grant of Group Captain (select) and higher ranks is only by selections. Promising officers have a fair chance of getting higher promotions to air ranks—Air Commodore, Air Vice Marshal and Air Marshal.

5. Leave and Leave Travel Concession :

Annual Leave—60 days a year.

Casual Leave—20 days a year not more than 10 days at a time.

Officers are authorised encashment of Annual Leave upto 10 days alongwith LTC to the extent of a total 60 days in a career span to cover incidental expenses on travel. Officers when proceeding on annual/casual leave, irrespective of its duration, is entitled for free conveyance from place of duty (unit) to home town and back once in the second year of his service for the first time and thereafter once in a block of two years, commencing from 01 January, 1971 including family members and dependents. The year in which this concession is not availed of, free conveyance for a distance of 1450 kms. each way is admissible for self, wife and children from duty station to leave station/home town.

In addition officers of Flying branch employed on regular Flying Duties in vacancies in authorised establishment are allowed, while proceeding on leave once every year on warrant a free rail journey in the appropriate class upto a total distance of 1600 kms. for the forward and return journeys both inclusive.

Officers when travelling on leave at their own expenses are entitled to travel by entitled class or lower class on payment of 60 per cent of the fare for self, wife and children from unit to any place within India on 6 one way journey. Form 'D' in a calendar year. Two of these Form 'D' may be availed of for the entire family. In addition to wife and children family includes parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon the officers.

6. Pensionary Benefits :

Retiring Pension : The minimum period of qualifying service required for retiring pension is 20 years (without weightage). Retiring pension shall be calculated at 50% of the average of emoluments reckonable for pension (i.e. pay, rank pay and non-practicing allowance, if any) drawn by the officer during the last 10 months of his service. The amount so determined shall be the retiring pension for 33 years of reckonable qualifying service (i.e. actual service rendered + service weightage in years admissible). For lesser year of reckonable qualifying service, this amount shall be proportionately reduced and the retiring pension in no case shall be less than Rs. 1913/- per month.

7. Retiring Gratuity :

Retiring Gratuity : The minimum period of qualifying service for earning retiring gratuity is 10 years (without weightage). The retiring gratuity shall be admissible at a uniform rate of half a month's emoluments for each completed six monthly period of qualifying service. The emoluments for this purpose shall be pay, rank pay and non-practicing allowance, if any, stagnation/increment and DA (Admissible on the date of retirement/invalidment/death) last drawn by the officer.

In addition to pension or gratuity a death-cum-retirement gratuity, equal to 1/4th of emoluments of each completed six monthly period of qualifying service plus a weightage of 5 years subject to maximum of 16½ times of the emoluments not exceeding Rs. 3.5 lakh is admissible. In case of death while in service the amount of death-cum-retirement gratuity will be as follows :

- two months pay, if death occurs in the first year of service.
- six months pay, if death occurs after the first year but before completion of five years.
- minimum of 12 months pay, if death occurs after five years but before completion of 20 years.
- minimum 12 months pay and maximum 33 months pay, subject to the condition that the amount of Death-cum-retirement gratuity shall in no case exceed Rs. 3.5 lakhs if death occurs after 20 years or more.

Disability pension and Special Family Pensionary award, including awards to children and dependents (parents, brothers and sisters), are also payable in accordance with the prescribed rules.

8. Other Privileges :

The officers and their families are entitled to free medical aid, accommodation on concessional rent, group insurance scheme, group housing scheme, family assistance scheme, canteen facilities etc.

(D) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI

1. Before the candidate join the Officers Training Academy Chennai.

(a) He/she will be required to sign a certificate to the effect that he/she fully understands that he/she or his/her legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he/she may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him/her for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) His/her parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his/her control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered or marries while under training at the Officers' Training Academy, he/she will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training at the Officers' Training Academy, for an approximate period of 11 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as Gentlemen/Lady Cadets. Gentlemen/Lady Cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Officers' Training Academy.

3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves.

The minimum expenses during the pre commission training are not likely to exceed Rs. 200/- per month but if the cadets pursue, any hobbies such as photography, shikar, hiking etc. they may require additional money. In case however, the cadet is unable to meet wholly or partly even the minimum expenditure, financial assistance at rates which are subject to change from time to time, may be given provided the cadet and his/her parent/guardian, have an income below Rs. 1500/- per month. A candidate desirous of having financial assistance should immediately after being finally selected for training submit an application on the prescribed form through the District Magistrate of

his/her district who will forward the application to the Commandant, Officers' Training Academy, Chennai alongwith his/her verification report.

4. Candidates finally selected for training, at the Officers' Training Academy, will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :

(a) Pocket allowance for three month @ Rs. 1000 per month	Rs. 3000/-
(b) For items of clothing and equipment	Rs. 5000/-
(c) Group Insurance Coverage for 02 months (AGIF)	Rs. 2000/-
Total	Rs. 10000/-

Out of the amount mentioned above the amount mentioned in (b) above is refundable to the Cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

5. Outfit allowance will be admissible under order as may be issued from time to time. On being granted a commission, articles of clothing and necessities purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles, will however be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

6. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen/Lady Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Officers' Training Academy.

7. On joining OTA, candidates will not be permitted to appear for any examination/interview, for any other type of commission/entry in the Army, Navy and Air Force or any other employment without resigning from the Academy and paying the cost of training. However, no cost of training including messing charges will be recovered from these Gentlemen Cadets, who may resign from the Officers'/Lady Training Academy, Chennai to undergo pre-commission training at the Indian Military Academy, Dehradun or corresponding cadet training establishment in Navy and Air Force, if so selected.

8. A Gentleman/Lady Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may, with permission of Government, be discharged after paying cost of training laid down by the Government of India. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

9. Training :

Selected candidates will be enrolled under the Army Act as Gentleman/Lady Cadets and will undergo a course of training at the Officers' Academy for an approximate period of 49 Weeks. On successful completion of training Gentleman/Lady Cadets are granted Short Service Commission in the rank of Lt. from the date of successful completion of training.

10. Terms and conditions of Services:

(a) Period of probation:

An officer will be on probation for a period of 6 months from the date he/she receives his/her commission. If he/she is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his/her commission, he/she may be terminated any time whether before or after the expiry of the probationary period. Candidates withdrawn from Officers' Training Academy on disciplinary grounds are not eligible to apply.

(b) Posting :

Personnel granted Short Service Commission are liable to serve anywhere in India and abroad on selected appointments as decided by IHQ MOD (Army) from time to time.

(c) Tenure of Appointment :

Short Service Commission Officers (Male and Female) in the regular Army will be granted for 14 years i.e. for an initial period of 10 years extendable by a further period of 04 years. Male officers who are willing to continue to serve in the Army after the expiry of period of ten years Short Service Commission may, if eligible and suitable in all respects, be considered for the grant of permanent Commission in the 10th year of their Short Service Commission in accordance with the relevant rules.

"Those SSC officers who are not selected for grant of PC but are otherwise considered fit and suitable, will be given options to continue as SSCOs for a total period of 14 years (including the initial tenure of 5 years) on expiry of which they will be released from the Army". Women officers are not eligible for permanent commission. However, they can opt for extension of upto 14 years of service.

(d) Special Provision for Release for SSC on completion of 5th Year of Service:

SSC (Non-Tech) Male & Female Officers, other than those who undergone or are undergoing Degree Engineering Course or any other specialized course of such nature, who are desirous of leaving the service after completion of five years service may, during the fifth year of service, apply to the Army HQs. for release. Army HQ will consider the applications of such officers on merits and the decision of the Army HQ will be final and irrevocable. On approval of such officers will be released from service on completion of 5th year of service. Those SSC (Non-Tech) Male & Female Officers who have undergone or are undergoing

Degree Engineering Course or any other specialised course of such nature, will not be released before expiry of full tenure of 14 years unless the cost of training of such specialized course as prescribed is recovered from them. They will be required to execute a bond to this effect on nominated for undertaking Degree Engineering Course/Special Course of such nature.

(e) Special Provisions during Extended Tenure :

During extended tenure, they will be permitted to seek released from the Army on the following grounds :—

- (i) Taking up civil Job.
- (ii) Pursuing higher education.
- (iii) Starting own business/joining family business.

(f) Substantive Promotion :

SSCOs male and female granted Short Service Commission under these rules will be eligible for substantive promotion as under :—

- (i) To the rank of Capt. on completion of 2 years reckonable commissioned service.
- (ii) To the rank of Major on completion of 6 years reckonable commissioned service.
- (iii) To the rank of Lt. Col. on completion of 13 years reckonable commissioned service.

(g) Mandatory Conditions :

Mandatory conditions for grant of above substantive ranks laid down for Permanent Commissioned officers as well as the eligibility, time limit and penalties for promotion exam Part B and D as applicable to permanent commission officers also be similarly applicable to SSCOs male and female.

(h) Adjustment of Seniority :

To make adjustment for shorter training of SSC male and female vis-a-vis PC officers, the seniority of SSC male and female officers will be depressed by the period corresponding to the difference in training period between the SSC course under consideration and the training period of its equivalent PC Course. This adjustment of seniority will be carried out at the time of grant of first substantive rank of Captain. The revised seniority will have no effect on the pay and allowances granted in the rank of Capt., Major and Lt. Col.

(i) Reckonable Commissioned Service :

Subject to provisions of Para 10 (h) above, reckonable commissioned service for the purpose of these orders will count from the date of grant of Short Service Commission to an officer. The period of service forfeited by sentence of Court Martial or by summary award under the Army Act

and the period of absence without leave will not be reckonable. The period during which furlough rates of pay are drawn and the period of captivity at POWs rates of pay, will be reckonable. The period of service for promotion lost by an officer in consequence of her having been granted leave without pay will also be reckonable. Such an officer will, however, become entitled to the pay and allowances of the higher substantive rank granted by the inclusion of this period only from the date on which he/she would have qualified by service if this period had not been so reckoned and not with effect from the date of grant of substantive rank.

(j) Leave :

For leave, these officers will be governed by rules applicable to Short Service Commission Officers as given in Chapter IV of the Leave Rules for the Service Vol. 1-Army. They will also be entitled to leave on passing out of the Officers' Training Academy and before assumption of duties under the provision of the Rule 69 *ibid.* SSC women Officers will also be eligible for Maternity Leave as per SAL I/S/92-S.

(k) Termination of Commission :

An officer granted Short Service Commission will be liable for five years but his/her Commission may be terminated at any time by the Government of India :—

- (i) for misconduct or if services are found to be unsatisfactory; or
- (ii) on account of medical unfitness; or

- (iii) if his/her services are no longer required; or
- (iv) if he/she fails to qualify in any prescribed test or course.

An officer may on giving 3 months notice be permitted to resign his/her commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his/her commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(l) Terminal Gratuity :

SSCO recruited from civil side are entitled to terminal gratuity @ 1/2 month's emoluments for each completed six monthly period of service.

(m) Reserve Liability

On being released on the expiry of five years Short Service Commission or extension thereof they will carry a reserve liability for a period of five years or upto the age of 40 years whichever is earlier.

(n) Miscellaneous :

All other terms and conditions of service where not at variance with the above provisions will be the same as for regular officers.

RAMESHWAR DAYAL

Dy. Secy.

Union Public Service Commission

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 13th September 2007

No. DP/Pers.I/2007/2313/3/11/98—The President is pleased to appoint Shri Kanti Mahanti Veda Vidya Sagar, Public Prosecutor, CBI as Sr. Public Prosecutor in the CBI with effect from the afternoon of 24.08.2007 and until further orders.

SURINDER MOHAN
Admn. Officer (Pers.)

The 14th September 2007

No. DP/Pers.I/2007/2317/M-9/74—Shri Manoranjan Prasad Singh relinquished charge of the post of Dy. Legal Adviser, CBI with effect from 31.08.2007 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

SURINDER MOHAN
Admn. Officer (Pers.)

New Delhi-110 003, the 14th September 2007

No. DP/Pers.I/2007/2318/3/9/2005—Shri T. S. C. Bose relinquished charge of the post of Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.08.2007.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 11th September 2007

No. 2/2/07-Admn/68184—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Rajiv Verma, Section Officer in the Commission as Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 06.09.2007 (F/N), on ad-hoc basis, for a period of three months or until further order, whichever is earlier.

P. M. PILLAI
Officer on Special Duty (Admn.)
For Central Vigilance Commissioner

The 15th September 2007

No. 2/4/05-Admn./68072—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Nirmal Goel, Executive Engineer, CPWD, as Technical Examiner (Civil) in the Commission in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis with effect from the afternoon of 31.08.2007 initially for a period of four years or till further order, whichever is earlier.

P. M. PILLAI
Officer on Special Duty (Admn.)

New Delhi, the 11th September 2007

No. 2/2/07-Admn./68183—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri N.S. Rawat, Assistant in the Commission as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad-hoc basis with effect from 06.09.2007 for a period of three months or till further orders, whichever is earlier.

SATVINDER SINGH
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 19th September 2007

No. O-II-6508/2007-Pers-I—Consequent on acceptance of notice of Voluntary Retirement from service, Shri K.B. Byju, Asstt Comdt (IRLA : 6508) of 3rd Bn CRPF relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st Sept 2007. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 01.09.2007 (FN).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers-I)

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 13th September 2007

No. E-28017/6/Noti/2007/Pers-II/2246—Consequent upon his voluntary retirement from Govt. service under rule-48A of CCS (Pension) Rules, 1972, Shri C S. Waila, relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, NLC, Neyveli in the afternoon of 15.08.2007.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT

CENTRAL REVENUES

New Delhi-110 002, the 13th September 2007

No. Admn./O.O. No.-152—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Shri Sanjay Kumar, Assistant Audit Officer with effect from 30.08.2007 (A/N), Shri Parveen Kumar Grover and Shri Jaipal Singh, Assistant Audit Officers with effect from 03.09.2007 (F/N) to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MSME)

New Delhi, the 11th September 2007

No. A-19018/1214/92-Admn (G)—The President is pleased to appoint Shri S.K. Das, Deputy Director (Mechanical), Hqrs. Office, New Delhi as Director (Mechanical) on officiating basis under MSME-Development Organization in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- at MSME-DI, Solan with effect from the forenoon of 12.06.2006 until further orders.

MAHINDER SINGH
Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 10th September 2007

No. A-19011/488/03-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri R. R. Dongare, Assistant Controller of Mines is promoted on adhoc basis to the post of Senior Asstt. Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 27.08.2007 (F.N.).

S. DASGUPTA
Sr. Admn. Officer
for Controller General

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 1st June 2007

No. 1080C/A-32013/Sr.DDG (Opn.)/2007/19A—The President is pleased to appoint Shri B. Sengupta, Deputy Director General (Geology), Geological Survey of India on promotion to the post of Senior Deputy Director General (Operations) in the same department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from 23.05.2007 (FN).

D. T. SYIEMLIH
Dir. (P & A)
for Director General

The 11th June 2007

No. 1365B/A-32013/DDG (Geol.)/2006/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, and subsequent acceptance of the terms and conditions laid down in Office Memorandum No. 686 SP to 693 SP/A-32013/DDG(Geol.)/2006/19A dated 28.02.2007, and 1102 SP to 1105 SP, 980B to 981B/A-32013/DDG(Geol.)/2006/19A dated 04.04.2007, the President is pleased to appoint the following Director (Geol.)(Sl.Gr.), Geological Survey of India on

promotion to the post of Dy. Director General (Geol.) in the same department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- w.e.f. the date as mentioned against each, in a temporary officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Date of assumption of charge
1.	Shri K.S. Jamwal	Dy. Director General (Geol.)	03.05.2007
2.	Shri G. Ghatak	—do—	04.04.2007
3.	Shri Amitabha Sarkar	—do—	04.04.2007
4.	Shri Deepak Srivastava	—do—	13.04.2007
5.	Shri V.K.K. Kalluraya	—do—	04.04.2007
6.	Shri Mantu Majumdar	—do—	04.04.2007

D. T. SYIEMLIH
Dir. (P & A)
for Director General

The 14th September 2007

No. 1957A/A-32013/3-Chem.(Sr.)/90/19B—The President is pleased to approve the appointment of the following Chemist (Jr.), G.S.I., as Chemist (Sr.) on promotion in the same department on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis with effect from the date mentioned against each until further orders :—

Sl.No.	Name of the Officer	Date of promotion
1.	Shri M.V. Ramaiah	30.04.2007 (FN)
2.	Shri Ashok Kumar Goel	25.04.2007 (AN)
3.	Shri R. Chattopadhyay	25.04.2007 (AN)
4.	Shri M.K. Chakrabarty	25.04.2007 (AN)

D. T. SYIEMLIH
Dir. (P & A)
for Director General

MINISTRY OF CULTURE

DEPARTMENT OF CULTURE

(ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700 016, the 10th September 2007

No. 4-337/2007/Estt.—The Director-in-Charge, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Dr. (Smt.) Sikha Chatterjee, Research Associate (Physical) attached to the Eastern Regional Centre of this Survey at Kolkata to the post of Assistant Anthropologist (Physical), Group-B (Gazetted), in the scale of pay of Rs. 6,500-200-

10,500/- at the same station with effect from the afternoon of 23rd August, 2007 until further orders.

S. I. AHMAD
Head of Office

SURVEY OF INDIA
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248 001, the 10th September 2007

No. C-3884/725-Steno(1)—The undermentioned Stenographer Grade-I is hereby promoted to the post of Private Secretary (Group 'B') in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date(s) as shown against their names :—

Sl.No.	Name of the Officer	Date of promotion
1.	Shri Swadesh Banerjee	16.07.2007
2.	Smt. Bela Banerjee (SC)	13.08.2007

M. GOPAL RAO
Major General
Surveyor General of India

MINISTRY OF WATER RESOURCES
(CENTRAL WATER COMMISSION)

New Delhi-110 066, the 13th September 2007

No. A-19012/30/2002-Estt.V/1905—The Chairman, Central Water Commission regrets to announce the death of Shri S.C. Ranga, Extra Assistant Director, Central Water Commission, New Delhi on 9th September 2007.

RAVINDER MONGA
Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
O/O REGISTRAR OF COMPANIES

Notice under Section 560(3) of the Companies Act, 1956 for striking off the names of the following Companies from the Register

New Delhi-110 019, the 7th September 2007

No. 560(3)/Regular/5841—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies from Sl. Number 1 to 6 unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	116485	M/s. Puran Auto Distributors Private Limited

1	2	3
2.	049498	M/s. Chand Vanaspati Limited
3.	018094	M/s. Sundaram Electronics Private Limited
4.	089380	M/s. Glarma Machine Tools Private Limited
5.	066693	M/s. Manpuria Motors Private Limited
6.	114223	M/s. Nath and Mahesh Consulting Private Limited

V. K. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and
of following Companies

Kanpur-208 001, the 10th September 2007

No. LC/560(5)/555—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication, these companies shall stand dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	20-07096	M/s. R.G. Agro Impex Private Limited
2.	20-20562	M/s. Triratna Consultants Limited
3.	20-28289	M/s. U.R. Intetated Solutions Private Limited
4.	20-27596	M/s. Gold Stone Information & Services Private Limited
5.	20-28027	M/s. Raise Marketing Private Limited
6.	20-30217	M/s. Endeavors Career Consultants Private Limited
7.	20-24487	M/s. Avadh Internet Private Limited
8.	20-28180	M/s. Happy Life Sales Concept Private Limited
9.	20-26873	M/s. G.M. Media Creations Private Limited
10.	20-27870	M/s. Gamhill Hybrid Agrotech Limited
11.	20-27552	M/s. Sukhshree Marketing Private Limited
12.	20-10688	M/s. United Tractors Private Limited
13.	20-27606	M/s. Qed Solution Private Limited
14.	20-30398	M/s. Ishma Graphix Private Limited
15.	20-27872	M/s. Mark Life Sciences Private Limited

1	2	3
16.	20-28237	M/s. RMS Agro and Marketing Private Limited
17.	20-16013	M/s. Inovetys Pharmaceuticals India Limited

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and
of M/s. Kareplas Polymers Private Limited

Kanpur-208 001, the 17th September 2007

No. LC/560(3)/20-011621/643—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 at the expiration of three months from the date of the name of M/s. Kareplas Polymers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and
of following Companies

Jalandhar, the 14th September 2007

No. 560/SUO-Moto/765—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved —

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	16609	M/s. R R Biomed Private Limited
2.	16651	M/s. Pam Roadlines Limited
3.	16735	M/s. Saini Vehicle Dealers Private Limited
4.	16802	M/s. Safety Healthcare Private Limited
5.	16830	M/s. Koti Tours Private Limited
6.	16833	M/s. K Ganeshan School of Competitions Private Limited
7.	16888	M/s. Nimbark Forge Private Limited
8.	16889	M/s. Parkash Rice Exports Private Limited
9.	16910	M/s. V.M. Woollen and Textiles Mills Private Limited

1	2	3
10.	16914	M/s. Durgesh Export Private Limited
11.	17015	M/s. SRU Knitters Limited
12.	17076	M/s. Narindera Vanaspati Limited
13.	17184	M/s. Punjab Chillers Private Limited
14.	17192	M/s. Cee Enn Estates Private Limited
15.	17221	M/s. Duro Cements Private Limited
16.	17241	M/s. G.S.R. Electrochem Private Limited
17.	17244	M/s. Him Bottlers Private Limited
18.	17247	M/s. Ram Gobind Tiles and Boards Private Limited
19.	17314	M/s. Kanta Builders and Engineers Private Limited
20.	17364	M/s. Plimsoll Marine Services Private Limited
21.	17376	M/s. Westek Compu-Systems Private Limited
22.	17385	M/s. Sherol Electronics Private Limited
23.	17392	M/s. Narindera Thermoware Limited
24.	17515	M/s. Sam Impex Private Limited
25.	17610	M/s. Pruthi Builders Private Limited
26.	17856	M/s. Rima Management and Education Services Private Limited
27.	17983	M/s. Derabassi Chemicals Private Limited
28.	17994	M/s. Seagull Forgings Private Limited
29.	18022	M/s. Gold Star Resorts Private Limited
30.	18066	M/s. Leo Towers Limited
31.	18081	M/s. Pixie Export Private Limited
32.	18237	M/s. Himtron Computers and Communications Private Limited
33.	18239	M/s. Nandan Sales Private Limited
34.	18306	M/s. Malhotra Motors Private Limited
35.	18320	M/s. Kulpati Texknit Exports Private Limited
36.	18352	M/s. Am Grey Impex Private Limited
37.	18385	M/s. Hi-Life Machinery Linkers Private Limited
38.	18506	M/s. S Faujdaar Singh and Sons Impex Private Limited
39.	18514	M/s. City College Private Limited
40.	18609	M/s. Modern Orchid Agro Seeds Limited
41.	18611	M/s. Easy Impex Private Limited

1	2	3	1	2	3
42.	18634	M/s. D. H. International Private Limited	69.	19530	M/s. Amba Impex Private Limited
43.	18865	M/s. Advanced Medical Technologies Private Limited	70.	19552	M/s. VM Business and Exports Private Limited
44.	18869	M/s. Surbhi Estates Limited	71.	19566	M/s. Reliable Ispat Profiles Private Limited
45.	18872	M/s. Karan Fabtech Engineers Private Limited	72.	19596	M/s. Sai Computek Informatics Private Limited
46.	18943	M/s. Red Star Construction Company Private Limited	73.	19600	M/s. Toptech Constructions Private Limited
47.	18992	M/s. Random Garments Private Limited	74.	19601	M/s. Power Fly Tours and Travels Private Limited
48.	19027	M/s. K J Chemistry Coaching Private Limited	75.	19631	M/s. Legend Foods Private Limited
49.	19047	M/s. Encon Transformers Private Limited	76.	19648	M/s. Dinkar General Trading Company Private Limited
50.	19057	M/s. Right Direction Computers Private Limited	77.	19715	M/s. Chand Knits (India) Private Limited
51.	19122	M/s. Golden Scientific and Technical Education Private Limited	78.	19726	M/s. Crystal Poultry Private Limited
52.	19123	M/s. Balbir Transport Company Private Limited	79.	19745	M/s. Plug and Play Computers Private Limited
53.	19164	M/s. Ramps Health Care Private Limited	80.	19758	M/s. Paramaka Construction Private Limited
54.	19175	M/s. Super Cyclotech Private Limited	81.	19759	M/s. Panda Builders Private Limited
55.	19195	M/s. Shree Pitambra Constructions Private Limited	82.	19761	M/s. Paraj Resorts Private Limited
56.	19196	M/s. Adhunik Dyes Private Limited	83.	19762	M/s. Para Real Estate Private Limited
57.	19205	M/s. Top Mechanical Works Private Limited	84.	19763	M/s. Parvata Hotel Private Limited
58.	19228	M/s. Akashdeep Builders and Colonizers Private Limited	85.	19768	M/s. Prastra Constructions Private Limited
59.	19276	M/s. Gokul Bakeries Private Limited	86.	19769	M/s. Pala Property Private Limited
60.	19307	M/s. Noble Informatic Training System Private Limited	87.	19770	M/s. Partya Estate Private Limited
61.	19365	M/s. Swastik Management Services Private Limited	88.	19781	M/s. Mittal Roller Flour Mills Private Limited
62.	19401	M/s. Iravty Marketing Services Private Limited	89.	19785	M/s. S. F. Constructions Private Limited
63.	19411	M/s. Breech Security Services Private Limited	90.	19814	M/s. Baba Makhan Shah Labana Colonizers Private Limited
64.	19431	M/s. Sohana Roller Flour Mills Private Limited	91.	19889	M/s. Raja Entertainers Private Limited
65.	19454	M/s. A O G Exports Private Limited	92.	19931	M/s. South East Exim Private Limited
66.	19461	M/s. Chandigarh Corrugators Private Limited	93.	19973	M/s. Aseem Trade Links Private Limited
67.	19510	M/s. Pargats Stick Work Private Limited	94.	20000	M/s. Dhanbachan Estates Private Limited
68.	19514	M/s. Sanguine Techno Plast Private Limited	95.	20050	M/s. Mahakali Exports Private Limited
			96.	20086	M/s. Satyroop Chemicals Private Limited
			97.	20137	M/s. C R Auto Private Limited
			98.	20142	M/s. Roy Laminations Private Limited
			99.	20154	M/s. Pioneer Air-Tech Engineers Private Limited

1	2	3
100.	20161	M/s. Ludhiana Resorts Private Limited
101.	20167	M/s. Shellcon Steels Private Limited
102.	20184	M/s. Surbhi Media Limited
103.	20192	M/s. Sunline Estates and Colonisers Private Limited
104.	20213	M/s. Puneet Motors Private Limited
105.	20219	M/s. Golden Couriers Private Limited
106.	20227	M/s. Cyber Electronics Private Limited
107.	20247	M/s. Excelsior Builders Private Limited
108.	20255	M/s. Procom Telecommunications Private Limited
109.	20262	M/s. Zorba Exports Private Limited
110.	20279	M/s. Gulab Alloys and Metals Private Limited
111.	20311	M/s. Bhawani Properties Private Limited
112.	20315	M/s. Hansa Marketers Private Limited
113.	20319	M/s. Punjab Headline Media Limited
114.	20328	M/s. Karan International Hotels Private Limited
115.	20342	M/s. Jagson Boards India Limited
116.	20358	M/s. New Piya Roadways Private Limited
117.	20359	M/s. Sandip Divine Melody Cassettes Company Private Limited
118.	20366	M/s. Punjab Chemled Private Limited
119.	20373	M/s. Sapphire Vacation Resorts Private Limited
120.	20397	M/s. Chimman Impex Private Limited
121.	20402	M/s. S J T Bearing Private Limited
122.	20403	M/s. Kidscare Knits Private Limited
123.	20407	M/s. Macrobiosis Informatics Techno Private Limited
124.	20418	M/s. Mansarovar Freight Wing Private Limited
125.	20444	M/s. Acme Informatics Systems Limited
126.	20467	M/s. Gripland Pharmaceuticals Private Limited
127.	20493	M/s. Neelkanth Couriers Private Limited
128.	20499	M/s. P H Poultry Farms Private Limited
129.	20507	M/s. Dhattsos Hotels Private Limited
130.	20512	M/s. Dhanaula Flour Mills Private Limited
131.	20531	M/s. Diamond Links Services Private Limited

1	2	3
132.	20549	M/s. SFL Estates and Projects Private Limited
133.	20614	M/s. Sierra Resorts and Condominiums Private Limited
134.	20626	M/s. Thy Golden Infrastructure India Private Limited
135.	20656	M/s. Thy Golden Globe Net Private Limited
136.	20683	M/s. Usha Telesystems Private Limited
137.	20690	M/s. Sutlej Ikarus Vehicle Manufacturing Company Private Limited
138.	20710	M/s. R J Agro Mills Private Limited
139.	20712	M/s. A S Mercantile Private Limited
140.	20734	M/s. Goldman Multilink Sales Company Private Limited
141.	20751	M/s. CCS Pharmaceuticals India Private Limited
142.	20752	M/s. Excel Surgimed Limited
143.	20795	M/s. Kaybee Resin Derivatives Private Limited
144.	20800	M/s. Hope India Milkfood and Farming Limited
145.	20807	M/s. Zarc Micronics Private Limited
146.	20808	M/s. Insa Medicals Private Limited
147.	20825	M/s. Favourite Trade Links Private Limited
148.	20844	M/s. Ekta Roto Moulding Private Limited
149.	20871	M/s. Misty Peaks Developers Private Limited
150.	20949	M/s. Sekure Chem India Limited
151.	20954	M/s. Oriental Modern and Vedic Remedies Private Limited
152.	20961	M/s. K K K Steels Private Limited
153.	20966	M/s. Northern Woodquity and Resorts Limited
154.	20970	M/s. Chandigarh Yug Printers Private Limited
155.	20981	M/s. VPB Consultants Private Limited
156.	20982	M/s. Talwar Hospital Private Limited
157.	20997	M/s. Sherewala Estates Private Limited
158.	21019	M/s. Akal Kirpa Builders Private Limited
159.	21030	M/s. Arsh Crafts Private Limited
160.	21034	M/s. Rimac Image Exports Private Limited
161.	21046	M/s. RP Advertisers Private Limited

1	2	3	1	2	3
162.	21109	M/s. Ampro Fintech Private Limited	194.	21764	M/s. Ashish Knit India Private Limited
163.	21137	M/s. Uttam Aircon Private Limited	195.	21777	M/s. Prime Packwell Private Limited
164.	21153	M/s. RVS Enterprises Private Limited	196.	21783	M/s. A.M.S. Estates Private Limited
165.	21180	M/s. Sakura Impex Private Limited	197.	21813	M/s. Elite Hotels Private Limited
166.	21181	M/s. Euroleader Designs G B Limited	198.	21818	M/s. Rainbow Technologies Private Limited
167.	21186	M/s. Rowan Pharmaceuticals Private Limited	199.	21832	M/s. Satcom Skimmers Private Limited
168.	21188	M/s. Divine Honey Bee Products Private Limited	200.	21846	M/s. Mohan Polymers Private Limited
169.	21190	M/s. Fantastic Foods Private Limited	201.	21862	M/s. Energy Meters India Private Limited
170.	21223	M/s. Gramin Educational Development Private Limited	202.	21869	M/s. Object Foundry Private Limited
171.	21238	M/s. Stellar Netcom Private Limited	203.	21953	M/s. J.T. Airways and Travel Services Private Limited
172.	21248	M/s. Mediaid Marketing Private Limited	204.	21975	M/s. Maxval Mercantile Private Limited
173.	21295	M/s. Cross Country Immigration Consultancy Private Limited	205.	21990	M/s. Innovative Cyber Solutions Limited
174.	21300	M/s. Raaj Entertainments Private Limited	206.	22017	M/s. R. S. Clothing Company Private Limited
175.	21305	M/s. Navina Impex Private Limited	207.	22033	M/s. Eagles Business Express Private Limited
176.	21324	M/s. Blue Bonnet Pharmaceuticals Private Limited	208.	22052	M/s. Satnam Packers Private Limited
177.	21339	M/s. Art Folio Fashions Private Limited	209.	22076	M/s. Vijayta Textiles Private Limited
178.	21341	M/s. Imtra Construction Projects Private Limited	210.	22081	M/s. CN Solutions Private Limited
179.	21348	M/s. Shine Star Traders Private Limited	211.	22103	M/s. Salient Construction Active Network Private Limited
180.	21360	M/s. Mercury Studios Private Limited	212.	22132	M/s. Pace Advertising Private Limited
181.	21361	M/s. Dasmesh Dairies Limited	213.	22268	M/s. Jalandhar Palace and Resort Private Limited
182.	21431	M/s. Ghuman Resorts Private Limited	214.	22273	M/s. Paramount Exhibitors Private Limited
183.	21447	M/s. Voice Media Internet Private Limited	215.	22291	M/s. Bawa Tools Private Limited
184.	21450	M/s. Kohinoor Recording Systems Private Limited	216.	22318	M/s. Pioneer Educationals Private Limited
185.	21461	M/s. IBA Enterprises Private Limited	217.	22328	M/s. Develo Molecules Private Limited
186.	21536	M/s. Sheeraj Textiles Private Limited	218.	22337	M/s. Nature Nutrients Private Limited
187.	21566	M/s. Hemis Holidays Limited	219.	22341	M/s. Vipan Oils Private Limited
188.	21612	M/s. Eiffle Constructions Private Limited	220.	22345	M/s. Shyam Automotives Private Limited
189.	21613	M/s. ISK Education Abroad Private Limited	221.	22380	M/s. Lehra Frozens Private Limited
190.	21649	M/s. Pall Dynamics Private Limited	222.	22415	M/s. Al Kabir Spinning Mills Private Limited
191.	21660	M/s. Smith Agro Wineries and Distilleries Private Limited	223.	22424	M/s. Yogsons Media and Marketing Private Limited
192.	21665	M/s. G S Pipes Private Limited	224.	22427	M/s. Maanu Papers Private Limited
193.	21736	M/s. Chandel Computer Training and Technology Private Limited	225.	22455	M/s. Worldwide Marketing Limited

1	2	3
226.	22482	M/s. Bently Technologies Private Limited
227.	22490	M/s. RPB Exporters Private Limited
228.	22519	M/s. Amar Developers and Engineers Private Limited
229.	22579	M/s. Ohri Enterprises Private Limited
230.	22673	M/s. Bikram Foods Private Limited
231.	22691	M/s. Wild Shot Hotels and Resorts Private Limited
232.	22753	M/s. Basra Enterprises Limited
233.	22861	M/s. Highland Huts Private Limited
234.	22882	M/s. Relax Foam India Private Limited
235.	22919	M/s. Akademia Books International Private Limited
236.	22953	M/s. Guarantee Metering Systems Private Limited
237.	22967	M/s. Marvellous Infotech Private Limited
238.	22971	M/s. Wattan Pink Plaza Private Limited
239.	23012	M/s. R. H. Marketing Private Limited
240.	23027	M/s. Amrit Solutions Private Limited
241.	23098	M/s. Goldstar Minchem Private Limited
242.	23100	M/s. Nalagarh Distilleries Private Limited
243.	23105	M/s. Niramaya Ed.Tech Private Limited
244.	23129	M/s. Kamal Arts Private Limited
245.	23151	M/s. Silica Cements Private Limited
246.	23172	M/s. Chandigarh Ludhiana Toll Road Company Limited
247.	23205	M/s. Superior Real Estates Private Limited
248.	23393	M/s. J B Casting Private Limited
249.	23415	M/s. Unified Knitwear Private Limited
250.	23491	M/s. S G M Tradelinks Private Limited
251.	23703	M/s. Aryam Technologies Private Limited
252.	23923	M/s. New-Wave Agencies Private Limited
253.	23944	M/s. Eclectic Internet Technology Private Limited
254.	24176	M/s. Gopal Promoters Private Limited
255.	24213	M/s. Catrack Gifts and Greetings Private Limited
256.	24792	M/s. G. and G. Associates Private Limited

K. C. MEENA
Asstt. Registrar of Companies
Pb, H.P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chaitanya Aquaguard Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00155.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chaitanya Aquaguard Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Zen Infotech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00220.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Zen Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Domino Malingancy Management Technologies Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01045.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Domino Malingancy Management Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahant Chambers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01977/6702.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Mahant Chambers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Iqra Travels Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00339/6770.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Iqra Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shairu Chemical Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02039/6774.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shairu Chemical Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gujarat Die and Metal Treatment Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02031/6778.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gujarat Die and Metal Treatment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Steel Forge Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02017/6782.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Steel Forge Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Trio Distributor Exporter and Trader Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02013/6786.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trio Distributor Exporter and Trader Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sorath Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02003/6790.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sorath Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ila Construction Co. Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01995/6794.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Ila Construction Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ila Engg. Co. Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01985/6798.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ila Engg. Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Climax Chemical Industries Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01971/6806.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Climax Chemical Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Skaru Corrugating Paper Industries Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01953/6810.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Skaru Corrugating Paper Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tushar Paper Mills Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01947/6814.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tushar Paper Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. B M Precision Products Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01914/6818.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B M Precision Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bisfac Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007.

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01926/6822.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bisfac Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shilpa Textiles Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01904/6826.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shilpa Textiles Private Limited unless cause is shown

to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashish Pharmaceuticals Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01645/6836.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashish Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Paramount Paper Mills Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01900/6834.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Paramount Paper Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree D S Textile Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01628/6838.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree D S Textile Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. J. S. Engineering Company Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02112/6842.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. J. S. Engineering Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagya Laxmi Paper Mills Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02104/6846.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhagya Laxmi Paper Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Wispmac Textile Machinery Manufacturers
Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02117/6849.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wispmac Textile Machinery Manufacturers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S M S Castings Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02097/6850.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S M S Castings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Speciality Oils and Chemicals Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02074/6854.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Speciality Oils and Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Wings Petro Chemicals Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02052/6858.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Wings Petro Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S J Project Consultants Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02062/6862.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S J Project Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vikas Die Castings Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01884/6866.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vikas Die Castings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Adarsh Cold Storage Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01879/6870.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adarsh Cold Storage Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saurashtra Roller Metals Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01863/6874.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saurashtra Roller Metals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Airlift Engineers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01874/6879.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Airlift Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ruby Straw Products Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02232/6882.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ruby Straw Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramkrishna Board Mills (Gujarat) Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02085/6886.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ramkrishna Board Mills (Gujarat) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shakti Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02214/6890.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shakti Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nakam Investments Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02181/6894.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nakam Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Naraji Holdings Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02144/6898.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Naraji Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Parushan Investments Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02163/6902.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parushan Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Moudial Traders Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01893/6906.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Moudial Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. PS Investments Appreciation Consultants
Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/
01887/6910.—Notice is hereby given pursuant to sub section
(3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. PS Investments Appreciation Consultants Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gujarat Compujustice Retrieval System Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/
00249/6914.—Notice is hereby given pursuant to sub section
(3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Gujarat Compujustice Retrieval System Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Generate Engineering Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/
00229/6924.—Notice is hereby given pursuant to sub section
(3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Generate Engineering Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. 7AUCHEE Herbal Products Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/
00235/6928.—Notice is hereby given pursuant to sub section
(3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. 7AUCHEE Herbal Products Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Gayatri Brokers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/
00674/6917.—Notice is hereby given pursuant to sub section
(3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Shri Gayatri Brokers Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off from the Register
and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dixha Info-Tech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/
00461/6925.—Notice is hereby given pursuant to sub section
(3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Dixha Info-Tech Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off from the Register and the
said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Printorium Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/
00499/6921.—Notice is hereby given pursuant to sub section
(3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Printorium Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bharadia Tea Company Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00475/6930.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bharadia Tea Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Millenium Consumer Care Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00492/6934.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Millenium Consumer Care Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Environmental Management Alternative Collaborate
Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00671/6938.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Environmental Management Alternative Collaborate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Narshingha Road Lines Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00502/6942.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Narshingha Road Lines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambica Earthcon Machinery Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00678/6946.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ambica Earthcon Machinery Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Arasuri Quarry Works Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00686/6950.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arasuri Quarry Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Infoway System Solution Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00682/6954.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

the M/s. Infoway System Solution Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Novasoft Microsolutions Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00689/6958.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Novasoft Microsolutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hyphen Softwares Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00146/6962.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hyphen Softwares Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nice Agrotech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00067/6966.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nice Agrotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ardour Marketing Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00232/6970.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ardour Marketing Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Earn Plus Marketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00266/6982.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Earn Plus Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Realvalue Info Concepts Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00161/6986.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Realvalue Info Concepts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. V. B. Application Software Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00124/6990.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. V.B. Application Software Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aeaxi CRM Consultancy Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00226/6994.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aeaxi CRM Consultancy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bherunath Foods Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00269/6998.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bherunath Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Softech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00273/7002.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sai Softech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bestinver Marketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00278/7006.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bestinver Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree N.N. Foods Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00118/7010.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree N.N. Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Quindip Exim Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00301/7014.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Quindip Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ether Pharma Organic (India) Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00281/7018.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Ether Pharma Organic (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Endure Pharma Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00284/7022.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Endure Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rinsh Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00287/7026.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rinsh Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kuberlaxmi Network Marketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00223/7030.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kuberlaxmi Network Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganesh Broiler Breeder Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00217/7034.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ganesh Broiler Breeder Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhanshali Network Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00182/7038.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhanshali Network Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Natkhat Apperals Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00177/7042.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Natkhat Apperals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ekta Netlink Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00196/7046.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Ekta Netlink Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhoomi Synthetic Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00207/7050.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhoomi Synthetic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dareeyaa Marketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00212/7054.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dareeyaa Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chadravilas Marketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00168/7058.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chadravilas Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vikas Auto Vision (Gujarat) Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00016/7062.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vikas Auto Vision (Gujarat) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Benison Laboratories Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00013/7066.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Benison Laboratories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Queen Infotech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00010/7070.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Queen Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. HRP Exports Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00007/7074.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. HRP Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Omkar Aahar Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00214/7082.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Omkar Aahar Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Shakti Building Materials Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00208/7086.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiv Shakti Building Materials Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Riddhi Furnitures Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00194/7090.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Riddhi Furnitures Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. M.S. Perfumex Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00400/7094.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M.S. Perfumex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nous Pharmaceuticals Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00477/7098.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nous Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaima Infotech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00464/7102.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jaima Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Minion Computers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00254/7106.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Minion Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Allied Systems Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00378/7110.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Allied Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Sharack Consultants Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00483/7114.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Sharack Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Godhra Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00581/7118.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Godhra Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sachee Granites Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00867/7122.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sachee Granites Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deesa Finstock Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00934/7126.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deesa Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Deepa Electro Hydraulics Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01108/7134.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Deepa Electro Hydraulics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Decent Knitwear Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01192/7138.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Decent Knitwear Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gasaf Marketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00510/7142.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gasaf Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Salim Sea Foods Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01200/7146.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Salim Sea Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nielmag Electric Company Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00451/7150.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nielmag Electric Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Motivation Engineers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01133/7154.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Motivation Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prashant Traders Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00591/7158.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prashant Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Vision Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00410/7162.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sai Vision Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vigil Investigation and Protection Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00200/7166.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Vigil Investigation and Protection Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vinayak Soluble Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00101/7170.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vinayak Soluble Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gasaf Marketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00510/7174.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gasaf Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. gujarat4u.COM Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00138/7178.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. gujarat4u.COM Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. CPS Chemicals India Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00149/7182.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. CPS Chemicals India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. JGK Security Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00165/7186.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. JGK Security Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Somnath Waterpark Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00176/7194.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Somnath Waterpark Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ojas Resort Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00187/7198.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Ojas Resort Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ananta Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00100/7202.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ananta Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sona Dyeing and Printing Mills Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01023/7206.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sona Dyeing and Printing Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ankush Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01013/7210.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ankush Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. City Advertisement Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00997/7214.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. City Advertisement Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sheetal Exim Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00981/7218.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sheetal Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajasab Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00625/7222.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajasab Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shravan Electronics Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00605/7226.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Shravan Electronics Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivam Finance and Investments Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00587/7230.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivam Finance and Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Viru Marine Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00551/7234.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Viru Marine Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Delta Silk Mills Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00530/7238.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Delta Silk Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gaharwar Textile Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00481/7242.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gaharwar Textile Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bombay Processors Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00447/7250.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bombay Processors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri AVM Coach Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00427/7254.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri AVM Coach Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sugam Housing and Leasing Finance
Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00407/7258.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Sugam Housing and Leasing Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiv Security Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00382/7262.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiv Security Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Filmex Paints Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00344/7266.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Filmex Paints Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hess Finance and Leasing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00320/7270.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hess Finance and Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Premlaxmi Homes Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00298/7274.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Premlaxmi Homes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sayan Fancy Weaves Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00277/7282.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sayan Fancy Weaves Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Yash Kamal Machines Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00283/7278.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yash Kamal Machines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Patel Press Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00268/7285.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Patel Press Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Payonidhi Cattle Dairy Farm Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00259/7290.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Payonidhi Cattle Dairy Farm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jade Chem Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00236/7294.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jade Chem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Dudhganga Dairy Products Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00235/7298.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Dudhganga Dairy Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Sadguru Buildcin Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02071/7302.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shri Sadguru Buildcin Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ratankar Food Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00117/7306.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ratankar Food Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditya Remedies Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00137/7310.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aditya Remedies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Advait Infotech Consultants Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00172/7314.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Advait Infotech Consultants Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Olby Water and Funpark Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00151/7318 to 7321.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Olby Water and Funpark Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Umiya Marketing Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02301/7322.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Umiya Marketing Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saigir Resorts Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00154/7326.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saigir Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditya Panels Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00147/7330.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aditya Panels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Gopal Welding Cables Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00162/7334.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gopal Welding Cables Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Vidya Building Materials Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00211/7338.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Vidya Building Materials Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hotel Devarshi Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00206/7342.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Hotel Devarshi Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditya Caplease Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00455/7346.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aditya Caplease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vinay Wood Boards Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00358/7350.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vinay Wood Boards Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Monalisa Holiday Resorts Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00192/7354.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Monalisa Holiday Resorts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ayub Brothers Paper Boards Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00199/7358.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ayub Brothers Paper Boards Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Kudos Communication and Film Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00185/7362.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Kudos Communication and Film Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rig Pharmachem Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00657/7366.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rig Pharmachem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kidums Foods Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00410/7370.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Kidums Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Zest Academy Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00371/7374.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Zest Academy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alwaysfresh Cold Storage Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00594/7378.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alwaysfresh Cold Storage Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Eizen Mettech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00513/7382.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Eizen Mettech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sevapooja.Com Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00603/7386.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sevapooja.Com Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Infogleam Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00600/7390.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Infogleam Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Seth Overseas Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00607/7394.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Seth Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pragati Interactive Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00613/7398.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Pragati Interactive Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Shivshakti Films Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00617/7402.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Shivshakti Films Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. People's Welfare Club Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00584/7406.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. People's Welfare Club Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Narmada Sites Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00580/7410.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Narmada Sites Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Naijag Iron and Steel Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00573/7414.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Naijag Iron and Steel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Alimo Cold Storage Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00566/7418.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alimo Cold Storage Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Trident Emery Works Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00561/7422.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trident Emery Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Starbunch Computers Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00554/7426.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Starbunch Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Umiya Polyplast Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00550/7430.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Umiya Polyplast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Somnath Impex Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00350/7434.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Somnath Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Yes Telemarketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00357/7438.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yes Telemarketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Winstar Plastic Machinery Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00540/7442.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Winstar Plastic Machinery Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jalaram Tourism Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00532/7446.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jalaram Tourism Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. 3A Infotech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00525/7450.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. 3A Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prabnit Exports Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00520/7454.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Prabnit Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maitunjay Organic Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00389/7458.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maitunjay Organic Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarthak Finlease Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01031/7462.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sarthak Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Katara Ship Breaking Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00996/7466.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Katara Ship Breaking Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Trishala Woodcraft Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00354/7470.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trishala Woodcraft Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Time Plus Finvest Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00391/7474.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Time Plus Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ravina Dyeing and Printing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00419/7478.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ravina Dyeing and Printing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prasona Analyticals Laboratories Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00450/7482.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Prasona Analyticals Laboratories Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Digvijay Finstock Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00476/7486.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Digvijay Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bansidhar Ginning Pressing and Oil Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00978/7490.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bansidhar Ginning Pressing and Oil Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Swami Finlease Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00644/7494.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swami Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saraswati Security and Detective Services
Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00672/7498.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saraswati Security and Detective Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Harsiddh Plast Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00994/7502.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Harsiddh Plast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vaishakhi Financials Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01447/7506.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vaishakhi Financials Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Baisan Hotels Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01452/7510.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Baisan Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashish Anil Distributors Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01103/7514.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashish Anil Distributors Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amaryog Leasing and Finance Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01493/7518.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amaryog Leasing and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahyog Beverages Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01129/7522.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sahyog Beverages Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ankur Bollywood Network Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01118/7526.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ankur Bollywood Network Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fly Up Marketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00119/7530.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fly Up Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Variya Finlease Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00137/7534.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Variya Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagwati Solar Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/02099/7538.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Bhagwati Solar Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Signet Marketing Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00131/7542.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Signet Marketing Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shadowspawn Media Services Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00149/7546.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shadowspawn Media Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Birha Construction Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00162/7550.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Birha Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Parth Agri Equipment Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00363/7554.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parth Agri Equipment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhumi Salt Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00383/7558.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhumi Salt Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Yuraj Polysack Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00779/7562.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yuraj Polysack Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Purushottam Seeds Exports Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00785/7566.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Purushottam Seeds Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Manad Electro Trading Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00319/7570.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manad Electro Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aalap Studio Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01464/7574.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aalap Studio Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Multiworth Tradelink Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01472/7578.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Multiworth Tradelink Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivani Finsec Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01476/7582.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivani Finsec Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vraj Foods Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01563/7586.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vraj Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chidanand Agro-Tech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01549/7590.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chidanand Agro-Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Cyclone Marketing Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01535/7594.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Cyclone Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditya-Guru Realotrs Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01518/7598.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aditya-Guru Realotrs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Huma Constructions Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/01506/7602.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Huma Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Modgulya Surgi Tech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00507/7606.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Modgulya Surgi Tech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Darvinks Pharmaceuticals (India) Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00544/7610.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Darvinks Pharmaceuticals (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Suram Overseas Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00563/7614.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Suram Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Classic Finstock Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00581/7618.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Classic Finstock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tiara Impex Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00603/7622.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Tiara Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Riddhi Anand Fin-Stock Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00626/7626.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Riddhi Anand Fin-Stock Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Atlanta Drugs Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00636/7636.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Atlanta Drugs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goodearth Synthetics Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00793/7634.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Goodearth Synthetics Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rath Tours and Travels Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00769/7638.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rath Tours and Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Digital Movies Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00750/7642.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Digital Movies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Amik Agro Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00731/7646.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amik Agro Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Raj Mandir Realty Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00697/7650.—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Raj Mandir Realty Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishwas Technocast Private Limited
Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00669/7654—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vishwas Technocast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasvik Biosearch Private Limited
Ahmedabad-380 013, the 7th August 2007

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2007/00888/7658—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vasvik Biosearch Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Authorising Officer
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956 and
of following Companies

Kolkata-700 020, the 11th September 2007

No. ROC/WB/IPC/560(SM)/07—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 under Suo Motu that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of the Register of Companies and is dissolved :—

Sl. No.	Company CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	20116	M/s. A B C Syndicate Private Limited
2.	86884	M/s. A K Polyproducts Private Limited

1	2	3
3.	11604	M/s. A K Raha Engineers Private Limited
4.	86242	M/s. A R Corrogated Containers Private Limited
5.	54681	M/s. A to Z Consultancy Private Limited
6.	82072	M/s. A. J. K. Rice Mill Private Limited
7.	61751	M/s. A. M. Engineering Private Limited
8.	88910	M/s. A. P. Electroplating Works Private Limited
9.	43826	M/s. Aakansha Traders Private Limited
10.	51711	M/s. Aar Vee Exports Private Limited
11.	68967	M/s. Aastbhuja Merchandise Private Limited
12.	86691	M/s. Aastha Communications Private Limited
13.	77440	M/s. Aatish Merchants Private Limited
14.	31402	M/s. AB Teetex Industries Private Limited
15.	33129	M/s. Abacus Consulting Engineering Private Limited
16.	27721	M/s. Abhaya Coal Syndicate Private Limited
17.	67111	M/s. Abhinandan Apparels Private Limited
18.	67790	M/s. Abhpara Tie-Up Private Limited
19.	54857	M/s. ABT Carriers (Ex-Servicemen) Private Limited
20.	29073	M/s. Ace Electricals Private Limited
21.	32792	M/s. Ace Investments Private Limited
22.	67686	M/s. Ace Services Private Limited
23.	27022	M/s. Acharya Engineering Works Private Limited
24.	60417	M/s. Aclima Pharmaceuticals Private Limited
25.	81364	M/s. Ad-Seal Private Limited
26.	81364	M/s. Ad-Seal Private Limited
27.	86344	M/s. Adiem Combined Private Limited
28.	80151	M/s. Aditya Impex Private Limited
29.	31698	M/s. Advani Developers Private Limited
30.	81373	M/s. Advert Traders Private Limited
31.	86200	M/s. Aeroquip Services Private Limited
32.	60310	M/s. Aesby Enterprises (Durgapur) Private Limited
33.	62691	M/s. Agantuk Commotrade Private Limited

1	2	3	1	2	3
34.	40088	M/s. Agarwal Pratisthan Private Limited	65.	66808	M/s. Anglo-Ver Dealcom Private Limited
35.	24925	M/s. Agencies & Sales Private Limited	66.	28424	M/s. Anirban Chit Fund Private Limited
36.	79373	M/s. AGM Financial & Consultancy Services Private Limited	67.	83058	M/s. Anjeneya Entrepreneurs Private Limited
37.	73900	M/s. Agora Agencies Private Limited	68.	70978	M/s. Ankish Tie-Up Private Limited
38.	73904	M/s. Agora Trade & Services Private Limited	69.	79087	M/s. Ankur Commodities Private Limited
39.	79815	M/s. AGR Builders & Developers Private Limited	70.	43831	M/s. Anmol Woolen and Spinning Mills Private Limited
40.	31156	M/s. Agra Tin Manufacturing Co. Private Limited	71.	26659	M/s. Annapurna Dairy Private Limited
41.	79620	M/s. Aim Ad Agency Private Limited	72.	86403	M/s. Anpoul Pharma Private Limited
42.	87835	M/s. Air & Surface Travels Private Limited	73.	30230	M/s. Ansen and Mukherjee Private Limited
43.	40225	M/s. Air Lines Investments & Leasing's Private Limited	74.	40295	M/s. Anu Holdings Private Limited
44.	86548	M/s. AJ Overseas Private Limited	75.	36259	M/s. Anubha Carbons Private Limited
45.	36246	M/s. Ajanta Nirman Private Limited	76.	86904	M/s. Aparan Computer Private Limited
46.	54648	M/s. Akancha Finance & Investment Company Private Limited	77.	32771	M/s. Apex Data Systems Private Limited
47.	38131	M/s. AKJ Art Printers Private Limited	78.	55792	M/s. Apollo Realtors Private Limited
48.	40231	M/s. Alaknanda Services Private Limited	79.	35787	M/s. Apollo Warehousing Private Limited
49.	86072	M/s. Alaric Developers Private Limited	80.	79823	M/s. APS Griha Nirman Company Private Limited
50.	78140	M/s. Albanna Merchandise Private Limited	81.	28749	M/s. Ararvi Estates & Investments Private Limited
51.	62656	M/s. Alchemy Engineers Private Limited	82.	89184	M/s. Archana Confectioners (India) Private Limited
52.	73509	M/s. Alok Financial Services Private Limited	83.	81061	M/s. Arham Computers Private Limited
53.	32380	M/s. Alpha Gloves Private Limited	84.	74737	M/s. Arham Securities Private Limited
54.	74568	M/s. Amaltas Construction Private Limited	85.	70111	M/s. Arjun Sales Promotion Private Limited
55.	32115	M/s. Amar Grantha Prakashan Private Limited	86.	68594	M/s. Arrowgold Suppliers Private Limited
56.	53655	M/s. Ambaji Resources & Credit Private Limited	87.	10826	M/s. Art Tiles & Concrete Works (India) Private Limited
57.	37876	M/s. Ameen Movies Private Limited	88.	67880	M/s. Artmoss Merchants Private Limited
58.	70124	M/s. Amison Dealers Private Limited	89.	37904	M/s. Ashirwad Projects Private Limited
59.	35455	M/s. AMK Designers & Engineers Private Limited	90.	47539	M/s. Ashish Fibre Beautilities Private Limited
60.	54690	M/s. Amol Credit & Fiscal Private Limited	91.	86178	M/s. Ashman Agro Private Limited
61.	31413	M/s. Anapol (India) Private Limited	92.	74154	M/s. Ashwani Aqua Private Limited
62.	62015	M/s. Anarcon Estates Private Limited	93.	33064	M/s. Asian Remedies Private Limited
63.	73824	M/s. Andaz Tracon Private Limited	94.	30038	M/s. Assam Cargo Movers Private Limited
64.	20035	M/s. Angels Chemicals Works Private Limited	95.	18752	M/s. Associated Aesby Industries Private Limited
			96.	86442	M/s. Associated Enclave Private Limited

1	2	3	1	2	3
97.	28004	M/s. Associated Insulators India Private Limited	129.	30778	M/s. Ban-Bhatt Ice Cream Industries Private Limited
98.	32412	M/s. Associated Refractories Private Limited	130.	18297	M/s. Banaras Ice Factory Private Limited
99.	32772	M/s. Associated Saddles Private Limited	131.	54506	M/s. Bansal Properties & Enclave Private Limited
100.	37113	M/s. Associated Spring Manufacturing Co. Private Limited	132.	76111	M/s. Barasat Paper & Board Mills Private Limited
101.	76471	M/s. ASTM Overseas Private Limited	133.	51667	M/s. Bardhaman Electrodes Private Limited
102.	36379	M/s. Astro Compute Private Limited	134.	35167	M/s. Baroni Lovem Private Limited
103.	70638	M/s. Atari Properties Private Limited	135.	28869	M/s. Basant Trading Co. Private Limited
104.	36258	M/s. ATC Freight Movers Private Limited	136.	35120	M/s. Basudhara Bhoomi-O-Nirman Private Limited
105.	33806	M/s. Auro Trust Private Limited	137.	31892	M/s. Baumann Luftmann Private Limited
106.	34123	M/s. Aurum Properties Private Limited	138.	38606	M/s. Bauria Ispat Udyog Private Limited
107.	33151	M/s. Auto Commerce Private Limited	139.	27817	M/s. Bazaj Engineering & Foundry Works Private Limited
108.	80421	M/s. Avant Garde Suppliers Private Limited	140.	23769	M/s. Bearing Special ISTS Private Limited
109.	77498	M/s. Avantica Machinery Mart Private Limited	141.	54480	M/s. Bee Pee Trading & Investment Company Private Limited
110.	86773	M/s. Avishkar Communication Services Private Limited	142.	28900	M/s. Behala Kem Kraft Private Limited
111.	38884	M/s. Avlon Syntex Private Limited	143.	45259	M/s. Bels Exports Private Limited
112.	79227	M/s. Avtaar Tie-Up Private Limited	144.	40266	M/s. Bengal Agro Products & Plantation Private Limited
113.	54632	M/s. Ayanika Construction Company Private Limited	145.	54362	M/s. Bengal Anti Biotics Private Limited
114.	54662	M/s. Azamgarh Auto Private Limited	146.	23880	M/s. Bengal Bobbin Works Private Limited
115.	35723	M/s. B B Mechanical Co. Private Limited	147.	86940	M/s. Bengal Ice Cream Distributors Private Limited
116.	18071	M/s. B B Nandy's Private Limited	148.	27230	M/s. Bengal Progressive Hospital Equipment Co. Private Limited
117.	20170	M/s. B Jiwaon & Co. Private Limited	149.	10661	M/s. Bengal Refractories Private Limited
118.	31452	M/s. B M Estate Consultancy Private Limited	150.	28458	M/s. Bengal Saving Finance Private Limited
119.	14872	M/s. B M Sen (Agency) Private Limited	151.	28397	M/s. Bengal Synthetic Moulders Private Limited
120.	14096	M/s. B Sen & Co. Private Limited	152.	30404	M/s. Berbess Type Foundry Private Limited
121.	55389	M/s. B. J. Stock Finance Private Limited	153.	81203	M/s. BGP Manufacturers & Exports Private Limited
122.	38812	M/s. B. K. Hotels Private Limited	154.	34085	M/s. Bhabatarini Estates Private Limited
123.	50484	M/s. Baba Salasar Developers Private Limited	155.	37095	M/s. Bhalotia Leasing & Hiring Private Limited
124.	32132	M/s. Bachan Sales Private Limited	156.	11108	M/s. Bharat Tea Estates Private Limited
125.	76022	M/s. Badsha Agro Centre Private Limited	157.	20282	M/s. Bharati Chitram Private Limited
126.	34000	M/s. Bagri Electronics Private Limited			
127.	81746	M/s. Bajaj Aqua-Tech Private Limited			
128.	72640	M/s. Balaji Tyres Private Limited			

1	2	3	1	2	3
158.	11285	M/s. Bhattacharjee (Agency) & Co. Private Limited	187.	70294	M/s. Brisk Vyapaar Private Limited
159.	44312	M/s. Bhujanga Bhushan Leasing and Financial Servicing Private Limited	188.	13258	M/s. Brocho & Co. Private Limited
160.	34517	M/s. Bhuwarka Exports Private Limited	189.	87866	M/s. Brothers Drug Private Limited
161.	60700	M/s. Bibdol Housing Enterprises Private Limited	190.	27288	M/s. Brown Smith & Co. Private Limited
162.	86976	M/s. Big Three Food Products Private Limited	191.	70659	M/s. Burlington Commerce Private Limited
163.	32172	M/s. Bikram Road Lines Private Limited	192.	37738	M/s. Calcutta Beverages Private Limited
164.	89837	M/s. Bimala Lakshmi Agro Private Limited	193.	81881	M/s. Calcutta Biscuits Private Limited
165.	62500	M/s. Bina 'K' Chemicals Private Limited	194.	36399	M/s. Calcutta Coal Trading Co. Private Limited
166.	86786	M/s. Binary Telecom Private Limited	195.	79414	M/s. Calcutta Comex Private Limited
167.	47023	M/s. Bindhyam Impex Trading Private Limited	196.	28890	M/s. Calcutta Commercial Co. (Structural) Private Limited
168.	86864	M/s. Biographical Encyclopedia Private Limited	197.	52170	M/s. Calcutta Creative Printers Private Limited
169.	86911	M/s. Birka Exports Private Limited	198.	30742	M/s. Calcutta Development House Services Private Limited
170.	11301	M/s. Bistoo Charandey & Co. Private Limited	199.	55552	M/s. Calcutta Fan (Sales) Private Limited
171.	81642	M/s. Biswajit Traders Private Limited	200.	30664	M/s. Calcutta Frozen Foods Private Limited
172.	60496	M/s. Bitat Builders Private Limited	201.	37881	M/s. Calcutta Land & Building Construction Private Limited
173.	70106	M/s. Bitthal Sales Private Limited	202.	14092	M/s. Calcutta Movietone Private Limited
174.	28302	M/s. Blaze Advertising (Calcutta) Private Limited	203.	14697	M/s. Calcutta Optical Co. Private Limited
175.	68316	M/s. Bliss Metal Private Limited	204.	32936	M/s. Calcutta Pipe Dealers Associated Private Limited
176.	52089	M/s. Blue Max Smokeless Coal Private Limited	205.	28399	M/s. Calcutta Ref-Air Engineers Private Limited
177.	55659	M/s. BM Process Engineering & Trouble-Shooting Private Limited	206.	50523	M/s. Calmos Exports Private Limited
178.	14310	M/s. Boirgania Engineering Works Private Limited	207.	27843	M/s. Calsychem Private Limited
179.	31472	M/s. Bokara Roller Flour Mills Private Limited	208.	40254	M/s. Cameo Products Private Limited
180.	30446	M/s. Bokaro Rasayan Udyog Private Limited	209.	64229	M/s. Capcoan Vinimay Private Limited
181.	30872	M/s. Bonanza Electromelt Private Limited	210.	14947	M/s. Card Board Box of Calcutta Private Limited
182.	40486	M/s. Book Forum Private Limited	211.	68942	M/s. Carews Chemicals Private Limited
183.	36977	M/s. Bremen Technik Private Limited	212.	67870	M/s. Carney Vincom Private Limited
184.	30702	M/s. Bright Ceramics Private Limited	213.	26202	M/s. Carter Hydraulic Power Private Limited
185.	33115	M/s. Bright Plastics Private Limited	214.	82004	M/s. Casio Steel Company Private Limited
186.	72827	M/s. Brisk Vanijya Private Limited	215.	60712	M/s. Castco Engineers Private Limited
			216.	35218	M/s. Castex Private Limited
			217.	31866	M/s. Catchy Savings & Finance Limited

1	2	3	1	2	3
218.	89881	M/s. CBK Global Solutions (India) Private Limited	247.	30262	M/s. Collaborate Chit & Finance Co. Private Limited
219.	37027	M/s. CCCP Printers Private Limited	248.	70855	M/s. Collocate Vinimay Private Limited
220.	60071	M/s. Cee Dee Kon Private Limited	249.	31844	M/s. Coloral Private Limited
221.	86173	M/s. Central Carriers (I) Private Limited	250.	24230	M/s. Colours India Private Limited
222.	11554	M/s. Central Poniat Coal Co. Private Limited	251.	76656	M/s. Comet Suppliers Private Limited
223.	87879	M/s. Chaitee Tea Company Private Limited	252.	54434	M/s. Commercant Exports Private Limited
224.	30278	M/s. Chaliha Financial Co. Private Limited	253.	18832	M/s. Commonwealth Spinning & Knitting Mills Private Limited
225.	20791	M/s. Chanda Singh Motor Service Private Limited	254.	38284	M/s. Concept Consortium Private Limited
226.	37058	M/s. Chandmal Properties Private Limited	255.	81883	M/s. Concrete Promoters Private Limited
227.	70555	M/s. Chandrika Vincon Private Limited	256.	81233	M/s. Conquerd Technology Private Limited
228.	39175	M/s. Chefair Finance & Resources Private Limited	257.	38605	M/s. Consolidated Projects Private Limited
229.	39789	M/s. Chemfil India Private Limited	258.	18424	M/s. Continental Bottle Co. Private Limited
230.	74506	M/s. Choudhary Cenent Private Limited	259.	11097	M/s. Continental Machinery Co. Private Limited
231.	54266	M/s. Chowdhury Hi-Tech Computer Systems Private Limited	260.	31429	M/s. Converina Engineers Private Limited
232.	18155	M/s. Chowdhury Properties Private Limited	261.	40424	M/s. Cooch-Bihar Builders Forum Private Limited
233.	86970	M/s. Chowdhury Roadways Private Limited	262.	73720	M/s. Cosco Properties Private Limited
234.	30717	M/s. Cifco & Stewart Consultants Private Limited	263.	40063	M/s. Cosmic Builders & Traders Private Limited
235.	29329	M/s. Cine Sixteen (Eastern) Private Limited	264.	54195	M/s. Cosmic Trade & Impex Private Limited
236.	68106	M/s. Ciplox Supplier Private Limited	265.	30728	M/s. Coxwain Laboratories Private Limited
237.	86192	M/s. Cisco Engineering & Research Private Limited	266.	88324	M/s. Crescent Drugs Private Limited
238.	60532	M/s. Citadal Finance & Holdings Private Limited	267.	74044	M/s. Crompton Enterprise Private Limited
239.	68984	M/s. Citric Barter Private Limited	268.	33145	M/s. Crome Steel (India) Private Limited
240.	38751	M/s. City Lake Pharmaceuticals Private Limited	269.	51534	M/s. Crysool Chemicals Private Limited
241.	28380	M/s. Civelmec Refrigerations Private Limited	270.	30030	M/s. Crystal Steel Private Limited
242.	86898	M/s. Clarion Industrial Park Private Limited	271.	60716	M/s. CSS Enterprises Private Limited
243.	37535	M/s. Clasique Crafts Private Limited	272.	60664	M/s. Cubicle Cottage Private Limited
244.	39874	M/s. Classic Engineering Co. Private Limited	273.	86902	M/s. Cyberline Systems Private Limited
245.	23320	M/s. Coal Traders Private Limited	274.	62971	M/s. Cygnus Music Private Limited
246.	62513	M/s. Coastal Fertilisers Limited	275.	78249	M/s. Cymit Prints Private Limited
			276.	32076	M/s. D D Verma Exporters Private Limited
			277.	14150	M/s. D N Bhattacharya Private Limited
			278.	31691	M/s. D N Construction & Investment Private Limited
			279.	31691	M/s. D N Construction & Investment Private Limited

1	2	3
280.	45289	M/s. D R C Computech Private Limited
281.	60539	M/s. D-Con Housing Private Limited
282.	27585	M/s. Daga Investment Private Limited
283.	10224	M/s. Dagababa Private Limited
284.	40786	M/s. Das Exports Private Limited
285.	11220	M/s. Dass & Co. India Private Limited
286.	30694	M/s. Dastidar Brothers Private Limited
287.	35438	M/s. Dawn Flexocord Private Limited
288.	60366	M/s. Deb & Dutt Exim Private Limited
289.	40082	M/s. Debar Polymers & Chemicals Private Limited
290.	54403	M/s. Debarati Apartment Private Limited
291.	40096	M/s. Decent Traders Private Limited
292.	67182	M/s. Decolic Sales Private Limited
293.	35148	M/s. Dee Pee Trading Co. Private Limited
294.	70653	M/s. Deeksha Distributors Private Limited
295.	50150	M/s. Deepsikha Electro System Private Limited
296.	37701	M/s. Delcon Units Private Limited
297.	43879	M/s. Delta Leisures Private Limited
298.	31545	M/s. Delta Metal Works Private Limited
299.	82441	M/s. Delux Tradelink Private Limited
300.	55713	M/s. Dempo Management & Impex Private Limited
301.	27595	M/s. Desh-O-Dunia Publishers Private Limited
302.	45392	M/s. Devarti Development Private Limited
303.	74247	M/s. Devarun Scientific Electrical Manufacturing Private Limited
304.	84043	M/s. Devendra Mercantile Private Limited
305.	45136	M/s. Devi Investment Co. Private Limited
306.	54546	M/s. Devmit Finance & Investment Private Limited
307.	80210	M/s. Devoki Agencies Private Limited
308.	80208	M/s. Devoki Textiles Private Limited
309.	82228	M/s. Dhanbad Trading Co. Private Limited
310.	28031	M/s. Dhankura Colliery Private Limited
311.	62944	M/s. Dhankwala Traders Private Limited
312.	54380	M/s. Dhanraj Bhartraj Properties Private Limited

1	2	3
313.	51894	M/s. Dhanuka Electro Systems Private Limited
314.	79787	M/s. Dhanush Commercials Private Limited
315.	67038	M/s. Diamond Laundry Private Limited
316.	87849	M/s. Diamond Shine Holiday Resorts Private Limited
317.	87848	M/s. Digitech Sofftech Private Limited
318.	51904	M/s. Digvijay Finvest Private Limited
319.	70123	M/s. Dindayal Sales Promotion Private Limited
320.	70123	M/s. Dindayal Sales Promotion Private Limited
321.	70012	M/s. Dingo Dealers Private Limited
322.	70008	M/s. Dingo Vincom Private Limited
323.	66853	M/s. Dintara Mercantile Private Limited
324.	52066	M/s. Discbanc Services Private Limited
325.	51567	M/s. Diverse Commercials Private Limited
326.	70568	M/s. Divya Rana Distributors Private Limited
327.	27508	M/s. Doaba Fabrication & Construction Private Limited
328.	38723	M/s. Domestic Sales PCT Limited
329.	81436	M/s. Dona Color-Lab Private Limited
330.	55709	M/s. Donald Export & Trading Private Limited
331.	55694	M/s. Dream Fincon & Holding Private Limited
332.	33588	M/s. Dreamland Travellers Haven Private Limited
333.	86207	M/s. DSI Properties Private Limited
334.	35053	M/s. DSM Consultancy Services Private Limited
335.	43100	M/s. Dua Air Con Private Limited
336.	30243	M/s. Durgapur Chit & Investment Co. Private Limited
337.	73915	M/s. Durgapur Pigery Private Limited
338.	32785	M/s. Durochem Private Limited
339.	86397	M/s. Dylan Impex Private Limited
340.	43965	M/s. Dynamed Laboratories Private Limited
341.	37032	M/s. Dynamic Promotions Private Limited
342.	36499	M/s. E B I Constructions Agency Private Limited

1	2	3
343.	38837	M/s. Eagle Leasing Private Limited
344.	38476	M/s. Eagle Security Service Private Limited
345.	11841	M/s. East Burrakar Coal Co. Private Limited
346.	66417	M/s. East Coast Fabricators Private Limited
347.	45163	M/s. East India Real Estates Private Limited
348.	32051	M/s. East India Strip & Wire Products Private Limited
349.	33119	M/s. Easter Circuit Private Limited
350.	33077	M/s. Easternman Mass Media Private Limited
351.	31948	M/s. Eastern Coke Manufacturing Co. Private Limited
352.	86317	M/s. Eastern Entertainment Private Limited
353.	23011	M/s. Eastern Farming Society Private Limited
354.	43994	M/s. Eastern Malleables & Alloyed Products Private Limited
355.	60387	M/s. Eastern Megatrend Private Limited
356.	28501	M/s. Eastern Tractor Spares Private Limited
357.	51863	M/s. Eco Savings & Finance Investment Company Private Limited
358.	79955	M/s. Econo Track Chain Private Limited
359.	40358	M/s. Economic Feeds Private Limited
360.	86275	M/s. Eddycon Turnkey Services Private Limited
361.	31903	M/s. Educaids (India) Private Limited
362.	67772	M/s. Educamp Tracon Private Limited
363.	27073	M/s. Edwards Fan & Furnace Co. Private Limited
364.	46909	M/s. Efar Paints Private Limited
365.	30408	M/s. Effective Trade House Private Limited
366.	37921	M/s. Eicos Gears Private Limited
367.	19783	M/s. Electrically Lighted Advertising Pillers Private Limited
368.	46039	M/s. Electromech Construction & Consultant (India) Private Limited
369.	38668	M/s. Elemecon (India) Private Limited
370.	30031	M/s. Elfin Electrical Industries Private Limited
371.	30264	M/s. Elora Chit & Finance Centre Private Limited

1	2	3
372.	30787	M/s. Empee Engineering Consortium Private Limited
373.	32472	M/s. Empire Properties & Investments Private Limited
374.	32371	M/s. Encons Refractories (Calcutta) Private Limited
375.	29586	M/s. Engineering & Moulding Works India Private Limited
376.	39916	M/s. ENJE Texo Trade & Finance (India) Private Limited
377.	45278	M/s. Enne Compushoppe Private Limited
378.	89734	M/s. Enviro Tours Private Limited
379.	30665	M/s. Environment Control (India) Private Limited
380.	80947	M/s. Envromin Projects Private Limited
381.	70839	M/s. Epson Distributors Private Limited
382.	70854	M/s. Epson Sales Private Limited
383.	70841	M/s. Epson Supply Private Limited
384.	70541	M/s. Epza Distributors Private Limited
385.	26458	M/s. Erina Machine-O-Metal Co. Private Limited
386.	45151	M/s. Esenel Pharmaceuticals Private Limited
387.	88156	M/s. Eshana Publications Private Limited
388.	32887	M/s. Esneena Private Limited
389.	77633	M/s. Essjapra Iron and Steel Private Limited
390.	35532	M/s. Esstee Agents & Traders Private Limited
391.	40337	M/s. Estate Developers India Private Limited
392.	77145	M/s. Estrella Commodeal Private Limited
393.	87840	M/s. Ethnica Exports Private Limited
394.	30275	M/s. Etscheid India Private Limited
395.	32108	M/s. Eugenic Pharmaceuticals Private Limited
396.	68155	M/s. Europa Associates Private Limited
397.	50485	M/s. Evana Savings and Credit Private Limited
398.	52240	M/s. Eventer Enterprises Private Limited
399.	39847	M/s. Everest Asbestos Private Limited
400.	30098	M/s. Everest Capacitors Private Limited

1	2	3	1	2	3
401.	30228	M/s. Everest Wood Products Allied Industries Private Limited	432.	72930	M/s. Frazer Sale & Services Private Limited
402.	88050	M/s. Execool Resorts Private Limited	433.	81180	M/s. Free Flowing Merchants Private Limited
403.	28969	M/s. Exoflux (India) Private Limited	434.	70005	M/s. Frisky Dealer Private Limited
404.	38675	M/s. Expo Engineers Private Limited	435.	60769	M/s. FRP Pultrusion Private Limited
405.	40001	M/s. Ezone Cooling & Electrical Equipments Private Limited	436.	30621	M/s. G. C. Chemicals Private Limited
406.	32099	M/s. Fabcon Chemicals Private Limited	437.	74102	M/s. G. D. Minerals Private Limited
407.	86254	M/s. Fabscon Projects (I) Private Limited	438.	45318	M/s. G. Man Electronics & Engineering Company Private Limited
408.	67226	M/s. Facit Commodities Private Limited	439.	37002	M/s. G. N. S. Commercial Finance and Investment Co. Private Limited
409.	40102	M/s. Fair Deal Construction Private Limited	440.	36841	M/s. G. S. Consultancy Services Private Limited
410.	79228	M/s. Fairdeal Tracom Private Limited	441.	40071	M/s. G. V. Plastic Industries Private Limited
411.	40351	M/s. Falta Knitwear Industries Private Limited	442.	76459	M/s. Gainwell Trading Private Limited
412.	31829	M/s. Farmcoke (India) Private Limited	443.	73748	M/s. Gajkarna Housing Private Limited
413.	80474	M/s. Fastflow Sales Agencies Private Limited	444.	55073	M/s. Gallant Exporters Private Limited
414.	37148	M/s. Favourite Milkon Products Private Limited	445.	80953	M/s. Ganapati Prachar Private Limited
415.	50585	M/s. FDT Technology and Management Services Private Limited	446.	73057	M/s. Gandhi and Gandhi Enterprises Private Limited
416.	70858	M/s. Feozz Vanijya Private Limited	447.	61585	M/s. Gangadharam Sales Promotion Private Limited
417.	88150	M/s. Fern Flowers & Plants Boutique Private Limited	448.	70108	M/s. Gangeshwar Sales Private Limited
418.	36843	M/s. Ferroinspect (India) Private Limited	449.	43393	M/s. Ganguly Brothers & Company Private Limited
419.	77358	M/s. Festicon Agencies Private Limited	450.	73742	M/s. Gannadhisaya Housing Private Limited
420.	33506	M/s. Filtration & Separation (India) Private Limited	451.	18803	M/s. Gargs Enterprises Private Limited
421.	73038	M/s. Finolex Barter Services Private Limited	452.	54064	M/s. Garima Agencies & Credit Private Limited
422.	68127	M/s. First Row Dealers Private Limited	453.	67659	M/s. Garita Tradecomm Private Limited
423.	51916	M/s. Flair Apparels Private Limited	454.	67655	M/s. Garoor Vincom Private Limited
424.	86351	M/s. Flamme Electrotek Private Limited	455.	34150	M/s. Gautam Small Scale Jute Industrial Machinery MF
425.	51137	M/s. Flexi-Hose Private Limited	456.	32273	M/s. Gautam Steel & Alkali Industries Private Limited
426.	30701	M/s. Flower Hosiery Complax Private Limited	457.	55518	M/s. GBC Enterprise Limited
427.	62924	M/s. Flyhigh Travels Private Limited	458.	86720	M/s. GBLA Agency Private Limited
428.	60056	M/s. Forex Consultants Private Limited	459.	51049	M/s. Gem Properties Private Limited
429.	70567	M/s. Formart Traders Private Limited	460.	33511	M/s. General Beverages Private Limited
430.	51677	M/s. Forsooth Consultants Forum Private Limited	461.	30301	M/s. General Paptex Machine Private Limited
431.	80106	M/s. Fortworth Commerce Private Limited			

1	2	3	1	2	3
462.	79918	M/s. Genial Construction Private Limited	492.	38110	M/s. Green View Leasing & Financing Co. Private Limited
463.	86723	M/s. Genstar Shipping Agency Private Limited	493.	88976	M/s. Greentech Natural Oil Private Limited
464.	40325	M/s. Ghorawat Brothers Private Limited	494.	61643	M/s. Greund Engineering Private Limited
465.	30764	M/s. Ghose & Majumdar Rerolling and Allied Engineering Private Limited	495.	34001	M/s. Growth Engineering Services Private Limited
466.	31114	M/s. Ghosh Agarwal & Co. Private Limited	496.	81978	M/s. Gunjan Commodeal Private Limited
467.	84010	M/s. Ghosh Financial Services Private Limited	497.	43717	M/s. Gunjan Engineering Works Private Limited
468.	46856	M/s. Giriraj Shellac Industries Private Limited	498.	81512	M/s. Gunjan Towers Private Limited
469.	62692	M/s. Girivar Commodities Private Limited	499.	81693	M/s. Gunnayak Vanijya Private Limited
470.	29553	M/s. Glassman Overseas Private Limited	500.	31706	M/s. Gupta Biscuits Private Limited
471.	81684	M/s. GMG Impex Private Limited	501.	31906	M/s. Guru Marketing Co. Private Limited
472.	34681	M/s. Gnat Electrical Industries Private Limited	502.	43502	M/s. Guru Tegbahadur Flour & Rice Mills Private Limited
473.	74245	M/s. Godhuli Engineers & Consultants Private Limited	503.	13184	M/s. H Chowdhury Brothers Private Limited
474.	80613	M/s. Goldleaf Creations Private Limited	504.	51968	M/s. H. T. Digital Computer Centre Private Limited
475.	53545	M/s. Good Food Manufacturing Private Limited	505.	29376	M/s. Haldia Investment Co. Limited
476.	54777	M/s. Goodfaith Distributors Private Limited	506.	51897	M/s. Halisahar Wire Private Limited
477.	60804	M/s. Goodmark Trading Private Limited	507.	33618	M/s. Hand Wood Estate Private Limited
478.	77366	M/s. Goodward Commercial Private Limited	508.	14561	M/s. Haque Brothers Private Limited
479.	43048	M/s. Goodwill Electrosystems Private Limited	509.	78255	M/s. Haralalka Bhownipore Textile Private Limited
480.	70650	M/s. Goodwish Fabtrade Private Limited	510.	54499	M/s. Hari Leafin & Properties Private Limited
481.	67141	M/s. Goonja Sales Private Limited	511.	70134	M/s. Hari-Chintan Distributors Private Limited
482.	24240	M/s. Gopa Pictures Private Limited	512.	62706	M/s. Harilok Trexim Private Limited
483.	86707	M/s. Gopalpur Hatchery & Allied Products Private Limited	513.	80744	M/s. Harison Merchant Private Limited
484.	88063	M/s. Gopalpur Mineral Trading Organisation Private Limited	514.	30772	M/s. Harit Metal & Steel Industries Private Limited
485.	86821	M/s. Goutam Homoeopathic Research Company Private Limited	515.	70130	M/s. Harivaar Commercial Private Limited
486.	32068	M/s. Goutam Printers Private Limited	516.	28253	M/s. Harsh Spring Co. Private Limited
487.	87852	M/s. GPM Moulders Private Limited	517.	31139	M/s. Hemkund Builders & Traders Private Limited
488.	54349	M/s. Grace Impex Private Limited	518.	30768	M/s. Henryvolt Electricals (India) Private Limited
489.	72484	M/s. Grace Vincom Private Limited	519.	86105	M/s. Hi Micro Infotech Private Limited
490.	28581	M/s. Grand Smithy Works Private Limited	520.	66637	M/s. Highness Mercantiles Private Limited
491.	43256	M/s. Grassroots Engineering Private Limited	521.	73820	M/s. Highpeak Tracon Private Limited

1	2	3	1	2	3
522.	55634	M/s. Hill Development Finance and Investment Private Limited	550.	31178	M/s. Indian Welding Private Limited
523.	81954	M/s. Hilum Commodities Private Limited	551.	20702	M/s. Indo National Investment Private Limited
524.	20166	M/s. Himalayan Stores & Agencies Private Limited	552.	28691	M/s. Indo Unicon Engineering Co. Private Limited
525.	40267	M/s. Himalayan Trade and Casting Industries Private Limited	553.	86102	M/s. Indosoft Technologies (P) Limited
526.	30276	M/s. Hindusthan Handloom Private Limited	554.	30792	M/s. Indu Wire Industries Private Limited
527.	46106	M/s. HKR Fuels & Foundries Private Limited	555.	27138	M/s. Indus Printing Ink Factory Private Limited
528.	86809	M/s. HMD Properties Private Limited	556.	86076	M/s. Infoobjects Technologies Private Limited
529.	31238	M/s. Hooghly Paper Board Mills Private Limited	557.	81734	M/s. Inline Data Infotech Private Limited
530.	86320	M/s. Horizon Media Private Limited	558.	60924	M/s. Integrated Business Computers Private Limited
531.	79390	M/s. Hotel Dock Palace Private Limited	559.	27705	M/s. Inventors & Machine Makers Co. Private Limited
532.	55944	M/s. Hotex Merchandise Private Limited	560.	76498	M/s. Investwell Textiles Private Limited
533.	14190	M/s. House Home Private Limited	561.	75068	M/s. Iris Surgical & Pharmaceuticals Private Limited
534.	23083	M/s. Howrah City Engg. Co. Private Limited	562.	44665	M/s. J N S Fabrics Private Limited
535.	28195	M/s. Howrah Glass Industries Private Limited	563.	40028	M/s. J. Ganguly and Company Private Limited
536.	78135	M/s. Hubli Suppliers Private Limited	564.	38711	M/s. J. F. Rustomjee & Company Private Limited
537.	10912	M/s. Hughli Agriculture & Industries Private Limited	565.	76733	M/s. J. K. Saha Construction & Investors Private Limited
538.	50249	M/s. Humming Bird Marketing Private Limited	566.	55311	M/s. J. M. Complex Private Limited
539.	28236	M/s. Impala Advertising Private Limited	567.	74638	M/s. J. P. Stock Broking Private Limited
540.	28692	M/s. Impex Asia Construction Co. Private Limited	568.	10260	M/s. Jagan Nath Gupta & Co. Private Limited
541.	67873	M/s. Inchook Vinimay Private Limited	569.	40538	M/s. Jagdev Ram & Sons Private Limited
542.	14352	M/s. India Connors Private Limited	570.	77330	M/s. Jagprem Marketing Private Limited
543.	10654	M/s. India Ink Co. Private Limited	571.	82298	M/s. Jai Ram Medichem Private Limited
544.	11414	M/s. India Land Development & Building Society Private Limited	572.	31013	M/s. Jain & Associates (India) Private Limited
545.	27797	M/s. Indian Agro-Industrial Enterprise Private Limited	573.	30730	M/s. Jaiswal Chemicals Private Limited
546.	27833	M/s. Indian Expo Aquarium Private Limited	574.	37907	M/s. Jaj Marine Engineering Private Limited
547.	32279	M/s. Indian Gloves Industries Private Limited	575.	70550	M/s. Jaldasree Sales Promotion Private Limited
548.	81783	M/s. Indian Institute of Professional Studies Private Limited	576.	23809	M/s. Jamgram Fireclay Syndicate Private Limited
549.	27857	M/s. Indian Paptin Products Private Limited			

1	2	3	1	2	3
577.	82029	M/s. Jamshedpur Industrial Security Service Private Limited	609.	29381	M/s. Jyotirmoy Trading and Chit Funds Private Limited
578.	30226	M/s. Janata Three Wheelers Private Limited	610.	40119	M/s. K D Properties & Finance Private Limited
579.	35448	M/s. Janmantar (Research) Private Limited	611.	77171	M/s. K. G. N. Fishery Project Private Limited
580.	67792	M/s. Janosoft Tradelink Private Limited	612.	43986	M/s. K. G. Uniforms Private Limited
581.	35125	M/s. Jardinire Engineer & Contractor Private Limited	613.	70815	M/s. K. J. Services Private Limited
582.	74266	M/s. Jasoda Construction Private Limited	614.	23981	M/s. K. M. Banerjee Private Limited
583.	30305	M/s. Jayer Exports Private Limited	615.	38698	M/s. K. N. Kanoria & Sons Private Limited
584.	33607	M/s. Jaymac Exports & Imports Private Limited	616.	30086	M/s. Kadambini Investment Private Limited
585.	43145	M/s. Jenesis Engineers Private Limited	617.	46535	M/s. Kailash Construction Private Limited
586.	27738	M/s. Jenner Medical Services Private Limited	618.	60965	M/s. Kailash Enclaves Private Limited
587.	67020	M/s. Jhalak Viniyog Private Limited	619.	70380	M/s. Kaizen Elastomers India Limited
588.	68825	M/s. Jhinuk Retailer Private Limited	620.	32299	M/s. Kal Komp Private Limited
589.	31311	M/s. Jhus Timetronics Private Limited	621.	86847	M/s. Kalinga Academy Private Limited
590.	39402	M/s. Jibcons (India) Private Limited	622.	86614	M/s. Kalion Promoters Private Limited
591.	45085	M/s. Jifil Financial Services Private Limited	623.	77603	M/s. Kalyani Icecreams Private Limited
592.	67693	M/s. Jill Chem Trade & Services Private Limited	624.	78685	M/s. Kalyankari Trading Private Limited
593.	82064	M/s. Jivak Antibiotics Private Limited	625.	54348	M/s. Kama Financiers Private Limited
594.	81915	M/s. JJ Management Services Private Limited	626.	32766	M/s. Kamakhya Ceramics (India) Private Limited
595.	31251	M/s. Jnan Vikash Private Limited	627.	09503	M/s. Kanai Chand Dutta & Co. Private Limited
596.	88101	M/s. Jogeshwari Roadways Private Limited	628.	86873	M/s. Kanchan Cold Storage Private Limited
597.	62587	M/s. Jordan Vinimay Private Limited	629.	40115	M/s. Kanchan Trading and Investment Private Limited
598.	15261	M/s. Jubilee Engineering & Metal Polishing Works Private Limited	630.	66419	M/s. Kanchanjunga Hi Tech Private Limited
599.	54364	M/s. Judicious Credit & Fiscal Services Private Limited	631.	28213	M/s. Kanti Prasad Mining Private Limited
600.	89104	M/s. Jugnu Merchandise Private Limited	632.	87903	M/s. Karishma Fashion Private Limited
601.	72661	M/s. Jupax Engineers Private Limited	633.	31448	M/s. Karunamoyee Cold Storage & Ice Plant Private Limited
602.	34142	M/s. Jusla Exporters Private Limited	634.	50934	M/s. Karunamoyee Towers Private Limited
603.	33790	M/s. Juvenile (Surveyors) Private Limited	635.	35636	M/s. Kavita Bonds & Holdings Limited
604.	68830	M/s. Jvine Furniture Private Limited	636.	79966	M/s. Kay Em Galvanizer Private Limited
605.	55602	M/s. Jyot Agencies Private Limited	637.	74335	M/s. Keshari Nandan Traders Private Limited
606.	29285	M/s. Jyoti Electronics Private Limited	638.	60636	M/s. Khandelwal Vanijya Private Limited
607.	32373	M/s. Jyoti Manufacturing Company Private Limited	639.	23587	M/s. Khanna Commercial Corpn Private Limited
608.	55497	M/s. Jyoti Sales Promotion Private Limited	640.	37742	M/s. Kharagpur Steels Private Limited

1	2	3	1	2	3
641.	24823	M/s. Kharsawan Techno Chemical Private Limited	671.	40293	M/s. Lali Holdings Private Limited
642.	10968	M/s. Khas Dharmaband Colliery Co. Private Limited	672.	24854	M/s. Lamp Press Caps Private Limited
643.	20357	M/s. Khatau & Co. Private Limited	673.	80615	M/s. Lari Finance & Holdings Private Limited
644.	79461	M/s. Khazana Motors Private Limited	674.	68828	M/s. Latangi Chemicals Private Limited
645.	40065	M/s. Khepa Casting Industries Private Limited	675.	68775	M/s. Latangi Vinimoy Private Limited
646.	67089	M/s. Kiron Nutrifoods Private Limited	676.	54780	M/s. Laurence Laboratories Private Limited
647.	37559	M/s. Kjanstap Private Limited	677.	70562	M/s. Leader Barter Private Limited
648.	20136	M/s. Kolay Mazumdar & Co. Private Limited	678.	29195	M/s. Legal Aid Chamber India Private Limited
649.	60419	M/s. Konarak Containers Private Limited	679.	54367	M/s. Leukos Lamps Private Limited
650.	31796	M/s. Kontact India Private Limited	680.	77212	M/s. Lexity Enterprises & Finvest Private Limited
651.	43830	M/s. Korros Data (India) Private Limited	681.	67857	M/s. Liberson Barter Private Limited
652.	28857	M/s. Kotalpur Cold Storage Industries Private Limited	682.	66549	M/s. Liberson Goods & Suppliers Private Limited
653.	53074	M/s. Kothari Protfolios Private Limited	683.	26457	M/s. Life Pictures Private Limited
654.	67656	M/s. Krikun Commercial Private Limited	684.	88264	M/s. Lilan Leather Private Limited
655.	68829	M/s. Kripa Tracon Private Limited	685.	77777	M/s. Lokarpan Commerce Private Limited
656.	62917	M/s. Krishnamani Constructions Private Limited	686.	31828	M/s. Lokelam India Private Limited
657.	29741	M/s. Kuber Savings Units Private Limited	687.	67119	M/s. Lokvani Commercial Private Limited
658.	70288	M/s. Kuil Dealers Private Limited	688.	81497	M/s. Lolex Impex (India) Private Limited
659.	70292	M/s. Kuldeepak Commercial Private Limited	689.	82183	M/s. Lotus Fincom Private Limited
660.	15161	M/s. Kumudini Welfare Trust of Bengal Private Limited	690.	74551	M/s. Lucky-Taste Processed Food Private Limited
661.	46742	M/s. Kundu Plastic and Rubber Industries Private Limited	691.	30455	M/s. Luna Equipments and Spares Private Limited
662.	33179	M/s. L P Electronics Private Limited	692.	31661	M/s. Luna Food Products Private Limited
663.	82491	M/s. LA Heavens Food Processing Private Limited	693.	19030	M/s. M A Industries Private Limited
664.	55615	M/s. LA Mystere Lodgings Private Limited	694.	86833	M/s. M B Plantation Private Limited
665.	29243	M/s. Labco (Foundry Engineering) Private Limited	695.	30736	M/s. M K D Engineering Works Private Limited
666.	72718	M/s. Ladu Gopal Holdings Private Limited	696.	10671	M/s. M L Agarwala & Co. Private Limited
667.	80616	M/s. Lahoti Fintrade Private Limited	697.	35066	M/s. M M B Sheet Metal Industries Private Limited
668.	27226	M/s. Lakshmi Plastics & Polyethylene Private Limited	698.	32033	M/s. M. D. S. India Private Limited
669.	50034	M/s. Laxmi Apparels Private Limited	699.	30644	M/s. M. K. Pipe & Tube Private Limited
670.	43959	M/s. Laxmi Rock Private Limited	700.	81158	M/s. M. M. Projects Private Limited
			701.	10529	M/s. Machinery & Chemicals Private Limited
			702.	30977	M/s. Machino Fabrik (Howrah) Private Limited

1	2	3	1	2	3
703.	83369	M/s. Madhuvan Suppliers Private Limited	735.	81451	M/s. Marine Transmissions Private Limited
704.	76078	M/s. Madri Agencies Private Limited	736.	38647	M/s. Marino Expo Private Limited
705.	31325	M/s. Mafex Private Limited	737.	60964	M/s. Marvellous Engineering Company Private Limited
706.	77372	M/s. Magic Suppliers Private Limited	738.	40462	M/s. Mas Minerals Private Limited
707.	70356	M/s. Magic Vinimoy Private Limited	739.	26859	M/s. Mascot Grand Private Limited
708.	79785	M/s. Magnum Cement Private Limited	740.	70560	M/s. Matalip Sales Private Limited
709.	35647	M/s. Mahabir Impex Private Limited	741.	27120	M/s. Matchless Motors Private Limited
710.	43463	M/s. Mahan Carriers Private Limited	742.	79573	M/s. Matigara Ispat Udyog Private Limited
711.	78096	M/s. Mahananda Dealers Private Limited	743.	44186	M/s. Matrix Communication Private Limited
712.	60415	M/s. Mahasangham General Investment & Housing Finance Private Limited	744.	33277	M/s. Mava Tea Private Limited
713.	53620	M/s. Mahata Trading Co. Private Limited	745.	60628	M/s. Maverick Marketing Private Limited
714.	27442	M/s. Maheshwari Metals Private Limited	746.	89177	M/s. Max Care Medicaments Private Limited
715.	77332	M/s. Mahipal Traders Private Limited	747.	30370	M/s. Maxvolt India Private Limited
716.	06750	M/s. Mahisadal Transport Co. Private Limited	748.	66800	M/s. Maxwell Alloys Steel Private Limited
717.	47883	M/s. Maiden Electronics Private Limited	749.	28217	M/s. Maxwell Engineering Service (1971) Private Limited
718.	87599	M/s. Maihar Steel Industries Private Limited	750.	80374	M/s. Mayo Traders Private Limited
719.	31050	M/s. Mair & Co. Private Limited	751.	79358	M/s. MBL Marketing Services Private Limited
720.	11593	M/s. Maitra Brothers & Co. Private Limited	752.	52119	M/s. MCO (India) Machinery Private Limited
721.	79978	M/s. Majestic Estates & Developers Private Limited	753.	55871	M/s. Meadow Nursing Home Private Limited
722.	36236	M/s. Malu Steels Private Limited	754.	79545	M/s. Medi Bliss Service Centre & Diagnostic Private Limited
723.	67070	M/s. Mamgli Commodities Private Limited	755.	81447	M/s. Meena Iron Works Private Limited
724.	37785	M/s. Manaksia Crowns Limited	756.	11882	M/s. Meerless Steels Private Limited
725.	88492	M/s. Manav Distributors Private Limited	757.	44707	M/s. Mega Media Private Limited
726.	74561	M/s. Mandec Consultants Private Limited	758.	54135	M/s. Megacash Inc (India) Private Limited
727.	70278	M/s. Mandhan Vyapaar Private Limited	759.	86029	M/s. Megellan Shipping Private Limited
728.	40147	M/s. Mangalam Constructions Private Limited	760.	81043	M/s. Meghdoot Investment Company (India) Private Limited
729.	47632	M/s. Manish Fiscal Services Private Limited	761.	31953	M/s. Meghdoot Travels Private Limited
730.	74003	M/s. Manoranjana Merchants Private Limited	762.	24918	M/s. Mekol Products Private Limited
731.	51795	M/s. Mansarovar Steels Private Limited	763.	70358	M/s. Melladone Vincom Private Limited
732.	14668	M/s. Manufacturers Syndicate Private Limited	764.	77631	M/s. Merc Electronics Private Limited
733.	60308	M/s. Marianne & Co. (Hotels & Travels) Private Limited	765.	20783	M/s. Mercantile Express Co. (Pvt.) Limited
734.	60958	M/s. Marine Safety Services Private Limited	766.	33195	M/s. Merlin Properties Private Limited

1	2	3	1	2	3
767.	31908	M/s. Metal Polt (India) Private Limited	798.	55489	M/s. MSA Finance & Credit Private Limited
768.	37168	M/s. Metal Thermic Private Limited	799.	89749	M/s. Mukherjee Bagchi Associates Private Limited
769.	33508	M/s. Metraco Services Private Limited	800.	37015	M/s. Mukund Traders & Agencies Private Limited
770.	37083	M/s. Metserve (India) Private Limited	801.	35705	M/s. Multi Films Private Limited
771.	20074	M/s. Midnapore Horticulture & Agricultures Private Limited	802.	30774	M/s. Multi Process Plant & Equipments (Calcutta) Private Limited
772.	43605	M/s. Milano Marketing & Services Private Limited	803.	86468	M/s. Multimech Construction Private Limited
773.	50053	M/s. Minerva Technocrafts Private Limited	804.	85962	M/s. MVK Securities Private Limited
774.	29197	M/s. Mini Pumps & Equipments Private Limited	805.	31328	M/s. Mystik Laboratory & Research Centre Private Limited
775.	31356	M/s. Minimek Industries (Engineers) Private Limited	806.	45277 ✓	M/s. N R S Nursing Home Private Limited
776.	40257	M/s. Mintex (Tools) Private Limited	807.	10950	M/s. N. C. Shaw & Co. Private Limited
777.	82295	M/s. Mira Publications Private Limited	808.	16810	M/s. N. Ganguly & Co. Private Limited
778.	23019	M/s. Mira Talkies Private Limited	809.	09556	M/s. Naba Rupam Cinema Private Limited
779.	24837	M/s. Mirbahar Brothers Private Limited	810.	60862	M/s. Naba Sakkha Savings & Investment Company Private Limited
780.	80164	M/s. Misunik Engineers Private Limited	811.	76767	M/s. Nabojjal Krishi & Land Development Private Limited
781.	55864	M/s. Mitali Projects Private Limited	812.	61710	M/s. Namod Consultancy Private Limited
782.	28214	M/s. Mitra Engineering Works Private Limited	813.	40415	M/s. Nandanam Estates Limited
783.	55537	M/s. Mitra Marketing & Credit Private Limited	814.	61761	M/s. Nandy Enterprises Private Limited
784.	38864	M/s. Mitrata Offset Print & Prokash Private Limited	815.	82866	M/s. Nano Fotoniques Private Limited
785.	86058	M/s. Mitwa Paints Private Limited	816.	72850	M/s. Narang Distributors Private Limited
786.	73952	M/s. Mobar Sales Private Limited	817.	28286	M/s. Narayan Financiers (India) Private Limited
787.	35554	M/s. Modak & Modak Private Limited	818.	35885	M/s. Nare Sugar Mill Private Limited
788.	80122	M/s. Modern Fishery & Plantations Company Private Limited	819.	32008	M/s. Narrowtex Private Limited
789.	30454	M/s. Modish Clothiers Private Limited	820.	37034	M/s. Nascent Laboratory Private Limited
790.	86832	M/s. Mohan Plantation Private Limited	821.	31893	M/s. Nathany Estates Private Limited
791.	68978	M/s. Moliva Commodities Private Limited	822.	20043	M/s. National Floors Private Limited
792.	68879	M/s. Moliva Marketing Private Limited	823.	10240	M/s. National Union Corpn Private Limited
793.	72848	M/s. Montradic Sales Private Limited	824.	81572	M/s. Nawal Forms Private Limited
794.	18537	M/s. Mookerjee & Cousens Limited	825.	40564	M/s. Neelam Fabrics & Synthetics Private Limited
795.	40152	M/s. Moon Pharmaceuticals Private Limited	826.	31483	M/s. Neelkamal Sales Private Limited
796.	32714	M/s. Morijawala Oil Industries and Investments Private Limited	827.	46118	M/s. Neha Land Developers Private Limited
797.	70217	M/s. Moti Merchants Private Limited			

1	2	3	1	2	3
828.	28382	M/s. Nelys Printing Private Limited	860.	54298	M/s. Northern Metropolitan Estate & Enclave Private Limited
829.	84442	M/s. Netcom Solutions Private Limited	861.	23530	M/s. Noury (India) Co Private Limited
830.	31447	M/s. Neulia Fish Development Co Private Limited	862.	30785	M/s. Nouveau Metalind India Private Limited
831.	30722	M/s. New Bright Tools Private Limited	863.	75830	M/s. NRI Sweet Home Private Limited
832.	11468	M/s. New Damagonia Coal Co Private Limited	864.	79975	M/s. Nu-Fibres Private Limited
833.	40363	M/s. New Frontier Colour Laboratories Private Limited	865.	37117	M/s. Nu-Kem Laboratories Private Limited
834.	51971	M/s. New India Savings & Investment Private Limited	866.	68641	M/s. Nu-Lite Business Machines Private Limited
835.	11362	M/s. New Marine Coal Co (Bengal) Private Limited	867.	30737	M/s. Omega Lamp Industries Private Limited
836.	76439	M/s. Newcon Trading Private Limited	868.	86357	M/s. Omkar Finance Co. Private Limited
837.	72963	M/s. Nexgen Systems Private Limited	869.	20283	M/s. Onkar Industries Private Limited
838.	87629	M/s. Nibble Infotech Private Limited	870.	43655	M/s. OPA Estate Developers Private Limited
839.	11208	M/s. Nichitpur Coal Co Private Limited	871.	74378	M/s. Opal Glass Private Limited
840.	50615	M/s. Night Queen Travellers Couriers Services Private Limited	872.	60582	M/s. Opulent Leasing & Finance Company Private Limited
841.	45349	M/s. Nihar Brush Works Private Limited	873.	46892	M/s. Oricon Electrical Construction Private Limited
842.	70295	M/s. Nikhar Vinamay Private Limited	874.	11293	M/s. Orient Industrial Engg Co Private Limited
843.	74614	M/s. Nikhar Retailer Private Limited	875.	30743	M/s. Orient Pesticides Private Limited
844.	50026	M/s. Niksons Engineers Private Limited	876.	14006	M/s. Orient Potteries Private Limited
845.	38454	M/s. Nilendu Estates Private Limited	877.	29328	M/s. Oriental Condiments and Herbal Products Private Limited
846.	61623	M/s. Nilkamal Advisory Services Private Limited	878.	35037	M/s. Original Homoeo-Bio Laboratory Private Limited
847.	87844	M/s. Nimbus Aesthetics Private Limited	879.	81647	M/s. Orphan Marketing Private Limited
848.	61676	M/s. Nimbus Resources Private Limited	880.	50141	M/s. OSS Steelux Private Limited
849.	40399	M/s. Nippon Printchem Private Limited	881.	40003	M/s. Oyster Mercantiles Private Limited
850.	68758	M/s. Nirbhay Agencies Private Limited	882.	50343	M/s. P K Coal Consultancy Private Limited
851.	72949	M/s. Nirikshan Tieup Private Limited	883.	38888	M/s. P. H. B. Resources Private Limited
852.	67967	M/s. Nirjit Projects Private Limited	884.	36815	M/s. P. K. Engineers (India) Private Limited
853.	77462	M/s. Nirlon Consultancy & Services Private Limited	885.	47763	M/s. P. N. Exports Private Limited
854.	30206	M/s. Nistarini Chit Fund Private Limited	886.	86028	M/s. P. S. Control Equipments Private Limited
855.	35063	M/s. Noine Engineering (India) Private Limited	887.	60916	M/s. Packwell Offset Private Limited
856.	66432	M/s. North East Ispat Private Limited	888.	76104	M/s. Pallavi Tieup Private Limited
857.	76463	M/s. North Point Abasan Private Limited	889.	55573	M/s. Pam Exim & Tower Private Limited
858.	33067	M/s. North Steel Industries Private Limited			
859.	37074	M/s. Northern Finance Co. Private Limited			

1	2	3
890.	30266	M/s. Pandab Savings & Chit Scheme Private Limited
891.	55779	M/s. Pankaj Commercials Builders Private Limited
892.	40364	M/s. Pankaj Plywood Industries Private Limited
893.	35490	M/s. Panneshwari Construction Private Limited
894.	51963	M/s. Panskura Small Savings & Investment Private Limited
895.	23601	M/s. Paper India Private Limited
896.	30452	M/s. Paragon Rubber Industries Private Limited
897.	45470	M/s. Parasan Finance & Hire Purchase Company Private Limited
898.	46067	M/s. Parasnath Pictures (Eastern) Private Limited
899.	26418	M/s. Parbati Engg. Works Private Limited
900.	23706	M/s. Parbati Industries Private Limited
901.	62734	M/s. Parchalit Commodities Private Limited
902.	77609	M/s. Parul Commercial Private Limited
903.	40069	M/s. Pashupati Polypack Private Limited
904.	81970	M/s. Pastor Merchants Private Limited
905.	80530	M/s. Patel House Private Limited
906.	68754	M/s. Pathik Sales Private Limited
907.	27140	M/s. Paul's Office Equipments & Requisites (Mfg) Co Private Limited
908.	66757	M/s. Pavss (India) Private Limited
909.	32316	M/s. Peacock Carriers Private Limited
910.	55539	M/s. Peacock Synthetics Private Limited
911.	14200	M/s. Pearl Investment Co. Private Limited
912.	60583	M/s. Pedical Housing Finance Company Private Limited
913.	33412	M/s. Pelicon Travel Services Private Limited
914.	40048	M/s. Peltronics (India) Private Limited
915.	34086	M/s. Penguin Private Limited
916.	37984	M/s. People's Finance, Loan Small Investment Co Private Limited
917.	37451	M/s. Peoples Project Private Limited
918.	87586	M/s. Perfect Fire Protection Systems Private Limited

1	2	3
919.	86957	M/s. Perfect Pack & Trade Private Limited
920.	70885	M/s. Perkin Commercial Private Limited
921.	81969	M/s. Peseta Trading Private Limited
922.	89196	M/s. Pesmaco Gas Services Private Limited
923.	68711	M/s. Petal Sales Private Limited
924.	37024	M/s. Piccadali Colours Private Limited
925.	32060	M/s. Pik Wears Private Limited
926.	29817	M/s. Pipe Supports (Indo-British) Private Limited
927.	74361	M/s. Polo Vanijya Private Limited
928.	84507	M/s. Polycat Chemicals Private Limited
929.	43244	M/s. Polysint Containers Private Limited
930.	40072	M/s. Porwal Metal Industries Private Limited
931.	74202	M/s. Power Data Private Limited
932.	23851	M/s. Power Equipments Private Limited
933.	35351	M/s. Power Handlers Private Limited
934.	60675	M/s. Prabesh Finance and Investment Company Private Limited
935.	82957	M/s. Prabhu Trading Company Private Limited
936.	79477	M/s. Pradeep Exports Private Limited
937.	60649	M/s. Pragati Technomatics Private Limited
938.	78123	M/s. Pragya Traders Private Limited
939.	81943	M/s. Prakash Sales Agency Private Limited
940.	38506	M/s. Prakriti Agencies Private Limited
941.	81861	M/s. Pranav Marketing Private Limited
942.	51952	M/s. Pratidan Savings and Credit Private Limited
943.	30075	M/s. Pratyush Textiles Private Limited
944.	28200	M/s. Precimax Gauge & Tools Co Private Limited
945.	30091	M/s. Precursor General Finance & Investment Co Private Limited
946.	30076	M/s. Prem Powerloom Factory Private Limited
947.	26449	M/s. Prescon Structures Private Limited
948.	80470	M/s. Primex Merchandise Private Limited
949.	77605	M/s. Pringle Distributors Private Limited
950.	14281	M/s. Printers Congress Private Limited

1	2	3	1	2	3
951.	51370	M/s. Priti Impregnations Private Limited	981.	20341	M/s. R. H. Rose Private Limited
952.	31439	M/s. Priyadarshi (India) Private Limited	982.	47255	M/s. R. K. Credit Company Private Limited
953.	38882	M/s. Pro Consultancy Services Private Limited	983.	11904	M/s. R. N. Jhunjhunwala & Co. Private Limited
954.	38839	M/s. Progressive Resources Private Limited	984.	46410	M/s. R. S. Metals Private Limited
955.	72715	M/s. Prolific Ad-Agency Private Limited	985.	30692	M/s. R. S. Business Machines Private Limited
956.	68901	M/s. Promain Commodities Private Limited	986.	37098	M/s. Raasayanik Private Limited
957.	10394	M/s. Prospective Properties Private Limited	987.	60391	M/s. Rachana Food Products Private Limited
958.	78160	M/s. Protential Devlocon Private Limited	988.	77857	M/s. Rachna Mercantile Private Limited
959.	70798	M/s. Protocol Plantation Private Limited	989.	70413	M/s. Radant Broking & Agency Private Limited
960.	40309	M/s. Prova Marketing Private Limited	990.	43775	M/s. Radhasagar Apartments Private Limited
961.	32490	M/s. Proyojan Private Limited	991.	89012	M/s. Radhika Distributors Private Limited
962.	67178	M/s. Puffco Dealers Private Limited	992.	45109	M/s. Radiant Photo Private Limited
963.	84497	M/s. Pullock Mercantiles Private Limited	993.	76556	M/s. Raghunath Fiscal Services Private Limited
964.	84497	M/s. Pullock Mercantiles Private Limited	994.	30794	M/s. Rai S Tea Warehousing Co. Private Limited
965.	31455	M/s. Purbachal Estate Private Limited	995.	74363	M/s. Rainbow Commotrade Private Limited
966.	43383	M/s. Purbasha Refrigeration Private Limited	996.	51582	M/s. Rainbow Off-Sets Private Limited
967.	35115	M/s. Puretex Hotels Private Limited	997.	51444	M/s. Raise India Leasing and Hire Purchase Private Limited
968.	31007	M/s. Purulia Chamecal Works Private Limited	998.	66429	M/s. Raison Sales Private Limited
969.	86182	M/s. Purulia Hydro Carbons Private Limited	999.	78651	M/s. Raja Dealers Private Limited
970.	86210	M/s. Purvanchal Tours & Trading Co. Private Limited	1000.	38111	M/s. Rajdhani Visphotak Udyog Private Limited
971.	70993	M/s. Pushpsala Sales Private Limited	1001.	55731	M/s. Rajman Vanijya Private Limited
972.	47448	M/s. Quality Fiscal Services Private Limited	1002.	54416	M/s. Rajritu Investment Private Limited
973.	55636	M/s. Quality Valves & Spares Private Limited	1003.	86813	M/s. Ralo Exports Private Limited
974.	30150	M/s. Queme Rayon and Allied Enterprises Private Limited	1004.	27132	M/s. Ram Janki Jute Co. Private Limited
975.	27820	M/s. Quick Traders & Financiers Private Limited	1005.	52073	M/s. Rama Trades & Finance Private Limited
976.	86276	M/s. R D Engineers & Consultants Private Limited	1006.	81324	M/s. Rama Uprise Builders Private Limited
977.	85762	M/s. R R Softech Education Private Limited	1007.	31695	M/s. Ramesh Construction Private Limited
978.	81823	M/s. R. Subramanian Chemcon Private Limited	1008.	85581	M/s. Ramkrishna Containers Private Limited
979.	79551	M/s. R. G. Agro Private Limited	1009.	28606	M/s. Ramnagar Salt Co. Private Limited
980.	20341	M/s. R. H. Rose Private Limited	1010.	73322	M/s. Ramraja Wine Private Limited

1	2	3
1011.	32594	M/s. Randev Private Limited
1012.	30680	M/s. Rani Cottons Private Limited
1013.	30759	M/s. Raniganj Pumps & Allied Products Private Limited
1014.	86627	M/s. Ranisati Tie Up Private Limited
1015.	10117	M/s. Ranjan & Co. (Iron & Mongers) Private Limited
1016.	86888	M/s. Rapid Castoplate Private Limited
1017.	72502	M/s. Rashdhara Suppliers Private Limited
1018.	23541	M/s. Rasiklal Pathak & Co. Private Limited
1019.	36372	M/s. Ratan Construction Private Limited
1020.	55879	M/s. Ratna Suiting Private Limited
1021.	19596	M/s. Raymon & Co. (India) Private Limited
1022.	61691	M/s. Raysun Impex Private Limited
1023.	54766	M/s. Red-Strips Exports Private Limited
1024.	68928	M/s. Redalert Vyapaar Private Limited
1025.	70609	M/s. Redstrip Dealers Private Limited
1026.	51848	M/s. Rekord Engineering Private Limited
1027.	76790	M/s. Reliable Enterprises Private Limited
1028.	86845	M/s. Repose Overseas Private Limited
1029.	06777	M/s. Rewa Coal Fields Limited
1030.	37045	M/s. Rexwell (India) Private Limited
1031.	50901	M/s. Rich Finvest Private Limited
1032.	80704	M/s. Richfield Mining Private Limited
1033.	20401	M/s. Rising Eastern Trading Co. Private Limited
1034.	50391	M/s. Ritarch Engineering Company Private Limited
1035.	76081	M/s. Ritex Mercantile Private Limited
1036.	64193	M/s. Robert Vyapaar Private Limited
1037.	73323	M/s. Rocketing Properties Private Limited
1038.	23836	M/s. Rogers Irrigation Co. Private Limited
1039.	80181	M/s. Ronypet Properties Private Limited
1040.	40262	M/s. Roxy Pharmaceuticals Private Limited
1041.	87826	M/s. Royex Private Limited
1042.	34181	M/s. Rubber Rollers Calcutta Private Limited
1043.	31675	M/s. Ruby (CAMAC) Properties Private Limited

1	2	3
1044.	33653	M/s. Rumjhum Housing Enterprises Private Limited
1045.	30327	M/s. Runa Chit Savings and Finance Company Limited
1046.	45070	M/s. Rungta Constructions Private Limited
1047.	26696	M/s. Rural Land Co. Private Limited
1048.	84219	M/s. S'B Polysol Private Limited
1049.	86815	M/s. S B Promoters Private Limited
1050.	27058	M/s. S Basu & Co. (Metal Engineers) Private Limited
1051.	37062	M/s. S G R K (India) Private Limited
1052.	40243	M/s. S K Singhi Properties Private Limited
1053.	86650	M/s. S Medico Private Limited
1054.	10598	M/s. S P De & Co. Private Limited
1055.	89195	M/s. S P Maritime Private Limited
1056.	86041	M/s. S S B Overseas Private Limited
1057.	53660	M/s. S. D. Kemexc Private Limited
1058.	60849	M/s. S. K. Luminiare Private Limited
1059.	55960	M/s. S. Kant Exim Private Limited
1060.	70837	M/s. S. R. Finance & Securities Private Limited
1061.	66513	M/s. Sachar Ceramics Private Limited
1062.	53618	M/s. Sack Pack Private Limited
1063.	70207	M/s. Sadhan Vinimay Private Limited
1064.	54319	M/s. Sadhana Housing Promoters Private Limited
1065.	31731	M/s. Safari Private Limited
1066.	89866	M/s. Safex Engineering Private Limited
1067.	60361	M/s. Sagar Sea Foods Private Limited
1068.	23795	M/s. Saharia Industries Private Limited
1069.	40362	M/s. Saini Intercraft Private Limited
1070.	86409	M/s. Salact "O" Steel Private Limited
1071.	86283	M/s. Salt & Allied Works Private Limited
1072.	54359	M/s. Sampriti Suraksha Finance & Credit Private Limited
1073.	46461	M/s. Samrat Handicrafts Private Limited
1074.	70206	M/s. Samta Textrade Private Limited
1075.	27254	M/s. Sanbik Traders Private Limited
1076.	79194	M/s. Sanchiti Goods Private Limited

1	2	3	1	2	3
1077.	51025	M/s. Sane Housing Investment Company Private Limited	1108.	39278	M/s. Setsquare Advertising (India) Private Limited
1078.	81479	M/s. Sanghaty Properties Private Limited	1109.	86952	M/s. Shail Transport and Agency Private Limited
1079.	54542	M/s. Santipur Handloom & Industrial Training Centre	1110.	82009	M/s. Shakti Machines & Allied Products Private Limited
1080.	76533	M/s. Sanz Publishers Private Limited	1111.	43796	M/s. Shakti Power Products Private Limited
1081.	28256	M/s. Sanzana Sea Foods Private Limited	1112.	82099	M/s. Shakun Consultancy Services Private Limited
1082.	51814	M/s. Saptansu Engineering Private Limited	1113.	43761	M/s. Shanks Fastners Private Limited
1083.	28242	M/s. Saraf Mines & Metals Private Limited	1114.	88036	M/s. Sharad Interlinks Private Limited
1084.	70205	M/s. Saran Dealers Private Limited	1115.	37883	M/s. Sharp Commercial Private Limited
1085.	86088	M/s. Sarat Market Complex Private Limited	1116.	51527	M/s. Sharp Paper Converters Private Limited
1086.	87887	M/s. Sarathi Consultancy & Engineering Private Limited	1117.	70136	M/s. Shaunak Tie-Up Private Limited
1087.	70934	M/s. Sarbamangala Agencies Private Limited	1118.	32609	M/s. Shaw Scott Distilleries Private Limited
1088.	88581	M/s. Sarbanand Agro Vest Private Limited	1119.	46712	M/s. Shaw Wallace Educational Institution Private Limited
1089.	75271	M/s. Sarmit Impex Private Limited	1120.	23075	M/s. Shekhar & Co. Private Limited
1090.	60268	M/s. Sarna Airconditioning & Refrigeration Company Private Limited	1121.	82059	M/s. Shiksha Finance Private Limited
1091.	43476	M/s. Sasco Engineers Private Limited	1122.	35335	M/s. Shila Locking Devices Private Limited
1092.	76629	M/s. Satellite Dealers Private Limited	1123.	70352	M/s. Shilapi Tradecomm Private Limited
1093.	18735	M/s. Satrughna Industries Private Limited	1124.	47584	M/s. Shiv Shakti Business Private Limited
1094.	86955	M/s. Satun Securities Private Limited	1125.	45348	M/s. Shiva Agro Chem Private Limited
1095.	81683	M/s. Satyam Rice Products Private Limited	1126.	45244	M/s. Shivaram Jute & Fibre Trading Company Private Limited
1096.	82867	M/s. Saurabh Ferro Alloys Private Limited	1127.	76435	M/s. Shivarpan Commodities Private Limited
1097.	72999	M/s. Savera Import Private Limited	1128.	74610	M/s. Shivarpan Distributors Private Limited
1098.	90364	M/s. Sayan Exports Private Limited	1129.	72764	M/s. Shivshakti Hire Purchase and Leasing Private Limited
1099.	67064	M/s. Sayan Travel Services Private Limited	1130.	32171	M/s. Shraman Trades & Industries Private Limited
1100.	31144	M/s. Scientific Drugs & Pharmaceuticals Private Limited	1131.	55555	M/s. Shree Balaji Vyapar & Vanijya Private Limited
1101.	81847	M/s. Scotch & Company (Distilleries and Breweries) Private Limited	1132.	33005	M/s. Shree Baldeo Trading & Investment Co. Private Limited
1102.	09509	M/s. Screen Corpn (1938) Private Limited	1133.	18074	M/s. Shree Bharatiya Trading Syndicate Private Limited
1103.	86025	M/s. Searkanta Agro Company Private Limited	1134.	28231	M/s. Shree Madhusudan Rice Mills Private Limited
1104.	18007	M/s. Selected Khas Jharia Colliery Private Limited	1135.	40163	M/s. Shree Ranisati Jute Private Limited
1105.	38467	M/s. Semicon Systems Private Limited			
1106.	45032	M/s. Semni Valley Investments Private Limited			
1107.	36290	M/s. Sentinel Pharmaceuticals Private Limited			

1	2	3
1136.	80705	M/s. Shree Srinivas Rice Mill Private Limited
1137.	36203	M/s. Shree Venketesh Udyog Private Limited
1138.	32353	M/s. Shresth Commercial Co. Private Limited
1139.	54764	M/s. Shreyansh Traders Private Limited
1140.	79577	M/s. Shri Guru Engineers and Consultants Private Limited
1141.	43620	M/s. Shri Jagdamba Low Ash Metallurgical Coke Manufacture
1142.	70137	M/s. Shrigauri Sales Private Limited
1143.	86903	M/s. Shubham Auto Private Limited
1144.	80513	M/s. Shyam Tecno Private Limited
1145.	27841	M/s. Shyamali Joutha Khamar Private Limited
1146.	76077	M/s. Siddharth Sales Private Limited
1147.	38503	M/s. Sidhartha Food Products Private Limited
1148.	86716	M/s. Sign Ad & Marketing Private Limited
1149.	86705	M/s. Signon Electronics Private Limited
1150.	81689	M/s. Silverdeep Traders Private Limited
1151.	66912	M/s. Silversun Tie-Up Private Limited
1152.	54997	M/s. Simarna Exports Private Limited
1153.	77492	M/s. Simi Commotrade Private Limited
1154.	81981	M/s. Simran Tradings Private Limited
1155.	28224	M/s. Sinha Agency Private Limited
1156.	23953	M/s. Sirkar Dairy & Farm Private Limited
1157.	11463	M/s. Sitalpur Coal Co. Private Limited
1158.	39887	M/s. Siva Cold Stroage (Raiganj) Private Limited
1159.	60433	M/s. SJ Business Private Limited
1160.	55900	M/s. SKS Marketing Private Limited
1161.	86601	M/s. Skylark Nursing Home & Polyclinic Private Limited
1162.	81348	M/s. Smart Securities & Finance Private Limited
1163.	79743	M/s. SME Projects Private Limited
1164.	37524	M/s. Smita Rubber Works Private Limited
1165.	43727	M/s. Snowrite Private Limited
1166.	33146	M/s. Solar Oxygen Private Limited

1	2	3
1167.	32423	M/s. Solar Scientific Glass Industries Private Limited
1168.	30099	M/s. Solfon India Private Limited
1169.	30068	M/s. Solvent Savings Unit & Chit Fund Private Limited
1170.	68738	M/s. Somnus Holdings Private Limited
1171.	60777	M/s. Sonata Communication & Advertising Private Limited
1172.	79885	M/s. Sonata Dancer's Guild Private Limited
1173.	76614	M/s. Sourav Financial Services Private Limited
1174.	36604	M/s. South End Estates Private Limited
1175.	36998	M/s. Sovan (India) Private Limited
1176.	82875	M/s. Spandan Commodities Private Limited
1177.	86996	M/s. Spandan Developers Private Limited
1178.	30042	M/s. Special Iron and Steel Castings Private Limited
1179.	55623	M/s. Spectrum Builders Private Limited
1180.	40356	M/s. Spectrum Processors Private Limited
1181.	87818	M/s. Speed Track Private Limited
1182.	81699	M/s. Speedex Marketing Private Limited
1183.	77612	M/s. SPG Pharmaceuticals Private Limited
1184.	60331	M/s. Splendour Advertising Private Limited
1185.	36406	M/s. Splendour Paints Private Limited
1186.	81243	M/s. SPR Engineering Private Limited
1187.	43714	M/s. SPR Traders & Investments Private Limited
1188.	66913	M/s. Square Plus Barter Private Limited
1189.	66678	M/s. SR Master Music Private Limited
1190.	31016	M/s. Sree Gobinda (Associated) Hosiery Mills Private Limited
1191.	51573	M/s. Sreesti Trading & Finvest Private Limited
1192.	86134	M/s. Sri Ganesh Phuleshwari Clinic and Nursing Home
1193.	30865	M/s. Sri Murari Rice Mills Private Limited
1194.	18968	M/s. Sri Nimbarak Proper Kajora Coal Co. Private Limited
1195.	18381	M/s. Sri Prakash Co. Limited
1196.	72763	M/s. Srikrishna Hire Purchase Private Limited

1	2	3	1	2	3
1197.	81756	M/s. Sristi Apparels Private Limited	1228.	54597	M/s. Sunshine Finvest Company Private Limited
1198.	30202	M/s. Stallion Leather & Board Industries Private Limited	1229.	88157	M/s. Sunsoft Technologies Private Limited
1199.	10003	M/s. Standard Paint Works Private Limited	1230.	50120	M/s. Supcon Impex (India) Private Limited
1200.	81625	M/s. Star Electropower Equipments Private Limited	1231.	76025	M/s. Super Aqua & Marine Products Private Limited
1201.	70379	M/s. Stardox Commercial Private Limited	1232.	31625	M/s. Super Clock Mfg. Co. Private Limited
1202.	78277	M/s. Status Merchants Private Limited	1233.	31625	M/s. Super Clock Mfg. Co. Private Limited
1203.	28585	M/s. Sterling Min-Chem Industries Private Limited	1234.	28311	M/s. Super Express Roadways Private Limited
1204.	51552	M/s. Stitch Pack Private Limited	1235.	80942	M/s. Super Pharmaceuticals Machineries Private Limited
1205.	76173	M/s. Stoven Commerce Private Limited	1236.	30698	M/s. Superfleet Private Limited
1206.	76688	M/s. Straight Line Vyapar Private Limited	1237.	87836	M/s. Supreme Trexim Private Limited
1207.	43742	M/s. Strom Kontrle (Electricals) Private Limited	1238.	32052	M/s. Suraiya Finance Private Limited
1208.	54618	M/s. Stylex India Private Limited	1239.	37175	M/s. Sureka Consultants Private Limited
1209.	60389	M/s. Stylo Trade Private Limited	1240.	27697	M/s. Surendra Agencies Private Limited
1210.	67923	M/s. Styx Commerce Private Limited	1241.	70782	M/s. Suseetal Vannijya Private Limited
1211.	43175	M/s. Subernrekha Builders Private Limited	1242.	54262	M/s. Sushri Intrade Private Limited
1212.	81817	M/s. Subir Fotocom Private Limited	1243.	86124	M/s. Swarupnagar Rahamania Rice Mill Private Limited
1213.	34014	M/s. Sujicon Manufacturing Private Limited	1244.	76693	M/s. Swastika Suppliers Private Limited
1214.	66619	M/s. Sukh-Dhan Dealers Private Limited	1245.	74604	M/s. Swati Commodeal Private Limited
1215.	67075	M/s. Sukhsagar Commotrade Private Limited	1246.	31960	M/s. Swati Engineering Private Limited
1216.	37800	M/s. Sun Granite & Marble India Private Limited	1247.	38239	M/s. Synotex Business Private Limited
1217.	51540	M/s. Sun Shine Tea Plantation Industry Private Limited	1248.	24913	M/s. Synthetic Dye Stuff Co. Private Limited
1218.	30272	M/s. Sundaram Chits and Savings Private Limited	1249.	85994	M/s. Systems Energizers Private Limited
1219.	80133	M/s. Sundaram Softech Private Limited	1250.	86180	M/s. T. M. Shah Private Limited
1220.	40373	M/s. Sundarban Corn Industries Co. Private Limited	1251.	70140	M/s. Tabassum Merchants Private Limited
1221.	81645	M/s. Sundarban Textrade Private Limited	1252.	38112	M/s. Tac Electronics Private Limited
1222.	10452	M/s. Sunderdas & Sons Private Limited	1253.	18649	M/s. Tamluk Hindustan Motor Transport Private Limited
1223.	74060	M/s. Suneps Tracon Private Limited	1254.	31861	M/s. Tarak Nath General Finance & Trading Co. Private Limited
1224.	86889	M/s. Sunil Collection Private Limited	1255.	50905	M/s. Taraknath Food Products Private Limited
1225.	38348	M/s. Sunkar Watch Co. Private Limited	1256.	37186	M/s. Tarit Structurals Private Limited
1226.	37072	M/s. Sunshine Business Private Limited	1257.	38669	M/s. Tasco Oil & General Mills Private Limited
1227.	54521	M/s. Sunshine Credit & Exports Private Limited	1258.	60854	M/s. Tatar Systems Private Limited

1	2	3	1	2	3
1259.	67524	M/s. Tectra Commercial Private Limited	1292.	28543	M/s. Triguna Picture Private Limited
1260.	67713	M/s. Tectra Tracon Private Limited	1293.	64258	M/s. Trikut Viniyog Private Limited
1261.	50878	M/s. Terracon Engineers Private Limited	1294.	74606	M/s. Trimas Commoddeal Private Limited
1262.	86011	M/s. Texwool India Private Limited	1295.	30274	M/s. Trois Technicians Private Limited
1263.	51807	M/s. Thirdwave Properties Private Limited	1296.	26422	M/s. Tropzon Pharmachem Private Limited
1264.	28434	M/s. Three Es Engineers Private Limited	1297.	62700	M/s. Tuflin Advisory System Private Limited
1265.	43356	M/s. Ticon Electronics Private Limited	1298.	35711	M/s. Turnkey Projects (India) Private Limited
1266.	44400	M/s. Tierose Marketing Private Limited	1299.	84489	M/s. Tushar Cold Storage Private Limited
1267.	37505	M/s. Tilottama Finance & Trades Private Limited	1300.	78083	M/s. Twinkle Commodities Private Limited
1268.	72789	M/s. Timex Commercial Private Limited	1301.	31693	M/s. Typographics Private Limited
1269.	70214	M/s. Tirlokinath Adcon Private Limited	1302.	84436	M/s. Udyan Marketing Private Limited
1270.	87858	M/s. Tirupati Foils Private Limited	1303.	70212	M/s. Udyavani Commotrade Private Limited
1271.	73969	M/s. Tirupati Mihika Traders Private Limited	1304.	30688	M/s. Ujjaini Rolling Mills Private Limited
1272.	84428	M/s. Tirupati Vintrade Private Limited	1305.	76695	M/s. Ujjala Sales Agencies Private Limited
1273.	81715	M/s. Tiyyasha Consultancy Services Private Limited	1306.	77412	M/s. Ulekh Merchandise Private Limited
1274.	74924	M/s. TNT Fashions Private Limited	1307.	54892	M/s. Ulike Business & Finance Private Limited
1275.	31759	M/s. Top Pharmaceuticals Private Limited	1308.	54893	M/s. Ulike Finance Private Limited
1276.	70511	M/s. Topgrain Commercial Private Limited	1309.	54773	M/s. Ulike Resources Private Limited
1277.	70618	M/s. Topgrain Distributors Private Limited	1310.	36498	M/s. Ullick (Hotels) Private Limited
1278.	70297	M/s. Topgrain Goods & Services Private Limited	1311.	43619	M/s. Ultimate Finance Private Limited
1279.	75365	M/s. Topper Commodities Private Limited	1312.	30604	M/s. Ultra Pharma Private Limited
1280.	80950	M/s. Toptek Tradecom Private Limited	1313.	76540	M/s. Ultra Tradecon Private Limited
1281.	79196	M/s. Toten Commodities Private Limited	1314.	28696	M/s. Uni Filter Co. Private Limited
1282.	15116	M/s. Traders Emporium India Private Limited	1315.	60455	M/s. Unicorn System Private Limited
1283.	29801	M/s. Travancore Chit Fund Private Limited	1316.	38311	M/s. Unifire Combustions Private Limited
1284.	86766	M/s. TRB Transport Agency Private Limited	1317.	37086	M/s. Unik Accurates Private Limited
1285.	38874	M/s. Treasure (India) Private Limited	1318.	85653	M/s. Unimag Marketing Private Limited
1286.	81648	M/s. Treat Tie Up Private Limited	1319.	78262	M/s. Unipro Infotech Private Limited
1287.	54338	M/s. Trend India Marketing & Publication Private Limited	1320.	32568	M/s. Unique Roadways Private Limited
1288.	40294	M/s. Tri Holdings Private Limited	1321.	35076	M/s. United Accounting System & Service Private Limited
1289.	37755	M/s. Tribritta Printers Private Limited	1322.	28437	M/s. United Ductile Castings Private Limited
1290.	35487	M/s. Trical Engineering Private Limited	1323.	74448	M/s. United Rice Engineering & Chemical Company Private Limited
1291.	37094	M/s. Trichem Pharmaceuticals Private Limited	1324.	54236	M/s. Unity Exports Private Limited
			1325.	34171	M/s. Unnao Paper Mills Private Limited

1	2	3	1	2	3
1326.	37944	M/s. Usha Tools Mfg. Private Limited	1352.	64230	M/s. Welcome Tie-Up Private Limited
1327.	70781	M/s. Uttamasha Merchants Private Limited	1353.	37442	M/s. Welfat General Finance and Investment Co. Private Limited
1328.	35580	M/s. Uttar Bang Plastics Private Limited	1354.	70603	M/s. Welfles Traders Private Limited
1329.	18101	M/s. Uttarayan Private Limited	1355.	80848	M/s. Welkin Communications Private Limited
1330.	37843	M/s. V. V. Plastics Private Limited	1356.	46950	M/s. Welkin Mercantiles Private Limited
1331.	55691	M/s. Vadika Finco Private Limited	1357.	72838	M/s. Wellfuture Dealers Private Limited
1332.	60584	M/s. Vaidic Leasing & Finance Company Private Limited	1358.	67053	M/s. Welmet Aqua Private Limited
1333.	38589	M/s. Vaishali Ice and Refrigeration Private Limited	1359.	70057	M/s. Weltech Commercial Private Limited
1334.	72895	M/s. Vatika Agency Private Limited	1360.	23326	M/s. West Bengal Roadways Private Limited
1335.	50689	M/s. Vatika Investors & Traders Private Limited	1361.	30070	M/s. West Bengal Savings & Agricultural Finance Private Limited
1336.	73486	M/s. Venkateshwara Services Private Limited	1362.	11956	M/s. Western Oxy-Acetylene and Electric Welding Co. Private Limited
1337.	43610	M/s. Venus Engineering Concern Private Limited	1363.	52062	M/s. Wheels Viniyog & Credit Private Limited
1338.	20075	M/s. Venus Trading Co. Private Limited	1364.	81874	M/s. White Horizon (India) Private Limited
1339.	31337	M/s. Vesta Engineering Private Limited	1365.	76084	M/s. Wintex Agency Private Limited
1340.	68955	M/s. Vijay Navshakti Distributors Private Limited	1366.	70369	M/s. Wintur Sales Promotion Private Limited
1341.	32016	M/s. Vikrant Glass Enterprises Private Limited	1367.	38614	M/s. Winwood Construction Private Limited
1342.	61726	M/s. Vinam Resources Private Limited	1368.	51381	M/s. Wonder Containers Private Limited
1343.	70367	M/s. Vinline Goods Private Limited	1369.	78344	M/s. XITIZ Suppliers Private Limited
1344.	54126	M/s. Virgo Developers & Finvest Private Limited	1370.	38980	M/s. Yak Commercial Company Private Limited
1345.	26839	M/s. Virmani Sahni Agencies Private Limited	1371.	43703	M/s. Yamini Construction Private Limited
1346.	19544	M/s. Vivekananda Clinics Private Limited	1372.	32377	M/s. Yantrik Equipment Private Limited
1347.	72670	M/s. Walden Marketing Private Limited	1373.	55979	M/s. Yashika Investment Private Limited
1348.	50314	M/s. Wallem Tea Gardens Private Limited	1374.	32743	M/s. York Petro Chemicals Private Limited
1349.	78222	M/s. Warsaw Agencies Private Limited	1375.	28396	M/s. Young Electrical Enterprises Private Limited
1350.	79699	M/s. Way Link Barter Private Limited	1376.	86575	M/s. Youth Lendvest Private Limited
1351.	37866	M/s. Wed Hindusthan Power Private Limited			

Sl.No.	Company No.	Name of the Company
1	71308	A.K.MINI RICE MILL PVT.LTD.
2	71162	A.O.B PRODUCTS PVT.LTD.
3	62704	AAKRUTI PLASTICS PVT. LTD.
4	44620	AAPAAR MUDRAN PVT LTD
5	44172	AAREX COMMERCIAL PVT LTD
6	74986	AARGEES ESTATES PVT.LTD.
7	44183	ABISHKAR SMALL INVESTMENT COMPANY PVT LTD
8	80785	ACECOM ELECTRO-ENGINEERS PVT.LTD.
9	60710	AD-A-CAB SERVICES PVT. LTD.
10	40792	AD-INDAS PVT. LTD.
11	80116	ADVANCE ELECTRO POWER PVT LTD
12	24045	AJANTA SOAP & COSMETICS CO PVT LTD
13	82215	AKA FINVEST PRIVATE LIMITED
14	80555	AKASH HOUSE PVT LTD
15	81537	AKC ENGINEERS PRIVATE LIMITED
16	82180	AKHTER FOOTWEARS PRIVATE LIMITED
17	72123	ALIKA BARTER & CREDIT PVT. LTD.
18	46040	ALIPUR PRODUCTIONS PVT LTD
19	39624	ALOK AND ARVIND (ENGINEERS) PVT LTD
20	25894	AMARJYOTI GLASS WORKS PVT LTD
21	24507	AMBICA TEXTILE MILLS PVT LTD
22	72592	ANB TECHNO PRIVATE LIMITED.
23	23615	ANCILLARY INDUSTRIES LUGS PVT LTD
24	82187	ANKLESHWAR SERVICES & FINANCE PRIVATE LIMITED
25	42410	ANTARCTIC COOLERS PVT LTD
26	81727	ANUBHAV MERCHANTS PRIVATE LIMITED
27	82501	APAROSHA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
28	85438	APS PET PRIVATE LIMITED
29	27905	ARCEE TRADE (MARINE CONTRACTORS) PVT LTD
30	26292	ARVIND STEELS PVT LTD
31	46154	ASANSOL SMALL SCALE COTTAGE UDYOG PVT LTD.
32	27906	ASHOKA MUTUAL BENEFIT SCHEMES PVT LTD
33	26326	ASIAN FORGING & ENGINEERING CO LTD
34	24477	ASSAM BIHAR CONSTRUCTION CO PVT LTD
35	11050	ASSOCIATED METEL INDUSTRIES OF INDIA PVT LTD
36	80105	ASTRA TRACOM PVT.LTD.
37	72486	ATITHI CONVIN PVT LTD
38	13557	ATUL CHANDRA PAUL TARINICHARAN PVT LTD
39	24789	AUTO MENDER PVT LTD
40	01892	8 B B C PVT LTD
41	18909	B M MANTRI & CO. PVT LTD
42	72322	B. T. INFOTECH PVT LTD
43	27827	B.P.CHEMICALS PVT LTD
44	82137	B.S.T.INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
45	24238	BADU STEEL WORKS PVT LTD
46	44311	BAJAJ ELECTRONICS PVT LTD
47	9883	BANGALORE WHITE LEAD SYNDICATE PVT LTD
48	81472	BANGO FARM HOUSE PRIVATE LIMITED
49	18388	BANIK SANGHA PVT LTD
50	18036	BANKURA AUTOMOBILE CO PVT LTD

Sl No.	Company No.	Name of the Company
51	71234	BARCH ENGINEERS PVT.LTD.
52	24261	BARNA KUTIR PVT LTD
53	46586	BASU MARKETING & MANUFACTURING COMPANY PT. LTD.
54	9993	BEHAR COLD STORAGE PVT LTD
55	18875	BELIAGHATA TIMBER WORKS (PVT) LTD
56	42535	BELL ELECTRONICS PVT LTD
57	60715	BENGAL PORCELAIN COMPANY (1993) PVT. LTD.
58	61604	BHADRAKALI ENTERPRISES PVT. LTD.
59	23905	BHAGWANDAS ESATES PVT LTD
60	01844	1 BHARAT ORIENT CORPN. PVT LTD
61	23929	BHARDWAJ INDUSTRIES PVT LTD
62	46715	BHOJ CATERERS PVT.LTD
63	03916	1 BHOUMA TOOLS PVT LTD
64	6309	BIDHU BHUSAN DUTT & CO PVT LTD
65	80349	BIDYADHARI EXPORTS PVT LTD
66	27988	BIHAR COAL SYNDICATE PVT LTD
67	46017	BIR PACKAGINGS PVT LTD.
68	26270	BIRBHUM MINING PVT LTD
69	29430	BISCAYNE (INDIA) PVT LTD
70	81593	BISWAS SOLAR INSTRUMENT PRIVATE LIMITED
71	82474	BLUECIRCLE TRADELINK PRIVATE LIMITED
72	18347	BOBB FRAMJEE PVT LTD
73	11356	BOOK LAND PVT LTD
74	23877	BRIGHTWELL PVT LTD
75	72111	BUDGET CAPITAL PVT. LTD.
76	72110	BUDGET DEVELOPERS PVT. LTD.
77	46443	BULTHARUB RUBBERS PROCESS PVT LTD
78	26224	BUSINESS & COMPUTING MACHINES PVT LTD
79	39901	BUXTON-FAY PHARMACEUTICALS PVT LTD
80	72284	C.D. COMPUTERS PVT. LTD.
81	04155	5 CABLES (INDIA) PVT. LTD.
82	81881	CALCUTTA BISCUITS PRIVATE LIMITED
83	72483	CAPCOAN TRADELINK PVT LTD
84	18957	CAR CARE PVT LTD
85	72392	CARE DRUG-CHEM PVT. LTD.
86	26285	CEMETON PVT LTD
87	71728	CEMMIX STRUCTURAL PVT.LTD.
88	72460	CENTURY BROKING & AGENCY COMPANY PVT. LTD.
89	25885	CHAKRAVORTY & GHOSH (CONSTRUCTION) PVT LTD
90	7986	CHAMRIA TRADING CO PVT LT
91	02335	6 CHANDAN TIMBER TRADING CO PVT LTD
92	80423	CHANDRIMA COMMERCIAL PVT.LTD.
93	61240	CHART POINT CONSOLIDATION PVT. LTD.
94	80865	CHERRY COMMERCIAL PVT LTD
95	62997	CHOPRA HOMES PVT. LTD.
96	82580	CHOUDHARY LEASING PRIVATE LIMITED
97	11268	CHOUDHURY ROY & CO PVT LTD
98	62417	CLIMAX MARKETING PVT. LTD.
99	18476	COMMERCIAL TRUST PVT LTD
100	46051	COMPACT ADMINISTRATIVE SERVICES PVT LTD
101	82175	COMPU-QUEST SYSTEMS & SOFTWARES PRIVATE LIMITED
102	23961	CONCERN PVT LTD
103	27682	CONTROMATIC ENGINEERS PVT LTD
104	72658	CONTSHIP COMMODEAL PVT.LTD.

Sl No.	Company No.	Name of the Company
105	42411	COOL HOME CO PVT LTD
106	24951	COPE PVT LTD
107	02422	3 CORPORATED ELECTRICAL INDUSTRIES PVT LTD
108	42351	CREDENCE PLASTO INDUSTRIES PVT LTD
109	82249	CYBER DIGITECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
110	23826	D K ADITYA & BROTHERS PVT LTD
111	26280	DASSNAGAR POULTRY FARM PVT LTD
112	71773	DAWSON BARTER PVT. LTD.
113	81100	DCMB COMMUNIQUE SYSTEMS PVT. LTD.
114	29968	DE-COM CHIT & SAVINGS CO PVT LTD
115	23925	DEBI CHITRAM PVT LTD
116	24147	DEBI TEXTILES PROCESSORS PVT LTD
117	82579	DELIGHT TRADERS PRIVATE LIMITED
118	46724	DEPENDABLE DEVELOPERS AND CONSTRUCTION PVT. LTD.
119	74937	DERBY MARKETING PVT. LTD.
120	74895	DEVVARSHA MARKETING PVT. LTD.
121	74863	DHANDHAN TREXIM PVT. LTD.
122	61100	DHANODAY TREXIM PVT. LTD.
123	04269	6 DIAMET HI TECK INDUSTRIES PVT LTD
124	85358	DIGITAL SOURCE PRIVATE LIMITED
125	82606	DIGNITY COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
126	07480	2 DIPLOMAT TRACON PVT. LTD.
127	41184	DIVERSE PROJECTS & SERVICES INDIA PVT. LTD.
128	74891	DIVYANSH MARKETING PVT. LTD.
129	61716	DLS EXPRESS PVT. LTD.
130	81436	DONA COLOR-LAB PRIVATE LIMITED
131	60870	DOWELL VYAPAAR PVT. LTD.
132	72652	DRAVYA COMMODEAL PVT. LTD.
133	39599	DREAMLAND MERCENTILES PVT LTD
134	12122	DUBRAJPUR RICE MILLS PVT LTD
135	23977	DUTTA SPICE PVT LTD
136	80515	DYNAMIC INTERAID MANAGEMENT PVT LTD
137	46554	DYNATECH MACHINERIES PVT LTD
138	24916	EAST CHAPTORIA COAL CO PVT. LTD
139	11351	EAST GODHUR COLLIERY PVT LTD
140	06208	7 EAST WEST ARBITRAGE INVESTMENTS PVT. LTD.
141	23494	EAST ZONE CORPN PVT LTD
142	07159	9 EASTEND EXPORT PVT. LTD.
143	18657	EASTERN ASSOCIATED INDUSTRIES PVT LTD
144	39911	EASTERN COOLING CO. PVT LTD
145	26241	EASTERN FORUM PVT LTD
146	29510	EDCONS (INDIA) PVT LTD
147	41460	EDP SERVICES PVT LTD.
148	80560	EGRA COMMERCIAL KRISHI BANDHU FINANCE COMPANY PVT. LTD.
149	24959	ELECTRICAL INSULATING TUBES PVT LTD
150	23663	ELECTRO FABRICS PVT LTD
151	24708	ELECTRO PRODUCTS PVT LTD
152	39906	ELPI FOOD PRODUCTS PVT LTD
153	71069	EMULSO PLAST PVT. LTD.
154	72481	EPICA TRACDN PVT. LTD.
155	75820	EXCEL ESTATES PVT LTD
156	9075	EXCELSIOR POULTRY & AGRICULTURAL FARM PVT LTD
157	71716	EXOTIC TIE-UP PVT. LTD.
158	40001	EZDNE COOLING & ELECTRICAL EQUIPMENTS PVT LTD

Sl No.	Company No.	Name of the Company
159	26219	FATEMABAD TEA CO PVT LTD
160	07480	1 FEDRIC SUPPLIERS PVT.LTD.
161	25908	FERROUS CASTINGS & ENGINEERING PVT LTD
162	24282	FILM TRADERS PVT LTD
163	82537	FITWORTH IMPEX PRIVATE LIMITED
164	82598	FIVEOVUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
165	71409	FLEURON TIEUP PVT. LTD.
166	80582	FLORA AGENCY TRADE PVT LTD
167	72468	FONSARK COMMODITIES PVT. LTD.
168	23667	FONTANIA INDUSTRIES PVT LTD
169	80850	FUTURE COMMOTRADE PVT LTD
170	18429	G P C & CO PVT LTD
171	59027	G.M.R. CONSULTANCY SERVICES LTD.
172	26278	G.R.FOUNDRIES PVT LTD
173	07161	7 GAJAYA NIRMAN PVT.KTD.
174	62471	GAMA DISTRIBUTORS PVT LTD.
175	71652	GANADHISAYA PROPERTIES PVT.LTD.
176	13378	GANPATRAI & SONS (1946) PVT LTD
177	26290	GENERAL CASTINGS PVT LTD
178	42550	GHOSH CONSTRUCTION CO PVT LTD
179	71373	GLACIER MARKETING PVT.LTD.
180	26297	GLEAMY SCIENTIFIC GLASS WORKS PVT LTD
181	72609	GODSPEED COMMOSALES PVT.LTD.
182	24342	GOSABA BUILDERS & TRADERS PVT LTD
183	71645	GUNAPRAVISTAYA PROPERTIES PVT.LTD.
184	71653	GUNASAMPANAYA PROPERTIES PVT.LTD.
185	71720	GURUGUNAYA PROPERTIES PVT.LTD.
186	72320	HAKIM JUTE TWINE PVT. LTD.
187	07481	5 HALO DEALERS PVT.LTD.
188	25888	HAMMERMAN PVT LTD
189	24497	HAMO & SONS PVT LTD
190	23752	HARAN CHANDRA SAHA PVT LTD
191	23436	HARIHARPUR MULTIPURPOSE FARM PVT LTD
192	9073	HARIPUR FARMERS SYNDICATE PVT LTD
193	72475	HAVELL TIE-UP PVT. LTD.
194	46541	HENA REAL ESTATES PVT LTD
195	80503	HI-TECH INDUSTRIAL PLANTS PVT LTD
196	75819	HIGHLAND DEVELOPERS PVT LTD
197	62682	HILTON CHEMICALS PVT LTD.
198	24948	HIND LINES PVT LTD
199	18181	HINDUSTHAN ACCESSORIES & AUTOMOBILE PVT LTD
200	21228	HINDUSTHAN ENTERPRISES LTD
201	13236	HINDUSTHAN INDUSTRIES & MACHINE MFG CO PVT LTD
202	71408	HONESTPENNY COMMOSALES PVT.LTD.
203	29435	HOSPITAL APPLIANCES MANUFACTURING CO INDIA PVT LTD
204	72866	HOWRAH TEXTILES PROCESSORS PVT LTD
205	18847	HURRIS CHUNDER BOSE & CO PVT LTD
206	06733	5 ICCHA AGENTS PVT.LTD.
207	13984	IMPEX TRADERS (P) LTD
208	8048	INDIA PICTURES PVT LTD
209	23906	INDIAN & FOREIGN TRADING CORPN PVT LTD
210	42283	INDIAN BOTTLETOPS PVT LTD
211	13427	INDIAN SOAP & OIL INDUSTRIES PVT LTD
212	25923	INDIAN TAX CASES PUBLICATIONS PVT LTD

Sl No.	Company No.	Name of the Company
213	27627	INDIGENOUS ENGINEERING COMPANY PVT LTD
214	29823	INDRAMECH PVT LTD
215	24834	INDUSTRIAL ELECTRO MAGNATICS PVT LTD
216	42349	INFO-AID SERVICES PVT LTD
217	4883	INTERNATIDNAL TYRES & MOTORS PVT LTD
218	72203	INTEX INDIA CONSULTANTS PVT. LTD.
219	25907	IOTA ENGINEERING WORKS PVT LTD
220	24007	J.N.DAGA & CO PVT LTD
221	39412	JAGARAN FINANCIAL CO PVT LTD
222	29311	JAIN TEXTILE AGENCIES & EXPORTS PVT LTD
223	46667	JANAGANA LAND DEVELOPMENT AND CREDIT PVT.LTD.
224	02421	9 JASKARAM SOHAN LAL PVT LTD
225	60192	JEEVAN SARITA HOUSING FINANCE & INVESTMENT (INDIA) LTD.
226	72051	JKM HOUSING PVT.LTD.
227	74778	JOLEN BARTER PVT.LTD.
228	01171	0 JOREKURI COAL CO PVT LTD
229	46477	JSN MARKETING PVT LTD
230	01882	4 JUGANTAR CHHAYA(PRATISTHAN) PVT LTD
231	42454	JUHUDI TRADING CO PVT LTD
232	72660	JUPAX SALES & SUPPLY PVT.LTD.
233	44989	K C ENGINEERING AND SERVICES PVT LTD
234	23580	K L PVT LTD
235	23437	KAILASH CHANDRA PAUL & SDNS PVT LTD
236	00854	7 KALITHAN SURATAN COLIERY PVT LTD.
237	23509	KALLOL CHITRA PVT. LTD.
238	18823	KALPANA MOVIES PVT LTD
239	29996	KALPATARU CHIT & CREDIT CO PVT LTD
240	6127	KAMALALAYA (EXPORT) PVT LTD
241	39306	KAMPRAD (INDIA) PVT LTD
242	72382	KAMRUP ENGINEERS PVT LTD
243	24095	KAMRUP INDUSTRIES PVT LTD
244	23702	KANAK ENTERPRISES PVT LTD
245	9078	KANGA & CO PVT LTD
246	23207	KARANPUR INDUSTRIES PVT LTD
247	82538	KARNAFULLY BUILDERS & PROMOTERS (INDIA)PRIVATE LIMITED
248	81855	KAVERI FINVEST PRIVATE LIMITED
249	80483	KAVYA WAREHOUSING PVT.LTD.
250	25895	KESSEL POWER ENGINEERS PVT LTD
251	80493	KEYMER BAGSHAW MFG. CO. (1996) PVT.LTD.
252	26207	KHANDEWAL RICE MILLS PVT LTD
253	29176	KHARDAH NUTAN BAZAR PVT LTD
254	11838	KHAS GANESHPUR COAL MINES PVT LTD
255	74777	KILODERMA BARTER PVT.LTD.
256	72467	KILODERMA MERCANTILES PVT. LTD.
257	74885	KIPPY GOODS & SUPPLY PVT.LTD.
258	02789	6 KISHAN TUBES PVT LTD
259	07159	1 KOHINOOR ENTERPRISES PVT.LTD.
260	9917	KUNDU CHOWDHURIES PVT LTRD
261	60911	KUSHAL VYAPAAR PVT. LTD.
262	11141	LAHA ENGINEERING WORKS PVT LTD
263	46270	LAINNEC PHARMACEUTICALS (INDIA) PVT LTD
264	72478	LAKWEST COMMOTRADE PVT. LTD.
265	46020	LAXMI DYKE PVT LTD
266	9060	LAXMI SHIPPING CD PVT LTD

Sl No.	Company No.	Name of the Company
267	82453	LEGEND ELECTROVISION PRIVATE LIMITED
268	82880	LIMELIGHT COMMODEAL PRIVATE LIMITED
269	81497	LOLEX IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
270	46092	LOTUS SAVINGS & CREDIT COMPANY PVT LTD
271	23937	M.L.DUTTA & CO PVT LTD
272	29048	M.P.KESHAN PVT LTD
273	46522	MA BATAI CHANDI HOUSING DEVELOPMENT & FINANCE PVT LTD
274	71671	MADPAS MARKETING PVT.LTD.
275	71405	MAHANT CONSULTANCY PVT. LTD.
276	23720	MAITY SALTS & INDUSTRIES PVT LTD
277	42076	MALDA FLOUR MILLS PVT. LTD.
278	85112	MALIKARJUN STEELS PRIVATE LIMITED
279	13216	MANAGEMENTS PVT LTD
280	24200	MANICK BROS PVT LTD
281	80485	MANKRAM FABRICATORS PVT.LTD.
282	26317	MANOJ TRADING CO PVT LTD
283	72573	MANOT SHARES AND SECURITIES PVT LTD
284	33670	MANRAG PRINTING AND PACKAGING INDUSTRIES PVT LTD
285	23623	MARINE REFRIG & ELECTRIC PVT LTD
286	81147	MASK MERCHANTS PRIVATE LIMITED
287	46778	MAXFILTER PVT.LTD.
288	42267	MAXI-CROPS PVT LTD
289	74839	MDA PUBLICATIONS PVT.LTD.
290	23829	MECHANIZATION PVT LTD
291	74958	MEGASIN GODDS & SUPPLY PVT.LTD.
292	61242	MERIDIAN MARINE SHIPPING AGENCIES PVT. LTD.
293	41468	MICRO PROPERTIES PVT. LTD.
294	59871	MIDDLETON ESTATES PVT. LTD.
295	46166	MINOLTA INVESTMENTS PVT LTD.
296	71037	MONOTONS VYAPAAR PVT.LTD.
297	37305	MONSOON (INDIA) PVT LTD
298	23204	MOULDERS PVT LTD
299	23760	MOVIE INTERNATIONAL PVT LTD
300	62901	MRC MODULAR MARKETING PVT. LTD.
301	40150	MUKHERJEE CHAUDHURI AND ASSOCIATES PVT LTD
302	39650	MUKUL COSMETICS PVT LTD
303	46636	MULTIMIX MARKETING PVT.LTD.
304	13786	MURI PROPERTIES PVT LTD
305	81370	MURSHIDABAD FARM HOUSE PRIVATE LIMITED
306	60392	N.R. POLYCLINIC & DIAGNOSTIC CENTRE PVT. LTD.
307	25886	N.S.KUMAR CONTACTORS PVT LTD
308	71306	NASKAR PROPERTIES PVT.LTD.
309	23993	NATABAR DUTTA PROPERTIES PVT LTD
310	13195	NATIONAL GLASS INDUSTRIES PVT LTD
311	72238	NAVYUG DEVELOPMENT PVT LTD
312	80486	NEELAMBUJA LAMINATORS PVT.LTD.
313	26293	NEO-AGRO FARMING PVT LTD
314	81569	NEVIGATING MERCHANTS PRIVATE LIMITED
315	13224	NEW ERA ENGINEERING WORKS PVT LTD
316	23003	NEW MODERN STRUCTURAL & CONSTRUCTION CO PVT LTD
317	61356	NH BUILDERS PVT. LTD.
318	18370	NIPPON STEEL PRODUCTS PVT LTD
319	02323	O NIVA AUTO SERVICE PVT LTD
320	23722	NIYOGI PICTURES PVT LTD

Sl No.	Company No.	Name of the Company
321	72713	NORTH BENGAL PRODUCTS PVT LTD
322	46510	NORTH INDIA AUTOMOBILES PVT LTD
323	72577	NOVONIKA BARTER PVT LTD
324	26204	O.K. BATTERY PVT LTD
325	72700	OCEANUS EXIM PVT LTD
326	81483	ODDISSY SPONGE STEEL COMPANY LIMITED
327	08551	1 ORGANIC AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
328	26213	ORIENT CITY BOOK CO PVT LTD
329	26281	ORIENT STRIPS & PIPES PVT LTD
330	9228	ORIENTAL ESTATES & MANUFACTURERS PVT LTD
331	23971	ORIENWAY PRODUCTS PVT LTD
332	18925	P.C.C. PVT LTD
333	80058	P. SARAJUBALA LOKENATH PAPER MILLS PVT. LTD.
334	75805	PACIFIC NUTRIENTS PVT LTD
335	26267	PANCHAL WIRE & BOARD INDUSTRIES PVT LTD
336	74969	PANCHANAN AGENCIES PVT. LTD. PANOIT RAMCHANORA SHARAMA AYURVEDIC PAHRAMCY PVT. LTD.
337	61118	PARICHAY IMPEX PVT. LTD.
338	62153	PARIJAT ADVISORY PVT. LTD.
339	74775	PARIJAT ADVISORY PVT. LTD.
340	02366	4 PARK ACCEPTANCE PVT LTD
341	80416	PAUL CHOWDHURY PLASTICS PVT. LTD.
342	81982	PAYEL COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
343	72114	PEE PEE BEE CONSULTANTS PVT. LTD.
344	72317	PIYUSH GASES PVT. LTD.
345	02422	8 PLASTIC POWDERS PVT LTD
346	24144	PLUTONIAN HARDWARE & METALS PVT LTD
347	23565	POLYTHINE INDUSTRIAL PIPE & EQUIPMENT PVT LTD
348	46120	PRABHAT TUBES PVT LTD.
349	60649	PRAGATI TECHNOMATICS PVT. LTD.
350	81861	PRANAV MARKETING PRIVATE LIMITED
351	29351	PRETTY SAVINGS AND INVESTMENT CO PVT LTD
352	44881	PRIME FILMS PVT LTD
353	46580	PRISYM PRINTS PVT LTD
354	18902	PRODUCERS FORUM PVT LTD
355	72116	PROGRESSIVE TRACOM PVT. LTD.
356	61618	PROSPEROUS COMMOOTIES PVT. LTD.
357	80264	QUALITY VINIMOY PVT. LTD.
358	46608	R C CONSULTANTS PVT LTD
359	25919	R.V.N. BATTERIES PVT LTD
360	24984	RADHA KRISHNA KHAITAN & SONS PVT LTD
361	82459	RADIAL EXPORT PRIVATE LIMITED
362	18885	RADIO & ACCESSORIES (INDIA) PVT LTD
363	13878	RADIONICS PVT LTD
364	9932	RAJCOOMAR GUJADHUR & SONS PVT LTD
365	25914	RAJKAMAL UDYOG PVT LTD
366	74979	RAJPUTANA MERCANTILE PVT. LTD.
367	80275	RAMA PRATAP HOUSE PVT LTD
368	80315	RAMKRISHNA TRADERS PVT. LTD.
369	72561	RAMNIK EXPORT PVT. LTD.
370	80182	RAMNIK HOLDINGS PVT. LTD.
371	39371	RANK COMMERCE PVT LTD
372	07480	6 RASHDHARA BARTER PVT. LTD.
373	74923	RATHYAN COMMERCIAL PVT. LTD.

Sl No.	Company No.	Name of the Company
374	61014	RAXOLA ELECTRONICS PVT. LTD.
375	24717	REGENT CALENDER PVT LTD
376	26300	REMICO ENGINEERING WORKS PVT LTD
377	72540	ROCKWARTH GRANITES PVT LTD
378	46681	ROHAN AGENCIES PVT.LTD.
379	24471	ROLA (INDIA) PVT LTD
380	02452	1 RUBY OIL (INDIA) PVT LTD
381	60203	RYDAK CONSULTANCY PVT. LTD.
382	23477	S G BOSE & CO PVT LTD
383	23482	S M DEY & CO PVT LTD
384	24715	S V INDUSTRIES PVT LTD
385	85417	S.D.MERCANTILES PRIVATE LIMITED
386	24955	S.K.ENTERPRISES PVT LTD
387	80463	S.R. TWINES PVT LTD
388	80091	SAFETY FINCOM PVT LTD
389	18600	SAGAR BROS PVT LTD
390	72629	SAHA PRDMOTERS & CONSTRUCTION PVT.LTD.
391	62702	SAHARASH JUTE PVT. LTD.
392	41665	SAILA PROPERTIES PVT. LTD.
393	26291	SANATAN IRON & STEEL CHAIN MFG. CO PVT LTD
394	46013	SANJUKTA HOUSING SOCIETY PVT LTD.
395	72164	SAPANA TEADDEFIN PVT.LTD.
396	74974	SAPTA RASHMI GOODS & SUPPLY PVT.LTD.
397	39910	SARAF AIR CONDITIONING COMPANY PVT LTD
398	40002	SARAF SHEET METAL WORKS PVT LTD
399	72083	SARKAR ASSOCIATED ENGINEERING PVT.LTD.
400	75373	SARNAM ENTERPRISES PVT.LTD.
401	74912	SARTAJ TRACON PVT.LTD.
402	82550	SAS COURIER PRIVATE LIMITED
403	82272	SATELLITE LEATHER FASHION PRIVATE LIMITED
404	72840	SATI SYNTEX PVT.LTD.
405	13039	SATISH CHANDRA CHATTERJEE & SONS PVT LTD
406	60883	SATKIRTI COMMOTRADE PVT. LTD.
407	23915	SATYAJIT RAY RPRODUCTIONS PVT LTD.
408	26268	SELECTUS ENGINEERS PVT LTD
409	61241	SERVONAV ENGINEERING COMPANY PVT. LTD.
410	23819	SHADOS INTERNATIONAL PVT LTD.
411	25903	SHAH & SANGHVI TRADERS PVT LTD.
412	82101	SHAKUN BUSINESS & FINANCE PRIVATE LIMITED
413	18064	SHARMA & CO. PVT LTD.
414	13166	SHERGARH PROPERTIES PVT LTD
415	81570	SHIV DANI COMMOTRADE PRIVATE LIMITED
416	46623	SHIVA STREESSED PREFAB STRUCTURALS PVT.LTD.
417	74880	SHRADHANJALI MARKETING PVT LTD.
418	25913	SHREE MADHAVJI FINANCE PVT LTD
419	71665	SHREE SANYOGITA VYAPAAR PVT.LTD.
420	81494	SHREE SHREE MA TARA RICE MILL PRIVATE LIMITED
421	44035	SHREEKHAND DEVELOPERS PVT LTD
422	72630	SIDHI DATA DEVELOPERS PVT LTD
423	80447	SILVER LINE MEDIA PVT LTD
424	81689	SILVERDEEP TRADERS PRIVATE LIMITED
425	24015	SIND CONSTRUCTION CD PVT LTD
426	23574	SINDRI IRON FOUNDRY PVT LTD
427	42172	SKB CONSULTANTS PVT LTD

Sl No.	Company No.	Name of the Company
428	72074	SKP STOCK INVESTMENT PVT.LTD.
429	23062	SMALL SCALE INDUSTRIES PVT LTD
430	82468	SNOWTEMP MARKETING PRIVATE LIMITED
431	26205	SODEPUR BARLEY & OIL MILLS PVT LTD
432	80720	SOFTSHORE SYSTEMS PVT LTD
433	11544	SOHANLAL MOHANLAL PVT LTD
434	23713	SOLACE DURGS PVT LTD
435	39414	SOLEX BUSINESS PVT LTD
436	44834	SOORAJPETRO PRODUCTS PVT LTD
437	80385	SOUMITRA FINANCE & INVESTMENT PVT LTD
438	25891	SOUTH CALCUTTA PRESS PVT LTD
439	26277	SOUTHERN DRUG SUPPLIES & STORES PVT LTD
440	85473	SPANIN CHEM PRIVATE LIMITED
441	44930	SREE BRIDDHY FINANCE AND INVESTMENT COMPANY PVT LTD
442	18982	SRI HURDUTROY JUTE MILLS PVT LTD
443	24299	SRI RAM KRISHNA STORES & ENGINEERING WORKS PVT LTD
444	46628	STALLION PLASTCHEM INDIA PVT.LTD.
445	24266	STEEL FURNITURE PVT LTD
446	71149	STITCHER'S EXIM PVT.LTD.
447	41951	SUBHAH PICTURES PVT. LTD.
448	20546	SUDHIR CHANDRA DAS & SONS (INDIA) PVT LTD
449	81813	SUGAM COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
450	02430	9 SUHRID INDUSTRIES PVT LTD
451	61698	SUKH FIANNCE & INVESTMENT COMPANY PVT. LTD.
452	82545	SUNSTAR VINCOM PRIVATE LIMITED
453	80942	SUPER PHARMACEUTICALS MACHINERIES PVT LTD
454	24779	SURAJ UDYOG PVT LTD
455	75791	SURYA DESK TO DESK SERVICES PVT LTD
456	72579	SURYANSHI ENGINEERING PVT LTD
457	81636	SV CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
458	23733	SWADESHI ENGG. CO PVT LTD
459	81325	SWASTIK PUBLICITY PRIVATE LIMITED
460	24501	SWEENEY TRANSPORT PVT LTD
461	72655	SYGNUS SYSTEMS PVT.LTD.
462	72521	TAMANNA DEAL COMM PVT.LTD.
463	72380	TAPANG HOTEL & RESORTS PVT. LTD.
464	72354	TARAI COMMODITIES PVT.LTD.
465	72853	TARAI ENGINEERING PVT LTD
466	08518	1 TARAMA DAIRY PRIVATE LIMITED
467	72559	TAURUS CONTAINERS PVT. LTD.
468	26276	TAURUS EQUIPMENT PVT LTD
469	24985	TECHNO LABORATORIES INDIA PVT LTD
470	24783	THIEN FORE CO PVT LTD
471	24290	TILOKCHAND SETHIA PVT LTD
472	24012	TINKER PVT LTD
473	39851	TIRUPATI AUDIOVISUALS PVT LTD
474	62556	TRINITY DATAMATICS PVT. LTD.
475	72068	TULLY PROPERTIES PVT.LTD.
476	29170	TURNKEY ENGG PVT LTD
477	71681	TVH SOFTWARE PVT.LTD.
478	72526	TYFORD VINTRADE PVT.LTD.
479	24469	U.B. FILMS PVT. LTD
480	44781	UJS ROLLING STRIPES PVT LTD
481	42781	UMA MEDICO SURGICAL & PHARMACEUTICALS PVT LTD

Sl No.	Company No.	Name of the Company
482	42692	UMAN HOLDINGS PVT LTD
483	61069	UMANG TRADE & FINANCE PVT. LTD.
484	26210	UMATARA TECHNICO PVT LTD
485	23355	UNICOM SALES PVT LTD
486	26308	UNITED TOOLS MAKERS PVT LTD
487	71175	UPAVAN MARKETING SERVICES PVT.LTD.
488	02784	4 UTKAL EXPORTERS PVT. LTD
489	24192	UTKAL PROPERTIES & FINANCE PVT LTD
490	62853	V.B. MERCANTILE PVT. LTD.
491	23188	V.G. CHAWDA PVT LTD
492	82182	VALAJEE FINCON PRIVATE LIMITED
493	89737	VARI MEDIA & PRINT PRIVATE LIMITED
494	72532	VARUN TEXTRADE PVT.LTD.
495	72684	VEERSALI SALES PROMOTION PVT.LTD.
496	72028	VERTEX MERCANTILE PVT. LTD.
497	26296	VINOD VANIJYA PVT LTD
498	82265	WAMIKA EXPORTS PRIVATE LIMITED.
499	74807	WELLWISHER TRACON PVT.LTD.
500	42569	WEST BENGAL LAW REPORTER PVT LTD
		WEST BENGAL PHARMACEUTICAL AND PHYTOCHEMICAL
501	29338	DEVELOPMENT CORP.LTD
502	81874	WHITE HORIZON (INDIA) PRIVATE LIMITED
503	46555	WIN FIELD ADVERTISING SERVICES PVT LTD
504	23054	WOOD PRODUCTS PVT LTD
505	62599	WOOL FELTERS PVT. LTD.
506	72531	YOGINI COMMODITIES PVT.LTD.
507	74921	ZEE MANAGEMENT PVT.LTD.
508	71224	ZEPHYR CAPITAL & SECURITIES PVT.LTD.
509	42263	ZUK CHEMICALS PVT LTD

UJJAWAL ROY
Registrar of Companies
West Bengal

SlNo.	Company No.	Name of the Company
1	38788	21ST CENTURY PROJECTS PVT LTD
2	35798	A K BHATTACHARJEA & CO PVT LTD
3	16772	A N GHOSH PVT LTD
4	50571	A.K. RESORTS PVT. LTD.
5	28699	A.N.ASH & CO PVT LTD
6	27414	AAIN BARTA PRAKASANI PVT LTD
7	37246	AARKAY SHILPA UDYOG PVT.LTD.
8	32195	AB NATOMACH PVT LTD
9	51631	ABHI TRADE & CREDIT PVT. LTD.
10	66112	ABHILASA VANCOM PVT. LTD.,
11	81011	ABHIYANTA MULTI SYSTEMS PVT LTD
12	38858	ABIRVAB INDIA PVT LTD
13	053029	ABM ELECTRIC & ELECTRO SYSTEMS PVT. LTD.
14	029658	ACETO DRUGS PVT LTD
15	53694	ACUMEN (J) MARKETING PVT. LTD.
16	36814	AD PROCESS AND MARKETING CO PVT LTD
17	30964	AD THEATRE PVT LTD
18	37618	ADFOCUS PVT LTD
19	78706	ADITYA VINTRADE PVT LTD
20	66448	ADONIS PROPERTIES PVT. LTD.
21	80484	ADVAITHA PETRO CHEMICALS PVT.LTD.
22	32455	ADVANCED APPARATUS (ELECTRICALS) PVT LTD
23	33994	ADVANCED POLYMERS PVT LTD
24	53976	ADVANCED SYSTEMS ENGINEERS PVT LTD.
25	31698	ADVANI DEVELOPERS PVT LTD
26	34512	ADVIVUM LABORATORIES PVT LTD
27	15976	AEROFOILS PVT LTD
28	52772	AGD CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
29	66114	AHINSHA DEALCOMM PVT. LTD.
30	70037	AHRIWAL LRASING & FINANCE PVT.LTD
31	76793	AIC SEA FOODS PVT LTD
32	030300	AIR COMPRESSOR AND PNEUMATIC TODLS (INDIA) PVT.,LTD.
33	30286	AJANTA PORTLAND POZZOLANA CEMENT & MINERAL INDUSTRIES PVT AJAY VALLEY AGRO FORESTRY DEVELOPMENT & RESEARCH CENTRE PVT.
34	52738	
35	001988	AKANSHA INVESTMENTS PVT LTD
36	80948	AKASH CONSULTANCY PVT LTD
37	60530	ALBATROSS EQUIPMENTS MANUFACTURERS PVT. LTD.
38	20869	ALEX MILLER (MADRAS) PVT LTD
39	17770	ALEX MILLER (MERCHANTS) PVT LTD
40	75653	ALEXINS PHARMACEUTICALS PVT LTD
41	72712	ALFA & OMEGA ENGINEERS PVT.LTD.
42	43150	ALLWIN BUILDERS PVT LTD
43	44573	ALPS TOURS PVT LTD.
44	38154	AMAR SEVA KOSH PVT.LTD.
45	76791	AMERICAN HEALTHCARE AND FOOD PVT LTD
46	70751	AMPLIVOX TRADING COMPANY PVT.LTD.
47	79164	AMRIT MANAGEMENT PVT LTD
48	57980	ANAM EXPORTS PVT. LTD.
49	32688	ANAND MEDICAL HALL PVT LTD
50	29581	ANANDLOK APARTMENTS PVT LTD
51	37479	ANCHOR HOTELS PVT LTD

Sl No.	Company No.	Name of the Company
52	16102	ANDERSON WRIGHT (RAMGARH) PVT LTD
53	80754	ANGEL'S CEREAL PRODUCTS PVT LTD
54	60643	ANIL FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.
55	53752	ANIRVAN FOOD & ALLIED PRODUCTS PVT.LTD.
56	53393	ANKITA APPLIANCES ELECTRONICS PVT. LTD
57	16491	ANNAPOORNA FARMING & FISHERY PVT LTD
58	64190	ANUKAMPA MERCHANTS PVT. LTD.
59	032169	ANUPAM PLASTICS PVT. LTD.
60	66012	ANURAG AUTO PRECISION PVT.LTD.
61	33831	ANURAG BUILDERS PVT LTD
62	52660	ANUSHREE & ANUSHREE MERCHANDISE PVT. LTD.
63	77986	ANUSIKHA TRADING CO PVT LTD
64	55012	ANUVART FINANCE PVT. LTD
65	37974	APEX COMBINES PVT LTD
66	31132	APH PVT LTD
67	87392	APOLLO COMMODITIES PRIVATE LIMITED
68	40527	APOLLO CONSULTANTS PVT. LTD.
69	80456	AQUA CASCADE PVT LTD
70	76746	ARADHANA POLYMERS PVT LTD
71	80030	ARAGYA NURSING HOME PVT.LTD.
72	33836	ARATI ELECTRICALS & ENGINEERS PVT LTD
73	36298	ARAWALI MARKETING & ENGINEERING PVT LTD
74	26606	ARCON STRUCTURE & DESIGNS PVT LTD
75	64289	ARIHANT COMMODEAL PVT. LTD.
76	32321	AROTI TOOLS PVT LTD
77	78008	ARROWS CHEM PVT LTD
78	61756	ARTHUR BLOOM DIAGNOSTICS (INDIA) PVT. LTD.
79	36353	ARYADHA PAPER INDUSTRIES PVT LTD
80	20251	ARYYABARTTA & CO PVT LTD
81	31779	ASANSOL CONSUMERS AGENCY PVT LTD
82	77458	ASANSOL FARM HOUSE PVT LTD
83	38779	ASANSOL TALKIES PVT LTD
84	38320	ASHA GLASS INDUSTRIES PVT LTD
85	30417	ASHA KHAIR & WOOD PRODUCTS PVT LTD
86	037254	ASHLAR DESIGN & CONSTRUCTION PVT LTD
87	24636	ASHOK FABRICATING INDUSTRIES PVT LTD
88	34039	ASHOKA SHREYANS & CO PVT LTD
89	66111	ASHWAMEGH MERCHANTS PVT. LTD.
90	15425	ASIATIC CONSTRUCTION & TRANSPORT CO PVT LTD
91	31709	ASPHALTS INDIA PVT LTD
92	32421	ASPIRING ENGINEERS & EXPORTERS PVT LTD
93	27923	ASSOCIATED (HOME PRODUCTS) DISTRIBUTORS PVT LTD
94	31244	ASSOCIATED DATA SYSTEMS PVT LTD
95	20109	ASSOCIATED PIONEER TRADERS PVT LTD
96	50167	ASSURANCE HOLDINGS P LTD.
97	53103	ASTHA RESOURCES PVT.LTD.
98	30843	ATACC PHARMACEUTICALS PVT LTD
99	30959	ATIZ HALIDES & CHEMICALS M M PVT LTD
100	89975	ATS POULTRY AND EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
101	17378	ATTA TEXTILES PVT LTD
102	20819	AUTO GAS DISTRIBUTORS PVT LTD
103	16139	AUTOMOBILE SERVICE & INDUSTRIES PVT LTD
104	53576	AVINASHI CONSULTANCY & MARKETING PVT. LTD.
105	72828	AVINYA TRADING PVT LTD

Sl No.	Company No.	Name of the Company
106	54470	AZIZ TOBACCO COMPANY PVT. LTD.
107	60942	B & R FOUNDATION PVT. LTD
108	23731	B K SAHA & SONS PVT LTD
109	10643	B N KUMAR & CO PVT LTD
110	53864	B.A.R. CARRIERS PVT. LTD.
111	55358	B.D. ELECTRDMECH PVT. LTD.
112	55358	B.D. ELECTROMECH PVT. LTD.
113	40537	BABYLON CONSTRUCTION PVT. LTD.
114	74654	BADAL RUBBER WORKS PVT.LTD.
115	50442	BADURIA BOARD & LAMINATING INDUSTRIES PVT LTD
116	34185	BAFSON COMMERCIAL PVT.LTD.
117	77947	BAGRI RESOURCES PVT LTD
118	27613	BAIDYANATH IRON & STEEL PVT LTD
119	36424	BAIDYANATH OIL RAFINERIES PVT LTD
120	77233	BAISNO MERCANTILE PVT LTD
121	79835	BAJ GARDENS PVT LTD
122	52730	BAJRANG TEA PLANTATIONS PVT. LTD.
123	44718	BAJRANGBALI FOUNDRY PVT LTD
124	52808	BALAJI CAPITAL INVESTORS PVT. LTD.
125	70059	BALESHWAR MERCHANTS PVT.LTD.
126	29522	BANARSI INVESTMENTS PVT LTD
127	81096	BANERJEE AGRO PVT.LTD.
128	53676	BANGAL FIBROPLAST PVT.LTD.
129	44220	BANKURA STEEL INDUSTRIES PVT LTD
130	51018	BANS LATA FINANCE & SAVINGS COMPANY PVT. LTD.
131	30449	BARANAGORE BRASS FOUNDRY PVT LTD
132	82446	BARMAN TRADERS PRIVATE LIMITED
133	82446	BARMAN TRADERS PRIVATE LIMITED
134	31314	BASANT FRUIT PRODUCTS PVT LTD
135	012578	BASIRHAT CINEMA CO PVT LTD
136	89014	BASUCH PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
137	31892	BAUMANN LUFTMANN PVT LTD
138	31967	BECO CYCLES PVT LTD
139	35738	BEESOCO PLASTOCHEM PVT LTD
140	53096	BEI-ICHI COMPUTRONIX PVT. LTD.
141	30263	BELANAGAR CHIT AND SAVINGS CO PVT LTD
142	009820	BENGAL ART PRESS PVT LTD
143	053229	BENGAL BOX (1991) PVT.LTD.
144	11244	BENGAL MILLS AGENCY PVT LTD
145	76773	BENTEC BHARTIA ENGINEERS PVT LTD
146	30203	BERHAMPORE CHIT & INVESTMENT CO PVT LTD
147	16494	BEYAD PVT LTD
148	16499	BHAGIRATHI BARAF SAMITY PVT LTD
149	70179	BHROSEMAND SALES PVT.LTD.
150	20237	BHUTORIA & SONS PVT LTD
151	44597	BIBHAS EXPORTS PVT LTD
152	016115	BIHAR SAHITYA BHAWAN PVT LTD
153	20661	BISWAS MOTOR SERVICE PVT LTD
154	32281	BLACKIE & SON (CALCUTTA) PVT.LTD.
155	31331	BLUE CHEM PVT LTD
156	31281	BLUE OCEAN MARINE PVT LTD
157	89862	BLUE SKY TREKS & TRAVELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
158	66610	BLUESTAR SUPPLIERS PVT. LTD.
159	72386	BODY INVESTMENTS PVT. LTD.

Sl No.	Company No.	Name of the Company
160	037276	BOLANGIR STEEL & ROLLING MILLS PVT LTD
161	38571	BONN INDIA MFG PVT LTD
162	83027	BORAN ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
163	70622	BRIJDHARA TEXTRADE PVT.LTD.
164	020759	BROWN ELECTRIC CO PVT LTD
165	35047	BSS METAL MANUFACTURING CO PVT LTD
166	17797	BURNET DAVIES & CO PVT LTD
167	44537	C G CARRIER PVT LTD
168	27717	C.G.ENGINEERING PVT LTD
169	28528	CALCUTTA ALLOY & STEEL TRADERS PVT LTD
170	20096	CALCUTTA ALUMINIUM WORKS PVT LTD
171	31072	CALCUTTA BOARD MILLS PVT LTD
172	18622	CALCUTTA CENTRAL CONSTRUCTION CO PVT LTD
173	18508	CALCUTTA CONSTRUCTORS PVT LTD
174	30084	CALCUTTA EXTRUSIONS PVT LTD
175	54566	CALCUTTA FACTORING & PORTFOLIO MANAGERS PVT. LTD.
176	36581	CALCUTTA HOMEO LABORATORY PVT LTD
177	38560	CALCUTTA INDUSTRIAL ANALYTICAL TESTING LABORATORY PVT LTD.
178	27417	CALCUTTA PRSTERED PVT LTD
179	44933	CALCUTTA UROLOGY RESEARCH CENTRE PVT LTD
180	79029	CANDIANA FOODS PVT LTD
181	38955	CASTLE OAK INDIA PVT LTD
182	31866	CATCHY SAVINGS & FINANCE LIMITED.
183	35295	CATHAY EXPORTS PVT LTD
184	54552	CEDAR PHARMACEUTICAL WORKS PVT. LTD.
185	36840	CGM ENGINEERS & SERVICES PVT LTD
186	54114	CHALLENGER RICE MILL & COTTAGE PRODUCTS PVT LTD.
187	012893	CHANDBALI RICE MILLS PVT LTD
188	53073	CHANDRA AKASH FINANCE & HOUSING CO PVT.LTD.
189	020510	CHANDRA INDUSTRIES PVT LTD
190	79270	CHARIOT EXPORTS PVT LTD
191	20617	CHATTERJEE HAZRA PVT LTD
192	64194	CHEMBUR MARKETING PVT. LTD.
193	12568	CHEMICAL & PHARMACEUTICALS SUPPLY AGENCY PVT LTD
194	35890	CHEMICOT (INDIA) PVT LTD
195	60844	CHERRY COMOTRADE PVT. LTD
196	70013	CHIK MERCHANDISE PVT.LTD.
197	77270	CHIRMI COMMODITIES PVT LTD
198	77505	CHOKSI MACHINERY PVT.LTD.
199	17911	CHOWRINGHEE HOTEL PVT LTD
200	31593	CHROME CHEM (INDIA) PVT LTD
201	20213	CHROME METAL WORKS PVT LTD
202	015812	CITY EXHIBITORS PVT LTD
203	30058	CITY SERVICES & HAULAGE CO PVT LTD
204	18178	CITY STORE SUPPLY CO PVT LTD
205	43181	CITYSCAPE DEVELOPERS PVT LTD
206	27412	CIVELMEC PVT LTD
207	36177	CIVTECH NIRMAN PVT LTD
208	51629	CLAITALF CONSULTANTS PVT.LTD.
209	67184	COCETRA GOODS PVT.LTD.
210	70120	COCKBURN DISTRIBUTORS PVT. LTD.
211	20683	COKE OVEN CONSTRUCTION CO. PVT LTD
212	34560	COLUMBIA RUBBER ROLLS AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
213	031240	COMMONWEALTH EXPORTS PVT LTD

Sl No.	Company No.	Name of the Company
214	77442	COMPASS TRADING PVT LTD
215	36572	CONAGE PAPER PVT LTD
216	61667	CONCORDE EXIM INDIA PVT. LTD
217	31404	CONSORTIUM PROPERTIES PVT LTD
218	34532	CONSTRUCTIVE CONSTRUCTION CO PVT LTD
219	12819	CONTAINERS (INDIA) PVT LTD
220	030081	CONTROL GEARS (BENGAL) PVT LTD
221	67454	COOL BRAIN VINMOY PVT. LTD.
222	44128	COWNPORE FINANCE PVT LTD
223	80424	CRA FINANCE PVT.LTD.
224	78218	CREATIVE ADVISORY PVT LTD
225	30662	CRYSTALLINE PRODUCTS (INDIA) PVT LTD
226	8043	CUTHERTON & HARPER INDIA PVT LTD
227	70753	CYRILIC DEALERS PVT.LTD.
228	70753	CYRILIC DEALERS PVT.LTD.
229	31750	D S PLYWOOD PVT LTD
230	64023	D. S. MEDI SYSTEMS PVT. LTD.
231	55380	D.D FEED COMPANY PVT. LTD.
232	53036	D.H. MELTERS PVT.LTD.
233	40587	D.WREN AUTO ACESSORIES PVT. LTD.
234	23305	DAFTAR SILPA PRATISTHAN PVT LTD
235	74829	DAMALAA TRACON PVT.LTD.
236	70272	OARKIN TRAOING PVT.LTD.
237	30748	DARYANI & SONS PVT LTD
238	38465	DAS TEA & FINANCE PVT LTD
239	54624	DAS TEK PVT. LTD.
240	52918	DAS WIRE & FINANCE PVT. LTD.
241	66753	DASHY EXPORTS PVT. LTD.
242	79190	DAYAMAJI COMMERCIAL PVT.LTD.
243	060557	DEBAM BUILDERS & IMPEX PVT. LTD.
244	74533	DEBDIP TYRES PVT.LTD.
245	27998	DEBONI REFRIGARATION PVT LTD
246	44513	DEBTEK EXPORTERS & BUILDERS (INDIA) PVT LTD
247	53601	DEEPABALI SAVINGS AND INVESTMENT PVT. LTD.
248	55906	DELSTAR SAVINGS & COMMERCE PVT. LTD.
249	43791	DEMAK BRICKS PVT LTD
250	37333	DEOGHAR STEEL ROLLING MILLS PVT LTD
251	76833	DERBY VYAPAAR PVT LTD
252	31721	DESHAPRAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO PVT LTD
253	54575	DEYA NEYA FINANCE & INVESTMENT COMPANY PVT. LTD.
254	054418	DGHC TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION PVT. LTD.
255	60890	DHAN PRAYOG TRADERS PVT. LTD.
256	70330	DHAN TRADELINK PVT LTD.
257	83217	DHANANIA MERCANTILE PRIVATE LIMITED
258	70105	DHANSALA VYAPAAR PVT. LTD.
259	60738	DHANSHREE VINIYOG PVT. LTD.
260	44160	DHINJAN CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
261	67600	DHOOMSAIN COMMERCE PVT. LTD.
262	37557	DIALOG RESEARCH & APPLICATIONS PVT.LTD.
263	23318	DIAMOND HARBOUR IRON STORE PVT LTD
264	37789	DIAMOND TEA CO.PVT.LTD.
265	20692	DIANA PVT LTD
266	67191	DIDWANIA FINANCE PVT.LTD.
267	51498	DILWARA PAPER INDUSTRIES PVT. LTD.

Sl No.	Company No.	Name of the Company
268	28383	DIPAK EXPO-TRADERS PVT LTD
269	60385	DIPSHIKHA AGENCY LTD.
270	30929	DIPTI PAPER & BOARD MILLS PVT LTD
271	79981	DIVINE SECURITIES PVT LTD
272	80921	DIVYA DRISHTI COMMOTRADE PVT LTD
273	52892	DIVYADRASHI TRADERS & COMMERCIALS PVT. LTD.
274	74893	DIVYANSH GOODS & SUPPLY PVT.LTD.
275	077675	DOLPHIN PROJECTS PVT LTD
276	54477	DOLSAMS COMMERCIAL PVT. LTD.
277	30413	DOVER ENGINEERING PVT LTD
278	70028	DOWELL DEALCOM PVT.LTD.
279	44441	DOWN EAST TOWERS PVT LTD
280	024409	DUBSON WATERPROOF WORKS PVT LTD
281	66605	DULAL TRADING PVT. LTD.
282	32250	DUM DUM PLASICS PVT LTD
283	74295	DUROSEAL FLUOROTECH PVT. LTD.
284	30398	DYNAMIC SYSTEM PVT LTD
285	053259	E E I TECHNOLOGY PVT.LTD.
286	27480	EAST INDIA CASH CREDIT CO PVT LTD
287	85772	EAST WEST AIR CONDITIONING PRIVATE LIMITED
288	36579	EASTERN AUDIO PVT LTD
289	36400	EASTERN COAL TRADING COMPANY PVT LTD
290	38642	EASTERN DYNAMICS PVT.LTD.
291	30480	EASTERN MULTIMEX PVT LTD
292	28482	EASTERN REFINERY EQUIPMENT AND SERVICES PVT LTD
293	9812	EASTERN TYPE FOUNDRY AND ORIENTAL PRINTING WORKS PVT LTD
294	79007	ECONOMY MERCHANDISE PVT LTD
295	17697	EDISON ELECTRIC & ENGINEERING CO PVT LTD
296	20610	EDWARD MODERN CHEMICALS (INDIA) PVT LTD
297	30285	ELEGANT COMPOSITES PVT LTD
298	70759	EMPOSS TIE-UP PVT.LTD.
299	32635	EMTRONICS PVT LTD
300	79979	EPIC SECURITIES PVT LTD
301	70854	EPSON SALES PVT.LTD.
302	070841	EPSON SUPPLY PVT.LTD.
303	12399	EQUITABLE INVESTMENT CO PVT LTD
304	28992	ESTERN CHEMI COLOURS PVT LTD

UJJAWAL ROY
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following Companies

Chennai-6, the 05th September 2007

No. 40509 to 50127/560(3)/Suo Motto-2006—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Registrar and the said companies will be dissolved.

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1	40509	ACE TRAINS (INDIA) PRIVATE LIMITED
2	40518	SPEED LINE SERVICES PRIVATE LIMITED
3	40527	INRI MEDI & BIO-TECH PRIVATE LIMITED
4	40537	MARK YU EXPORTS PRIVATE LIMITED
5	40581	SHA TELELINKS PRIVATE LIMITED
6	40593	PRASANNA CEMENTS PRIVATE LIMITED
7	40614	DWAISIA PETRO LINKS PRIVATE LIMITED
8	40615	SIVANANDA CATTLE BREEDING AND EXPORT PRIVATE LIMITED
9	40628	JUMBOD EXPRESS SERVICES PRIVATE LIMITED
10	40664	VILAYIL CHITS (KUZHITHURAI) PRIVATE LIMITED
11	40665	JAYDAV INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
12	40707	HEPTA EXIM PRIVATE LIMITED
13	40724	VINO PAPER AND PLASTIC BOARDS PRIVATE LIMITED
14	40735	FLEXIGLAS SHELTERS PRIVATE LIMITED
15	40740	EAST FIELD ENGINEERS PRIVATE LIMITED
16	40741	SILICON SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
17	40745	ORBIT AIR LINKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
18	40752	RHC INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
19	40758	R.M.K.SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
20	40766	HANUMAN MANPOWER CONSULTANTS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
21	40774	RAMSON DISTELLERIES PRIVATE LIMITED
22	40777	QBA ITCOM PRIVATE LIMITED
23	40785	SANPAK SOFTWARE PRIVATE LIMITED
24	40787	RAJALAKSHMI PILGRIMAGE PRIVATE LIMITED
25	40793	AGRIMA AGRO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
26	40799	SNOW ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
27	40805	TELFIN MOTORS PRIVATE LIMITED
28	40812	METRO LABORATORIES CHENNAI PRIVATE LIMITED
29	40813	AMIANT PROPERTIES PRIVATE LIMITED
30	40822	SRI SELVASUNDARAM CHITS PRIVATE LIMITED
31	40826	SUN-DEV INFOPLUS PRIVATE LIMITED
32	40838	SEA BREEZEE EXPORTS PRIVATE LIMITED
33	40854	GAUTAMS OFFSET PRIVATE LIMITED
34	40862	MUTHATHAL TEXTILE PRIVATE LIMITED
35	40863	AEROSTAR EXPRESS PRIVATE LIMITED
36	40868	PROFESSIONAL HEALTH CARE EDUCATION PRIVATE LIMITED
37	40875	N & N AGRICULTURE (INDIA) PRIVATE LIMITED
38	40877	SREE SAKTHI AGRO FARM PRIVATE LIMITED
39	40880	DIGITNET INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
40	40885	ELANSABA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
41	40886	BARUNI TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
42	40887	PET ASIA PRIVATE LIMITED
43	40892	DIVYASREE FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
44	40900	VEL VALVES PRIVATE LIMITED
45	40925	YUPPIES COMPUTERS PRIVATE LIMITED
46	40928	SREE BHARATHIYAR CHITS PRIVATE LIMITED
47	40935	KIMBER & PARKS INDIA LIMITED
48	40940	EISENBERG AND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
49	40955	TEXNO ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
50	40963	INCRAFT SOFTWARE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
51	40969	ABOORVA MINERALS PRIVATE LIMITED
52	40970	HARINATH CDNSTRUCTION PRIVATE LIMITED
53	40987	SRI VELAVAN PAPER & BOARD MILLS PRIVATE LIMITED
54	40995	SRINIVASA MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
55	40996	MNR FASHIONS PRIVATE LIMITED
56	41004	CHITRAA MIN-KEM PRIVATE LIMITED
57	41006	AANANDD CONSTRUCTIONS & ENGINEERS PRIVATE LIMITED
58	41040	RAM WATERONICS PRIVATE LIMITED
59	41041	VELPRABHA SAGA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
60	41045	AVVAI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
61	41047	K.M.S. PLASTICS PRIVATE LIMITED
62	41048	JAIVANTH FOODS PRIVATE LIMITED
63	41051	PRANA EXPORTS PRIVATE LIMITED
64	41055	PENTA DESIGNS PRIVATE LIMITED
65	41056	JABSK COMPTech PRIVATE LIMITED
66	41059	ESKAYEN SERVICES PRIVATE LIMITED
67	41076	VEL MURUGA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
68	41101	G.S. ENTERTAINMENT CENTER PRIVATE LIMITED
69	41102	PREM PACKAGING AND TRADING PRIVATE LIMITED
70	41107	BAY ENGINEERS PRIVATE LIMITED
71	41111	RANDHAN COMPUTERS PRIVATE LIMITED
72	41113	GOOD DAY (INDIA) FINANCE LIMITED
73	41129	KARUR ALLWA AGRO FARM PRIVATE LIMITED
74	41132	JAIN SPICES AND PICKLES LIMITED
75	41139	TRIMAX ENGINEERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
76	41154	RAJCO TRAVELS LIMITED
77	41164	MINDTREND INFO TECH PRIVATE LIMITED
78	41179	PRAKASH TAPES PRIVATE LIMITED
79	41180	SRI RAJA RAJESWARI GEMS PRIVATE LIMITED
80	41182	GOODDAY CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
81	41186	GOVINDARAJ TRADING PRIVATE LIMITED
82	41195	FAIR MICRO CREDIT PRIVATE LIMITED
83	41202	THILLAI RAJAN REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
84	41214	G.V.K. FOOD PROCESSORS AND EXPORTERS PRIVATE LIMITED
85	41217	SMA EXPORTS PRIVATE LIMITED
86	41218	ALFRED ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
87	41221	UNIGRAND POWER SERVICE PRIVATE LIMITED
88	41236	SPARK INFORMATICS PRIVATE LIMITED
89	41241	RAYAR SHIMA RESORTS PRIVATE LIMITED
90	41244	VITTALSHA SILK PRIVATE LIMITED
91	41251	TAI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
92	41255	JAYAGANDHI TEXTILES PRIVATE LIMITED
93	41256	EUROLINK INTERNATIONAL TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
94	41258	R.B. RADIATORS PRIVATE LIMITED
95	41263	JAHNAVI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
96	41268	K.S.T. TEXTILES PRIVATE LIMITED
97	41271	ALTAIR GLOBAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
98	41281	PREMIER TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED
99	41287	KARTHIKEAN EXIM PRIVATE LIMITED
100	41290	NICHE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
101	41291	SUARNAREKHA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
102	41295	ABLOY HANIL BUTTONS PRIVATE LIMITED
103	41297	ESSYEN PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
104	41298	HI-LINE GRAPHICS PRIVATE LIMITED
105	41301	S.C. LEATHER PRIVATE LIMITED
106	41309	MAC JEY POLYMERS PRIVATE LIMITED
107	41323	MAGESWARI'S AART OF WORLD PRIVATE LIMITED
108	41328	INDUS HR CONSULTING PRIVATE LIMITED
109	41329	S.S. ELECTRICAL CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
110	41340	INTEGRATED SYNERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
111	41358	SILVER WINGS TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
112	41388	DIAMOND INTERIORS PRIVATE LIMITED
113	41398	SAJIN COCONUT FIBRE PRIVATE LIMITED
114	41400	KARTHIKEYAN SAGO FACTORY PRIVATE LIMITED
115	41402	NEW KARPAGAM READYMADES PRIVATE LIMITED
116	41419	ARMERLS MARKETING PRIVATE LIMITED
117	41420	INTERSTITCH FASHIONS PRIVATE LIMITED
118	41428	SPEED IMPEX PRIVATE LIMITED
119	41446	SALUBRITY EXPORTS PRIVATE LIMITED
120	41450	V.S.CAR CARE PRIVATE LIMITED
121	41451	FOURESS INFOTECH PRIVATE LIMITED
122	41453	S.V.L.ACADEMY PRIVATE LIMITED
123	41460	EBEL LEATHER GARMENTS PRIVATE LIMITED
124	41467	MANTHRAA INNOVATIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
125	41469	UNI-MET TREATMENTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
126	41476	WOMAN COMPUTERS PRIVATE LIMITED
127	41479	CHAMP INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
128	41482	R.S.FILMS PRIVATE LIMITED
129	41485	MIDAS CYBERCAFE PRIVATE LIMITED
130	41490	HITCH HIKER RESORTS PRIVATE LIMITED
131	41494	PRIDE INFOTECH PRIVATE LIMITED
132	41496	SUN SIGHT PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
133	41514	UNIMAK AQUA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
134	41530	VENKATESWARA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
135	41540	JAKKA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
136	41542	MOMENTUM CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
137	41547	EXACT AUTOMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
138	41560	SINEX IMPEX PRIVATE LIMITED
139	41562	INNATE TRADE SERVICES PRIVATE LIMITED
140	41565	DOSHI AND DOSHI WATCHES PRIVATE LIMITED
141	41566	LIBRA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
142	41573	CITY SERVICES CARD PRIVATE LIMITED
143	41591	PARVEEN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
144	41805	WINSEE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
145	41851	SIRADI FOODS PRIVATE LIMITED
146	41867	ELANCHIAM NARAYANAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
147	41871	XPED CONSULTING PRIVATE LIMITED
148	41875	METCO TRADING PRIVATE LIMITED
149	41882	JEY ESS JAY HOLDINGS PRIVATE LIMITED
150	41887	MAALGUDI RESTAURANT PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
151	41910	FTS INFOTECH PRIVATE LIMITED
152	41911	ACHU TOURS PRIVATE LIMITED
153	41912	VEL TRAVELS PRIVATE LIMITED
154	41930	JIJO AGENCIES PRIVATE LIMITED
155	41933	KAVYA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
156	41937	JOMON MARKETING PRIVATE LIMITED
157	41945	DEE GEE AAR SOUND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
158	41946	NANMUGI MARKETING PRIVATE LIMITED
159	41958	LAND-C EXPORTS PRIVATE LIMITED
160	41962	CAMPO RESEARCH PRIVATE LIMITED
161	41977	ROYAL CONSTRUCTIONS AND INFRASTRUCTURE PVT Ltd
162	41991	ZENTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
163	42003	IIST.COM PRIVATE LIMITED
164	42008	CORNICHE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
165	42011	ASRAMM AGRO PRIVATE LIMITED
166	42018	SAYAPUTIRAR CHEM PRIVATE LIMITED
167	42019	SRI RENUGAMBAL COMPUTER ACADEMY PRIVATE LIMITED
168	42052	NAHAR & NAHAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED
169	42059	ANUBHAVAN IMPEX PRIVATE LIMITED
170	42064	ASTHETIC INFOTECH PRIVATE LIMITED
171	42078	DECORBEES CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
172	42110	NGL VASANTH FINANCE & INVESTMENTS LIMITED
173	42124	CHINNAMANUR SRI LAKSHMI NARAYANA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
174	42125	KELVIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
175	42140	VENUS P.U.FOAMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
176	42141	B.B. FILMS AND MASS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
177	42143	PASUMPON GRAPHITES AND POWER COMPANY PRIVATE LIMITED
178	42145	ACEEYES CINEEARTS PRIVATE LIMITED
179	42146	AMMU TRADERS PRIVATE LIMITED
180	42157	MASA FOREX PRIVATE LIMITED
181	42160	JAYA EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
182	42175	A.H.BOGIS EXPORTS PRIVATE LIMITED
183	42179	TECSOL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
184	42200	JAYARAM BUILDERS PRIVATE LIMITED
185	42221	LAL SYRINGES MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
186	42229	ROYAL FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
187	42234	SUGIN REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
188	42241	RATHINAM NADAR TRADING PRIVATE LIMITED
189	42245	TOMORROW'S TECHNOLOGY TODAY (INDIA) PRIVATE LIMITED
190	42250	SEA SHORE MINERALS PRIVATE LIMITED
191	42259	MOSQUIT INNOVATIVE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
192	42265	ASTRA REALTY PRIVATE LIMITED
193	42271	HOT SPOT KITCHEN PRIVATE LIMITED
194	42272	JOEVIN JUBILEE TRADE & EXPORTS PRIVATE LIMITED
195	42282	IIST INFOSYS LIMITED
196	42286	T-SOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
197	42292	REL-TRA HARDWARE PRIVATE LIMITED
198	42305	EMERALD SHIPPING SERVICES (SOUTH) PRIVATE LIMITED
199	42363	GEMINI CYBER PRIVATE LIMITED
200	42367	ALWAR KEROSENE & TRADES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
201	42406	MORA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
202	42411	SHARIEF LEATHER IMPEX PRIVATE LIMITED
203	42415	P.R.B.PRIME CARDS PRIVATE LIMITED
204	42416	DEVINARAYAN HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
205	42417	ANT SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
206	42421	DAVID BUILDERS PRIVATE LIMITED
207	42428	GREEN CHANNELS NETWORKS PRIVATE LIMITED
208	42429	COFF-T-PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
209	42435	MET-TREAT APPLICATION SOFTWARE PRIVATE LIMITED
210	42451	ZEALOT TECNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
211	42480	FX TECH SHOP PRIVATE LIMITED
212	42484	LAXMIN TECHNO PROCESS PRIVATE LIMITED
213	42489	TRR EXPORTS PRIVATE LIMITED
214	42494	A.V. HEALTH CENTRE PRIVATE LIMITED
215	42504	COMNET COMPUTERS PRIVATE LIMITED
216	42532	MASSKK INFOCOMPUTECH PRIVATE LIMITED
217	42534	EXPANS COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
218	42537	RURAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
219	42540	JUPITER CARPET PRIVATE LIMITED
220	42543	REPS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
221	42546	PROMPT ENGINEERS PRIVATE LIMITED
222	42553	DR. S. SUBRAMANIAN EYE HOSPITAL PRIVATE LIMITED
223	42564	SRISHA STOCKS PRIVATE LIMITED
224	42571	DEVA SYSTEM AND SOLUTION PRIVATE LIMITED
225	42575	PEARL QUOTATIONS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
226	42579	VBS FASHIONS PRIVATE LIMITED
227	42581	ESS BEE SHARES PRIVATE LIMITED
228	42594	SAI SANDESH ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED
229	42596	MAPLE ENERGEX SERVICES PRIVATE LIMITED
230	42597	UZHAVAR SUGAR MILLS PRIVATE LIMITED
231	42598	EAGLE HEALTH CARE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
232	42600	KARASSI FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
233	42609	DOWN TOWN SERVICES PRIVATE LIMITED
234	42610	SYNCTRA INFOWARE COMPANY PRIVATE LIMITED
235	42614	RAHUL WINGS (INDIA) PRIVATE LIMITED
236	42679	FUN WORLD TOYS PRIVATE LIMITED
237	42684	MADAGANJI TEX EXPORTS PRIVATE LIMITED
238	42688	HOKD FREIGHT PRIVATE LIMITED
239	42690	THOOTHUKUDY M.P.R.AGENCIES LIMITED
240	42713	KRS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
241	42726	NEW TRANSWORLD BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
242	42728	MASK COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
243	42731	INDUS CARD! CARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
244	42742	SANJEEVAMMA CDNSTRUCTIONS COMPANY PRIVATE LIMITED
245	42756	LEADER EDUCATIONAL COUNSELLING PRIVATE LIMITED
246	42757	PASSPORT COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
247	42768	SPHINX MINERAL WATER PRIVATE LIMITED
248	42780	ANILLA AGRO PRIVATE LIMITED
249	42804	VARSHAD ALUMINIUM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
250	42807	CHENNAI ENTERTAINERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
251	42820	U-V MARKETING PRIVATE LIMITED
252	42823	MIDDLE EAST TYLOS COMPUTERS INDIA PRIVATE LIMITED
253	42825	RADHIKA PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
254	42832	DEBWIN MEN POWERS PRIVATE LIMITED
255	42834	WORDWISE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
256	42839	D.S.S. ENGINEERING AND INDUSTRIAL EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
257	42842	LALWANI TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
258	42848	THENATCHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
259	42850	MMK AGRI EXPORTS PRIVATE LIMITED
260	42851	TRANSCRIPTION SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
261	42854	J.R.K EXPORTS PRIVATE LIMITED
262	42858	OMNISCRIBE SOLUTIONS LIMITED
263	42867	PANAVISION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
264	42879	VILASH ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
265	42881	SREE VIGNESH HYDRAULIC FINISH PRIVATE LIMITED
266	42883	JESU TRAVEL INITIATIVES PRIVATE LIMITED
267	42886	SHANRAJ ESTATES PRIVATE LIMITED
268	42888	VPS COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
269	42902	PHOENIX SAFETY MATCHES AND FIREWORKS EXPORTS PRIVATE LIMITED
270	42903	FINE HERBS AND SPICES EXPORTS PRIVATE LIMITED
271	42904	COOL LOOK OPTICS PRIVATE LIMITED
272	42914	VAAYU MARKETING PRIVATE LIMITED
273	42916	TRINITY POWERLINK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
274	42917	R.G. SURGICALS PRIVATE LIMITED
275	42923	AKSHAYA COMPUTERS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
276	42945	ROYCE APPAREL GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED
277	42947	SHRI SHANMUGA ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
278	42953	THRISUL AGRI BIOTECH PRIVATE LIMITED
279	42958	V.D.INFOTECH PRIVATE LIMITED
280	42960	SIS SOLUTION PRIVATE LIMITED
281	42961	HOTEL CHIDHAMBARA RAJAM PRIVATE LIMITED
282	42963	BISON LABORATORIES PRIVATE LIMITED
283	42964	KIRAN SQUAREWARE PRIVATE LIMITED
284	42976	MOTHER LAND SHIPPING COMPANY PRIVATE LIMITED
285	42977	EFFICIENT HERBAL FUEL PRIVATE LIMITED
286	42986	BOSTTON ENGINEERING CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
287	42988	RASHMI TIMBER PRIVATE LIMITED
288	43001	SAHANI IMPEX PRIVATE LIMITED
289	43016	SPECTRUM KITCHEN DEVICES PRIVATE LIMITED
290	43019	RED & GREEN INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
291	43026	INSIGHT ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
292	43028	EUTYCHUS EXIM PRIVATE LIMITED
293	43030	THOMSON LPG TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
294	43037	REVATHI GRANITES PRIVATE LIMITED
295	43039	MARUDU EXPORTS PRIVATE LIMITED
296	43041	CHENNAI SELF REALISATION CENTRE PRIVATE LIMITED
297	43042	VAS EQUIPMENTS AND INDUSTRIAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
298	43050	BAIRAHA DESI FARMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
299	43052	WIND INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM PRIVATE LIMITED
300	43054	ROCKCITY GREEN WORLD PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
301	43068	SHIRDI TELEVISTAS PRIVATE LIMITED
302	43070	TOPNOTCH MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
303	43071	FREEDOM COMPUTERS PRIVATE LIMITED
304	43073	A.R.R. KIDS WORLD PRIVATE LIMITED
305	43076	INTEL COMEX MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED
306	43078	KAMKAR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
307	43081	SPECIALCEM PAINTS COMPANY PRIVATE LIMITED
308	43084	THARINI FOAM PRIVATE LIMITED
309	43088	KANMALAI HOUSING DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
310	43106	SAINAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED
311	43110	CHORDIA MARKETING PRIVATE LIMITED
312	43121	T.S.R. CHITS PRIVATE LIMITED
313	43122	RASP ENGINEERING PRIVATE LIMITED
314	43146	CHOLAN SUGARS LIMITED
315	43150	SUMRA CHITS PRIVATE LIMITED
316	43159	DERMA RX COSMETICS PRIVATE LIMITED
317	43176	IMPERIAL SECURITY & DETECTIVE BUREAU INDIA PRIVATE LIMITED
318	43178	CORNUCOPIA COMMUNICATION SERVICE PRIVATE LIMITED
319	43179	DIAFREE HERBALCONCEPTS PRIVATE LIMITED
320	43190	MARUVUR ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
321	43191	PODIUM FASHIONS PRIVATE LIMITED
322	43200	SILMIYA FOREX PRIVATE LIMITED
323	43207	VRINDAGIRI FOODS PRIVATE LIMITED
324	43209	VIKVIS TRADING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
325	43211	BRAHMAA FOUNDATION PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
326	43214	GREEN CHANNEL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
327	43215	HI-SPEED NETWORK EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
328	43217	TRANSVAL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
329	43310	MAXUM HOSPITALS PRIVATE LIMITED
330	43326	VALLUVAR CHITS PRIVATE LIMITED
331	43333	CRAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
332	43334	PELICAN BIO INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
333	43338	AALFOO IMPEX PRIVATE LIMITED
334	43341	SHATKALA CREATIONS PRIVATE LIMITED
335	43342	GAYATHRI OFFSHORE SERVICES PRIVATE LIMITED
336	43343	SONNETO IMPEX PRIVATE LIMITED
337	43346	R.A. MUBARAK SECURITY ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
338	43350	VISHWADHARA CHITS PRIVATE LIMITED
339	43355	ARULMIGU VEEGEE CHITS PRIVATE LIMITED
340	43397	SAKTHI SHREE TRANSCRIPTIONS PRIVATE LIMITED
341	43398	LEAD AUDIO AND VIDEO PRIVATE LIMITED
342	43417	OHMS AUTOMATION PRIVATE LIMITED
343	43426	KRS CNC PRODUCTS PRIVATE LIMITED
344	43437	MILLENNIUM MARINE PRIVATE LIMITED
345	43447	CHENNAI SATSYSTEMS PRIVATE LIMITED
346	43453	SUMS MARINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
347	43462	JAWAHAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED
348	43466	K.R.V. EXPORTS PRIVATE LIMITED
349	43484	E-ZONE INFOTECH PRIVATE LIMITED
350	43524	GENIUS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
351	43531	KCM FOREX SERVICES PRIVATE LIMITED
352	43560	SEENU EXPORTS PRIVATE LIMITED
353	43580	KWIKON GAS PRIVATE LIMITED
354	43587	MPL MARKETING LIMITED
355	43593	WP BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
356	43595	PRB BUILDERS PRIVATE LIMITED
357	43598	CHENNAI AIR-SYSTEMS PRIVATE LIMITED
358	43605	JUVENILE EXPORTS PRIVATE LIMITED
359	43607	GUHAN TECH AND RESOURCES PRIVATE LIMITED
360	43619	EMERALD MARKETING ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
361	43620	SPS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
362	43628	C.R.K.COMPUTERS PRIVATE LIMITED
363	43629	LEY'S FOOD PRIVATE LIMITED
364	43649	BINNSAI LOGISTICS PRIVATE LIMITED
365	43680	LIKE CHITS PRIVATE LIMITED
366	43687	VAASUM SOFTTECH PRIVATE LIMITED
367	43689	SEEKERS HOSPITALITY MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
368	43705	CRAYON ENGINEERS PRIVATE LIMITED
369	43707	VISHANTI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
370	43710	PONDICHERRY WATERPROOFERS PRIVATE LIMITED
371	43715	QUADRA POWER ENGINEERS PRIVATE LIMITED
372	43719	TELE DATA NETWORKING SERVICES PRIVATE LIMITED
373	43723	MELD CHEMICALS PRIVATE LIMITED
374	43728	CPPS ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
375	43730	MADURAI SRI RAGAVENDRA AUTO ANCILLARIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
376	43737	SHINELUCK FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
377	43750	CORPORATE EXPO & CONVENTIONS PRIVATE LIMITED
378	43762	J.B.NAG HYGIENICS PRIVATE LIMITED
379	43765	NUCLEA IMPEX PRIVATE LIMITED
380	43768	VIJAYVISHNU HOUSING PRIVATE LIMITED
381	43774	LARA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
382	43780	MOOKAMBIGAI CEMENTS PRIVATE LIMITED
383	43781	DARTER OVERSEAS TRADING PRIVATE LIMITED
384	43787	KANIMAVALAM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
385	44003	ELEGANT PRINT SYSTEM PRIVATE LIMITED
386	44004	PROMINENT SERVICES PRIVATE LIMITED
387	44008	MAXELL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
388	44039	AIRTEL INFOSYS INDIA PRIVATE LIMITED
389	44061	UC WORLD ONLINE LIMITED
390	44091	PUNITH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
391	44107	ESSELL MEDI TRANSCRIPTS PRIVATE LIMITED
392	44208	SINGAPORE INSURANCE BROKERS INDIA PRIVATE LIMITED
393	44209	TRITECH EXIM PRIVATE LIMITED
394	44210	GASHPY SOFTWARE LIMITED
395	44213	DAY CARE FRAGRANCES PRIVATE LIMITED
396	44214	TARGET SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
397	44223	SOUNDARYA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
398	44233	SABI IMPEX PRIVATE LIMITED
399	44258	SREE MARUTHI AUTO CONVERSION KITS PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
400	44266	ESPOCH SYSTEMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
401	44277	INNOVATIVE CAD GRAFX PRIVATE LIMITED
402	44282	BONSAI ENGINEERING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
403	44297	VIJAYAN MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
404	44298	ARUNAI CITY CABLE NETWORK PRIVATE LIMITED
405	44302	JYOTHI ROADWAYS PRIVATE LIMITED
406	44312	BENROSS ENGINEERING AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
407	44319	SRI ABIRAMI POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
408	44321	ECO FIBRES PRIVATE LIMITED
409	44332	SHANK INDIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
410	44334	SRI DEVI FLY ASH BRICKS PRIVATE LIMITED
411	44335	NAYEET IMPEX PRIVATE LIMITED
412	44339	IMAGE FUSION.COM PRIVATE LIMITED
413	44348	EVERBRAIN SOFT TECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
414	44351	INNOVATIVE PROJECTS PRIVATE LIMITED
415	44355	SRI MEENAKSHI METAL COMPONENTS PRIVATE LIMITED
416	44358	FERNOF METALS PRIVATE LIMITED
417	44359	SAMYU E-BIZTECHS PRIVATE LIMITED
418	44361	DHANA BUILDERS INDIA PRIVATE LIMITED
419	44374	GURU PRAKKASH HOTELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
420	44378	GLOBSTAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
421	44391	EL-SHIELD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
422	44394	SRI GOVIND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
423	44395	ICG IMPEX PRIVATE LIMITED
424	44400	S R SINETECH PRIVATE LIMITED
425	44434	ALL TIME SOLUTIONS.COM PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
426	44448	ALLEGRO FREIGHT FORWARDERS AND TRADERS PRIVATE LIMITED
427	44460	ABCON COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
428	44463	GOMATHIRAM CHEMICALS PRIVATE LIMITED
429	44485	WEB WORLD DATA SERVICES PRIVATE LIMITED
430	44504	TRADITION TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
431	44511	CAARPLUS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
432	44522	PREEMPT INSTITUTE OF CONTINUING EDUCATION PRIVATE LIMITED
433	44539	DANIEL ELECTRIC COMPANY PRIVATE LIMITED
434	44556	H.M. HOSPITAL(CHENNAI) PRIVATE LIMITED
435	44557	PENTA SOFTSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
436	44562	VJ GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
437	44572	ULYSSES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
438	44580	PVP INFOMEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
439	44581	EDGE NETVENTURES PRIVATE LIMITED
440	44582	ANDHRA HERBOCHEM PRIVATE LIMITED
441	44588	A.K.S.MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED
442	44590	WORLDLINK INDIA.COM PRIVATE LIMITED
443	44597	DCVS HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
444	44599	NEXTLINX SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
445	44610	INSSITRA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
446	44614	ANNAMMAI CASTORS PRIVATE LIMITED
447	44632	FACE ADVANCED COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
448	44634	EXPLICIT ENGINEERING PRIVATE LIMITED
449	44635	PUSHPALOK EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
450	44640	CHINNAMANUR SRI SARAVANA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
451	44666	AGS IMPORT PRIVATE LIMITED
452	44667	QUEST E-COM PRIVATE LIMITED
453	44685	INTRICATE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
454	44686	SRIVARI SYSTEMS AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
455	44713	TYCOON PRODUCTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
456	44881	EZHIL PROMOTERS PRIVATE LIMITED
457	45112	INFO HIGHWAY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
458	45136	HAPPY SHOPPERS PRIVATE LIMITED
459	45172	MADRAS MARINESAFETY & CARE PRIVATE LIMITED
460	45186	VRG SPACERADIO PRIVATE LIMITED
461	45192	KEGISOONS & BROTHERS PRIVATE LIMITED
462	45214	JAGADRAJ BIOPOWER ENGINEERS PRIVATE LIMITED
463	45215	FREE ADVANCED COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
464	45226	STEPHENAS COMPUTERS PRIVATE LIMITED
465	45242	NET MERGE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
466	45253	GOLD CREST GARMENTS PRIVATE LIMITED
467	45259	CITIHOME SERVICES PRIVATE LIMITED
468	45260	ANAND-JON COMPANY PRIVATE LIMITED
469	45268	LOGIC SCANNING TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
470	45271	REHOBOTH MARITIME PRIVATE LIMITED
471	45278	HARDCORE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
472	45284	PRANAM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
473	45291	S B K SHIPPING PRIVATE LIMITED
474	45294	SAMBA TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
475	45310	ANUVINU TRADING PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
476	45313	NEW LIMRA AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
477	45341	NEW ERA JOBS COMPANY PRIVATE LIMITED
478	45349	YOUNG TRANSPORT AGENCY PRIVATE LIMITED
479	45350	ePEOPLE CONSULTANCE PRIVATE LIMITED
480	45363	CHENNAI FRONT PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
481	45366	HITECH CHITFUND PRIVATE LIMITED
482	45370	VISUALRAY INFOWAY PRIVATE LIMITED
483	45384	HIMALAYAN HOME NEEDS PRIVATE LIMITED
484	45388	INPRACTICE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
485	45395	STAR FOREX INDIA PRIVATE LIMITED
486	45402	PATCHMAGIC EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
487	45405	SHREE BALAJI DARSHAN HOTELS PRIVATE LIMITED
488	45413	PCS IMPEX MARKETING PRIVATE LIMITED
489	45427	DHANAVANTRI AGENCIES PRIVATE LIMITED
490	45432	M.S. ENGINEERING CONSULTANTS & CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
491	45440	SKYLINE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
492	45442	NAMAH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
493	45446	BROLLCOM INFO SOLUTION PRIVATE LIMITED
494	45448	NILE IMPORT & EXPORT PRIVATE LIMITED
495	45453	CHEARAAN R AND D SYSTEMS PRIVATE LIMITED
496	45455	VILAVANCODE CHIT FUND PRIVATE LIMITED
497	45457	QUICKSILVER APPARELS INDIA PRIVATE LIMITED
498	45476	KINGINI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
499	45483	PARADIGM E-SERVICES PRIVATE LIMITED
500	45485	SHIVRUK GRANITES & MARBLES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
501	45502	INAMCO (INDIA) PRIVATE LIMITED
502	45505	MANNA MARKETING SERVICE PRIVATE LIMITED
503	45507	SRIK PROPERTY DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED
504	45509	TARGET NETWORK PRIVATE LIMITED
505	45516	BEANSHOP CONSULTING PRIVATE LIMITED
506	45518	MEGASOFT INTEGRATED TRAINING CENTRE PRIVATE LTD
507	45529	RUDRA SOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
508	45563	NON BARGAIN ADVANTAGE SERVICES PRIVATE LIMITED
509	45566	DIGITALWAVE TECHNOLOGIES & RESEARCH INSTITUTE PRIVATE LIMITED
510	45573	MADRAS LALITHA REALTY COMPANY PRIVATE LIMITED
511	45581	PIXEL PRODUCTION PRIVATE LIMITED
512	45600	ARVEE FASHIONS PRIVATE LIMITED
513	45601	ARVEE TRENDS PRIVATE LIMITED
514	45602	CONSORTIUM MINERALS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
515	45605	E-SELF SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
516	45622	CHENNAI INSURANCE COMPANY LIMITED
517	45629	N-SAKKTHI SREE TECHNOO PRIVATE LIMITED
518	45650	KAN SYSTEMS.COM PRIVATE LIMITED
519	45661	SOUTHPOINT CONTAINER LOGISTICS PRIVATE LIMITED
520	45662	VANI COMPUTER ACADEMY PRIVATE LIMITED
521	45685	LEAD INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
522	45686	J.P.S. TRAVELS & CARGO PRIVATE LIMITED
523	45693	MAXICOL ADHESIVES PRIVATE LIMITED
524	45694	R.H.CAMBIO PRIVATE LIMITED
525	45696	SARAVANAA PROJECTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
526	45708	TRANSWORLD DETECTIVE BUREAU PRIVATE LIMITED
527	45709	M.P.M. SHANTHI TRADERS PRIVATE LIMITED
528	45712	MY SHARES PRIVATE LIMITED
529	45733	TEKSOFT TRANSCRIPTION PRIVATE LIMITED
530	45743	SUKRA DISTRIBUTORS INDIA PRIVATE LIMITED
531	45749	AMET SHIPMANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
532	45751	THANDAPANI TEXTILE MILL PRIVATE LIMITED
533	45757	TN COMMERCIAL & INDUSTRIAL GUIDE PRIVATE LIMITED
534	45762	IVISTAS NETWORK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
535	45764	ABANI SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
536	45777	VETTRI TANKER SERVICES PRIVATE LIMITED
537	45789	YASHNA DRUGS PRIVATE LIMITED
538	45794	ALAGU VINAYAGA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
539	45796	DATA GENERALE (INDIA) LIMITED
540	45802	HEBRON FOODS PRIVATE LIMITED
541	45812	SPARSH CONNECTIONS PRIVATE LIMITED
542	45818	AREM AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
543	45826	HEBRON IMAGE MAKERS PRIVATE LIMITED
544	45841	HIMALAYA CREATIONS PRIVATE LIMITED
545	45863	I ZENN MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
546	45873	VARYSOFT CONTROLS & TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
547	45875	PANDIT MARINE PRIVATE LIMITED
548	45887	MASOF SYSTEMS PRIVATE LIMITED
549	45896	ABC NETS PRIVATE LIMITED
550	45899	ALERT MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
551	45928	CTH-SOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
552	45937	TRIPLE ACES PRIVATE LIMITED
553	45939	DIGIMAGIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
554	45951	HOTEL VEVASAI PRIVATE LIMITED
555	45979	LIVINGSTONE CHITS PRIVATE LIMITED
556	45993	GRAYLINE ADVERTISING AND DIGITAL STUDIO PRIVATE LIMITED
557	45998	CHENNAI SHOPPEE PRIVATE LIMITED
558	46002	VEGA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
559	46004	VOJUS SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
560	46005	SPADE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
561	46007	TASK SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
562	46012	APPALA BUILDERS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
563	46019	APSUN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
564	46022	V.J. CHIT FUND PRIVATE LIMITED
565	46040	SRIVATSAVA ECO-FRIENDLY PAPERS PRIVATE LIMITED
566	46041	BANU IMPEX PRIVATE LIMITED
567	46046	TRITAAN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
568	46047	HILL AND WILL HEALTH CARE TECH PRIVATE LIMITED
569	46049	CHOICE CREATIONS PRIVATE LIMITED
570	46051	JRS MEDIA PRIVATE LIMITED
571	46053	ALWARR CHEMCO PRIVATE LIMITED
572	46056	SP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
573	46057	ORION NUTRACEUTICALS PRIVATE LIMITED
574	46058	AROMATICA EXPORTS PRIVATE LIMITED
575	46059	VEL AQUA TECH PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
✓ 576	46061	KANCHEE CARGO PRIVATE LIMITED
577	46064	IDENTITI SOFT PRIVATE LIMITED
578	46071	FUGENSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
579	46074	INTEL EDUCATION PRIVATE LIMITED
580	46075	HILROY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
581	46077	SAVITHA FLATS PROMOTERS PRIVATE LIMITED
582	46091	SAGACIOUS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
583	46092	MEDICINE DOT COM PRIVATE LIMITED
584	46107	LAA BELLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
585	46111	YESDEEYEN CARGO CONNEXION PRIVATE LIMITED
586	46112	AISHA SHOE PRIVATE LIMITED
587	46124	EVERTRUST EXIM (INDIA) PRIVATE LIMITED
588	46126	SRI RAGHAVENDRA RESIDENCY PRIVATE LIMITED
589	46128	TRINITY FORWARDERS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
590	46129	SYFRE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
591	46130	RURALFOCUS.COM PRIVATE LIMITED
592	46133	JAIKISSAN HITECH AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
593	46149	KNOWLEDGE FOUNDATION PRIVATE LIMITED
594	46150	VIRIKSHA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
595	46152	MELIORA CAPITAL PRIVATE LIMITED
596	46156	SHARK INFOTECH PRIVATE LIMITED
597	46157	SARON METAL ART PRIVATE LIMITED
598	46162	COGENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
599	46163	VANIYAMBADI R.S. HOSPITALS PRIVATE LIMITED
600	46171	METAPHOR FILMS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
601	46172	BALVIK TRADING PRIVATE LIMITED
602	46174	DURGALAKSHMI DAIRY PRIVATE LIMITED
603	46175	INDAR TILES & SANITATIONS PRIVATE LIMITED
604	46176	F & B MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
605	46180	JOTHIKA EXPORTS PRIVATE LIMITED
606	46185	TRANSUNITED TRAVELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
607	46186	ABIRAMI HOTELS PRIVATE LIMITED
608	46187	BAY IT SERVICES PRIVATE LIMITED
609	46191	T C M BUILDERS PRIVATE LIMITED
610	46219	IIN FOCUS.COM PRIVATE LIMITED
611	46220	DENOVO CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
612	46224	FLUTON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
613	46225	ACUITY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
614	46226	SUNCITIIND A-MAIL EXPRESS PRIVATE LIMITED
615	46228	SPG OVERSEAS FOODS PRIVATE LIMITED
616	46229	SKYMACH NETWORK SERVICES PRIVATE LIMITED
617	46230	SKYMACH INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED
618	46231	PROPINDIA.COM PRIVATE LIMITED
619	46242	STRATEGIC WEBCOM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
620	46244	P.M.R. COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
621	46250	CHEZER EXIM PRIVATE LIMITED
622	46265	BLUESTEEL OVERSEAS LEATHERS PRIVATE LIMITED
623	46266	OPENWAVE DSS PRIVATE LIMITED
624	46271	JAIERA SUNSHINE DIGITAL RECORDING PRIVATE LIMITED
625	46277	B2G INFOTECH PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
626	46285	AMMAS' INTERLINKX.COMM PRIVATE LIMITED
627	46286	QUIC AUTOMATION PRIVATE LIMITED
628	46287	NIKETAN INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
629	46295	SRI E.M.R. CHITS PRIVATE LIMITED
630	46297	BBA SOFTWARE AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
631	46302	PANVIEW TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
632	46304	SHINY FARMS & BUILDERS PRIVATE LIMITED
633	46309	SEA GULL COMMUNICATION SERVICE PRIVATE LIMITED
634	46313	RSK PICTURES PRIVATE LIMITED
635	46314	HEBRON SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
636	46317	SARC PHARMACHEM PRIVATE LIMITED
637	46318	BALLAK IMPEX PRIVATE LIMITED
638	46320	SUCCESS VENTURES PRIVATE LIMITED
639	46322	RAGHUNATH GREEN POWER PRIVATE LIMITED
640	46323	THIRUMALA GREEN POWER ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
641	46324	GREEN POWER REALTORS PRIVATE LIMITED
642	46325	PAWAN GREEN CHANNEL PRIVATE LIMITED
643	46329	S.G. VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED
644	46331	METRO NETWORK PRIVATE LIMITED
645	46337	EVOLVE SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
646	46341	WINXS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
647	46348	GETHSEMANE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
648	46352	BRAHMA WEBBIZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
649	46355	SUPERTRONIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
650	46360	ARMSTRONG TECHSKILL TRAINING & RECRUITMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
651	46365	COMEXIM TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
652	46369	ETG SOFTTECH PRIVATE LIMITED
653	46372	JASSIEL COMPUTERS PRIVATE LIMITED
654	46376	WINVARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
655	46378	PRIMIAR NETWORK TAMILNADU PRIVATE LIMITED
656	46380	CUSTOMISED QUALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
657	46382	RATNADEEP SECURITIES PRIVATE LIMITED
658	46384	CALIBERPLUS SYSTEMS AND SOLUTION PRIVATE LIMITED
659	46391	TIARA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
660	46408	REAL TIME PROJECTS PRIVATE LIMITED
661	46419	CIW ENGINEERING PRIVATE LIMITED
662	46421	FANTAS IMAGE PRIVATE LIMITED
663	46424	WINTAKE SHARES PRIVATE LIMITED
664	46427	HEAVEN IMPEX PRIVATE LIMITED
665	46429	SHIKSHAK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
666	46432	ADINATH ENERGY PRIVATE LIMITED
667	46433	STREAMS TRADING PRIVATE LIMITED
668	46437	SREESEL EXPORT PRIVATE LIMITED
669	46440	I-COM ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
670	46441	BLU I-BIO TEC PRIVATE LIMITED
671	46444	RUSHMI INTERNET ADVERTISING COMPANY PRIVATE LIMITED
672	46447	FM SYSTEMS PRIVATE LIMITED
673	46448	FORT PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
674	46450	STEALTH DETECTIVES AND SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
675	46455	ADEPTE SOFTWARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
676	46456	DDM CHITS PRIVATE LIMITED
677	46458	CEEDEEYES HOLIDAY HOMES PRIVATE LIMITED
678	46460	GRAND CITY PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
679	46463	DALSIN TRAVEL SERVICE PRIVATE LIMITED
680	46467	CALL US INDIA LIMITED
681	46476	KVS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
682	46478	PADANTHALUMOODU DOUBLE YEZ CHITS PRIVATE LIMITED
683	46480	SHASTRA WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
684	46482	PENTARRKS INFOTECH PRIVATE LIMITED
685	46484	EXXIN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
686	46490	INSEM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
687	46499	MASHOOR COSTUMES AND UTILITIES SHOPPERS PRIVATE LIMITED
688	46500	SUN CAR CARE CENTRE PRIVATE LIMITED
689	46501	GRAND CASH FOREX PRIVATE LIMITED
690	46506	LADDER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
691	46507	AYYAPPAS TRAVELS & TOURS PRIVATE LIMITED
692	46508	EKAMBARESHWAR HOUSING DEVELOPMENT & EXPORTS PRIVATE LIMITED
693	46509	BEAM-SOFT PRIVATE LIMITED
694	46510	PARASAKTHI SYSTEMS PRIVATE LIMITED
695	46511	MOUNT SHIPPING & MARINE COMPANY PRIVATE LIMITED
696	46517	UNITY HERBO HEALTH CORNERS PRIVATE LIMITED
697	46519	AMAZE COMPUTERS PRIVATE LIMITED
698	46520	VICTORY ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
699	46521	VEGASE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
700	46523	VEL SOFTECH WORLD PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
701	46526	ATLANTICSOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
702	46528	VITARANAA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
703	46529	MARVI FOOD PRODUCT PRIVATE LIMITED
704	46530	SULTANA HERBALS PRIVATE LIMITED
705	46536	TYCOON MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
706	46541	AGILEONE (INDIA) PRIVATE LIMITED
707	46542	YELLOW CABS (INDIA) PRIVATE LIMITED
708	46543	JAYAGANGA AGROVET PRIVATE LIMITED
709	46544	SUNLITE e COMM PRIVATE LIMITED
710	46546	SOFTLINK SCHOOL OF COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
711	46553	ABA FILMS PRIVATE LIMITED
712	46555	DATADRIVE INFOTECH PRIVATE LIMITED
713	46556	GENOME TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
714	46558	CYBERCHIPPS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
715	46562	TERRAFIRMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
716	46565	RICH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
717	46569	ORSON AUTOMATION PRIVATE LIMITED
718	46579	FESTAL MARKETING PRIVATE LIMITED
719	46582	G.D.NADAR PAPER COMPANY PRIVATE LIMITED
720	46584	PRUDENT VENTURES PRIVATE LIMITED
721	46585	MILLENIUM MINERALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
722	46586	LANDMARK LANDSCAPES PRIVATE LIMITED
723	46587	HILL TOP COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
724	46588	DATABASE INDIA INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
725	46591	MAB DECILLION COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
726	46594	OYNASYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
727	46596	SINOSTAR TRADERS INDIA PRIVATE LIMITED
728	46604	RAMSYS SPORTWARE & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
729	46609	GLIMIGULSHAN IMPEX PRIVATE LIMITED
730	46614	GJEYALOGIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
731	46623	SUHERA MINERALS PRIVATE LIMITED
732	46627	VENKAT REALTY PRIVATE LIMITED
733	46629	MOGAM IMPEX PRIVATE LIMITED
734	46637	WEB-I.COM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
735	46647	CYBERSTAR SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
736	46654	MANAVATES NETWORK PRIVATE LIMITED
737	46655	TRINITY FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
738	46656	ATOZ DOMESTIC SERVICES PRIVATE LIMITED
739	46675	ROSHNI NET PRIVATE LIMITED
740	46677	GUILD SYSTEMS PRIVATE LIMITED
741	46682	PB LINKS PRIVATE LIMITED
742	46683	DHOWLANS FOODS PRIVATE LIMITED
743	46696	KANCHEE GRANITES PRIVATE LIMITED
744	46699	SIDOKA CANCER HOSPITAL PRIVATE LIMITED
745	46702	SREE KRUSHI DIGITAL GRAPHICS PRIVATE LIMITED
746	46703	MBBS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
747	46704	ANR FASHIONS LIMITED
748	46705	INFOSTREAK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
749	46709	P C S SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
750	46713	PCS SYSTEMS AND SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
751	46717	NEMESIS INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
752	46720	PROCLAIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
753	46725	PAISAPOWER NETWORK PRIVATE LIMITED
754	46757	RAHUMANIAA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
755	46761	GENIUS SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
756	46768	SKYSHOOT.COM PRIVATE LIMITED
757	46770	GLINSYS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
758	46773	BETTER WDRLD SERVICES PRIVATE LIMITED
759	46775	SATLINK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
760	46778	SKY SAFEWAY INFOTECH PRIVATE LIMITED
761	46780	SILK ROUTE NETWORK PRIVATE LIMITED
762	46787	PROACT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
763	46788	LIMCO MARKETING PRIVATE LIMITED
764	46901	ROBUST CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
765	46908	PONN MAYIL JEWELLERIES PRIVATE LIMITED
766	46909	BESTIN MULTI PACK SYSTEMS PRIVATE LIMITED
767	46916	GOLDENINDIANS COMPUTER SERVICES LIMITED
768	46917	TRILUX AIRLINES LIMITED
769	46930	EDWIN MARKETING PRIVATE LIMITED
770	46932	SEPHALIK INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
771	46934	CHIPSYS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
772	46935	ARULANANTH FOUNDRIES PRIVATE LIMITED
773	46938	ZEBRA EXPORTS PRIVATE LIMITED
774	46941	SANKHESWARA STOCKS PRIVATE LIMITED
775	46945	SILVER EDGE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
776	46947	PALLAVA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
777	46948	SRI VIGNESH COMPUTERS PRIVATE LIMITED
778	46954	CHENNAI SANJEEVI MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
779	46956	CRISS CROSS CLOTHINGS PRIVATE LIMITED
780	46957	PHARMA PLUS (INDIA) PRIVATE LIMITED
781	46958	DIGILOG EMBEDDED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
782	46965	DHANAPRABU TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
783	46966	EXCITE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
784	46973	DEVELOPMENT 2002.COM PRIVATE LIMITED
785	46976	SRI SAI EMBROIDERY AND LABELS PRIVATE LIMITED
786	46981	ONE-DERFUL SHOPPE (INDIA) PRIVATE LIMITED
787	46983	ARCHER SECURITY AGENCY PRIVATE LIMITED
788	46984	ASTRAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
789	46988	VCONNECT INFOTECH PRIVATE LIMITED
790	46996	RICH NET VISION.COM PRIVATE LIMITED
791	47004	A.M.AGRO FOODS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
792	47018	FRONTIER PACIFIC TECHNOLOGIES & SOFTWARE PRIVATE LIMITED
793	47031	RELAX AQUA MINERALS PRIVATE LIMITED
794	47032	LL2B.COM PRIVATE LIMITED
795	47034	OAM MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
796	47035	INFRANET TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
797	47043	SEMINT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
798	47045	ISS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
799	47061	MALYADRI AISWARYA TRADERS PRIVATE LIMITED
800	47066	GAMZEN SOFTWARE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
801	47067	SPOT COMMODITY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
802	47072	ASNS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
803	47080	KRENSER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
804	47093	GLOBAL MINING & TRADING PRIVATE LIMITED
805	47101	OPEL ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
806	47107	MENTEL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
807	47108	ABYSS ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
808	47133	QUICK REACH SINGLELINE.COM PRIVATE LIMITED
809	47135	MARS DECORATORS PRIVATE LIMITED
810	47138	PRESTIGE MULTI FLATS PRIVATE LIMITED
811	47142	SILKWIND EXIM PRIVATE LIMITED
812	47156	VICAMP HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED
813	47157	AL SAFA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
814	47163	SURABHI INFOWAY.COM PRIVATE LIMITED
815	47168	UNITED NANDI EXPORT & IMPORT PRIVATE LIMITED
816	47176	VIVEK INFO SOLUTION PRIVATE LIMITED
817	47177	CYBERCREW IT CONSULTANT PRIVATE LIMITED
818	47185	NAVODAYA HI LIFE PRIVATE LIMITED
819	47187	EXECUTIVE CLUB PRIVATE LIMITED
820	47195	GRAHAPRAVESH PROPERTIES PRIVATE LIMITED
821	47196	K.S. FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
822	47201	INNERVISION INTERIORS PRIVATE LIMITED
823	47202	PONGURU TRADE LINKS PRIVATE LIMITED
824	47212	ITAN POLYFABS PRIVATE LIMITED
825	47227	IKONEDU ONLINE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
826	47235	OPENARC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
827	47240	FOURWAYS MULTIVISION (INDIA) PRIVATE LIMITED
828	47241	G.K.R. TRAVELS INDIA PRIVATE LIMITED
829	47242	LANSEAIR SAFETY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
830	47246	WIDERAYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
831	47251	PROFAIDS CONSULTING PRIVATE LIMITED
832	47261	SKY e ACTION.COM PRIVATE LIMITED
833	47263	JSMAG NETWORK PRIVATE LIMITED
834	47267	BRITE SOUTH CONTRACTING AND TRADING PRIVATE LIMITED
835	47272	SCHENGEN TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
836	47275	SILVERHARVEST MARKETING PRIVATE LIMITED
837	47276	DREAMCAN ONLINE PRIVATE LIMITED
838	47287	SAITO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
839	47294	MSV WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
840	47313	MASON ART BUILDERS PRIVATE LIMITED
841	47314	VAIBAVAKSHMI CHITS PRIVATE LIMITED
842	47322	HOUSE OF STYLE IMPEX PRIVATE LIMITED
843	47323	SARASWATHI SOFTECH PRIVATE LIMITED
844	47325	SYSMAX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
845	47333	ASHAND GAS AGENCY PRIVATE LIMITED
846	47336	ARIVOLI AGENCIES PRIVATE LIMITED
847	47337	BIO ORGANIX LABORATORIES PRIVATE LIMITED
848	47344	KKR FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
849	47346	VIROHA CONSULTING PRIVATE LIMITED
850	47359	MUNAWARA TRADING & CONTRACTING PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
851	47362	SEVENHILLS MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
852	47367	N.M.D.TRAVELS PRIVATE LIMITED
853	47368	ANUKSA.COM.PRIVATE LIMITED
854	47373	VESEN CONSULTING PRIVATE LIMITED
855	47376	FINGEN FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
856	47380	PGV HOLDINGS PRIVATE LIMITED
857	47381	HEVEA IMPEX PRIVATE LIMITED
858	47383	LIAISE INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED
859	47384	MK.MAGNUM TRADELINKS PRIVATE LIMITED
860	47387	DSI INDIA PRIVATE LIMITED
861	47390	HIGHGLORY.NET PRIVATE LIMITED
862	47391	SUNSOFT COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
863	47393	III WAY NET SERVICES PRIVATE LIMITED
864	47394	MOLECULAR BIOSCIENCE PRIVATE LIMITED
865	47407	INTEGRAL AGRI-RESOURCE COMMODITIES PRIVATE LIMITED
866	47411	DIVINE SHIPPING SERVICE PRIVATE LIMITED
867	47414	J.L.INFOTECH PRIVATE LIMITED
868	47417	LEARNPRO SOFTWARE PRIVATE LIMITED
869	47422	EBALWORLD.COM PRIVATE LIMITED
870	47425	SKYLINK EXIMP PRIVATE LIMITED
871	47433	SIMON FASHIONS PRIVATE LIMITED
872	47440	RAGURAM IMPEX PRIVATE LIMITED
873	47442	LEBON IMPEX PRIVATE LIMITED
874	47461	HIMAALAYA CREATIVE VIDEOS PRIVATE LIMITED
875	47473	VISCUBE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
876	47478	KARGUVEL TIMBERS PRIVATE LIMITED
877	47479	TEXMARK MARKETING PRIVATE LIMITED
878	47487	SALNAZ TRAVEL PRIVATE LIMITED
879	47491	R.R.D.CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
880	47501	MIDAS TEXCHEM PRIVATE LIMITED
881	47503	ASA SOFTWARE RESEARCH & RESOURCES PRIVATE LIMITED
882	47514	CLUSTER MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
883	47517	DANE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
884	47529	S.K.N. WORLDNET PRIVATE LIMITED
885	47531	RAYHOPE MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
886	47539	E.A.P.EDIRISINGHE TRADING PRIVATE LIMITED
887	47540	KHEMKA EQUIPMENT SALES PRIVATE LIMITED
888	47551	ACFA FREIGHT LOGISTICS PRIVATE LIMITED
889	47552	TEXTRA VENTURES PRIVATE LIMITED
890	47554	VALLIBEL INDIA PRIVATE LIMITED
891	47566	OCCULT COMPUTERS PRIVATE LIMITED
892	47580	SAIDAPET ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
893	47589	CHENNAI STOCKS & SHARES PRIVATE LIMITED
894	47604	GENTING MEGAH MARKETING PRIVATE LIMITED
895	47608	PLACER MINERALS PRIVATE LIMITED
896	47609	SAIGURU PROPERTIES AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
897	47610	MARSVASS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
898	47615	POWERPLANT CONSULTING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
899	47616	LAURUS SOFT PRIVATE LIMITED
900	47618	ADVANCED DRIVING AND CORPORATE ACADEMY PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
901	47619	SOFTPRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
902	47622	MISTY GARDENS PRIVATE LIMITED
903	47657	HERBO EVERGREEN MARKETERS PRIVATE LIMITED
904	47663	EAST COAST TRADING AGENCY PRIVATE LIMITED
905	47683	SCENTPERSCENT FLOWERS PRIVATE LIMITED
906	47716	ROCKFORT HOSPITAL PRIVATE LIMITED
907	47717	TWIN TITLE EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
908	47724	NETSQUARE.COM PRIVATE LIMITED
909	47733	TO-DAY FURNITURE & INTERIOR DECORATORS PRIVATE LIMITED
910	47735	MAXTRADE BUSINESS CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
911	47736	SMS PROTECTIVE PAINTS INDIA PRIVATE LIMITED
912	47738	DEEP NETWORK PRIVATE LIMITED
913	47743	DR.TEOW'S LINGHZI MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
914	47763	HYDER SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
915	47770	LINGUA FRANCA PRIVATE LIMITED
916	47780	RUNNERS I-TEC. PRIVATE LIMITED
917	47796	LIFT AND LIFT MARKETING PRIVATE LIMITED
918	47801	SHREE VISHWAA RESTAURANT PRIVATE LIMITED
919	47823	SHANTHA BOTANICALS PRIVATE LIMITED
920	47861	INFOWORLD CARDS PRIVATE LIMITED
921	47885	BIO-CUP PAPER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
922	47888	C.C.A. INFOTECH PRIVATE LIMITED
923	47889	AERO TRAVELS INDIA PRIVATE LIMITED
924	47891	SOORIYA NETSOFT (INDIA) PRIVATE LIMITED
925	47893	SAG TRADING PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
926	47894	CORTINA TRADING PRIVATE LIMITED
927	47898	ALLAMANDA CONSULTING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
928	47906	LUXURY TRAVEL ZONE PRIVATE LIMITED
929	47929	LIFEKARE ENSURE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
930	47932	GARG BOOKS PRIVATE LIMITED
931	47936	BRILLIANT NETWORK (INDIA) PRIVATE LIMITED
932	47943	UNIVERSAL INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
933	47948	WAYFOUND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
934	47954	GLORIOUS DESIGNS PRIVATE LIMITED
935	47955	SKYKNIGHT INFO PRIVATE LIMITED
936	47966	HARPS FILMS PRIVATE LIMITED
937	47988	SKS INFOLOGY PRIVATE LIMITED
938	47991	DORMAN LONG EXIM PRIVATE LIMITED
939	47997	SOUTH INTERLINK MARKETING PRIVATE LIMITED
940	48073	STEER EXPORTS AND ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
941	48076	M.S.K.R. FLATS PRIVATE LIMITED
942	48077	PONBAABU CHIT FUND PRIVATE LIMITED
943	48078	SRINAVALADI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
944	48086	B.V. SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
945	48105	SUSHI MARKETING PRIVATE LIMITED
946	48112	BVS SILK WAVES MARKETTING PRIVATE LIMITED
947	48113	E-MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
948	48118	VANSHA FREIGHT LOGISTICS PRIVATE LIMITED
949	48126	ABI INFOSOFTE PRIVATE LIMITED
950	48134	KADEEJA DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
951	48139	EMPIRE LDGISTICS PRIVATE LIMITED
952	48140	ELOOK SOFTWARE PRIVATE LIMITED
953	48143	MICROPAARK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
954	48147	L & R BUILDERS & SUPER PROJECT CONSULTANT PRIVATE LIMITED
955	48161	DATASMAART TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
956	48165	BARNACLE-EDA-CDNSULTING PRIVATE LIMITED
957	48168	SHRI JINNEEYS FILMS PRIVATE LIMITED
958	48170	EVERBRIGHT SECURITY FDRCE PRIVATE LIMITED
959	48171	FUTURE IT CONSULTING PRIVATE LIMITED
960	48178	INTEGRATED ENVIRONMENTAL SERVICES PRIVATE LIMITED
961	48202	SPJN PROJECTS & SYSTEMS PRIVATE LIMITED
962	48212	NICE DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
963	48217	NAGORE OIL BUNK PRIVATE LIMITED
964	48219	HOTEL ADYAR RAJ PRIVATE LIMITED
965	48220	CAUVERY GARNETS PRIVATE LIMITED
966	48251	J.K.B LOGISTICS PRIVATE LIMITED
967	48257	USB MANPDWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
968	48266	DEXICON TEHFOODS PRIVATE LIMITED
969	48269	SURABHISHREE MARKETING PRIVATE LIMITED
970	48281	VICTORY NETWORK PRIVATE LIMITED
971	48285	RESHMA AGENCY'S PRIVATE LIMITED
972	48286	CHENNAI TECHNOPURE COATING SERVICES PRIVATE LIMITED
973	48293	YOGALAKSHMI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
974	48294	RAJARAJAN TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
975	48295	ARS MAGIC FODDS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
976	48299	JAYARAM MARKETING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
977	48310	BLACK GOLD BITUMEN PRIVATE LIMITED
978	48317	MECHANICAL SOLUTION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
979	48323	VIGNESH SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
980	48343	SKYTOUCH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
981	48349	NEWPENTAGON STRUCTURES PRIVATE LIMITED
982	48360	VIKER INFOTECH PRIVATE LIMITED
983	48366	SREE KAMAL CHITS CHENNAI PRIVATE LIMITED
984	48372	TOPLINE INFOTECH PRIVATE LIMITED
985	48374	AMIRTHA MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
986	48386	DEEN TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
987	48388	BALAJI BUSINESS NETWORK PRIVATE LIMITED
988	48406	JJM EXPORT PRIVATE LIMITED
989	48408	WISCOR SOFTWARE PRIVATE LIMITED
990	48414	ABIRAMI FOODS & RESORTS PRIVATE LIMITED
991	48432	GEE GEE BEE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
992	48433	MSM IMPEX PRIVATE LIMITED
993	48438	DREEAM CAST ENTERTAINMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
994	48443	DEVI FOODS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
995	48446	OCEANAPPS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
996	48449	VOYAGER GROUP (INDIA) PRIVATE LIMITED
997	48455	SKILLFUL HANDS RECRUITING SERVICES PRIVATE LIMITED
998	48470	NEIGHBOURHOOD YELLOW PAGES PRIVATE LIMITED
999	48478	SRI NAGAPPA JEWELLERY PRIVATE LIMITED
1000	48487	SAPTHARSHI K CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1001	48495	TITALEE DIGITAL STUDIOS PRIVATE LIMITED
1002	48507	C.R. ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1003	48508	SATYANARAYAN INFOTECH PRIVATE LIMITED
1004	48516	MAHA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
1005	48541	MAYURI MACHINERY PRIVATE LIMITED
1006	48545	K.AYYADURAI SAND MINES PRIVATE LIMITED
1007	48549	WIN SUN 2005 MARKETING PRIVATE LIMITED
1008	48552	SHRISAI NAMBIKKAI CHITS PRIVATE LIMITED
1009	48566	COMMANDO TRADERS PRIVATE LIMITED
1010	48585	MISSION SOFTWARE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1011	48587	N A K MARKETING PRIVATE LIMITED
1012	48591	S.S. KNIGHT SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1013	48634	SURFACE ALLOYS PRIVATE LIMITED
1014	48646	SILVER SHINE SYSTEM PRIVATE LIMITED
1015	48651	USILA SHOES PRIVATE LIMITED
1016	48661	YUVA RESOURCES PRIVATE LIMITED
1017	48671	ANJU PRIME NET APPLICATIONS PRIVATE LIMITED
1018	48673	SKYLIGHT TRAVELS PRIVATE LIMITED
1019	48675	SREE BALAJEE FINE CHEMICALS COMPANY PRIVATE LIMITED
1020	48683	INFOTRONICS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1021	48697	SUCCESS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1022	48707	BAY CEMENT MARKETING PRIVATE LIMITED
1023	48710	SADHANA FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED
1024	48711	KARPAHAM ENGINEERS & BUILDERS PRIVATE LIMITED
1025	48715	TEJSOFT TECH PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1026	48736	ROYAL INDIA MARKETING AND CATERING COMPANY PRIVATE LIMITED
1027	48754	AWAL INDIA IMPEX PRIVATE LIMITED
1028	48757	CHENNAI EXIM PRIVATE LIMITED
1029	48760	NOOTHALSS PLUS CARDS PRIVATE LIMITED
1030	48768	SRI SORNAM CHITS PRIVATE LIMITED
1031	48770	APPAR IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
1032	48771	JOY ESTATES PRIVATE LIMITED
1033	48777	CLASSIC ADHESIVE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1034	48780	AKASH GANGA APPAREL MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1035	48787	COFI PLAST INDIA PRIVATE LIMITED
1036	48790	ADHITHI MANAGEMENT AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1037	48792	ZION INFOTECH PRIVATE LIMITED
1038	48795	MINING SOFT PRIVATE LIMITED
1039	48796	A P N MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
1040	48798	LIFE TELEVISION INDIA PRIVATE LIMITED
1041	48801	CROSSWORLD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1042	48805	N V S AUTOMOBILE SERVICES PRIVATE LIMITED
1043	48806	BOOK MASTER PUBLISHING COMPANY PRIVATE LIMITED
1044	48811	BODY AND SENS FITNESS PRIVATE LIMITED
1045	48812	BARRA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
1046	48818	ROYAL DESIGNER PRIVATE LIMITED
1047	48825	MALLIGAI HOME NEEDS AND SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
1048	48836	PRESAN MEDICARE PRIVATE LIMITED
1049	48837	MCQUE MEDIA MAX PRIVATE LIMITED
1050	48842	UNICOMP SOFTWARE (INIDA) PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1051	48867	ANNAMALAI LAKSHMI MUDALIAR HOSPITAL PRIVATE LIMITED
1052	48869	LAKYA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1053	48877	SAKIS FOOD & KIDS WORLD PRIVATE LIMITED
1054	48879	HIGHLAND SPRINGS FOOD & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
1055	48880	DANAL INDUSTRIAL TOOL PRIVATE LIMITED
1056	48882	RV COURIERS PRIVATE LIMITED
1057	48883	PRIMUS PRECISION MARKETING PRIVATE LIMITED
1058	48888	POWERMINDS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1059	48893	KARNAVATI KITCHENS AND BEDROOM SUITE PRIVATE LIMITED
1060	48897	DUSTARA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1061	48905	DASARI DIGITAL STUDIO PRIVATE LIMITED
1062	48912	MAJJ TRADERS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
1063	48914	PRO-LINE TRADE VENTURE PRIVATE LIMITED
1064	48928	SRI ARUNA RESIN & CEMIKAL PRIVATE LIMITED
1065	48932	CORAMANDEL HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
1066	48935	NETEL COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1067	48983	TELIC.NET INDIA PRIVATE LIMITED
1068	48989	R.S.R.P. SEA FOODS PRIVATE LIMITED
1069	48990	AASSAAN EDUCARE PRIVATE LIMITED
1070	48997	PARVATHI FOODS PRIVATE LIMITED
1071	48999	KAUMAARAM CLOTHINGS PRIVATE LIMITED
1072	49001	LUCKY JEWELS PRIVATE LIMITED
1073	49009	ACCENT SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1074	49011	FIDELITY METACHEM PRIVATE LIMITED
1075	49015	PRERNA PROMOTIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1076	49017	COGITATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1077	49019	YOU-NIQUE INFOWARE PRIVATE LIMITED
1078	49020	SUN STOCKS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
1079	49023	ROXBURGH-DEVARAJ ESTATES PRIVATE LIMITED
1080	49027	TIMMY'SNET SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1081	49031	INNOWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1082	49032	ALTO SOFT PRIVATE LIMITED
1083	49033	CASPIAN WATER (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
1084	49034	TOUCHTEK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1085	49036	PRIME HANGERS PRIVATE LIMITED
1086	49040	NLP EXIM PRIVATE LIMITED
1087	49041	SRI KARTHIKEYAN INFOTECH PRIVATE LIMITED
1088	49047	GOVANNA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
1089	49050	GOODWILL POLYMERS PRIVATE LIMITED
1090	49053	SEMBON ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1091	49054	SUNWAVES SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1092	49056	EDEN AGRICULTURE AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
1093	49058	EMICO SDFT PRIVATE LIMITED
1094	49062	ORIENT GREEN COIR EXPORTS PRIVATE LIMITED
1095	49068	MALLIND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1096	49070	ASIAN MONEY REMITTANCES PRIVATE LIMITED
1097	49072	McCOY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1098	49080	HIMAALAYA FILMS PRIVATE LIMITED
1099	49086	U WIN MARKETING PRIVATE LIMITED
1100	49088	SRI RASI IMPEX PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1101	49091	INDO MALAYSIAN CHAMBER OF COMMERCE
1102	49093	SKYLIMIT MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
1103	49094	CAPMARK ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
1104	49105	SVE POWER PRIVATE LIMITED
1105	49108	RUPKALI EXPORTS PRIVATE LIMITED
1106	49112	RPN SURFACE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1107	49113	DAULATH EXPORT PRIVATE LIMITED
1108	49131	LDG WINDFARMS PRIVATE LIMITED
1109	49134	EVERGREEN HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
1110	49135	BANDI SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1111	49137	JAGA VEERA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1112	49144	PRODIGY MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1113	49147	L.N. BIOMETRIC SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1114	49148	HO-CARE MARKETING PRIVATE LIMITED
1115	49165	S.I.S. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1116	49171	THYRO LABS INDIA PRIVATE LIMITED
1117	49173	T.S. LEATHERS PRIVATE LIMITED
1118	49174	S.G.S. POULTRY FARMS PRIVATE LIMITED
1119	49175	ENRICHER WEALTH MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1120	49190	TRIPLE DOTS IMAGES PRIVATE LIMITED
1121	49198	INDUS VALLEY EDUCATION PRIVATE LIMITED
1122	49203	O NILA AMUSEMENT PARK PRIVATE LIMITED
1123	49206	TEJAS RENEWABLE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1124	49209	AMERICAN WOOD COMPANY PRIVATE LIMITED
1125	49214	TREFOIL MARKETING PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1126	49228	DIGICON INSTRUMENTS AND POWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1127	49233	V.B.M. ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
1128	49237	TEAM TEN SERVICES PRIVATE LIMITED
1129	49240	MEGAASTAR NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
1130	49242	AMETHYST TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1131	49246	FLINT SECURITY FORCE PRIVATE LIMITED
1132	49253	MUTHAMIZH INFOTECH PRIVATE LIMITED
1133	49255	TWENTY FIRST CENTURY BIO-TECH INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
1134	49259	SGDC INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1135	49266	VINAYAK IMPRESSIONS PRIVATE LIMITED
1136	49269	N.N.B. STEELS PRIVATE LIMITED
1137	49270	ALFEE HERBALCURE PRIVATE LIMITED
1138	49272	HOTEL LE-MOUNT PRIVATE LIMITED
1139	49273	UNI-LOGISTICS LINE PRIVATE LIMITED
1140	49278	OVAL PARK AGRO TECH AND FOODS PRIVATE LIMITED
1141	49279	TELE SOUTH COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1142	49280	QUANTUS INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
1143	49285	THILLOTHEMA FARMS PRIVATE LIMITED
1144	49286	ZION REMEDIES PRIVATE LIMITED
1145	49289	FAMILY CARE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1146	49294	E3 DIGITAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1147	49295	SRI MOOKAMBIGA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1148	49301	ADHVIKA IT SERVICES PRIVATE LIMITED
1149	49304	SRI AMMAN AGRO TECH FARM PRIVATE LIMITED
1150	49305	THAS INFO SOLUTION PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1151	49306	MP INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1152	49308	NALIN TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED
1153	49309	VALARR MARKETING PRIVATE LIMITED
1154	49310	MADRAS CAFE (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
1155	49315	BASE4BRAINS INFOTECH PRIVATE LIMITED
1156	49316	W - ONE SECURITIES PRIVATE LIMITED
1157	49318	NAMBIS IMPORTS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
1158	49320	SHABU CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1159	49322	FIDA ENGINEERING & TECHNICAL CONSULTING PRIVATE LIMITED
1160	49324	PRECISE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1161	49325	NAVEEN PAPERX PRIVATE LIMITED
1162	49326	HILTON RESEARCH & TRAINING INSTITUTE
1163	49328	PROMPT LOGISTICS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
1164	49330	CROZIER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1165	49331	J.P. BUILDERS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
1166	49332	SEPP ENGINEERING & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1167	49336	HARESHVAR I.T. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1168	49339	T.T.ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
1169	49345	ALIKAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1170	49359	MURUGAN HI-TECH AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
1171	49365	HARJUN HOME DELIVERS PRIVATE LIMITED
1172	49376	MILLENIUM SPORTS NUTRITION PRIVATE LIMITED
1173	49377	MANGAI OFFICE NEEDS PRIVATE LIMITED
1174	49387	APEX SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
1175	49388	S.G.K. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1176	49400	TERRA FIRMA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1177	49406	ALmix Asphalt Equipment (India) PRIVATE LIMITED
1178	49408	GENESIS EYE CARE PRIVATE LIMITED
1179	49413	INFINITE FLORA PRIVATE LIMITED
1180	49415	CAPITAL IMPRINTS PRIVATE LIMITED
1181	49429	AVIGHNA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1182	49431	JEEVARATHNAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1183	49435	ZULU STAR IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
1184	49439	REFORM AQUA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1185	49441	MENANG TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
1186	49443	MEENAKSHI MEDICAL SERVICES LIMITED
1187	49444	ANGLO SEAS CARGO PRIVATE LIMITED
1188	49449	MOOVENDER VISIONS LIMITED
1189	49457	MAHAJANAM.COM PRIVATE LIMITED
1190	49458	ACHILLES EXPORTS PRIVATE LIMITED
1191	49459	MONARO INDIA SECURITY PRIVATE LIMITED
1192	49466	KENNY BIOMED PRIVATE LIMITED
1193	49467	MAPLE THOUGHTS PRIVATE LIMITED
1194	49471	RAVEE BIOLOGICAL PRIVATE LIMITED
1195	49480	VIRGO AGRO AND ALLIED FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1196	49491	INDUS INFONET PRIVATE LIMITED
1197	49492	CROYDON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1198	49494	GREEN FORCE ECO SERVICES PRIVATE LIMITED
1199	49507	ITTEGRA INFOTEL PRIVATE LIMITED
1200	49509	SHAKTI INSTRUMENTS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1201	49527	BARATHMAS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1202	49528	LOGIC INSIGHTS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1203	49530	SUNSTREAM CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1204	49532	MKDATTA BRIDGEWAY AGROVET PRIVATE LIMITED
1205	49534	ARAM MENPORULAGAM PRIVATE LIMITED
1206	49535	AIRSHINE EXIM PRIVATE LIMITED
1207	49551	MERIT GUEST HOUSE PRIVATE LIMITED
1208	49558	G NEXT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1209	49561	PI SQUARED CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1210	49575	STANDARD ROADS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
1211	49580	OSMIA SOFT PRIVATE LIMITED
1212	49591	WISCOR TRADING PRIVATE LIMITED
1213	49603	RSR ANTIQUE EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
1214	49605	PELITA NASI KANDAR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
1215	49606	V-TEAM MARKETING PRIVATE LIMITED
1216	49610	SHRI AMRITA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1217	49616	SINGAPORE TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
1218	49621	PANAMA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1219	49623	MATHIVANAN PUBLICATIDNS PRIVATE LIMITED
1220	49624	MEENAKSHI EXPORTS (VELLORE) PRIVATE LIMITED
1221	49628	THIRUVANCORE RAJA VAIDYA SALAI PRIVATE LIMITED
1222	49639	JSR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1223	49643	JERICO TRADERS PRIVATE LIMITED
1224	49652	SKTS CONSULTANCY (INDIA) PRIVATE LIMITED
1225	49657	ORANGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1226	49660	MCT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1227	49664	LANCER SECURITY & ALLIED SERVICES (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
1228	49667	V STAR FILMS PRIVATE LIMITED
1229	49669	GREEN AGRO MARKETING PRIVATE LIMITED
1230	49670	RAPIAH RECRUITMENT AGENCY PRIVATE LIMITED
1231	49674	SINGAPORE COURIERS PRIVATE LIMITED
1232	49680	ST.ABRAHAM AGRO PROMOTERS PRIVATE LIMITED
1233	49689	SRI AMMAN SOFTWARES PRIVATE LIMITED
1234	49700	HUA TONG SEAFOOD EXPORTS PRIVATE LIMITED
1235	49701	BB CUSTOMER SUPPORT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1236	49702	KATARI IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
1237	49709	ARNCO INDIA PRIVATE LIMITED
1238	49711	SRIPAL GOLD PRIVATE LIMITED
1239	49712	OSHO FILMS PRIVATE LIMITED
1240	49715	LEXLS EXCAVATORS PRIVATE LIMITED
1241	49717	EDIFICE INFORMATION AND TECHNICAL SERVICES PRIVATE LTD
1242	49723	UDAY RECONDITIONERS PRIVATE LIMITED
1243	49725	COROMANDEL FISHERIES INDIA PRIVATE LIMITED
1244	49726	CAPRA LEATHERS PRIVATE LIMITED
1245	49734	CHENNAI LAANKEMY PRIVATE LIMITED
1246	49745	ELOOK FAIRS PRIVATE LIMITED
1247	49753	KUMAR NETWORK PRIVATE LIMITED
1248	49754	SHUBH INFO PRIVATE LIMITED
1249	49755	CHENNAI NMRI SCANS PRIVATE LIMITED
1250	49756	DB TECHNO HR PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1251	49759	SYSTRAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1252	49770	PATTERN INDIA PRIVATE LIMITED
1253	49771	KAYS INFORMATICS PRIVATE LIMITED
1254	49777	MICRO CARE MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1255	49781	SAM PELLE PRIVATE LIMITED
1256	49791	J.K. EXPO PRIVATE LIMITED
1257	49792	SELTECH SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1258	49797	OMEGA BIO HEALTHCARE MARKETING PRIVATE LIMITED
1259	49813	ARAKKAL POWER COMPANY PRIVATE LIMITED
1260	49821	M G M STONE CRUSHERS PRIVATE LIMITED
1261	49825	S J AUDIO PEOPLE PRIVATE LIMITED
1262	49833	SRI MUPPATHAMMAN MULTIMARKETING PRIVATE LIMITED
1263	49838	BEANSTALK ADVERTISING PRIVATE LIMITED
1264	49839	CS AQUATECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1265	49843	ADEN (INDIA) APPLIANCE PRIVATE LIMITED
1266	49856	RAKOD LABORATORIES PRIVATE LIMITED
1267	49860	BALAJI KNOWLEDGE HOUSE PRIVATE LIMITED
1268	49865	PATIN INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
1269	49869	ESTUARY ISLANDS PRIVATE LIMITED
1270	49872	JANAVI MEDISCRIBES PRIVATE LIMITED
1271	49874	VIGNESH COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1272	49879	SAI KIRANN BUILDERS & PROMOTERS PRIVATE LIMITED
1273	49883	BUSINESS LEADER (INDIA) PRIVATE LIMITED
1274	49885	NINE STAR SHIPPING PRIVATE LIMITED
1275	49888	POLLUX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1276	49897	MENTARI HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
1277	49911	HEPTAGON CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
1278	49914	MYLAI TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
1279	49921	BHAGYA REKHA EXPORTS PRIVATE LIMITED
1280	49931	VNEW SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1281	49933	INFRAEYE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1282	49942	GAMA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
1283	49953	REYHAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1284	49955	RAPIDO SOFTECH PRIVATE LIMITED
1285	49957	SWARNALAKSHMI BIOTECH PRIVATE LIMITED
1286	49963	VSE GOLD HOUSE PRIVATE LIMITED
1287	49970	I-PHONE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1288	49971	NANNDHA TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1289	49978	NIMI MARKETING PRIVATE LIMITED
1290	49985	NITHYA AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
1291	49999	S & K CONCENTRIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1292	50000	RADRASAANO IMPEX PRIVATE LIMITED
1293	50001	PACK VISION PRIVATE LIMITED
1294	50006	J K S COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1295	50019	BLOSSOM HORT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1296	50025	SAI SAKTHI KRUPA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
1297	50027	VISTA POLYPRODUCTS AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1298	50028	FUSE TIME APPAREL MACHINERY PRIVATE LIMITED
1299	50030	SHRI SELVAMBIGAI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1300	50031	JG SUNRISE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1301	50032	TRRIG SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1302	50033	LSNC IMPEX NETWORK PRIVATE LIMITED
1303	50034	AIKIWAY ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
1304	50036	CHENNAI SCANS AND LABS PRIVATE LIMITED
1305	50037	TRANSRIM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1306	50049	RITE GUARDS SECURITY PRIVATE LIMITED
1307	50050	ANTRON EXPRESS PRIVATE LIMITED
1308	50051	VEDHA QUALITY FOODS PRIVATE LIMITED
1309	50052	VINUSHA CONTAINER LINE PRIVATE LIMITED
1310	50053	AGNI CREATORS PRIVATE LIMITED
1311	50054	SALIYA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1312	50056	AMUDHAM DAIRY FARM PRIVATE LIMITED
1313	50060	DOVE & BLOSSOMS VOYAGES PRIVATE LIMITED
1314	50061	PROTELA TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1315	50062	GREEN WHEELS INDIA PRIVATE LIMITED
1316	50064	CMI SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
1317	50065	M C S IMPEX PRIVATE LIMITED
1318	50066	U CAN CONSUMER NETWORK PRIVATE LIMITED
1319	50071	REXYCO TRADING PRIVATE LIMITED
1320	50077	H & R STEEL DETAILING PRIVATE LIMITED
1321	50080	EMERALD APPARELS PRIVATE LIMITED
1322	50090	WU-WEI INTEGRATED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1323	50094	ELDORADO IT ENABLED SERVICES PRIVATE LIMITED
1324	50095	SRI VIJAYA MARUTHI EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
1325	50096	SGS CREDITS PRIVATE LIMITED

S.NO.	COMPANY NO.	NAME OF THE COMPANY
1326	50101	NEEBERN EXPORT PRIVATE LIMITED
1327	50109	CASTOR & POLLUX PRIVATE LIMITED
1328	50114	SRI KAYESAR SPINNERS PRIVATE LIMITED
1329	50118	BALANANDH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1330	50119	MOKYA IMPEX PRIVATE LIMITED
1331	50120	SIL INFORMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1332	50124	KINI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1333	50125	MOLDO EXPORTS PRIVATE LIMITED
1334	50127	CELSIUS CANTEEN & MULTI SERVICE PRIVATE LIMITED

D. SURYA NARAYANA
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Speer Finance and Investments Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-1830/7417—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Speer Finance and Investments Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Goa Marketing and Export Company Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-1757/7420—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goa Marketing and Export Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mother Mining and Traders Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-1930/7422—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mother Mining and Traders Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. New Era Seafoods Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-2038/7425—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Era Seafoods Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Govind Poy Raiturcar Minerals Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-98/7428—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Govind Poy Raiturcar Minerals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kay Diamond Tools Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-1016/7431—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kay Diamond Tools Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Spinon Synthetics Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-754/7434—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Spinon Synthetics Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Cutting Edge Marketing Company Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-2660/7437—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cutting Edge Marketing Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aydee Health Resort Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-2478/7440—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aydee Health Resort Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tajmahal Investment and Trading Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-472/7443—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tajmahal Investment and Trading Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Paramount Distilleries and Winery Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-2635/7446—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paramount Distilleries and Winery Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Exotic Gems Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-2637/7449—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Exotic Gems Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Small Happy Eagle Trading Company Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-2639/7452—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Small Happy Eagle Trading Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiria Industrial and Laboratory Chemicals
Private Limited

Panaji-403 001, the 30th August 2007

No. 24-2653/7454—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shiria Industrial and Laboratory Chemicals Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

PRAKASH KRISHNA GAICHOR
Authorising Officer
Goa, Daman and Diu

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aman Metrographs India Private Limited

Shillong-793 001, the 7th September 2007

No. 61AS003221 of 2007/964—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aman Metrographs India Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

KORADA ANANDA RAO
Authorising Officer
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Copia Investment Holdings Private Limited

Ernakulam-682 021, the 7th September 2007

No. 18051/560—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Copia Investment Holdings Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

AMEERUL MILLATH S M
Authorising Officer
Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Thamam Builders and Constructions Private Limited

Ernakulam-682 021, the 7th September 2007

No. 13254/560—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Thamam Builders and Constructions Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

AMEERUL MILLATH S M
Authorising Officer
Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. IT Tree Technologies Private Limited

Ernakulam-682 021, the 7th September 2007

No. 17017/560—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. IT Tree Technologies Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

AMEERUL MILLATH S M
Authorising Officer
Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sense Kuries Private Limited

Ernakulam-682 021, the 7th September 2007

No. 14400/560—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sense Kuries Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

AMEERUL MILLATH S M
Authorising Officer
Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Easy Care Medical Products Limited

Ernakulam-682 021, the 7th September 2007

No. u/s. 560(3) MCA/ROC-Ernakulam/sec 560/2007/00008—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Easy Care Medical Products Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

AMEERUL MILLATH S M
Authorising Officer
Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. S. J. K. Investments Private Limited

Ernakulam-682 021, the 7th September 2007

No. u/s. 560(3) MCA/ROC-Ernakulam/sec 560/2007/00004—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. S. J. K. Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

AMEERUL MILLATH S M
Authorising Officer
Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
the following companies

Kochi-682 021, the 13th December 2006

No. 560(5)/SM/6582—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	2851	M/s. Swathanthra Bhartham Printing & Publishing Co. Limited
2.	6250	M/s. Yuva Thejus Exports Private Limited
3.	8375	M/s. Time Chits and Credits Private Limited
4.	8559	M/s. Weston Watch Co. Private Limited
5.	8626	M/s. Sansmitha Chemicals & Petro Products Private Limited
6.	8663	M/s. Mainstream India Marine Private Limited
7.	8673	M/s. Emerald Greeneries and Holiday Resorts Private Limited
8.	8703	M/s. The Original Techno Solutions Private Limited
9.	8711	M/s. Unity Goat Farm Private Limited
10.	8795	M/s. Pragriti Plantations Private Limited
11.	8878	M/s. Kuttanad Constructions Private Limited
12.	9001	M/s. Fine Colour Imagers Private Limited
13.	9009	M/s. Poonjolai Plantations (India) Private Limited
14.	9076	M/s. Menoth Exports Private Limited

1	2	3
15.	9087	M/s. Guild of Arts and Ideas Private Limited
16.	9109	M/s. Swarna Mayoora Farms Private Limited
17.	9113	M/s. Werner Kleansor Private Limited
18.	9140	M/s. Palghat Superfine Thread Mills Private Limited
19.	9156	M/s. Technical Analysis and Research Centre Private Limited
20.	9233	M/s. PC Tek Communications Private Limited
21.	9456	M/s. Aqua Agri Tech Private Limited
22.	9480	M/s. DIC Publications Private Limited
23.	9525	M/s. Chowallur Builders Private Limited
24.	9544	M/s. Sprinkle Constructions Private Limited
25.	9547	M/s. Embee Ceecee Private Limited
26.	9665	M/s. Abhaya Marketing Services Private Limited
27.	9692	M/s. Kricen Computers Private Limited
28.	9696	M/s. Film Academy Productions Kerala Private Limited
29.	9943	M/s. Anna Paper Containers Private Limited
30.	9944	M/s. J and P Threads Private Limited
31.	9973	M/s. K. T. T. Scientific Private Limited
32.	9982	M/s. Fyvus Communication Private Limited
33.	10038	M/s. Smack Financing Company Private Limited
34.	10048	M/s. Avanoor Kuries and Loans Private Limited
35.	10075	M/s. Vattakuzhy Chits and Finance Private Limited
36.	10085	M/s. Retina Printers Private Limited
37.	10225	M/s. Malabar Kuries and Loans Private Limited
38.	10289	M/s. Amrutha Kuries and Loans Private Limited
39.	10337	M/s. AWS Group Private Limited
40.	10343	M/s. V. V. S. Builders and Exporters Private Limited
41.	10346	M/s. Greenway Enterprises Private Limited
42.	10428	M/s. Network Enterprises Private Limited

1	2	3
43.	10478	M/s. Pont Le Private Limited
44.	10509	M/s. Caravan's Enterprises Private Limited
45.	10527	M/s. Triton Shipping Private Limited
46.	10544	M/s. Thuruthikattu Plantations Private Limited
47.	10546	M/s. A and A Builders Private Limited
48.	10587	M/s. Dharsanam Chits and Finance Private Limited
49.	10616	M/s. Heritage India Tour Company Private Limited
50.	10633	M/s. Columbus Maritime Private Limited
51.	10671	M/s. Swarajya Transports Private Limited
52.	10688	M/s. Agrow Private Limited
53.	10712	M/s. Thiruvonam Creations Private Limited
54.	10735	M/s. KRJ Hotels Private Limited
55.	10745	M/s. Subramanya Properties and Investments Private Limited
56.	10754	M/s. Brooks Aqua Products Private Limited
57.	10756	M/s. Powertex Cables and Electricals Private Limited
58.	10803	M/s. Chartex Ventures Private Limited
59.	10815	M/s. Scarlet Communications Private Limited
60.	10824	M/s. Anchangadi Chits and Finance Private Limited
61.	10877	M/s. Arathi Kuries Private Limited
62.	10920	M/s. Insaaf Kuries Private Limited
63.	10937	M/s. Flav-R-Pac Foods (India) Private Limited
64.	10940	M/s. Databrain Informatics Private Limited
65.	10948	M/s. RYA Advertising and Marketing Services Private Limited
66.	10960	M/s. Neces Systems Private Limited
67.	10970	M/s. Relief Remedies Private Limited
68.	10994	M/s. Internet Engineering Company Private Limited
69.	11037	M/s. World Channel Private Limited
70.	11061	M/s. Achuthan Kuries and Loans Private Limited
71.	11097	M/s. Parudeesa Beach Resorts Private Limited

1	2	3
72.	11117	M/s. Cargo World Freight Services Private Limited
73.	11134	M/s. Boomika Land Dealers Private Limited
74.	11145	M/s. Puthur Hirepurchase and Investment Leasing Company Private Limited
75.	11171	M/s. Indus Direct Private Limited
76.	11190	M/s. Maple Ventures Private Limited
77.	11198	M/s. Pravatha Real Estate and Kuries Private Limited
78.	11199	M/s. Jyoman Projects Private Limited
79.	11200	M/s. Teamfare Chits and Finance Private Limited
80.	11212	M/s. Vindhya Rubber Products Private Limited
81.	11241	M/s. Environmental and Non-Conventional Energy Research and Consultancy Services Private Limited
82.	11278	M/s. Sea Bird Logistics Private Limited
83.	11284	M/s. Info-Search Marketing Private Limited
84.	11302	M/s. Trivandrum Medical Centre Private Limited
85.	11305	M/s. Sree Arts Private Limited
86.	11352	M/s. Bharathamudra Printing and Publishing Company Private Limited
87.	11369	M/s. God's Own Country Tourism Private Limited
88.	11400	M/s. V. S. & F. Chits and Investments Private Limited
89.	11421	M/s. Cochin Investments and Chits (India) Private Limited
90.	11456	M/s. Vithayathil Chits and Finance Private Limited
91.	11457	M/s. Zodiac Stonecrafts Private Limited
92.	11466	M/s. Malabar Solar Systems Private Limited
93.	11477	M/s. Jyoman Housing Development and Marketing Private Limited
94.	11481	M/s. Exser Industrial Security Force Private Limited
95.	11485	M/s. Goodrich Laboratories Private Limited
96.	11490	M/s. Fourbrite Food Products Private Limited
97.	11512	M/s. SBS Technologies Private Limited

1	2	3
98.	11534	M/s. Defender Finance Private Limited
99.	11543	M/s. J & J Creative Grafix Private Limited
100.	11600	M/s. Integrated Herbal Remedies Private Limited
101.	11624	M/s. Live Link Private Limited
102.	11638	M/s. Queenmary's Chits and Ventures Private Limited
103.	11655	M/s. Peninsular Carriers Private Limited
104.	11676	M/s. Tharakam Chits and Finance Private Limited
105.	11681	M/s. Cyberian Infomercials India Private Limited
106.	11768	M/s. Accurate Marine Equipments and Machine Engineering Works Private Limited
107.	11793	M/s. Mamankam Kuries Private Limited
108.	11802	M/s. Poorva Andrological Research and Infertility Centre Private Limited
109.	11811	M/s. Adplus Communications Private Limited
110.	11925	M/s. Anjana Farms and Plantations Private Limited
111.	11930	M/s. Orion Foods Private Limited
112.	11949	M/s. Zebcon Shipping Private Limited
113.	11961	M/s. Schematic Technocrafts Private Limited
114.	12019	M/s. Kattappana Kuries Private Limited
115.	12093	M/s. Assorted Marketing (India) Private Limited
116.	12126	M/s. Mandot Computers Private Limited
117.	12161	M/s. Smile Care Hospitals Private Limited
118.	12232	M/s. Spot Marketing Private Limited
119.	12256	M/s. Fly-up Systems Private Limited
120.	12272	M/s. Castle Computers and Educations Private Limited
121.	12283	M/s. Malayalam Oils and Exports Private Limited
122.	12313	M/s. Three Star Power Systems Limited
123.	12315	M/s. Nichu Event Builders Private Limited
124.	12342	M/s. Goldstar Wood and Food (India) Private Limited
125.	12349	M/s. Kannambra Kuries Private Limited

1	2	3	1	2	3
126.	12360	M/s. Cosmopolitan Travel Private Limited	154.	13132	M/s. Golden Autogas Private Limited
127.	12362	M/s. Divine Graphics Private Limited	155.	13270	M/s. Newmark Biologicals Private Limited
128.	12395	M/s. U S S Academics Private Limited	156.	13274	M/s. Christia Ventures and Promoters Private Limited
129.	12396	M/s. Prospects Training and Staffing Services Private Limited	157.	13297	M/s. Eurus Tech Components Private Limited
130.	12404	M/s. Sree Shyle Holiday Resorts Private Limited	158.	13302	M/s. P. Y. Mohammed Aslam Contractors Private Limited
131.	12422	M/s. Palmyra Holidays and Travels Private Limited	159.	13325	M/s. Popular Oxides Private Limited
132.	12518	M/s. Remy Information Systems Private Limited	160.	13335	M/s. Arya Cosmetics Private Limited
133.	12529	M/s. Inam India Marketing Company Private Limited	161.	13353	M/s. L. R. V. Kuries Private Limited
134.	12547	M/s. Mythri Printing and Publishing Company Private Limited	162.	13359	M/s. Sark Lamex Spices and Exports Private Limited
135.	12584	M/s. Thacheth Distilleries Private Limited	163.	13362	M/s. Whitebird Trade Links Private Limited
136.	12632	M/s. Treetop Hotel and Resort Private Limited	164.	13369	M/s. Sauda Infotech Private Limited
137.	12634	M/s. Sankarapadam Visual Combines Private Limited	165.	13379	M/s. Mediscript Technologies Private Limited
138.	12674	M/s. Emperor Exports Private Limited	166.	13383	M/s. Florida Infotech Private Limited
139.	12694	M/s. T K M Consultancy India Private Limited	167.	13431	M/s. Estate Explores Private Limited
140.	12734	M/s. Zelcare Chits Private Limited	168.	13457	M/s. Freight Express Logistics (International) Private Limited
141.	12910	M/s. JSV Extractions Private Limited	169.	13489	M/s. Soroban Primus Office Technologies Private Limited
142.	12911	M/s. Calvary Pharmaceuticals Private Limited	170.	13495	M/s. South India Produce Company Private Limited
143.	12960	M/s. Gusi Exports Private Limited	171.	13496	M/s. Total Freight Private Limited
144.	13005	M/s. Saradhy and Associate Fibre Empire India Private Limited	172.	13522	M/s. Information Technology Solutions Thellirathu India Private Limited
145.	13025	M/s. Chachees Hotels Private Limited	173.	13538	M/s. Traven Core Leisures Private Limited
146.	13036	M/s. Signal Communications and Marketing Private Limited	174.	13539	M/s. Guard De Nord Softech Private Limited
147.	13041	M/s. Skotak Fabchem Private Limited	175.	13541	M/s. Cochin Truck and Trailor Carriers Private Limited
148.	13071	M/s. SRH Medical Systems Private Limited	176.	13549	M/s. Wings Advertising Network Private Limited
149.	13074	M/s. High Range Barrels Private Limited	177.	13569	M/s. Aksharapriya Publications Private Limited
150.	13085	M/s. Trusted Transport Company Private Limited	178.	13574	M/s. Aswini Ayurvedic Herbal Concentrates Private Limited
151.	13093	M/s. Ospro Info Tech Private Limited	179.	13575	M/s. Sun Beam Agencies Private Limited
152.	13103	M/s. Net World Computers Private Limited	180.	13593	M/s. Intranet Securities Private Limited
153.	13120	M/s. Elanjickal Furniture Traders Private Limited	181.	13602	M/s. Glider's Travels Private Limited

1	2	3
182.	13616	M/s. Banyan Information Technology Services Private Limited
183.	13619	M/s. Kuttombur Coconut Processing Company Private Limited
184.	13633	M/s. Indomass Trades N Trans Private Limited
185.	13641	M/s. Bright Residency Private Limited
186.	13670	M/s. Kizhakkepallickal Srambi Exports and Imports Private Limited
187.	13686	M/s. Indradhanush Management Services Private Limited
188.	13709	M/s. Codacal Tile Factory Private Limited
189.	13722	M/s. Readwell Publishing India Private Limited
190.	13733	M/s. Cochin Communications Private Limited
191.	13764	M/s. Al-Gayathri Global Infosolutions Private Limited
192.	14060	M/s. Hospes Marketing Private Limited
193.	14422	M/s. MC Anzee Net Services Limited
194.	14974	M/s. SAP Technologies Private Limited
195.	15110	M/s. Cyberspace Software Services Private Limited

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of Companies Act, 1956 and of
the following companies

Kochi, the 6th September 2007

No. 560(3)/SM/ROC-Ekm/10660/2007—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	4801	M/s. Flexon Automotive Products Private Limited
2.	4802	M/s. Modern Mahi Chem Private Limited
3.	4803	M/s. Veljay Real Estates Company Private Limited

1	2	3
4.	4804	M/s. M G M Chit Fund Private Limited
5.	4816	M/s. Patriot Kerala Private Limited
6.	4818	M/s. Eurotile Private Limited
7.	4821	M/s. Comintrex Sales Private Limited
8.	4822	M/s. Sree Ramakrishna Clay Products Private Limited
9.	4830	M/s. Penquin Commercial and Marketing Co. Private Limited
10.	4831	M/s. Vichintanam Printing and Publishing Co. Private Limited
11.	4835	M/s. Issac Filtcool Engineers Private Limited
12.	4836	M/s. Vijaipur Carpets Private Limited
13.	4839	M/s. Santa Fe Fruits and Foods Private Limited
14.	4844	M/s. Kerala Public Assistance Co Private Limited
15.	4849	M/s. Richi Rubber Industries Private Limited
16.	4852	M/s. Travencore Plastics and Foils Private Limited
17.	4853	M/s. Pandari Video Private Limited
18.	4855	M/s. Angels Deep Sea Fishing and Marines Private Limited
19.	4863	M/s. Parkem Agrico Promoters and Consultants Private Limited
20.	4871	M/s. Adam Sugars Private Limited
21.	4916	M/s. Matson Laminates Private Limited
22.	4925	M/s. D. V. Deo Aromatics Private Limited
23.	4927	M/s. G A M Plastic Industries Private Limited
24.	4938	M/s. Periyar Breweries and Distilleries Private Limited
25.	4942	M/s. Rainbow Rubber Industries Private Limited
26.	4943	M/s. Travancore Aqua Culture Private Limited
27.	4946	M/s. Veems Engineers Private Limited
28.	4951	M/s. Jalasree Marine Industries Private Limited
29.	4954	M/s. Unifab Latest Technologies Private Limited
30.	4955	M/s. Ornamental Palace Manufacturers and Exporters Private Limited

1	2	3
31.	4962	M/s. Claritronics Systems and Services India Private Limited
32.	4998	M/s. Alsu Venus Business Consultants Private Limited
33.	5008	M/s. Snow Queen Marine Industries Private Limited
34.	5014	M/s. Pampa Pharmaceuticals and Chemicals Private Limited
35.	5019	M/s. Samaritan Marketing Private Limited
36.	5034	M/s. P. J. M. Macro Processors India Private Limited
37.	5043	M/s. Eramath Chitty Funds Private Limited
38.	5051	M/s. Paripavanam Kuries Private Limited
39.	5052	M/s. Sahyadri Farms Private Limited
40.	5056	M/s. Vayalar Cine Enterprises Limited
41.	5074	M/s. Bits India Exports Private Limited
42.	5077	M/s. Dravidia Beverages Private Limited
43.	13507	M/s. Backer Glass Limited

K. SREEKUMAR
Asst. Registrar of Companies
Kerala

In the matter of Companies Act, 1956 and of
the following companies

Kochi, the 13th September 2007

No. 560(5)/1038/2006—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	4332	M/s. Vijotech (P) Limited
2.	8492	M/s. Orbit Links Exelectronics (P) Limited
3.	10853	M/s. Cotcap Finance Limited
4.	8782	M/s. Decora Switches (P) Limited
5.	8884	M/s. Malabar Alloys (P) Limited
6.	13043	M/s. Platoon Entertainment (P) Limited
7.	7156	M/s. Kodaganallur Plantations (P) Limited
8.	7919	M/s. Technopark Developments Limited

1	2	3
9.	8284	M/s. Vennali Finance 7 Hire Purchasing (P) Limited
10.	5341	M/s. Pushpanjali Plywood Company (P) Limited
11.	5338	M/s. City Apartments (P) Limited
12.	8805	M/s. Sukapuram Finance Park (P) Limited
13.	8530	M/s. St. Mary's Chitties (P) Limited

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of Companies Act, 1956 and of
the following companies

Hyderabad, the 30th August 2007

No. RAP/SES-2005/560(3) August, 2007—Notice is hereby given that the following companies have applied to this office for striking off their names under SES-2005 (Simplified Exit Scheme) dated 28.01.2005 of Government of India, Ministry of Corporate Affairs. Notice is hereby given that after the expiry of 90 days from the date here of, unless cause is shown to the contrary, will be struck off as a defunct companies from the Register of this office and they will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	01-19025	M/s. Dhariwal Marketing India Limited
2.	01-15473	M/s. Nagavali Plantations Private Limited
3.	01-18028	M/s. Pittie Lubricants Private Limited
4.	01-10701	M/s. Maruthi Ferro Alloys Limited
5.	01-17113	M/s. R. K. Polysacks Private Limited
6.	01-16353	M/s. Sai Lakshmi Estates Private Limited
7.	01-10074	M/s. Indupuru Venkata Rao Agencies Private Limited
8.	01-32470	M/s. Tangada Metals Private Limited
9.	01-32233	M/s. Suwa Suppliments Private Limited
10.	01-19601	M/s. Sravya Tours and Travels Private Limited
11.	01-15677	M/s. Kapil Chemicals Private Limited
12.	01-20062	M/s. Swathi Fibres Limited
13.	01-22113	M/s. Riverine Biotech Limited
14.	01-22552	M/s. Access Medical Systems Private Limited
15.	01-20049	M/s. Ashwini Fibres Limited
16.	01-28352	M/s. Tarakanthi Chits Private Limited

1	2	3
17.	01-28496	M/s. Tryst Engineering & Fabricators Private Limited
18.	01-23332	M/s. Batco Carriers Limited
19.	01-4137	M/s. Jaya Poly Alloys Private Limited
20.	01-7639	M/s. Kolin Deo Stores Private Limited
21.	01-41825	M/s. Winshine Multitrade Private Limited
22.	01-40133	M/s. Reliable Monolithicks Private Limited
23.	01-6305	M/s. Karanth Machine Tools Private Limited
24.	01-30796	M/s. M M K Power Private Limited
25.	01-4819	M/s. Telenews Private Limited
26.	01-4690	M/s. Pushpa Paper Boards Private Limited
27.	01-4232	M/s. LJK Management Consultants Private Limited
28.	01-4692	M/s. Haridas Plastics Private Limited
29.	01-38747	M/s. Valiveti Properties Private Limited
30.	01-33711	M/s. Rank Medica Private Limited
31.	01-12091	M/s. AD Expressions Marketing Private Limited
32.	01-1017	M/s. Sri Giriraj Enterprise Private Limited
33.	01-17518	M/s. Transminds Infotech Limited
34.	01-17596	M/s. Smart Financial & Investment Services Private Limited
35.	01-14396	M/s. Praneet Exim Private Limited
36.	01-10021	M/s. Das Progressive Systems Private Limited
37.	01-34309	M/s. Insys Integrated Systems Private Limited
38.	01-30385	M/s. Avon Bio-tech Private Limited
39.	01-31285	M/s. Trans Seeds Private Limited
40.	01-39326	M/s. Sreematha Telecom Systems Private Limited
41.	01-15425	M/s. Joy Star Insulations Private Limited
42.	01-22047	M/s. Goodearth Labs Private Limited
43.	01-33742	M/s. Telugu Talkies.Com Private Limited
44.	01-30325	M/s. Shigol Exports Private Limited
45.	01-31967	M/s. Samaikya Infotech Private Limited
46.	01-34936	M/s. e.Biotech Limited
47.	01-35050	M/s. Net Stat Software Solutions Private Limited

1	2	3
48.	01-32202	M/s. Cosine Energy Systems Private Limited
49.	01-28370	M/s. Sri Srinivasa Theatres Private Limited
50.	01-30568	M/s. Dr. J. V. Rao Publications Private Limited
51.	01-10006	M/s. Sri Lakshmi Ganapathi Constructions Private Limited
52.	01-23844	M/s. Sai Sekhar Transports Private Limited
53.	01-23953	M/s. Parimala Agencies Private Limited
54.	01-23952	M/s. Kamareddy Marketing Private Limited
55.	01-28870	M/s. OSC Agrigerm Products Private Limited
56.	01-15553	M/s. Indcom Systems Private Limited
57.	01-15213	M/s. WEIS Technics Private Limited
58.	01-38125	M/s. Mahayogi Lakshamma Power Private Limited
59.	01-15449	M/s. Kapila Finance and Investment Private Limited
60.	01-20743	M/s. ICON Securities Limited
61.	01-21553	M/s. CC Net India Private Limited
62.	01-32949	M/s. KCK Enterprises Private Limited
63.	01-16489	M/s. Premier Management Consultants Private Limited
64.	01-32498	M/s. SRJ Medisoft Private Limited
65.	01-35331	M/s. Hanuman Ginning Private Limited
66.	01-20405	M/s. Super Supply Agencies Private Limited
67.	01-26611	M/s. SIBYL. Sun Technologies Limited
68.	01-36350	M/s. Uttam Animedia Limited
69.	01-8214	M/s. KM Electronics Private Limited
70.	01-27686	M/s. Deccan Recreations Limited
71.	01-37935	M/s. Dataformix IT Solutions Private Limited
72.	01-21097	M/s. Silver Oak Arcade Private Limited
73.	01-20859	M/s. Srinivasa Fibre Enterprises Private Limited
74.	01-35230	M/s. Taxila Software Private Limited
75.	01-20516	M/s. India Primestock School of Management Limited
76.	01-35831	M/s. Sindhu Power Systems Private Limited
77.	01-35095	M/s. Autofin Import & Export Private Limited

1	2	3
78.	01-10602	M/s. Asian Mineral Industries Limited
79.	01-13944	M/s. N.C.S. Laboratories Private Limited
80.	01-11015	M/s. N.C.S. Molasses Private Limited
81.	01-38714	M/s. Universal Sugar Exchange Limited
82.	01-16156	M/s. Simhagiri Estates Private Limited
83.	01-15911	M/s. Sri Lakshmi Paramathma Finance and Investments Private Limited
84.	01-16917	M/s. Noor Engineering Consultancy Services Private Limited
85.	01-36087	M/s. Dataformix Technologies Private Limited
86.	01-36739	M/s. VSM Genting Islands & Entertainment Limited
87.	01-38223	M/s. Traditional Pharma Limited
88.	01-38114	M/s. Malman Marketing Services Private Limited
89.	01-20702	M/s. Sri Sesha Sai Lakshmi Srinivasa Finance Private Limited
90.	01-20111	M/s. Telangana Oil Tech Private Limited
91.	01-31136	M/s. Annamayya Resorts Private Limited
92.	01-29971	M/s. Srividya Telesoft Services Private Limited
93.	01-29797	M/s. Vijay Internet Services Private Limited
94.	01-38229	M/s. Andhra Jyoti Entertainment and Media Private Limited
95.	01-35104	M/s. Andhra Jyothi Dot Com Private Limited
96.	01-22690	M/s. Vijay Balaji Exim Private Limited
97.	01-23330	M/s. Springland Educational Academy Limited
98.	01-8779	M/s. Sri Vasavi Chit Funds Private Limited
99.	01-41304	M/s. Arcees Enterprise Private Limited
100.	01-15204	M/s. Berkshire Investments Private Limited

Any person interested having objection to the proposed striking off of the above mentioned companies may lodge his/their objections in writing within 90 days from the date of this notice with sufficient documentary proof to the undersigned, failing which the names of the above companies will be struck off as aforesaid without any further notice.

HENRY RICHARD
Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Bangalore, the 10th September 2007

No. SUO-MOTO/560(3)/KM/2007-08—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiry of three months from the date hereof, the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register maintained by this office and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	22027	M/s. Amlas Vacation Club (India) Private Limited
2.	22064	M/s. Gerab Oil Field Supplies Private Limited
3.	22083	M/s. Emerald Developers Private Limited
4.	22085	M/s. Imperial Holidays Private Limited
5.	22106	M/s. Intuitive Technologies Private Limited
6.	22109	M/s. Flow Line Automation Private Limited
7.	22116	M/s. Navodaya Health and Finvest Services Private Limited
8.	22155	M/s. Chemind Equipments Private Limited
9.	22174	M/s. Mysore Vasthushilpa Builders Private Limited
10.	22175	M/s. Rishi Valley Farms and Resorts Private Limited
11.	22197	M/s. Ojasi Softwares Private Limited
12.	22208	M/s. Sterling Agro Farms and Estates Private Limited
13.	22221	M/s. Annapoorneswari Developers Private Limited
14.	22228	M/s. Dynamic Estate Developers Private Limited
15.	22236	M/s. Tawakkal Crushing Company Private Limited
16.	22238	M/s. V.G.L. Engineering and Co. Private Limited
17.	22254	M/s. Basaveshwar Polythene Bags Private Limited
18.	22257	M/s. Manjunath Poultry Farms Private Limited
19.	22265	M/s. Bennet Exports and Travels Private Limited
20.	22282	M/s. Daffodil Agritech Private Limited
21.	22283	M/s. Buds Agritech Private Limited

1	2	3	1	2	3
22.	22284	M/s. Floris Meadows and Farms Private Limited	50.	22833	M/s. Cauvery Parcel Services Private Limited
23.	22318	M/s. Bangalore Infotech Systems Private Limited	51.	22839	M/s. Sunova Agro Private Limited
24.	22361	M/s. Kanishka Coffee Company Private Limited	52.	22851	M/s. Anusha Computers and Software Developments Private Limited
25.	22412	M/s. Olimpia Luxury Resorts Venture Private Limited	53.	22867	M/s. Plus System and Infinite Information Private Limited
26.	22418	M/s. Kanal Marketing Private Limited	54.	22880	M/s. Balaji Granites Private Limited
27.	22431	M/s. Meadows Infotech Private Limited	55.	22890	M/s. Vis Medicatrix Naturae Formulations Private Limited
28.	22433	M/s. Padmavathi Paradise Developers Private Limited	56.	22893	M/s. Syssoft Solutions Private Limited
29.	22456	M/s. Sai Kiran Productions Private Limited	57.	22899	M/s. Sri Veereswara Ginning and Pressing Factory Private Limited
30.	22470	M/s. Bronco Andcruise Trav-Aides Private Limited	58.	22901	M/s. Survesha Roadways Private Limited
31.	22481	M/s. Arya Resort and Farm Private Limited	59.	22922	M/s. Infortec Software Private Limited
32.	22483	M/s. Sudha Silk Private Limited	60.	22933	M/s. Ugowe Exports Private Limited
33.	22524	M/s. S.S. Machineries Marketing Private Limited	61.	22967	M/s. Srini Consultants Private Limited
34.	22556	M/s. Roz-En Pharmaceuticals Private Limited	62.	22992	M/s. Om Sai Florotech (I) Private Limited
35.	22589	M/s. Nisarga Investments Private Limited	63.	23047	M/s. Vishwadeep Media Services Private Limited
36.	22633	M/s. S.V. Water Parks and Cottages Private Limited	64.	23050	M/s. Hayamukha Plants and Extracts Private Limited
37.	22641	M/s. Roofscape Plastics Private Limited	65.	23053	M/s. Four Dimension Tours and Travels Private Limited
38.	22669	M/s. Vent Axia Consumer Appliances Private Limited	66.	23064	M/s. Ace Expositions Private Limited
39.	22681	M/s. Nitya Hardware Manufacturing and Software Private Limited	67.	23066	M/s. Roopashree Florotech Private Limited
40.	22690	M/s. Funin Adventure Tours Private Limited	68.	23068	M/s. Focus Business Services Private Limited
41.	22694	M/s. Hilti Micro Information Systems and Technology Private Limited	69.	23077	M/s. Index Stocks and Shares Private Limited
42.	22699	M/s. Surya Prabha Agro Products Private Limited	70.	23094	M/s. Portsbridge Exports and Imports Private Limited
43.	22703	M/s. Ecotel Systems (India) Private Limited	71.	23107	M/s. Supernova Services Private Limited
44.	22753	M/s. Telmaco Electric Private Limited	72.	23108	M/s. GEC Power Company of Kudremukh India Private Limited
45.	22766	M/s. Sun Solvex Private Limited	73.	23132	M/s. Aparajitha Entelpower Private Limited
46.	22785	M/s. Finecast Alloys Private Limited	74.	23150	M/s. Koren Molen Engineering Private Limited
47.	22805	M/s. Manages Security Services Private Limited	75.	23157	M/s. Seetharam Extractions Private Limited
48.	22812	M/s. Sriguru Raghavendra Industries Private Limited	76.	23173	M/s. Emmar Communications and Electronic Services Private Limited
49.	22816	M/s. Surya Advtech India Private Limited	77.	23185	M/s. S.B.R. Rice Products Private Limited
			78.	23199	M/s. Menon Takeover Communications Private Limited
			79.	23216	M/s. RKH Right Care Private Limited

1	2	3
80.	23220	M/s. Cyberstar Projects Private Limited
81.	23227	M/s. Sankranti Agro Seeds Private Limited
82.	23247	M/s. Sankalp Comforts and Homes India Private Limited
83.	23265	M/s. Sarvare Kaunain Tours and Travels Private Limited
84.	23293	M/s. Sinius Interiors Private Limited
85.	23356	M/s. Green Meadows Home Resorts Private Limited
86.	23357	M/s. Pragathi Corrugated Boxes Private Limited
87.	23379	M/s. Chia Hotels Private Limited
88.	23404	M/s. Hawk Air Private Limited
89.	23406	M/s. Sapthagiri Holidays Resorts Private Limited
90.	23420	M/s. Ponni Express Lines Private Limited
91.	23424	M/s. Greenglory Impcex (India) Private Limited
92.	23427	M/s. S R S Metals Private Limited
93.	23433	M/s. Grafx Spectrum Private Limited
94.	23446	M/s. Frontline Communications and Constructions (India) Private Limited
95.	23448	M/s. Zap Multimedia Productions Private Limited
96.	23451	M/s. Ranssasean Impex Private Limited
97.	23453	M/s. S. Ankireddy Constructions Private Limited
98.	23465	M/s. Promatic Electronics Private Limited
99.	23492	M/s. Orbit Ring Travellers Private Limited
100.	23534	M/s. Aruna Jyothi Impex Private Limited
101.	23538	M/s. Viba Technologies Private Limited
102.	23542	M/s. Kohler Lakshmi Power Services Private Limited
103.	23585	M/s. Prameela Agro Farms Private Limited
104.	23635	M/s. Leisurely Vacations Private Limited
105.	23640	M/s. Padma Pet Bottles International Private Limited
106.	23648	M/s. TCF Commercial Agro Products Private Limited
107.	23657	M/s. Vijayalakshmi Recovery Agents Private Limited
108.	23670	M/s. Celox Batteries Private Limited
109.	23684	M/s. Vishal Hospital Private Limited

1	2	3
110.	23685	M/s. Devatha Packaging Private Limited
111.	23686	M/s. Achar Paints India Private Limited
112.	23692	M/s. Konkan Kostal Lines Private Limited
113.	23696	M/s. Winsom Constech Private Limited
114.	23711	M/s. R. H. Agrotech Private Limited

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Simtech Engineering Private Limited

Bangalore-560 034, the 12th September 2007

No. TA/SVK/560(3)/7833/2007—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Simtech Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of the Registrar of Companies and said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Bangalore, the 12th September 2007

No. ROCB/SES-2005/560(3)—Notice is hereby given pursuant to sub section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that on expiry of three months from the date hereof, the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register maintained by this office and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	8157	M/s. Springfield Exports Private Limited
2.	6732	M/s. RL Chemicals Private Limited
3.	10388	M/s. Iyer's Technologies Private Limited
4.	7146	M/s. JTV Metal Finishers Private Limited
5.	10382	M/s. Bash Grills Private Limited
6.	10948	M/s. Swachchanda Construction Private Limited
7.	10221	M/s. Southern Micro Lynx Private Limited

1	2	3
8.	7826	M/s. Pallavi Food Products & Beverages Private Limited
9.	8801	M/s. Saighar Equipments Private Limited
10.	8759	M/s. Chinna Nachi Muthu Rock Drills Private Limited
11.	4613	M/s. Subago Pac Private Limited
12.	7565	M/s. VL Finance & Investments Private Limited
13.	4592	M/s. Gas & Electrical Appliances Industries Private Limited
14.	9646	M/s. Ferlon Rubber & Synthetics Private Limited
15.	10471	M/s. Tridevi Chits Private Limited
16.	3601	M/s. C S Consultants Private Limited
17.	8767	M/s. Anthraper Builders Private Limited
18.	10950	M/s. Candor Watch Cases Private Limited
19.	3637	M/s. Johnsons Maritime & Mercantile Company Private Limited
20.	3396	M/s. M S Consultants Private Limited
21.	3311	M/s. Annapurna Paper Mills Limited
22.	8092	M/s. Surya Tiles Limited
23.	10242	M/s. Peninsula Skyways Private Limited

1	2	3
24.	4206	M/s. Ganesha Finishing Equipments Private Limited
25.	11503	M/s. Vora Textiles Private Limited

V.C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Bangalore, the 12th September 2007

No. ROCB/STA/560(5)/2007—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said companies are from this day shall stand dissolved on publication of this notice :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	4898	M/s. Univertex Machinery Company Private Limited
2.	25072	M/s. QSS Spares and Services Private Limited
3.	30664	M/s. Lounge Arts Marketing Private Limited

V.C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka